

जैन - आगम - ग्रन्थमाला

ग्रन्थाङ्क ९

भाग १

जैन-आगम-ग्रन्थमाला : ग्रन्थाङ्क ९ (भाग १)

सिरिसामज्जवायगविरइयं

प ण्णा व णा सु त्तं

मूलग्रन्थात्मकः प्रथमो भागः

सम्पादकाः

पुण्यविजयो मुनिः

[जिनागमरहस्यवेदिजैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिवर(प्रसिद्धनाम-आत्मारामजीमहाराज)-
शिष्यरत्न-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारकप्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीआत्मानन्द-
जैनग्रन्थमालासम्पादकानां मुनिप्रवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः]

पण्डित दलसुख मालवणिया

पण्डित अमृतलाल मोहनलाल भोजक

इत्येतौ च



श्री महावीर जैन विद्यालय

वम्बई-२६

जैन-आगम-ग्रन्थमाला

प्रधान सम्पादक

मुनिराज श्री पुण्यविजयजी

पण्डित दलसुख मालवणिया

प्रथम संस्करण :

वीर सं. २४९५/विक्र. सं. १९२५/ई. स. १९६९

मूल्य ३० रूपया

प्रकाशक :

चंदुलाल वर्धमान शाह

जयन्तीलाल रतनचंद शाह

वालचन्द गांडालाल दोशी

मानद मंत्रीशो

श्री महावीर जैन विद्यालय

गोवालिया टॉक रोड, बम्बई २६

मुद्रक :

वि. पु. भागवत

मीन प्रिंटिंग व्यूरो

खटाववाडी, बम्बई ४

Jaina-Āgama-Series No. 9 (Part 1)


PANNAVANĀSUTTAM

Editors

MUNI PUNYAVIJAYA

Pt. DALSUKH MĀLVANĪĀ

Pt. AMRITLĀL MOHANLĀL BHOJAK



SHRI MAHĀVĪRA JAINA VIDYĀLAYA

BOMBAY-26

Jaina-Agama-Series
General Editors
MUNIRAJ SHRI PUNYAVIJAYAJI
Pt. DALSUKH MALVANIA

First Published : 1969

© 1969, by the Publishers

Price : Rs. 30.00

Printed in India
By V. P. Bhagwat
Mouj Printing Bureau
Khatau Wadi, Bombay 4

Published by
Chandulal Vardhman Shah
Jayantilal Ratanchand Shah
Balchand Gandalar Doshi
Hon. Secretaries
Shri Mahavira Jaina Vidyalaya
Gowalia Tank Road, Bombay 26

गंथसमप्पणं

जीवाइविविहविण्णाणदेसया गहिरभावयपयत्था ।

जेहिं परूविया, तह वक्खाया जेहि विण्णूहिं ॥ १ ॥

अणुवकयपरोवकयाण ताण सामञ्जथेरपमुहाणं ।

पण्णवणोवंगमिणं पुज्जाणं तह महेसीणं ॥ २ ॥

वरए पुण्णपवित्ते करजुयकमलम्मि विणयणइजुत्ता ।

मुणिपुण्णविजय-दलसुखभाई-अमया समप्पेमो ॥ ३ ॥ विसेसयं ॥

तुम्ह पसाया लद्धं वत्थुं तुम्हाण अप्पयंताणं ।

अम्हाण बालचरियं खमंतु पुज्जा खमासमणा ! ॥ ४ ॥

ગ્રંથ સમર્પણ

જીવાજીવાદિ સંબંધી વિવિધ વિજ્ઞાનને દર્શાવનારા અને ગંભીર ભાવોનું પ્રદાન કરનારા પદાર્થોની જમણે પ્રરૂપણા કરી છે, તથા જે વિજ્ઞ પુરુષોએ તે ગંભીર પદાર્થોની વ્યાખ્યા કરી છે, તે અમ અનુપકારી ઉપર ઉપકાર કરનારા શ્રીશ્યામાર્થ પ્રમુખ સ્થવિર પૂજ્ય અને મહર્ષિ ભગવંતોના પુણ્યશાળી, પવિત્ર અને વરદ કરકમળમાં અમે—મુનિ પુણ્યવિજય, દલસુખ માલવણિયા અને અમૃતલાલ ભોજક—પ્રજ્ઞાપના નામનું આ ઉપાંગસૂત્ર ભેટ ધરીએ છીએ. આપના જે કૃપાપ્રસાદથી મેળવેલી—સંશોધિત કરેલી વસ્તુ આપને સમર્પિત કરવાની અમારી બાલકીડાને આપ ક્ષમાશ્રમણ ભગવંતો ક્ષમા કરશો.

પ્રકાશકીય નિવેદન

જૈનધર્મના પાયારૂપ બધાં પવિત્ર મૂળ આગમસૂત્રોની સંશોધિત-સંપાદિત (critical) આવૃત્તિઓ પ્રકાશિત કરવાની યોજનાને મૂર્તરૂપ આપવાની જવાબદારી, પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના આશીર્વાદ તથા તેઓશ્રીના તેમ જ પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાના સક્રિય સહકારથી, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે સ્વીકારી છે, એ સુવિદિત છે.

આ યોજના પ્રમાણે વિદ્યાલયે શરૂ કરેલ “જૈન-આગમ-ગ્રંથમાલા”ના પ્રથમ ગ્રંથ “નંદિસુત્તં અણુઓમહારાઈ ચ”નો પ્રકાશન વિધિ વિદ્યાલયના સુવર્ણ મહોત્સવની ઉજવણી પ્રસંગે, અમદાવાદમાં તા. ૨૬-૨-૧૯૬૮ના રોજ, પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજીના પવિત્ર સાનિધ્યમાં, જૈન સંઘના મુખ્ય અગ્રણી શેઠ શ્રી કરતુરભાઈ લાલભાઈના શુભ હસ્તે થયો હતો.

આજના અતિ આનંદજનક અને મંગલમય પ્રસંગે આ ગ્રંથમાળાના બીજા ગ્રંથનો પ્રકાશન-વિધિ થઈ રહ્યો છે, તે આપણુ સહુને માટે ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે. આજનો પ્રસંગ છે, સંસ્થાની આગમ પ્રકાશન યોજનાના પ્રણેતા અને પ્રાણ પૂજ્ય આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્ય-વિજયજી મહારાજના દીક્ષાપર્યાયની પશ્ચિમૂર્તિનો વડોદરા શ્રીસંઘે યોજેલ ધર્મમહોત્સવ. આવા પવિત્ર અને પ્રેરક પ્રસંગે વિદ્યાલયની આગમ પ્રકાશન યોજનાના નવમા ગ્રંથ “વળવળાસુત્તં”ના પહેલા ભાગનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે, તે સુવર્ણમાં સૌરભ મલ્યા જેવો સુંદર અને યાદગાર જોગાનુજોગ છે. આ પ્રસંગે અમારું અંતર જે આહ્લાદ અનુભવે છે, તે અવર્ણનીય છે.

આગમ પ્રકાશનની યોજના પ્રમાણે પણ્યવણાસુત્તને નવમો ગ્રંથાંક આપવામાં આવેલ છે અને એ ગ્રંથ બે ભાગમાં પ્રકાશિત કરવાનો છે : પહેલા ભાગમાં સમગ્ર મૂળ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર, જરૂરી સંપાદકીય નિવેદન સાથે, પ્રગટ કરવાનું છે, જેનું પ્રકાશન આજે થઈ રહ્યું છે. આના બીજા ભાગમાં, આ ગ્રંથમાળાના પ્રથમ ગ્રંથની જેમ, સૂત્રમાં આવતા બધાય શબ્દોની, તે તે શબ્દના સંસ્કૃત રૂપાંતર સાથેની, સૂચી; ગ્રંથ, ગ્રંથકાર અને ગ્રંથના વિષયનું તેમ જ ગ્રંથમાંથી ઉપલબ્ધ થતી સાંસ્કૃતિક સામગ્રીનું વિશદ નિરૂપણ કરતી સુવિસ્તૃત પ્રસ્તાવના તથા એનું અંગ્રેજી ભાષાંતર; સંપાદકોનું વિશેષ વક્તવ્ય, એના અંગ્રેજી ભાષાંતર સાથે; તેમ જ જુદા જુદા વિશિષ્ટ વિષયોની માહિતી આપતાં પરિશિષ્ટો વગેરે સામગ્રી આપવામાં આવશે. ગ્રંથની પ્રસ્તાવનાનો પ્રાથમિક ખરડો કેનેડામાં-ટોરોન્ટોમાં પં. શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા તૈયાર કરી રહ્યા છે. અને એનું કેટલુંક લખાણુ એમણે આપણને મોકલી પણ આપ્યું છે.

આગમ પ્રકાશન યોજનાની રૂપરેખાની સવિસ્તર માહિતી આ ગ્રંથમાળાના પહેલા ગ્રંથના અમારા નિવેદનમાં આપવામાં આવી છે, એટલે એનું અહીં પુનર્નુદાણ કરવાની જરૂર નથી. આ યોજના પ્રમાણે ૧૭ ગ્રંથોમાં આપણા બધા - પિસ્તાલિસે મૂળ આગમો પ્રગટ કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું છે; કયો આગમગ્રંથ કયા અંકના ગ્રંથ તરીકે પ્રગટ થશે તે પણ ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

આભાર

આ યોજના આ રીતે મૂર્તરૂપ લઈ શકી છે અને આજે આ ગ્રંથરતનનું પ્રકાશન થઈ શક્યું છે, તે પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ અને પંડિત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાની અસાધારણ જહેમત અને તેઓની વિદ્યાલય પ્રત્યેની અસીમ મમતાને કારણે. તેઓ પ્રત્યે અમે આ પ્રસંગે અમારી આભારની ઊંડી લાગણી દર્શાવીએ છીએ.

છેલ્લાં ચારેક વર્ષથી આપણે આગમોના અભ્યાસી પંડિત શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ ભોજકની સેવાઓ પ્રાકૃત ટેક્ટ સોસાયટી પાસેથી ઉછીની લીધી, ત્યારથી આપણા આગમ પ્રકાશનના કાર્યને વિશેષ વેગ મળ્યો છે, એમાં શંકા નથી. સંસ્થાના આગમ પ્રકાશન કાર્યમાં આવો સહકાર આપવા બદલ અમે પંડિત શ્રી અમૃતભાઈ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની ઊંડી લાગણી દર્શાવીએ છીએ. તેમ જ પ્રાકૃત ટેક્ટ સોસાયટી તથા આ વિભાગમાં કામ કરતા પંડિત શ્રી શાસ્ત્રી હરિશંકર અંબારામ પંડ્યા પ્રત્યે પણ અમે કૃતજ્ઞતા દર્શાવીએ છીએ.

આ ગ્રંથમાળાનો પ્રથમ ગ્રંથ પ્રકાશિત થયા પછી અત્યાર સુધીમાં આ કાર્યને માટે અમને નીચે મુજબ સહાયતા મળી છે, તે સર્વ દાતાઓના અમે આભારી છીએ :

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ લોહારચાલ જૈન સંઘ : ૩૦ ૨,૫૦૦]

પરચૂરણ રકમો : ૩૦ ૫૨૭. ૬૪

ખૂબ ધીરજ અને ખંતપૂર્વક આ ગ્રંથમાળાના સુધક અને સ્વચ્છ મુદ્રણકાર્ય માટે મૌલ પ્રિન્ટિંગ બ્યુરોના સંચાલકોનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

આગમ પ્રકાશનના કાર્ય અંગે જરૂરી સલાહ-સૂચના આપવા બદલ, અમે આગમ પ્રકાશન સમિતિના નીચેના સભ્યોના આભારી છીએ.

- | | |
|---|------------------------------------|
| ૧. ડૉ. જયંતિલાલ સુરચંદ બદામી | ૫. શ્રી પ્રવીણચંદ્ર હેમચંદ કાપડિયા |
| ૨. શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયા | ૬. શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ |
| ૩. શ્રી રતીલાલ ચીમનલાલ કોઠારી | ૭. શ્રી જયંતિલાલ રતનચંદ શાહ |
| ૪. શ્રી સેવંતીલાલ ચીમનલાલ શાહ | ૮. શ્રી બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી |
| ૯. શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ (સહમંત્રી, આગમ પ્રકાશન વિભાગ) | |

વડોદરા શ્રી સંઘનો વિશેષ આભાર

આ ગ્રંથના પ્રકાશનના આજના અવસરે, ૭ વર્ષ પહેલાં (વિ. સં. ૨૦૧૮ના કારતક સુદિ ૫ અને તે પછીના દિવસોએ) કપડવંજના શ્રીસંઘે પરમપૂજ્ય આગમપ્રભાકર મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના ૬૮ મા જન્મદિન નિમિત્તે યોજેલ ધર્મમહોત્સવનું સહેજે સ્મરણ થઈ આવે છે. એ પ્રસંગે કપડવંજના શ્રીસંઘે પૂજ્ય મહારાજશ્રી પ્રત્યેની ભક્તિ નિમિત્તે, પૂજ્ય મહારાજશ્રી ઇચ્છે તે કાર્ય માટે, પંદર હજાર રૂપિયા અર્પણ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ એ જ વખતે એ રકમ આગમ પ્રકાશન યોજનાના પહેલા ગ્રંથ માટે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સોંપી દેવામાં આવે, એવી કપડવંજ શ્રીસંઘને લલામણ કરી હતી.

આજનો પ્રસંગ પણ કંઈક એવો જ છે. વડોદરા શ્રીસંઘની આગ્રહભરી વિનંતિને સ્વીકારીને પૂજ્ય પુણ્યવિજયજી મહારાજ ગયું (વિ. સં. ૨૦૨૪નું) ચતુર્માસ વડોદરામાં રહ્યા. પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું ચતુર્માસ વીસ વર્ષ બાદ વડોદરામાં થતું હોવાથી શ્રીસંઘમાં ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ પ્રવર્તતો હતો. પૂજ્ય વયોવૃદ્ધ પંચાસજી મહારાજ શ્રી નેમવિજયજી, પૂજ્ય પંચાસજી મહારાજ શ્રી ચંદનવિજયજી તથા પૂજ્ય મુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સાથે વડોદરામાં ચતુર્માસ રહેલા પૂજ્ય પંચાસજી મહારાજ શ્રી રમણીકવિજયજી તથા પૂજ્ય મુનિવર્ય શ્રી ચંદ્રોદયવિજયજીએ આ ઉત્સાહને કંઈક રચનાત્મક રૂપ આપીને આ ચતુર્માસને ચિરસ્મરણીય બનાવવાનું વિચાર્યું. પૂજ્ય પુણ્યવિજયજી મહારાજને ચાલુ વર્ષના (વિ. સં. ૨૦૨૫ના) માહ મહિનામાં દીક્ષા લીધાં સાઠ વર્ષ પૂરાં થતાં હતાં. એ પ્રસંગે અનુલક્ષીને તેઓએ પત્રવણાસૂત્રના પ્રકાશનમાં સહાયરૂપે પોતાની ફૂલપાંદડી અર્પણ કરવાની વડોદરાના શ્રીસંઘને પ્રેરણા આપી.

શ્રીસંઘે ખૂબ ઉમંગપૂર્વક એ પ્રેરણાને વધાવી લીધી, અને પૂજ્ય આગમપ્રભાકર શ્રી પુણ્ય-વિજયજી મહારાજના દીક્ષાપર્યાયના ષષ્ટિપૂર્તિ સમારોહ પ્રસંગે, પત્રવણાસૂત્રના પ્રકાશનમાં સહાયરૂપે, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને અર્પણ કરવા માટે ૩૦ ૩૩,૦૦૭ જેવો સારો ક્ષણો એકત્ર કર્યો. આ ક્ષણોની સવિસ્તર યાદી અમારા આ નિવેદનને અંતે આપવામાં આવી છે.

પૂજ્યપાદ પુણ્યવિજયજી મહારાજ પ્રત્યે આવી નિર્વ્યાજ ભક્તિ અને વિદ્યાલયના આગમ પ્રકાશનના કાર્ય પ્રત્યે આવી મમતા દર્શાવવા બદલ અમે વડોદરા શ્રીસંઘનો સવિશેષ આભાર માનીએ છીએ.

આ કાર્ય માટે પ્રેરણા આપવા બદલ અમે પૂજ્ય પંચાસજી શ્રી રમણીકવિજયજીનો અને પૂજ્ય મુનિ શ્રી ચંદ્રોદયવિજયજીનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અને આ માટે જહુમત ઉઠાવનાર તેમ જ ક્ષણો આપનાર વડોદરા શ્રીસંઘના અગ્રણીઓ તેમજ નાનાં-મોટાં સૌ કાર્યકરો અને ભાઈઓ-બહેનો પ્રત્યે અમારી કૃતજ્ઞતાની લાગણી દર્શાવીએ છીએ.

અંતમાં

ભલે કંઈક ધીમી ગતિએ પણ વિદ્યાલયે હાથ ધરેલ આગમ પ્રકાશનનું કાર્ય આ રીતે ક્રમે ક્રમે આગળ વધી રહ્યું છે, તેનો અમને સવિશેષ આનંદ છે. અમે તો એ ધન્ય દિવસ જોવાના મનોરથો સેવીએ છીએ કે જ્યારે આ ગ્રંથમાળાનો અંતિમ ગ્રંથ પ્રકાશિત થાય, અને આ આખી યોજના, આપણી ધારણા મુજબ, સાંગોપાંગ પરિપૂર્ણ થાય. એ માટે પરમાત્મા આપણને સૌને અને સમસ્ત શ્રીસંઘને ભુલ્લિ, શક્તિ અને ભાવનાની રત્નત્રયીનું પ્રદાન કરે એવી અંતરની પ્રાર્થના સાથે અમે આ નિવેદન પૂરું કરીએ છીએ.

લિં સેવકો

ગોવાલિયા ટેક રોડ
મુંબઈ ૨૬
માહ વદિ ૭, રવિવાર
તાં ૯-૨-૧૯૬૯

ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ
જયંતિલાલ રતનચંદ શાહ
બાલચંદ ગાંડાલાલ દોશી
માનદ મંત્રીઓ

પૂજ્યપાદ આગમપ્રભાકર સુનિવર્ય શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના
દીક્ષાપર્યાયની ષષ્ટિપૂર્તિની ઉજવણી પ્રસંગે વડોદરા શ્રીસંઘમાં થયેલ

શ્રી આગમ પ્રકાશન ફંડ

- ૩૦
- ૨૦૦૨૦૦૦ પૂજ્ય આગમ શ્રી પત્રવણાસૂત્ર
રથમાં લઈ ખેસવાની બોલીના-
શ્રી કેશરીમલજી હીરાચંદજી
સંઘવી
- ૧૨૧૨૦૦૦ શ્રી કેસરીમલજી હીરાચંદજી
સંઘવી
- ૧૧૨૧૦૦૦ શ્રી ચંદુલાલ પુરુષોત્તમદાસ
ઝવેરી
- ૧૧૧૧૦૦૦ શ્રી શુકનરાજજી હીરાચંદજી
સંઘવી
- ૧૧૧૧૦૦૦ શ્રી ભીખમચંદજી ફોજમલજી
- ૧૧૧૧૦૦૦ શ્રી રંગીલદાસ છગનલાલ
- ૧૧૧૧૦૦૦ શ્રી શાં રતીલાલ સુનીલાલ
સરાવાળા
- ૬૫૧૦૦૦ શ્રી ભચુભાઈ નગીનભાઈ ઝવેરી
- ૫૫૫૦૦૦ શ્રી છગનલાલ દેવચંદ
(વર્ધમાન ટી-૩૨૫૦)
- ૫૪૫૦૦૦ શ્રી પિસ્તાલીસ આગમના
તપસ્વીઓ
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી છગનલાલ લક્ષ્મીચંદ
વડુવાળા
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી ડાન્ટિકાલ કેશવલાલ
ખંભાતી
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી જૈન મહિલા સમાજ
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી હસમુખચહેન મોતીચંદ
ઝવેરી
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી મણીભાઈ બાપુભાઈ વૈદ્ય
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી રમણલાલ મોહનલાલ વૈદ્ય
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી જૈન મહિલા ઉપાશ્રય
(મનીશેરી)નાં બહેનો
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી ભવાનીદાસ કહાનદાસ
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી ભાઈચંદ ત્રિલોચનદાસ પટવા
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી પ્રતાપમલજી વઝતાજી

- ૩૦
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી અમથાભાઈ નાનાલાલ ગાંધી
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી લીલાચંદ વાડીલાલ
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી આદિત્યહેન મથુરદાસ
સુજપરવાળા
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી શાન્તિલાલ નરોત્તમદાસ
ગંભીરાવાળા
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી ભોગીલાલ પ્રભુદાસ
વડતાલવાળા
- ૫૦૧૦૦૦ શ્રી સોમચંદ મોહનલાલ
- ૩૦૧૦૦૦ શ્રી વિદ્યાચહેન ભુવનકુમાર
બાપુલાલ
- ૩૦૧૦૦૦ શ્રી રતનચહેન જયંતીલાલ
સુનીલાલ
- ૩૦૧૦૦૦ શ્રી મણિલાલ દલપતભાઈ
- ૩૦૧૦૦૦ શ્રી નાથાલાલ કાળીદાસ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી જયંતીલાલ નગીનદાસ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી શાંતિલાલ છોટાલાલ
પાદરાવાળા
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી રમણિકલાલ અમૃતલાલ
કોધરી
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી બાપુભાઈ મૂળજીભાઈ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી નેમચંદ ખેચરદાસ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી કુલચંદ વનમાળીદાસ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી જમનાદાસ છોટાલાલ
દૂધવાળા
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી જવાનમલજી હંસરાજજી :
પ્રકાશ અગ્નિત કંઠ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી ચંદુલાલ ખોડીદાસ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી કેશવલાલ ગુલાખચંદ
ગોત્રીવાળા
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી શરદકુમાર મણિલાલ
- ૨૫૧૦૦૦ શ્રી કાર્થીચહેન મંગળદાસ
વડુવાળા

૩૦

- ૨૫૧.૦૦ શ્રી રવચંદ આશારામ
ગંભીરાવાળા
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી ખુશાલચંદ તેમચંદ
લીમડીવાળા
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી વાડીલાલ મગનલાલ વૈદ્ય
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી સુભદ્રાબહેન પનાલાલ
પરીખ
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી ચંદુલાલ દુશવલાલ સરૈયા
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી રૈવાબહેન નાથાલાલ
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી શાંતિલાલ ન્હાલચંદ ગાંધી
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી મણિભાઈ બાપુભાઈ શાહ
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી મગનલાલ ડાહ્યાભાઈ
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી પનાલાલ ચંદ્રકાન્ત
પાલેજવાળા
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી ચંપકલાલ રૂપચંદ ભારતર
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી જમનાદાસ જોષાભાઈ
છાણ્ડીવાળા
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી બાબરભાઈ બેચરદાસ
- ૨૫૧.૦૦ શ્રી મૂળચંદ લક્ષ્મીચંદ
પાલેજવાળા

૩૦

- ૨૫૦.૦૦ શ્રી મણિલાલ બાપુભાઈ
અનાજવાળા
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી સાકરલાલ માણેકલાલ
ગંભીરાવાળા
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી મૂળજીભાઈ પુરસોતમદાસ
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી ચંદ્રાવતીબહેન પનાલાલ
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી સોમચંદ ખોડીદાસ શાહ
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી હીરાચંદ રાયચંદ
ભાસરરોડવાળા
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી સોમચંદ નાથાભાઈ કંસારા
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી પ્રકાશચંદ્ર મનહરલાલ વૈદ્ય
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી રુખીબહેન પુંજલાલ
વડુવાળા
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી લીલાવતીબહેન વસંતલાલ
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી કાંતિલાલ લાલચંદ શાહ
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી ભૂપેન્દ્રકુમાર નાગકુમાર
મકાતી
- ૨૦૧.૦૦ શ્રી યાકુતપુરા શ્રી જૈન તપાગરજી
મહિલા ઉપાશ્રય
- ૪૧૭૩.૦૦ બસોથી નીચેની રકમના

૩૩,૦૦૦.૦૦ ફુલ રકમ

ग्रन्थानुक्रम

	पृष्ठांश
प्रकाशकीय निवेदन	६
ग्रन्थानुक्रम	१४
संपादकीय	१५
Editors' Note	21
सङ्केतसूचिः	२६
प्रज्ञापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः	२७-५१
पणवणासुत्तं	१-४४६
सुद्धिपत्तयं	४४७-४५०

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥

सं पा ढ डी य

प्रतिपरिचय

प्रस्तुत प्रज्ञापनासूत्रना संशोधनकार्यमां कुल नव प्रतिઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ નવ પ્રતિઓમાં લં० જે० અને ઘ० સંસ્કૃત પ્રતિઓ તાડપત્રીય પ્રતિઓ છે, મ० અથવા વી०, પ્ર० પુ૧ પુ૨ અને પુ૩—આ પાંચ પ્રતિઓ કાગળ ઉપર લખાયેલી છે, અને મુ० સંસ્કૃત આદર્શ મુદ્રિત છે. પ્રસ્તુત પ્રતિઓનો પરિચય આ પ્રમાણે છે.

લં० પ્રતિ—શ્રી શાન્તિનાથજી તાડપત્રીય જૈન જ્ઞાનભંડાર, ખંભાતની તાડપત્રીય પ્રતિ છે. પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર-વડોદરાથી પ્રકાશિત થયેલી આ ભંડારની સૂચિમાં આ પ્રતિનો ક્રમાંક ૧૭ છે. પત્રસંખ્યા ૧૬૧ છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૩૨.૨×૨.૫ ઇંચપ્રમાણ છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ સુંદર છે. અંતમાં લેખકની પ્રશસ્તિ-પુષ્પિકા આદિ કંઈ લખ્યું નથી, છતાં પ્રતિની લિપિના આધારે અનુમાનથી કહી શકાય કે આ પ્રતિ વિક્રમના ૧૪મા શતકના અંતમાં લખાયેલી હોવી જોઈએ.

જે० પ્રતિ—જેસલમેરના કિલ્લામાં રહેલા ખરતરગચ્છીય યુગપ્રધાન આચાર્ય શ્રી જિનભદ્રસૂરિ જ્ઞાનભંડારની આ તાડપત્રીય પ્રતિ છે. સૂચિમાં આ પ્રતિનો ક્રમાંક ૨૭ છે. પત્ર સંખ્યા ૧૭૦ છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ શ્રેષ્ઠ છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૩૨.૩×૨.૩ ઇંચપ્રમાણ છે. વિક્રમસંવત ૧૩૮૯માં આ પ્રતિ લખાઈ છે. સંવતના નિર્દેશ સિવાય અંતમાં લેખકની પ્રશસ્તિ-પુષ્પિકા આદિ કંઈ નથી.

ઘ० પ્રતિ—આ પ્રતિ પણ જેસલમેરના કિલ્લામાં રહેલા ઉપર જણાવેલા ભંડારની જ તાડપત્રીય પ્રતિ છે. સૂચિમાં આ પ્રતિનો ક્રમાંક ૨૯ છે. આમાં પત્ર ૧ થી ૩૩૩ માં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર મૂલ છે અને ૩૩૪ થી ૩૫૦ પત્રમાં આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ વિરચિત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રપ્રદેશવ્યાખ્યા છે. પ્રતિની સ્થિતિ સારી અને લિપિ સુંદર છે. પત્ર ૭, ૧૧, ૧૫, ૧૯, ૫૬, ૨૪૭ થી ૨૪૯, ૨૫૩, ૨૫૪, ૨૬૧ થી ૨૬૩ અને ૨૯૧ મું એમ કુલ ૧૪ પત્ર અપ્રાપ્ય છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૩૨.૩×૨.૩ ઇંચપ્રમાણ છે. અંતમાં આ પ્રમાણે પુષ્પિકા છે :

સંવત્ ૧૪૮૯ વર્ષે માર્ગ સુદિ ૧૦ સોમે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રપ્રદેશવ્યાખ્યા લિખાપિતા સા. વલિરાજેન ॥ ૮ ॥ શ્રીમત્ખરતરગચ્છે શ્રીજિનભદ્રસૂરીશ્વરાણાં માંડાગારે ॥

પ્રસ્તુત જ્ઞાનભંડારમાં પરીખ ધરણાશાહ અને સા. બલિરાજ-ઉદ્યરાને લખાવેલા ગ્રંથોનું પ્રમાણ વધારે છે. આ પ્રતિ પરીખ ધરણાશાહે લખાવેલી હશે એવા અસ્પષ્ટ ખ્યાલથી અમોએ આની ઘ० સંજ્ઞા આપી છે, પણ આ પ્રતિ બલિરાજે લખાવેલી છે તે જો પ્રારંભમાં યાદ આપ્યું હોત, તો તેની અમો ઘ० સંજ્ઞા આપત.

મ० અથવા વી० પ્રતિ—શ્રી મહિમાભક્તિ જૈન જ્ઞાનભંડાર, ખીકાનેરની આ પ્રતિ વિક્રમના ૧૭મા શતકમાં લખાયેલી છે. આ પ્રતિની મ० સંજ્ઞાના બદલે એકાદ સ્થળે વી० પણ અપાઈ ગઈ છે.

પ્ર૦ પ્રતિ—શ્રી આત્મારામજી જૈન જ્ઞાનમંદિર, વડોદરામાં રહેલા વિવિધ ભંડારો પૈકીના પ્રવર્તક શ્રીમત્ કાંતિવિજયજી શાસ્ત્રસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૧૧૬૪ છે. સંક્ષેપમાં અર્થ જાણવા-જાણાવવાના હેતુથી આ પ્રતિના પ્રત્યેક પત્રના માર્ગનમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આચાર્ય શ્રી મલયગિરિસુરિચિત ટીકાને ટૂંકાવીને લખવામાં આવી છે. પ્રતિની પત્રસંખ્યા ૨૧૫ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠમાં ૧૩ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ઓછામાં ઓછા ૪૨ અને વધુમાં વધુ ૪૭ અક્ષરો છે. કોઈ અભ્યાસી વિદ્વાને શોધેલી પ્રતિ છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ સુંદર છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૯ $\frac{૩}{૪}$ × ૪ $\frac{૩}{૪}$ ઇંચ પ્રમાણ છે. મૂલપાઠના અંતમાં લેખકની પુષ્પિકા આદિ કંઈ લખ્યું નથી. પણ મૂલપાઠની સાથે જ લખાયેલ ઉપર જણાવેલ ટીકાસંક્ષેપના અંતમાં આ પ્રમાણે પુષ્પિકા છે :

શ્રીમલયગિરિવિરચિતા ટીકા કિંચિત્ સંક્ષિપ્ય લિખિતા । વા । નરચંદ્રેણ । શ્રીઃ ॥ સંવત્ ૧૭૭૬ ફાલ્ગુન વદિ ૧૨ ।

પુ૧ પ્રતિ—શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર, અમદાવાદમાં રહેલા અનેક હસ્તલિખિત ભંડારો પૈકીના મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના ગ્રંથસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૬૬૯૫ છે. કોઈ વાચકે આ પ્રતિને પ્રત્યંતર સાથે મેળવીને પાકો ઉમેરેલા છે તથા કવચિત્ ટિપ્પણી પણ લખેલી છે. આની પત્રસંખ્યા ૨૦૦ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠમાં ૧૩ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ૫૦ અક્ષરો છે; જવલ્લે જ કોઈ પંક્તિમાં ૪૫ અને ૪૭ અક્ષરો છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ શ્રેષ્ઠ છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૦ $\frac{૩}{૪}$ × ૪ $\frac{૩}{૪}$ ઇંચ પ્રમાણ છે. અંતમાં લેખકની પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે :

સંવત્ ૧૬૧૧ વર્ષે જેષ્ટ(જ્યેષ્ઠ) શુદ્ધિ ૭ સોમે । અચ્ચેહ શ્રીપત્તનવાસ્તવ્યઃ શ્રીશ્રીમાલજ્ઞાતીય । સુગંધીકુલં(કું)વે । સુગંધી નાથા સુત શ્રેષ્ઠિ(ષ્ઠિ) હાંસા માર્યા સુશ્રાવિકા હાંસલદે । પુત્ર ૪ શ્ર(શ્રે૦) હરિચંદ । સે૦ સીવા૦ । સે૦ મેઘા૦ । સે૦ સિઘૂ । સમસ્તકુટું(કું)વ્યુતૈઃ સે૦ સીવાકેન । શ્રીપૂર્ણિમાપક્ષે પ્રધાનશાલાયાં । મ૦ શ્રીસુવનપ્રમસૂરિ તત્પદ્મે મ૦ શ્રીશ્રીકમલપ્રમસૂરિ તત્પદ્મે મ૦ શ્રી ૫ પુણ્યપ્રમસૂરીશ્વરાણાં ઉપદેસેન । શ્રીપન્નવળાણપાંગસૂત્ર લિષા(લા)પ્ય સ્વગુરુમ્યઃ પ્રદત્તં । વાચ્યમાનં ચિરં જીયાત્ । મદ્રં ભવતુ ॥ શ્રીરસ્તુ ॥ શુભં મૂયાત્ ॥ છ ॥

પુ૨ પ્રતિ—આ પ્રતિ પણ ઉપર જણાવેલા મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહની છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૬૭૦૯ છે. કોઈ અંતીલા અભ્યાસી વિદ્વાને આ પ્રતિ શોધી છે અને કવચિત્ ટિપ્પણી પણ લખી છે. આની પત્રસંખ્યા ૩૪૬ છે. ૨૧૨મા પત્રનો અંક ખેવડાનો છે તેથી કુલ પત્રસંખ્યા ૩૪૭ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠમાં ૧૧ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ઓછામાં ઓછા ૩૨ અને વધુમાં વધુ ૩૮ અક્ષરો છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ સુંદર છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૦.૪ × ૪.૨ ઇંચ પ્રમાણ છે. અંતમાં લેખકની પ્રશસ્તિ-પુષ્પિકા આદિ નથી. લિપિ અને આકાર-પ્રકારથી કહી શકાય કે આ પ્રતિ વિક્રમના ૧૭મા શતકમાં લખાયેલી હોવી જોઈએ.

પુ૩ પ્રતિ—આ પ્રતિ પણ ઉપર જણાવેલા મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહની છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૭૨૫૦ છે. આની પત્રસંખ્યા ૧૪૬ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠમાં ૧૫ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ઓછામાં ઓછા ૫૨ અને વધુમાં વધુ ૫૮ અક્ષરો છે. સ્થિતિ સારી અને લિપી અતિ સુંદર છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૨ × ૪ $\frac{૩}{૪}$ ઇંચ પ્રમાણ છે. અંતમાં લેખકની પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે.

યાદશં પુસ્તકે દૃષ્ટં । તાદૃશં લિપિ(લિ)તં મયા । યદિ શુદ્ધમશુદ્ધં વા । મમ દોષો ન દીયતે ॥ ૧ ॥
મમપુષ્ટિ(પૃષ્ટિ)કટિગ્રીવા(વં) । બદ્ધદૃષ્ટિરધોમુલ્લં । કષ્ટેન લિપિ(લિ)તં શાસ્ત્રં । યત્નેન પરિપાલ્યેત ॥ ૨ ॥
તૈલરાપ્ય (તૈલાદ્ રક્ષેત) જલં(જલાદ્) રક્ષે[ત્] । રખ્યે(રક્ષેત્) શ્રય(શિથિ)લ્લંઘનં(નાત્) । યસ્ય
કસ્ય ન દાતવ્યં(વ્યા) । एवं વદતિ પુસ્તિકા ॥ ૩ ॥ યાવત્(દ્) લ્વળસમુદ્રૌ(દ્રો) । તા(યા)વત્(દ્)
નક્ષત્રમંડિતો મેરુઃ[] । યાવત્(દ્) માસ્કરચંદ્રૌ તાવદયં પુસ્તકો જયતુ ॥ ૪ ॥ સંવત્ ૧૫૬૫ સંવત્સર(રે)
પ્રવર્તમાને દક્ષ(ક્ષિ)ણાયને શરદન્વતૌ માદ્રપદમાસે કૃષ્ણપક્ષે ચતુથ્યાર્યો(થ્યૌ) તિથૌ રવિવાસરે શ્રીઅણ-
હિલ્લપુરપત્તને લિપા(લા)પિતં ॥ છ ॥ શ્રી ॥ છ ॥ શુભં ભવતુ ॥ કલ્યાણં ભૂયાત્ ॥ છ ॥ શ્રીઃ ॥
શ્રી શ્રીમાલજ્ઞાતીય શ્રેષ્ઠિ(ષ્ટિ) સહિજા માર્યા અદક્ સુતેન શ્રેષ્ઠિ(ષ્ટિ) હરષા(લા)ભિધેન પ્રજ્ઞાપનોપાંગસૂત્રં
લિપા(લા)પ્ય સ્વપુણ્યાર્થે પરોપકારાય ચ શ્રીપૂર્ણિમાપક્ષે પ્રધાનશાપા(લા)યાં શ્રીભુવનપ્રમસૂરોણાં પ્રદક્તં
ચિરં નંદાત્ ॥ છ ॥ શ્રીઃ શુભં ભવતુ ॥ શ્રીસંવત્સ્ય ॥ લેલકપાઠકયોઃ ચિરં જીવ ॥

મુઠ પ્રતિ—આ પ્રતિ આગમોદ્ધારક શ્રી સાગરાનંદસૂરિવર સંપાદિત આચાર્ય શ્રી મહાયગિરિ-
કૃતટીકાયુક્ત છે. આ આવૃત્તિ વિઠ સંઠ ૧૯૭૪-૭૫ માં આગમોદ્ય સમિતિ (સુરત) દ્વારા પ્રકાશિત
થયેલી છે.

આજ પર્થેત અમોઞ્યે જ્ઞેયેલા પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારોમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની સૌથી પ્રાચીન જે જે
પ્રતિઓ અમે જ્ઞેઈ છે, તે અહીં ઉપયોગમાં લીધેલી જેઠ અને જ્ઞંઠ પ્રતિઓ છે.

*

પ્રસ્તુત સંપાદન-સંશોધન અંગે

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના આ પ્રથમ ભાગમાં સમગ્ર સૂત્રપાઠ આવી જાય છે. અને મૂળસૂત્રપાઠ
ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવેલાં પરિશિષ્ટો ખીજા ભાગમાં આપવાનાં છે, તેથી પરિશિષ્ટોનો પરિચય
પણ ખીજા ભાગના સંપાદકીયમાં આપીશું.

અમારી આગમ સંશોધન વિધેની પદ્ધતિ અમારા તરફથી સંપાદિત થયેલા અને શ્રી મહાવીર
જ્ઞેન વિદ્યાલય, મુંબઈ તરફથી પ્રકાશિત થયેલા નંદિસુત્તં અણુઓગદ્વારાઈં ચ ગ્રંથના સંપાદકીયના
૧૦ થી ૧૬ પૃષ્ઠ સુધીમાં જણાવી છે, તેથી જિજ્ઞાસુઓને તે જ્ઞેવા ભલામણ કરીઞ્યે છીઞ્યે.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામૂલ્યઅન્યનું શુદ્ધિપત્રકં આ ભાગના અંતમાં જ આપ્યું છે. તે
પ્રમાણે અન્યને સુધારીને વાંચવા તથા પ્રતિલિપિ કરાવવા ભારપૂર્વકં ભલામણ
કરીઞ્યે છીઞ્યે.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના સંપાદનને લગતું કિંચિદ્ વકતવ્ય કે જેમાં અઘાવધિ મુદ્રિત થયેલા
પાઠોમાં અમોને પ્રાચીન પ્રતિઓમાંથી જ્યાં જ્યાં મહત્વના પાઠો મળ્યા છે, તે તે સ્થાનો અને
મુનિવર શ્રી પુષ્પલિહુલ દ્વારા સંપાદિત થયેલા સુક્તાગમેમાં છપાયેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં જે કોઈ
સ્થળે પાઠપરિવર્તન કર્યું છે તે સ્થળની ચર્ચા વગેરે પ્રસ્તુત ગ્રંથના ખીજા ભાગના સંપાદકીયમાં
આપવામાં આવશે.

અમારા પ્રથમ સંપાદન નંદિસુત્તં અણુઓગદ્વારાઈં ચ માં અમોઞ્યે નન્દિસૂત્રવિશેષ આપ્યો છે
(૨૮ઞ્યો નંદિસુત્તં અણુઓગદ્વારાઈં ચ ગ્રંથમાં સંપાદકીય પૃઠ ૪૦ થી ૫૩) તે મુજબ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રવિશેષ
અહીં આપી ગયા નથી. તેનું મુખ્ય કારણ ઞ્યે છે કે—પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના વિષયોને લગતાં અવતરણો
૫. ૨

પ્ર૦ પ્રતિ—શ્રી આત્મારામજી જૈન જ્ઞાનમંદિર, વડોદરામાં રહેલા વિવિધ ભંડારો પૈકીના પ્રવર્તક શ્રીમત્ ક્રાંતિવિજયજી શાસ્ત્રસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૧૧૬૪ છે. સંક્ષેપમાં અર્થ જાણવા-જાણાવવાના હેતુથી આ પ્રતિના પ્રત્યેક પત્રના માર્ગનિર્માણમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની આચાર્ય શ્રી મલયગિરિસૂરિરચિત ટીકાને ટૂંકાવીને લખવામાં આવી છે. પ્રતિની પત્રસંખ્યા ૨૧૫ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠિમાં ૧૩ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ઓછામાં ઓછા ૪૨ અને વધુમાં વધુ ૪૭ અક્ષરો છે. કોઈ અભ્યાસી વિદ્વાને શોધેલી પ્રતિ છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ સુંદર છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૯ $\frac{૩}{૪}$ × ૪ $\frac{૩}{૪}$ ઇંચપ્રમાણ છે. મૂલપાઠના અંતમાં લેખકની પુષ્પિકા આદિ કંઈ લખ્યું નથી. પણ મૂલપાઠની સાથે જ લખાયેલ ઉપર જણાવેલ ટીકાસંક્ષેપના અંતમાં આ પ્રમાણે પુષ્પિકા છે :

શ્રીમલયગિરિવિરચિત્તા ટીકા કિંચિત્ સંક્ષિપ્ત લિખિતા । વા । નરચંદ્રેણ । શ્રીઃ ॥ સંવત્ ૧૭૭૬ ફાલ્ગુન વદિ ૧૨ ।

પુ૧ પ્રતિ—શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર, અમદાવાદમાં રહેલા અનેક હસ્તલિખિત ભંડારો પૈકીના મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજના ગ્રંથસંગ્રહની આ પ્રતિ છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૬૬૯૫ છે. કોઈ વાચકે આ પ્રતિને પ્રત્યંતર સાથે મેળવીને પાઠો ઉમેરેલા છે તથા ક્વચિત્ ટિપ્પણી પણ લખેલી છે. આની પત્રસંખ્યા ૨૦૦ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠિમાં ૧૩ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ૫૦ અક્ષરો છે; જવલ્લે જ કોઈ પંક્તિમાં ૪૫ અને ૪૭ અક્ષરો છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ શ્રેષ્ઠ છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૦ $\frac{૩}{૪}$ × ૪ $\frac{૩}{૪}$ ઇંચપ્રમાણ છે. અંતમાં લેખકની પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે :

સંવત્ ૧૬૧૧ વર્ષે જેષ્ઠ(જ્યેષ્ઠ) શુદ્ધિ ૭ સોમે । અગ્રેહ શ્રીપત્તનવાસ્તવ્યઃ શ્રીશ્રીમાલજ્ઞાતીય । સુગંધીકુલં(કું)વે । સુગંધી નાથા સુત શ્રેષ્ઠિ(ષ્ઠિ) હાંસા માર્યા સુશ્રાવિકા હાંસલદે । પુત્ર ૪ શ્ર(શ્રે૦) હરિવંદ । સે૦ સીવા૦ । સે૦ મેષા૦ । સે૦ સિવૂ । સમસ્તકુટં(કું)વ્યુતૈઃ સે૦ સીવાકેન । શ્રીપૂર્ણિમાપક્ષે પ્રધાનશાલાયાં । મ૦ શ્રીમુવનપ્રમસૂરિ તત્પદે મ૦ શ્રીશ્રીકમલપ્રમસૂરિ તત્પદે મ૦ શ્રી ૫ પુણ્યપ્રમસૂરિશ્વરાણાં ઉપદેશેન । શ્રીપત્તવણાડાપાંગસૂત્ર લિપ્તા(લા)પ્ય સ્વગુરુમ્ભ્યઃ પ્રદત્તં । વાચ્યમાનં ચિરં જીવાત્ । મદ્રં ભવતુ ॥ શ્રીરસ્તુ ॥ શુભં મૂયાત્ ॥ છ ॥

પુ૨ પ્રતિ—આ પ્રતિ પણ ઉપર જણાવેલા મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહની છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૬૭૦૯ છે. કોઈ ખંતીલા અભ્યાસી વિદ્વાને આ પ્રતિ શોધી છે અને ક્વચિત્ ટિપ્પણી પણ લખી છે. આની પત્રસંખ્યા ૩૪૬ છે. ૨૧૨મા પત્રનો અંક ખેવડાવો છે તેથી કુલ પત્રસંખ્યા ૩૪૭ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠિમાં ૧૧ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ઓછામાં ઓછા ૩૨ અને વધુમાં વધુ ૩૮ અક્ષરો છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ સુંદર છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૦.૪ × ૪.૨ ઇંચપ્રમાણ છે. અંતમાં લેખકની પ્રશસ્તિ-પુષ્પિકા આદિ નથી. લિપિ અને આકાર-પ્રકારથી કહી શકાય કે આ પ્રતિ વિક્રમના ૧૭મા શતકમાં લખાયેલી હોવી નોઈએ.

પુ૩ પ્રતિ—આ પ્રતિ પણ ઉપર જણાવેલા મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીના સંગ્રહની છે. સૂચિમાં આનો ક્રમાંક ૭૨૫૦ છે. આની પત્રસંખ્યા ૧૪૬ છે. પ્રત્યેક પત્રની પ્રત્યેક પૃષ્ઠિમાં ૧૫ પંક્તિઓ છે. પ્રત્યેક પંક્તિમાં ઓછામાં ઓછા ૫૨ અને વધુમાં વધુ ૫૮ અક્ષરો છે. સ્થિતિ સારી અને લિપિ અતિ સુંદર છે. લંબાઈ-પહોળાઈ ૧૨ × ૪ $\frac{૩}{૪}$ ઇંચપ્રમાણ છે. અંતમાં લેખકની પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે.

યાદશં પુસ્તકે દૃષ્ટં । તાદૃશં લિષિ(લ્પિ)તં મયા । યદિ શુદ્ધમશુદ્ધં વા । મમ દોષો ન દીયતે ॥ ૧ ॥
મગ્નપુષ્ટિ(પુષ્ટિ)કૃતિમીવા(વં) । બદ્ધદૃષ્ટિરધોમુલ્લં । કષ્ટેન લિષિ(લ્પિ)તં શાસ્ત્રં । યત્નેન પરિપાલ્યેત ॥ ૨ ॥
તૈલ્રાપ્ય (તૈલ્લદ્ રક્ષેત) જલં(જલાદ્) રક્ષે[ત્] । રખ્યે(રક્ષેત્) શ્રથ(શિથિ)લ્લંઘનં(નાત્) । યસ્ય
કસ્ય ન દાતવ્યં(વ્યા) । एवं વદતિ પુસ્તિકા ॥ ૩ ॥ યાવત્(દ્) લવણસમુદ્રૌ(દ્રો) । તા(યા)વત્(દ્)
નક્ષત્રમંડિતો મેરુ[ઃ] । યાવત્(દ્) ભાસ્કરચંદ્રૌ તાવદયં પુસ્તકો જયતુ ॥ ૪ ॥ સંવત્ ૧૫૬૫ સંવત્સર(રે)
પ્રવર્તમાને દક્ષ(ક્ષિ)ણાયને શરદઋતૌ ભાદ્રપદમાસે કૃષ્ણપક્ષે ચતુથ્યાર્યા(થ્યા) તિથૌ રવિવાસરે શ્રીઅળ-
હિલ્લપુરપત્તને લિષા(લા)પિતં ॥ છ ॥ શ્રી ॥ છ ॥ શુભં ભવતુ ॥ કલ્યાણં મૂયાત્ ॥ છ ॥ શ્રીઃ ॥
શ્રી શ્રીમાલજ્ઞાતીય શ્રેષ્ઠિ(ષ્ટિ) સહિજા માર્યા અવકૂ સુતેન શ્રેષ્ઠિ(ષ્ટિ) હરષા(લા)મિથેન પ્રજ્ઞાપનોપાંગસૂત્રં
લિષા(લા)પ્ય સ્વપુણ્યાર્થે પરોપકારાય ચ શ્રીપૂર્ણિમાપક્ષે પ્રધાનશાપા(લા)યાં શ્રીમુવનપ્રભસૂરીણાં પ્રદત્તં
ચિરં નંદ્યાત્ ॥ છ ॥ શ્રીઃ શુભં ભવતુ ॥ શ્રીસંઘસ્ય ॥ લેખકવાઠકયોઃ ચિરં જીવ ॥

મુઠ પ્રતિ—આ પ્રતિ આગમોદ્ધારક શ્રી સાગરાનંદસૂરિવર સંપાદિત આચાર્ય શ્રી મહાયગિરિ-
કૃતટીકાયુક્ત છે. આ આવૃત્તિ વિઠ સંઠ ૧૯૭૪-૭૫ માં આગમોદ્ય સમિતિ (સુરત) દ્વારા પ્રકાશિત
થયેલી છે.

આજ પર્વેત અમોએ જ્ઞેયેલા પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારોમાં પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રની સૌથી પ્રાચીન જે એ
પ્રતિઓ અમે જ્ઞેઈ છે, તે અહીં ઉપયોગમાં લીધેલી જેઠ અને લંઠ પ્રતિઓ છે.

*

પ્રસ્તુત સંપાદન-સંશોધન અંગે

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના આ પ્રથમ ભાગમાં સમગ્ર સૂત્રપાઠ આવી જાય છે. અને મૂળસૂત્રપાઠ
ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવેલાં પરિશિષ્ટો ખીજા ભાગમાં આપવાનાં છે, તેથી પરિશિષ્ટોનો પરિચય
પણ ખીજા ભાગના સંપાદકીયમાં આપીશું.

અમારી આગમ સંશોધન વિષેની પદ્ધતિ અમારા તરફથી સંપાદિત થયેલા અને શ્રી મહાવીર
જ્ઞેન વિદ્યાલય, મુંબઈ તરફથી પ્રકાશિત થયેલા નંદિસુત્તં અણુઓગદ્વારાઈં ચ ગ્રંથના સંપાદકીયના
૧૦ થી ૧૬ પૃષ્ઠ સુધીમાં જણાવી છે, તેથી જિજ્ઞાસુઓને તે જ્ઞેવા લલામણુ કરીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનામૂલકઅન્યનું શુદ્ધિપત્રક આ ભાગના અંતમાં જ આપ્યું છે. તે
પ્રમાણે અન્યને સુધારીને વાંચવા તથા પ્રતિલિપિ કરાવવા ભારપૂર્વક લલામણુ
કરીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના સંપાદનને લગતું કિંચિદ્ વક્તવ્ય કે જેમાં અઘાવધિ મુદ્રિત થયેલા
પાઠોમાં અમોને પ્રાચીન પ્રતિઓમાંથી જ્યાં જ્યાં મહત્વના પાઠો મળ્યા છે, તે તે સ્થાનો અને
મુનિવર શ્રી પુષ્પભિક્ષુજી દ્વારા સંપાદિત થયેલા સુત્તાગમેમાં છપાયેલા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં જે કોઈ
સ્થળે પાઠપરિવર્તન કર્યું છે તે સ્થળની ચર્ચા વગેરે પ્રસ્તુત ગ્રંથના ખીજા ભાગના સંપાદકીયમાં
આપવામાં આવશે.

અમારા પ્રથમ સંપાદન નંદિસુત્તં અણુઓગદ્વારાઈં ચ માં અમોએ નંદિસૂત્રવિશેષ આપ્યો છે
(૩૧ઓ નંદિસુત્તં અણુઓગદ્વારાઈં ચ ગ્રંથમાં સંપાદકીય પૃઠ ૪૦થી ૫૩) તે મુજબ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રવિશેષ
અહીં આપી શક્યા નથી. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે—પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના વિષયોને લગતાં અવતરણો
૫. ૨

જૈન આગમ સાહિત્યમાં અનેક સ્થળે વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે, અને તે અધુનૌંધતાં કાર્ય તો ગુરુ થાય જ, ઉપરાંત એ કામને પહોંચી વળવાના સમયની પણ સમસ્યા છે. તેથી એ માટે અભ્યાસી જિજ્ઞાસુઓને અન્યાય આગમ ગ્રંથો જોવા તથા તજ્ઞ વિદ્વાનોનો સંપર્ક કરવા લલામણ કરીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રનો પરિચય તેમાં આવતી મહત્વની સાંસ્કૃતિક સામગ્રી આદિ વિવિધ વસ્તુઓ આ ગ્રંથના ધીજ્ઞ લાગની પ્રસ્તાવનામાં આપવામાં આવશે.

*

મહાસ્વીકાર

પ્રસ્તુત સંપાદનમાં જે બહુમૂલ્ય હસ્તપ્રતિઓનો અમે ઉપયોગ કર્યો છે, તે પ્રતિઓનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય, એ માટે એ પ્રતિઓને લાંબા સમય સુધી અમારી પાસે રહેવા દેવામાં તે તે જ્ઞાનભંડારોના વહીવટકર્તા મહાશયોએ ખૂબ ધીરજ દાખવીને ખૂબ જ મહાનુભાવતા બતાવી છે; આથી તેમની જ્ઞાનભક્તિની અનુમોદના કરીને તેમને સવિશેષ ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

જિનાગમવાચનપ્રવીણ મુનિવર્ય શ્રી જયદ્રોપવિજયજીએ પ્રસ્તુત ગ્રંથનાં સુદ્રિત કોર્મ જોઈને કેટલાંક સ્થળો વિષે ઉપયોગી સૂચના આપી છે, તે બદલ અમે તેમનો સાદર આભાર માનીએ છીએ.

અમારા સર્વ કોઈ સંશોધન કાર્યમાં જરૂર જણાય ત્યારે સદાને માટે ઉપયોગી પરામર્શ કરીને સહાય કરનાર ભારતીય દર્શનોના ગંભીર અભ્યાસી વિદ્વદ્ધ મુનિરાજ શ્રી જયવિજયજી તથા પં. શ્રી બેચરદાસભાઈ દોશીનો અમે અહીં સાદર આભાર માનીએ છીએ.

સુસ્થાવક મંત્રીઓ શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ, શ્રી જયંતિલાલ રતનચંદ શાહ અને શ્રી બાલચંદ ગાંધલાલ દોશી આદિ મહાવીર જૈન વિદ્યાલય આગમ પ્રકાશન સમિતિના સભ્યોએ પ્રસ્તુત સંપાદન કાર્યની એવં સમગ્ર આગમ પ્રકાશન કાર્યની ઉપયોગિતા અને ગાંભીર્યને સમજીને લાંબા સમય સુધીની ધીરજ દાખવીને અમારા કાર્યમાં જે સહયોગ આપ્યો છે, તે બદલ તેમના પ્રશંસનીય કાર્યની અનુમોદના પુરઃસર તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

અધાય આગમ ગ્રંથોના શાસ્ત્રીય સંપાદન કાર્યની પૂર્ણતા જોવા માટે અવિરત વેદના અનુભવતા શ્રી રતિલાલભાઈ દીપચંદ દેસાઈ (સહમંત્રી, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય સંચાલિત આગમ પ્રકાશન વિભાગ) એ પ્રકાશન કાર્યને વેગ આપવા માટે તેમ જ શ્રેષ્ઠ મુદ્રણની ચકાસણી કરવામાં જે સહયોગ આપ્યો છે તે અમારા જ નહીં હિન્તુ આગમ પ્રકાશનમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈના માટે પ્રશંસનીય છે.

શ્રી કાન્તિલાલ શહાભાઈ કોરા (મહામાત્ર, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય) એ પ્રસ્તુત ગ્રંથના મુદ્રણ સંબંધિત પ્રત્યેક કાર્યમાં જત દેખરેખથી નિરંતર વ્યવસ્થા કરીને અમારા કાર્યમાં અનુદાનતા કરી છે. તેઓનો આ શ્રમ અમારા અને આ કાર્યમાં રસ ધરાવનાર સર્વના ધન્યવાદને પાત્ર છે.

શ્રી લા. ૬૦ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર (અમદાવાદ)ના ઉપસંચાલક (અત્યારે ફરજ ઉપરના ડાયરેક્ટર) ડૉ. નગીનદાસ જીવણલાલ શાહ પ્રસ્તુત 'સંપાદકીય'નો અંગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ કરી આપ્યો છે. તે બદલ અમે તેઓ પ્રત્યે અમારો કૃતજ્ઞભાવ વ્યક્ત કરીએ છીએ.

શાસ્ત્રી શ્રી હરિશંકરભાઈ અંબારામ પંડ્યાએ પ્રસ્તુત ગ્રન્થના ખીન્ન ભાગનાં પરિશિષ્ટોમાં સહયોગ આપ્યો છે. અહીં અમો તેમને ભૂલી શકતા નથી.

અને અંતે મુંબઈના સુપ્રસિદ્ધ મૌજ પ્રિન્ટિંગ વ્હૂરોના સંચાલક શ્રી વિં પું ભાગવત આદિ સંજ્ઞનોએ અમારા પ્રસ્તુત મુદ્રણ કાર્યમાં અનેકવિધ સુવિધાઓ આપી છે તે બદલ તેઓ અમારા માટે ચિરમરણીય બની રહ્યા છે.

ઉપરોક્ત સૌ મહાનુભાવો હંમેશના માટે અમને સદાય સવિશેષ અનુકૂળતા આપે તેવી હાર્દિક ઇચ્છા વ્યક્ત કરીએ છીએ.

વડોદરા,
સં ૨૦૨૫, કાર્તિક વદિ ૧૨
રવિવાર, તા ૧૭-૧૧-૬૮

મુ નિ પુણ્ય વિ જ ય
દલસુખ માલવણિયા
અમૃતલાલ મોં ભોજક

EDITORS' NOTE.

DESCRIPTION OF MANUSCRIPTS

We have utilized nine mss. in preparing the critical edition of the *Prajñāpanāsūtra*. Out of them the three bearing signs खं, जे० and व० are palm-leaf mss. and the five bearing signs म० (or ची०), प्र०, पु१, पु२ and पु३ are paper mss. And the sign मृ० refers to the printed model. Now let us describe them one by one.

खं—This palm-leaf ms. is preserved in the Sāntinātha Jaina Jñāna Bhaṇḍāra, Cambay. It is numbered 17 in the Catalogue of this Bhaṇḍāra, published by Oriental Institute Baroda. It contains 161 folios. Its size is 32.2" × 2.5". The script is beautiful and condition good. Though it has no colophon, we can infer from the script that it belongs to the fourth quarter of the 14th Cent. V. S.

जे०—This is a palm-leaf ms. of the Jaina Jñāna Bhaṇḍāra, Jesalmer, established by Ācārya Śrī Jinabhadrasūri of Kharatara Gaccha. In the catalogue it is listed under No. 27. It has 170 folios. The script is excellent and condition good. Its size is 32½" × 2½". It has been written in 1389 V. S. There is no other data at the end of the ms. except the mention of the year in which it has been written. It has no colophon.

म०—This ms. too belongs to the above-mentioned Bhaṇḍāra of Jesalmer. In the catalogue it is listed under No. 29. Folios 1 to 333 contain only the text of the *Prajñāpanāsūtra* and folios 334 to 350 contain the *Prajñāpanāsūtrapradeśavyākhyā* by Āc. Haribhadrasūri. The script is beautiful and condition good. Fourteen folios (Nos. 7, 11, 15, 19, 56, 247-249, 253, 254, 261-263 and 291) are missing. The size is 32½" × 2¼". The colophon reads as follows :

Samvat 1489 varṣe mārṅaṅ sudi 10 some prajñāpanāsūtrapradeśavyākhyā likhāpitā Sāṅ Balirājena ||cha|| śrīmat Icharatara gacche Śrī Jinabhadrasūrīśvarāṇām bhāṇḍāgāre||

In the Bhaṇḍāra of Jesalmer the number of the mss. got copied by Parikha Dharaṇāsāha and Sāṅ Balirāja-Udayarāja is very large. Under the vague impression that this ms. might have been got copied by Dharaṇāsāha, we gave व० sign to it. Had we remembered, in the beginning, that the ms. is got copied by Balirāja, we would have given it sign व० instead of व०

1. English translation of 'Sampādakīya' written in Gujarātī.

म० (or वी०)—This ms. belongs to Śrī Mahimābhakti Jaina Jñāna Bhaṇḍāra, Bikaner. It has been written in 17th cent. V. S. At one or two places we have referred to it by वी० sign also.

प्र०—This ms. belongs to Pravartaka Śrīmat Kantivijayaji Collection, one of the several collections preserved in Śrī Ātmārāmaji Jaina Jñāna Mandir, Baroda. It is numbered 1164 in the list. In the margin of each and every folio, Āc. Śrī Malayagiri's abridged commentary on the *Prajñāpanāsūtra* has been given in order to know or let others know succinctly the meaning of the basic text. It has 215 folios, 13 lines per side, and 42 to 47 letters per line. It has been corrected by some scholar. The script is beautiful and condition good. The size is $9\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{4}''$. There is no colophon at the end of the basic text while there is one at the end of the abridged commentary. It runs as follows :

*Śrī Malayāgīrivīracitā tīkā kiṃcīt saṅkṣīpya likhitā | vā | nare-
ndreṇa | Śrīḥ | Saṃvat 1776 Phālguna Vadi 12.*

पु १—This ms. belongs to Muni Shri Punyavijayaji's Collection, one of several collections preserved in Shri Lalbhai Dalpatbhai Bharatiya Sanskriti Vidyamandir, Ahmedabad. In the catalogue it is listed under No. 6695. Some reader has compared this ms. with the one belonging to a different group and added readings. Not only that but he has written short notes here and there. It has 200 folios, 13 lines per side and 50 letters per line. The script is excellent and condition good. The size is $10\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{4}''$. At the end there is a colophon of the copyist. It is as follows :

*Saṃvat 1611 varṣe jeṣṭha (jyeṣṭha) śudi 7 some | adyeha śrīpattana-
vāstavyaḥ śrīśrīmālajñātīya | sugaṃdhīkucham (kutum) be | sugaṃdhī
Nāthāsuta śreṣṭhi (ṣṭhi) Hāmsābhāryā suśrāvīkā Hāmsalade | putra 4 śra
(śre) Haricanda | Se. Sīvā | Se. Meghā | Se. Sighū | samastakūṭa (u)
mbayutaiḥ Se. sīvākena | śrīpūrṇimāpakṣe pradhānaśākhāyām | Bha.
Śrībhuvanaprabhasūri tatpatṭe Bha. Śrīśrīkamalaprabhasūri tatpatṭe
Bha. śrī 5 Punyaprabhasūriśvarāṇām upadeśena | śrīpannavāṇaupāṅga-
sūtra liṣā (khā)pya svagurubhyaḥ pradattam | vācyamānam ciraṃ
jyāt | bhadrām bhavatu śrīr astu | śubham bhūyāt | cha |*

पु २—This ms. also belongs to the above mentioned collection of Muni Shri Punyavijayaji. In the catalogue it is numbered 6709. Some enthusiastic and studious scholar has corrected it and at times written notes here and there. It has 346 folios. No. 212 has been given to two different folios. Hence really speaking it contains 347 folios. Each side of a folio has 11 lines and each line has 32 to 38 letters. Its script is beautiful and condition good. Its size is $10.4'' \times 4.2''$. At the end there is no colophon by the copyist. But

on the basis of the script, size, etc. we can infer that it should have been written in the 17th Cent. V. S.

५ ३—This ms. also belongs to the above mentioned collection of Muni Shri Punyavijayaji. In the catalogue it is listed under No. 7250. It has 146 folios, 15 lines per side of a folio and 52 to 58 letters per line. Its condition is good and script beautiful. Its size is 12" × 4½" × 2". The colophon of the copyist is as follows :

*yādṛṣam pustake dṛṣtam | tādṛṣam liṣi(likhi)tam mayā | yadi
śuddham aśuddham vā | mama doṣo na dīyate || 1 || bhagnapuṣṭi(prṣṭhi)-
kaṭṭagrivā(vam) | baddhadṛṣṭir adhomukham | kaṣṭena liṣi(likhi)tam
śāstram | yatnena paripālayet || 2 || tailarāṣya(tailād rakṣet) jalam
(jalād) rakṣet | raṣye(rakṣet) śratha(śiṭhi)labandhanam(nāt) |
yasya kasya na dātavyam(vyā) | evam vadati pustikā || 3 || yāvat(d)
lavanāsamudrau(dro) | tā(yā)vat(d) nakṣatramamḍito meru[ḥ] |
yāvat(d) bhāskaracandrau tāvad ayaṁ pustako jayatu || 4 || saṁvat
1565 saṁvatsara(re) pravartamāne dakṣa(kṣi)ṇāyane śaradṛtau
bhādrapadamāse kṛṣṇapakṣe catuṭhyāyām(rthyām) tithau ravivāsare
śrīṇaḥillapurapattane liṣā(likhā)pitam || cha || śrī || cha || śubham
bhavatu || kalyāṇam bhūyāt || cha || śrīḥ || śrīśrīmālaññāṭiya śreṣṭhi(ṣṭhi)
haraṣā(rakhā)bhidhena prajñāpanopāṅgasūtram liṣā(likhā)pya svapu-
ṇyārtham paropakārāya ca śrīpūrṇimāpakṣe pradhānaśākhāyām
śrībhuvanaprabhasūrīṇām pradattam ciraṁ nandyāt || cha || śrīḥ śubham
bhavatu || śrīsaṅghasya || lekhakapāṭhakayoḥ ciraṁ jīva ||*

५०—This is the printed edition critically prepared by Āgamodhāraka Shri Sāgarānandasūriji and published in 1974-75 V. S. by Āgamodaya Samiti, Surat. This edition contains the *Prajñāpanā-sūtra* along with the commentary by Āc. Shri Malayagiri.

No ms. of the *Prajñāpanāsūtra*, that we have seen so far in various ancient bhaṇḍāras is older than the two जे० and खे० that have been utilised by us in the preparation of the present edition.

*

ABOUT THE PRESENT EDITION

The first part of the *Prajñāpanāsūtra* contains the complete text of the *Sūtra*. Appendices to the text will be given in the second part. And hence their description too will appear in the 'Editors' Note' to that part.

For an account of the critical method we have adopted for editing the Āgamas, readers are requested to refer to the 'Editor's Note' (pp. 88-95) to the *Nandisutta* and *Aṇuyogaddārām* printed by Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, Bombay.

At the end of this part one will find a list of corrections (śuddhipatraka). We request the scholars to read the text after having corrected it according to this list.

The discussion about places in old mss., where the important readings printed so far are found, is included in the 'Editors' Note' to the second part. There we have discussed a few readings of the *Prajñāpanāsūtra*, which have been changed by Munivara Shri Pushpabhikshu in his *Suttāgame*.

In the first volume, the *Nandisutta and Aṇuogaddāraim*, we have given the Nandisūtraviśeṣa (Editor's Note pp. 123-26).

But due to following reasons we have given up the idea of preparing *Prajñāpanāsūtraviśeṣa*. First, the Jaina Āgama literature is full of passages similar to those found in the *Prajñāpanāsūtra*. Secondly, the work would have become too lengthy to handle and finish if we had noted down all those passages. Thirdly, it would have created a problem for us, because we were required to complete the work within a certain period of time. Time is really a factor which one cannot ignore. Hence, we request the scholars, who are interested in noting down such passages, to refer to various Āgamic texts and to consult the experts in Āgama learning.

The description of the *Prajñāpanāsūtra*, an account of the cultural data gathered from the *Sūtra*, etc. will be included in the introduction to the second part.

*

ACKNOWLEDGEMENTS

We are really thankful to the members of the managing boards of the Jñāna Bhaṇḍāras, for, they have, without any hesitation, allowed us to utilise the mss. belonging to their Bhaṇḍāras and also to keep them with us for a considerably long period of time.

We are grateful to Jināgamavācanapraviṇa Munivarya Shri Jayaghoshavijayaji who read the printed forms and made valuable suggestions at various places.

We are failing in our duty if we do not gratefully remember Munirāja Shri Jambuvijayaji, a great scholar of Indian philosophy, and Pt. Bechardasji Doshi who are always ready to help us in whatever editing work we undertake.

Our sincere thanks are due to Shri Chandulal Vardhaman Shah, Shri Jayantilal Ratanchand Shah, Shri Balchand Gandadal Doshi and members of the Āgama Publication Committee of Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, who, on realising the value and

importance of this and such other publications, have extended their kind co-operation for such a long period of time with undisturbed patience and perseverance.

Shri Ratilal Dipchand Desai (Joint Secretary to the Āgama Publication Dept., Mahavira Jaina Vidyalaya) is always anxious as well as worried about the successful completion of the task of preparing critical edition of all the Āgamas. He has greatly accelerated the publication work and helped us in matters related to excellent printing. He deserves thanks and praise not only from us but from all those who have interest in the publication of the Āgamas.

Shri Kantilal Dahyabhai Kora (Registrar, Shri Mahavira Jaina Vidyalaya) has taken personal interest in matters related to the Press. He has greatly facilitated our work by making all the necessary arrangements with the Press. His hard labour deserves appreciation from us and from all those who have interest in the publication of the Āgamas.

We are grateful to Dr. Nagin J. Shah, the Acting Director of L. D. Institute of Indology, who has been kind enough to prepare this 'Editors' Note'—an English translation of 'Sampādakīya' of this part.

We cannot forget Shastry Shri Harishankarbhai Ambaram Pandya who has prepared the appendices to be included in the second part.

Shri V. P. Bhagvat, the manager of the famous Mouj Printing Bureau, Bombay, has left upon us an everlasting impression by providing us with various printing facilities. We hope that he will continue to be helpful to us in future too.

Again, we express our deep sense of gratitude towards all those who have extended their kind co-operation in our task of Āgama Publication. We hope that their co-operation will continue with unstinted vigour.

Baroda,
Kartika Vadi 12
2025 V. S.
Sunday, 17-11-'68

Muni Punyavijaya
Dalsukh Malvania
Amritlal M. Bhojak

At the end of this part one will find a list of corrections (śuddhipatraka). We request the scholars to read the text after having corrected it according to this list.

The discussion about places in old mss., where the important readings printed so far are found, is included in the 'Editors' Note' to the second part. There we have discussed a few readings of the *Prajñāpanāsūtra*, which have been changed by Munivara Shri Pushpabhikshu in his *Suttāgame*.

In the first volume, the *Nandisutta and Aṇuogaddāraim*, we have given the Nandisūtraviśeṣa (Editor's Note pp. 123-26).

But due to following reasons we have given up the idea of preparing *Prajñāpanāsūtraviśeṣa*. First, the Jaina Āgama literature is full of passages similar to those found in the *Prajñāpanāsūtra*. Secondly, the work would have become too lengthy to handle and finish if we had noted down all those passages. Thirdly, it would have created a problem for us, because we were required to complete the work within a certain period of time. Time is really a factor which one cannot ignore. Hence, we request the scholars, who are interested in noting down such passages, to refer to various Āgamic texts and to consult the experts in Āgama learning.

The description of the *Prajñāpanāsūtra*, an account of the cultural data gathered from the *Sūtra*, etc. will be included in the introduction to the second part.

*

ACKNOWLEDGEMENTS

We are really thankful to the members of the managing boards of the Jñāna Bhaṇḍāras, for, they have, without any hesitation, allowed us to utilise the mss. belonging to their Bhaṇḍāras and also to keep them with us for a considerably long period of time.

We are grateful to Jināgamavācanapraviṇa Munivarya Shri Jayaghoshavijayaji who read the printed forms and made valuable suggestions at various places.

We are failing in our duty if we do not gratefully remember Munirāja Shri Jambuvijayaji, a great scholar of Indian philosophy, and Pt. Bechardasji Doshi who are always ready to help us in whatever editing work we undertake.

Our sincere thanks are due to Shri Chandulal Vardhaman Shah, Shri Jayantilal Ratanchand Shah, Shri Balchand Gandadal Doshi and members of the Āgama Publication Committee of Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, who, on realising the value and

importance of this and such other publications, have extended their kind co-operation for such a long period of time with undisturbed patience and perseverance.

Shri Ratilal Dipchand Desai (Joint Secretary to the Āgama Publication Dept., Mahavira Jaina Vidyalaya) is always anxious as well as worried about the successful completion of the task of preparing critical edition of all the Āgamas. He has greatly accelerated the publication work and helped us in matters related to excellent printing. He deserves thanks and praise not only from us but from all those who have interest in the publication of the Āgamas.

Shri Kantilal Dahyabhai Kora (Registrar, Shri Mahavira Jaina Vidyalaya) has taken personal interest in matters related to the Press. He has greatly facilitated our work by making all the necessary arrangements with the Press. His hard labour deserves appreciation from us and from all those who have interest in the publication of the Āgamas.

We are grateful to Dr. Nagin J. Shah, the Acting Director of L. D. Institute of Indology, who has been kind enough to prepare this 'Editors' Note'—an English translation of 'Sampādakiya' of this part.

We cannot forget Shastry Shri Harishankarabhai Ambaram Pandya who has prepared the appendices to be included in the second part.

Shri V. P. Bhagvat, the manager of the famous Mouj Printing Bureau, Bombay, has left upon us an everlasting impression by providing us with various printing facilities. We hope that he will continue to be helpful to us in future too.

Again, we express our deep sense of gratitude towards all those who have extended their kind co-operation in our task of Āgama Publication. We hope that their co-operation will continue with unstinted vigour.

Baroda,
Kartika Vadi 12
2025 V. S.
Sunday, 17-11-'68

Muni Punyavijaya
Dalsukh Malvania
Amritlal M. Bhojak

At the end of this part one will find a list of corrections (śuddhipatraka). We request the scholars to read the text after having corrected it according to this list.

The discussion about places in old mss., where the important readings printed so far are found, is included in the 'Editors' Note' to the second part. There we have discussed a few readings of the *Prajñāpanāsūtra*, which have been changed by Munivara Shri Pushpabhikshu in his *Suttāgame*.

In the first volume, the *Nandisutta and Aṇugaddāraim*, we have given the Nandisūtraviśeṣa (Editor's Note pp. 123-26).

But due to following reasons we have given up the idea of preparing *Prajñāpanāsūtraviśeṣa*. First, the Jaina Āgama literature is full of passages similar to those found in the *Prajñāpanāsūtra*. Secondly, the work would have become too lengthy to handle and finish if we had noted down all those passages. Thirdly, it would have created a problem for us, because we were required to complete the work within a certain period of time. Time is really a factor which one cannot ignore. Hence, we request the scholars, who are interested in noting down such passages, to refer to various Āgamic texts and to consult the experts in Āgama learning.

The description of the *Prajñāpanāsūtra*, an account of the cultural data gathered from the *Sūtra*, etc. will be included in the introduction to the second part.

*

ACKNOWLEDGEMENTS

We are really thankful to the members of the managing boards of the Jīāna Bhaṇḍāras, for, they have, without any hesitation, allowed us to utilise the mss. belonging to their Bhaṇḍāras and also to keep them with us for a considerably long period of time.

We are grateful to Jināgamavācanapraviṇa Munivarya Shri Jayaghoshavijayaji who read the printed forms and made valuable suggestions at various places.

We are failing in our duty if we do not gratefully remember Munirāja Shri Jambuvijayaji, a great scholar of Indian philosophy, and Pt. Becharasji Doshi who are always ready to help us in whatever editing work we undertake.

Our sincere thanks are due to Shri Chandulal Vardhaman Shah, Shri Jayantilal Ratanchand Shah, Shri Balchand Gandadal Doshi and members of the Āgama Publication Committee of Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, who, on realising the value and

प्रज्ञापनासूत्रस्य विषयानुक्रमः

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१-१४७.	प्रथमं प्रज्ञापनापदम्	३-४५
१.	मङ्गलमभिधेयं च	३
२-३.	प्रज्ञापनासूत्रस्य पट्त्रिंशत्पदानां नामानि प्रज्ञापनापदोप- क्रमश्च	४
४-१३.	अजीवप्रज्ञापना	४-१२
५.	अरूप्यजीवप्रज्ञापना	४
६-१३.	रूप्यजीवप्रज्ञापना	४-१२
१४-१४७.	जीवप्रज्ञापना	१२-४५
१५-१७.	असंसारसमापन्नजीवप्रज्ञापना	१२
१८-१४७.	संसारसमापन्नजीवप्रज्ञापना	१२-४५
१९-५५.	एकेन्द्रियजीवप्रज्ञापना	१३-२७
१९.	एकेन्द्रियजीवानां भेदाः	१३
२०-२५.	१. पृथ्वीकायिकजीवप्रज्ञापना	१३-१४
२०.	पृथ्वीकायिकानां सूक्ष्म-वादरेति भेदद्वयम्	१३
२१.	सूक्ष्मपृथ्वीकायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तकेति भेदद्वयम्	१३
२२.	वादरपृथ्वीकायिकानां श्लक्ष्ण-खरेति भेदद्वयम्	१३
२३.	श्लक्ष्णवादरपृथ्वीकायिकानां कृष्णमृत्तिकादयः सप्त भेदाः	१३
२४.	खरवादरपृथ्वीकायिकानां पृथ्वी-शर्करादयश्चत्वारिंशद्भेदाः	१३-१४
२५.	पृथ्वीकायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तक-योन्यादिभेदनिरूपणम्	१४
२६-२८.	२. अप्कायिकजीवप्रज्ञापना	१४-१५
२६.	अप्कायिकानां सूक्ष्म-वादरेति भेदद्वयम्	१४
२७.	सूक्ष्माप्कायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तकेति भेदद्वयम्	१४
२८.	वादराप्कायिकानां अवश्याय-हिमादयो भेदाः, पर्याप्तका- पर्याप्तक-योन्यादिभेदनिरूपणं च	१४-१५
२९-३१.	३. तेजस्कायिकजीवप्रज्ञापना	१५
२९.	तेजस्कायिकानां सूक्ष्म-वादरेति भेदद्वयम्	१५
३०.	सूक्ष्मतेजस्कायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तकेति भेदद्वयम्	१५
३१.	वादरतेजस्कायिकानामङ्गार-ज्वालालादयो भेदाः, पर्याप्तकापर्या- प्तकयोन्यादिभेदनिरूपणं च	१५
३२-३४.	४. वायुकायिकजीवप्रज्ञापना	१५-१६
३२.	वायुकायिकानां सूक्ष्म-वादरेति भेदद्वयम्	१५
३३.	सूक्ष्मवायुकायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तकेति भेदद्वयम्	१६
३४.	वादरवायुकायिकानां प्राचीनवात-प्रतीचीनवातादय एकोन- विंशतिभेदाः, पर्याप्तकापर्याप्तक-योन्यादिभेदनिरूपणं च	१६

सङ्केतसूचिः

अध्य० - अध्ययनम्

उ० - उद्देशकः

खं० - खं० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

जीटी० - जीवाभिगमसूत्रटीका

जे० - जे० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

घ० - घ० संज्ञकः ”

पु १ - पु १ संज्ञकः ”

पु २ - पु २ संज्ञकः ”

पु २ सं० - पु २ संज्ञके आदर्शं संशोधितः पाठः

पु ३ - पु ३ संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

प्र० - प्र० संज्ञकः ”

प्रदे०

प्रदेशव्याख्या

ह०

} - श्रीहरिभद्रसूरिकृतप्रज्ञापनासूत्रप्रदेशव्याख्या

म०

वी०

} - म० अथवा वी० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

मलय०

मलयटीका

मलयवृत्ति

मलयव्याख्या

} - श्रीमलयगिरिसूरिकृतप्रज्ञापनासूत्रवृत्तिः

मु० - मु० संज्ञकः प्रज्ञापनासूत्रादर्शः

सू० - सूत्रम्

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
३५-५४.	५. वनस्पतिकायजीवप्रज्ञापना	१६-२७
३५.	वनस्पतिकायिकानां सूक्ष्म-वाद्ररेति भेदद्वयम्	१६
३६.	सूक्ष्मवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तकेति भेदद्वयम्	१६
३७.	वाद्रवनस्पतिकायिकानां प्रत्येकशरीर-साधारणशरीरेति भेदद्वयम्	१६
३८.	प्रत्येकशरीरवाद्रवनस्पतिकायिकानां वृक्ष-गुच्छ-गुल्मादयो द्वादश भेदाः	१६-१७
३९.	वृक्षाणामेकास्थिक-बहुवीजकेति भेदद्वयम्	१७
४०.	एकास्थिकवृक्षाणां निम्बान्न-जम्बु-कोसम्बादिनामकदम्बकम्, मूल-कन्द-स्कन्ध-पत्रादिगतजीवसङ्ख्याप्रमाणं च	१७
४१.	बहुवीजकवृक्षाणामस्थिक-तिन्दु-ऋपित्थादिनामकदम्बकम्, मूल-कन्द-स्कन्ध-पत्रादिगतजीवसङ्ख्याप्रमाणं च	१७ - १८
४२.	गुच्छानां वृन्ताकी-सलकी-त्रोण्डक्यादिनामकदम्बकम्	१८
४३.	गुल्मानां सेरियज(दे०)-नवमालिकादिनामकदम्बकम्	१८
४४.	लतानां पद्मलता-नागलतादीनि द्वा नामानि	१९
४५.	वल्लीनां पुष्यफली-कालिङ्गी-तुम्ब्यादिनामकदम्बकम्	१९
४६.	पर्वगाणामिक्षु-इक्षुवाटी-वीरण्णदिनामकदम्बकम्	१९
४७.	तृणानां सेडिय(दे०)-भत्तिय(दे०)-होत्रिकादिनामकदम्बकम्	२०
४८.	वलयानां ताल-तमाल-तकालि(दे०)आदिनामकदम्बकम्	२०
४९.	हरितानां अजोरुह(दे०)-चोडाण(दे०)-हरितकादिनामकदम्बकम्	२०
५०.	औषधीनां शालि-श्रीहि-गोधूमादीनि पञ्चविंशतिर्नामानि	२० - २१
५१.	जलरूपाणामुदक-अवक-पनकादिनामकदम्बकम्	२१
५२.	कुहनानां आज(दे०)-काय(दे०)-कुहण(दे०)आदिनामकदम्बकम्	२१
५३.	प्रत्येकशरीरवाद्रवनस्पतिकायिकलक्षणम्	२१
५४.	साधारणशरीर(अनन्तकाय)वाद्रवनस्पतिकायिकानां नामानि, मूल-कन्द-स्कन्ध-त्वचा-शाखा-प्रवाल-पत्र-पुष्प-फल-त्रीजादीनां साधारणशरीर-प्रत्येकशरीरत्वलक्षणानि	२१-२६
५५.	वनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकापर्याप्तक-योन्यादिभेदनिरूपणम्, प्रत्येक-साधारणवनस्पतीनां भेदविशेषनिरूपणं च	२६
५६.	द्वीन्द्रियजीवप्रज्ञापना द्वीन्द्रियजीवानां पुलाकिमिय(दे०)-कुक्षिकुमिकादिनामकदम्बकम्, पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	२७
५७.	त्रीन्द्रियजीवप्रज्ञापना त्रीन्द्रियजीवानामवपतिक-रोहिणीकादिनामकदम्बकम्, पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	२७-२८

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

५८.	चतुरिन्द्रियजीवप्रज्ञापना चतुरिन्द्रियजीवानां अंधिय(दे०)-गोत्तिय(दे०)आदिनाम- कदम्बकम्, पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरू- पणं च	२८
५९-१४७.	पञ्चेन्द्रियजीवप्रज्ञापना	२९-४५
५९.	पञ्चेन्द्रियाणां नारकादिभेदचतुष्कम्	२९
६०.	नैरयिकजीवप्रज्ञापना नैरयिकाणां सप्त भेदाः	२९
६१-९१.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकजीवप्रज्ञापना	२९
६१.	पञ्चन्द्रियतिर्यग्योनिकानां जलचरादयस्त्रयो भेदाः	२९
६२.	जलचरतिरश्वां मत्स्य-कच्छपादिभेदपञ्चकम्	२९
६३.	मत्स्यानां श्लक्ष्णमत्स्य-खवह्यमत्स्यादिनामकदम्बकम्	२९-३०
६४.	कच्छपानामस्थिकच्छप-मांसकच्छपेति भेदद्वयम्	३०
६५.	आहाणां दिस्त्री(दे०)-वेडल(दे०)आदि भेदपञ्चकम्	३०
६६.	मकराणां शौण्डिमकर-मृष्टमकरेति भेदद्वयम्	३०
६७.	सुंसुमाराणामेकाकारप्ररूपणम्	३०
६८.	जलचरतिरश्वां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्क्रान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३०
६९.	स्थलचरतिरश्वां चतुष्पद-परिसर्पेति भेदद्वयम्	३०
७०.	चतुष्पदानामेकधुर-द्विधुरादि भेदचतुष्कम्	३०
७१.	एकधुराणामश्वाश्वतरादिनामकदम्बकम्	३०
७२.	द्विधुराणामुष्ट-गो-गवयादिनामकदम्बकम्	३१
७३.	गण्डीपदानां हस्ति-पूयणय(दे०)आदिनामकदम्बकम्	३१
७४.	सनखपदानां सिंह-व्याघ्रादिनामकदम्बकम्	३१
७५.	स्थलचरतिरश्वां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्क्रान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३१
७६.	परिसर्पतिरश्वासुर-परिसर्प-सुजपरिसर्पेति भेदद्वयम्	३१
७७.	उरःपरिसर्पाणामहि-अजगरादि भेदचतुष्कम्	३१
७८.	अहीनां दर्वीकर-मुकुलिकिति भेदद्वयम्	३१
७९.	दर्वीकराणामाशीविष-दष्टिविषादिनामकदम्बकम्	३२
८०.	मुकुलिनां दिव्याक-गोनसादिनामकदम्बकम्	३२
८१.	अजगराणामेकाकारनिरूपणम्	३२
८२.	आसालिकानामुत्पत्तिस्थाननिरूपणम्	३२
८३.	महोरगाणां भेदा उत्पत्तिस्थानानि च	३२-३३
८४.	उरःपरिसर्पाणां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्क्रान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३३

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
८५.	भुजपरिसर्पाणां नकुल-गोधादिनामकदम्बकम्, सम्मूर्च्छिम- -गर्भव्युत्क्रान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुल- कोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३३
८६.	खेचरतिरश्रां चर्मपक्षि-लोमपक्ष्यादि भेदचतुष्टयम्	३३
८७.	चर्मपक्षिणां वल्गुली-जलौकोऽटिलादिनामकदम्बकम्	३३ - ३४
८८.	लोमपक्षिणां ढंक(दे०)-कङ्कादिनामकदम्बकम्	३४
८९ - ९०.	समुद्रकपक्षि-विततपक्षिनिरूपणम्	३४
९१.	खेचरतिरश्रां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्क्रान्तिकेति भेदद्वयम्, पर्यासकापर्यासक-जातिकुलकोटि-योन्यादिनिरूपणं च	३४
९२ - १३८.	मनुष्यजीवप्रज्ञापना	३४ - ४४
९२.	मनुष्याणां सम्मूर्च्छिम-गर्भव्युत्क्रान्तिकेति भेदद्वयम्	३४
९३.	सम्मूर्च्छिममनुष्याणामुत्पत्तिस्थानानि	३५
९४.	गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्याणां कर्मभूमकादि भेदत्रयम्	३५
९५.	अन्तर्द्वीपजमनुष्याणामेकोरुकादीन्यष्टाविंशतिर्नामानि	३५
९६.	अकर्मभूमकमनुष्याणां त्रिंशद्भेदाः	३५
९७ - १३८.	कर्मभूमकमनुष्यप्रज्ञापना	३५ - ४४
९७.	कर्मभूमकमनुष्याणां पञ्चदश भेदाः, आर्य-भ्लेच्छभेदद्वयं च	३५
९८.	भ्लेच्छानां शक-यवनादिभेदनिरूपणम्	३६
९९.	आर्याणां प्रासद्धर्याणांप्रासद्धर्यायेति भेदद्वयम्	३६
१००.	प्रासद्धर्याणांमर्हच्चक्रवर्त्यादयः पञ्च भेदाः	३६
१०१.	अप्रासद्धर्याणां क्षेत्रार्थ-जात्यार्यादयो नव भेदाः	३६ - ३७
१०२.	क्षेत्रार्थवक्तव्यतायां सार्द्धपञ्चविंशतिदेशनामानि, तत्तद्देशराज- धानीनामानि च	३७
१०३.	अम्बष्ठ-कलिन्दादयो जात्यार्थभेदाः	३७ - ३८
१०४.	उग्र-भोगादयो कुलार्थभेदाः	३८
१०५.	दौण्डिक-सौत्रिकादयः सप्त कर्मार्यभेदाः	३८
१०६.	शिल्पार्याणां तुन्नाग-तन्तुवायादय एकोनविंशतिर्भेदाः	३८
१०७.	भाषार्थवक्तव्यतायां ब्राह्मी-यवनालिकाद्यष्टादशविधलिपि- नामानि	३८
१०८.	आभिनिवोधिकज्ञानार्थादयः पञ्च ज्ञानार्थभेदाः	३८
१०९ - १९.	दर्शनार्थवक्तव्यता	३८ - ४१
१०९.	दर्शनार्थाणां सरागदर्शनार्थ-वीतरागदर्शनार्थेति भेदद्वयम्	३८
११०.	सरागदर्शनार्थाणां निसर्गदृश्युपदेशरुच्यादयो दश प्रकाराः, तेषां विस्तरतः स्वरूपं च	३९ - ४०
१११ - १९.	वीतरागदर्शनार्थाणां भेद-प्रभेदाः	४० - ४१
१२० - ३८.	चारित्र्यवक्तव्यता	४१ - ४४
१२०.	चारित्र्यार्थाणां सरागचारित्र्य-वीतरागचारित्र्येति भेदद्वयम्	४१

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१२१-२३.	सरागचारित्रार्याणां भेद-प्रभेदाः	४१
१२४-३२.	वीतरागचारित्रार्याणां भेद-प्रभेदाः	४२
१३३-३८.	प्रकारान्तरेण चारित्रार्याणां सामायिकचारित्रार्यादयः पञ्च भेदाः, तेषां प्रभेदाश्च	४३-४४
१३९-४७.	देवजीवप्रज्ञापना चतुर्निकायदेवानां भेद-प्रभेद-नामादितिरूपणम्	४४-४५
१४८-२११.	द्वितीयं स्थानपदम्	४६-८०
१४८-५०.	पृथ्वीकायस्थानानि	४६
१५१-५३.	अप्यायस्थानानि	४६-४७
१५४-५६.	तेजस्कायस्थानानि	४७
१५७-५९.	वायुकायस्थानानि	४८
१६०-६२.	वनस्पतिकायस्थानानि	४८-४९
१६३.	द्वीन्द्रियस्थानानि	४९
१६४.	त्रीन्द्रियस्थानानि	४९
१६५.	चतुरिन्द्रियस्थानानि	४९-५०
१६६.	पञ्चेन्द्रियस्थानानि	५०
१६७-७४.	नैरयिकस्थानानि	
	सप्तविधानां नारकाणां नरकावासानां च वर्णनम्	५०-५५
१७५.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्थानानि	५५
१७६.	मनुष्यस्थानानि	५५
१७७-८७.	भवनवासिदेवस्थानानि	
	दशविधानां भवनवासिनां तद्भवनां च वर्णनम्	५५-६३
१८८-९४.	वानव्यन्तरदेवस्थानानि	
	अष्टविधानां वानव्यन्तराणां तद्भगरावासानां च वर्णनम्	६४-६७
१९५.	ज्योतिष्कदेवस्थानानि	
	ज्योतिष्कदेवानां तद्विमानानां च वर्णनम्	६७-६८
१९६-२१०.	वैमानिकदेवस्थानानि	
	द्वादशकल्पस्थित-अवेयकानुत्तरोपपातिकदेवानां तद्विमानानां च वर्णनम्	६८-७७
२११.	सिद्धस्थानानि	
	ईषत्याम्भारपृथ्वीवर्णनम्, सिद्धजीवानामवगाहना-सुखादि-वर्णनं च	७७-८०
२१२-३३४.	तृतीयं बहुवक्तव्यपदम्	८१-१११
२१२.	दिग्-गत्यादीनि सप्तविंशतिद्वाराणि	८१
२१३-२४.	प्रथमं दिग्द्वारम्	

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
	चतुर्विंशतिदण्डकानां सिद्धानां च दिगनुपातेनाल्पबहुत्वम्	८१-८४
२२५-२६.	द्वितीयं गतिद्वारम्	
	चतुर्गतिकानां जीवानां सिद्धानां चाल्पबहुत्वम्	८४
२२७-३१.	तृतीयमिन्द्रियद्वारम्	
	सभेदानां सेन्द्रियाणामिन्द्रियाणां च जीवानां विस्तरतोऽ- ल्पबहुत्वम्	८४-८६
२३२-५१.	चतुर्थं कायद्वारम्	
	सभेदानां सकायिकानामकायिकानां च जीवानां विस्तरतोऽ- ल्पबहुत्वम्	८६-९६
२५२.	पञ्चमं योगद्वारम्	
	सभेदानां सयोगिनामयोगिनां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९६
२५३.	षष्ठं वेदद्वारम्	
	सभेदानां स्ववेदानामवेदानां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९६
२५४.	सप्तमं कषायद्वारम्	
	सभेदानां सकषायिणामकषायिणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९६-९७
२५५.	अष्टमं लेश्याद्वारम्	
	सभेदानां सलेश्यानामलेश्यानां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९७
२५६.	नवमं सम्यक्त्वद्वारम्	
	सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां जीवानामल्प- बहुत्वम्	९७
२५७-५९.	दशमं ज्ञानद्वारम्	
	आभितिवोधिकादिपञ्चज्ञानिनां त्रिविधाज्ञानिनां च जीवाना- मल्पबहुत्वम्	९७-९८
२६०.	एकादशं दर्शनद्वारम्	
	चतुर्विधदर्शनिनां जीवानामल्पबहुत्वम्	९८
२६१.	द्वादशं संयतद्वारम्	
	संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयतनोअसंयतानां जीवाना- मल्पबहुत्वम्	९८
२६२.	त्रयोदशमुपयोगद्वारम्	
	साकारोपयुक्तानामनाकारोपयुक्तानां च जीवानामल्प- बहुत्वम्	९८
२६३.	चतुर्दशमाहारद्वारम्	
	आहारकाणामनाहारकाणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९८
२६४.	पञ्चदशं भाषकद्वारम्	
	भाषकाणामभाषकाणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	९८-९९
२६५.	षोडशं परीत्तद्वारम्	
	परीत्त-अपरीत्त-नोपरीत्तनोअपरीत्तानां जीवानामल्पबहुत्वम्	९९

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

२६६.	सप्तदशं पर्याप्तद्वारम् पर्याप्त-अपर्याप्त-नोपर्याप्तनोअपर्याप्तानां जीवानामल्पबहुत्वम्	९९
२६७.	अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम् सूक्ष्म-बादर-नोसूक्ष्मनोबादराणां जीवानामल्पबहुत्वम्	९९
२६८.	एकोनविंशं संज्ञिद्वारम् संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिनां जीवानामल्पबहुत्वम्	९९
२६९.	विंशं भवद्वारम् भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक-नोभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	९९
२७० - ७३.	एकविंशमस्तिकायद्वारम् धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायाकाशास्तिकाय-जीवास्तिकाय- -पुद्गलास्तिकायाद्वासमयानां द्रव्यार्थता-प्रदेशार्थतादिना विस्तरतोऽल्पबहुत्वम्	१०० - १
२७४.	द्वाविंशं चरमद्वारम् चरमाणामचरमाणां च जीवानामल्पबहुत्वम्	१०१
२७५.	त्रयोविंशं जीवद्वारम् जीव-पुद्गल-अद्वासमय-सर्वद्रव्य-सर्वप्रदेश-सर्वपर्यवाणा- मल्पबहुत्वम्	१०१
२७६ - २२४.	चतुर्विंशं क्षेत्रद्वारम् जीवानां चतुर्विंशतिदण्डकानां च क्षेत्रानुपातेनाल्पबहुत्वम्	१०१ - ७
३२५.	पञ्चविंशं बन्धद्वारम् आयुःकर्मबन्धकानां पर्याप्तापर्याप्त-सुप्त-जागर-समवहतादीनां जीवानामल्पबहुत्वम्	१०७
३२६ - ३३.	षड्विंशं पुद्गलद्वारम् ३२६ - २९. पुद्गलानां द्रव्याणां च क्षेत्र-दिगनुपातेनाल्पब- हुत्वम्, ३३० - ३३. सङ्ख्येयप्रदेशकादीनामेकप्रदेशाव- गाढादीनामेकसमयस्थितिकादीनामेकगुणकालकादीनां च पुद्गलानां द्रव्यार्थता-प्रदेशार्थतादिना विस्तरतोऽल्प- बहुत्वम्	१०७ - ९
३३४.	सप्तविंशं सर्वजीवाल्लवबहुत्वप्ररूपकं महादण्डकद्वारम्	१०९ - ११
३३५ - ४३७.	चतुर्थं स्थितिपदम्	११२ - ३५
३३५ - ४२.	नैरयिकस्थितिप्रज्ञापना	११२ - १४
३४३ - ४४.	देव-देवीस्थितिप्रज्ञापना	११४
३४५ - ५३.	भवनवासिदेवस्थितिप्रज्ञापना	११४ - १६
३५४ - ६८.	एकेन्द्रियजीवस्थितिप्रज्ञापना	११६ - १९
२.	द्वीन्द्रियजीवस्थितिप्रज्ञापना	११९

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
३७०.	त्रीन्द्रियजीवस्थितिप्रज्ञापना	११९
३७१.	चतुरिन्द्रियजीवस्थितिप्रज्ञापना	१२०
३७२ - ८९.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकस्थितिप्रज्ञापना	१२० - २४
३९० - ९२.	मनुष्यस्थितिप्रज्ञापना	१२४
३९३ - ९४.	वानव्यन्तरदेवस्थितिप्रज्ञापना	१२४ - २५
३९५ - ४०६.	ज्योतिष्कदेवस्थितिप्रज्ञापना	१२५ - २८
४०७ - ३७.	वैमानिकदेवस्थितिप्रज्ञापना	१२८ - ३५
४३८ - ५५८.	पञ्चमं विशेषपदम्	१३६ - ६२
४३८.	पर्यवाणां जीवपर्यव-अजीवपर्यवेति भेदद्वयम्	१३६
४३९ - ९९.	जीवपर्यवाः	१३६ - ५१
४३९.	जीवपर्यवाणां सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तपदैर्निरूपणम्	१३६
४४०.	नैरयिकाणां पर्यवाः	१३६ - ३७
४४१ - ४२.	भवनवासिनां पर्यवाः	१३७ - ३८
४४३ - ४७.	एकेन्द्रियाणां पर्यवाः	१३८ - ३९
४४८ - ५०.	विकलेन्द्रियाणां पर्यवाः	१३९
४५१.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पर्यवाः	१३९
४५२.	मनुष्याणां पर्यवाः	१३९ - ४०
४५३.	वानव्यन्तराणां पर्यवाः	१४०
४५४.	ज्योतिष्क-वैमानिकानां पर्यवाः	१४०
४५५ - ६३.	अवगाहनादिभिर्नैरयिकाणां पर्यवाः	१४० - ४२
४६४ - ६५.	अवगाहन्या भवनवासिनां पर्यवाः	१४३
४६६ - ७२.	अवगाहनादिभिरेकेन्द्रियाणां पर्यवाः	१४३ - ४४
४७३ - ८०.	अवगाहनादिभिर्विकलेन्द्रियाणां पर्यवाः	१४४ - ४६
४८१ - ८८.	अवगाहनादिभिः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पर्यवाः	१४६ - ४८
४८९ - ९८.	अवगाहनादिभिर्मनुष्याणां पर्यवाः	१४८ - ५०
४९९.	अवगाहनादिभिर्वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकानां पर्यवाः	१५१
५०० - ५८.	अजीवपर्यवाः	१५१ - ६२
५००.	अजीवपर्यवाणां रूप्यरूपीति भेदद्वयम्	१५१
५०१.	धर्मास्तिकायादयो द्वाविधा अरूप्यजीवपर्यवाः	१५१
५०२.	स्कन्धाद्यश्चतुर्विधा रूप्यजीवपर्यवाः	१५१
५०३.	रूप्यजीवपर्यवाणामनन्तत्वनिरूपणम्	१५१
५०४.	परमाणुपुद्गलानामनन्तपर्यवत्वनिरूपणम्	१५१ - ५२
५०५ - ५८.	द्विप्रदेशकादीनां पुद्गलानां प्रदेश-अवगाह-स्थिति-गुणैः पर्यवनिरूपणम्	१५२ - ६२

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

५५९-६९२.	षष्ठं व्युत्क्रान्तिपदम्	१६३-८३
५५९.	द्वादश-चतुर्विंशत्याद्यष्टद्वारनिरूपणम्	१६३
५६०-६८.	प्रथमं द्वादशद्वारम्	१६३
५६०-६३.	चतुर्विधगतावुपपातविरहकालनिरूपणम्	१६३
५६४.	सिद्धगतौ सेधनाकालविरहनिरूपणम्	१६३
५६५-६८.	चतुर्विधगतावुद्धर्तनाकालविरहनिरूपणम्	१६३
५६९-६०८.	द्वितीयं चतुर्विंशतिद्वारम्	१६४-६७
५६९-७५.	रत्नप्रभादिनैरयिकेषूपपातविरहकालनिरूपणम्	१६४
५७६-७८.	असुरकुमारादिभवनवासिपूपपातविरहकालनिरूपणम्	१६४
५७९-८०.	एकेन्द्रियेषूपपातविरहकालनिरूपणम्	१६४
५८१-८२.	विकलेन्द्रियेषूपपातविरहकालनिरूपणम्	१६४-६५
५८३-८८.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-मनुष्य-वानव्यन्तर-ज्योतिष्केषूपपात- विरहकालनिरूपणम्	१६५
५८९-६०५.	सौधर्मादिकरूपस्थ-त्रैवेयकानुत्तरविमानदेवेषूपपातविरहकाल- निरूपणम्	१६५-६६
६०६.	सिद्धेषु सेधनाविरहकालनिरूपणम्	१६६
६०७.	रत्नप्रभादिनैरयिकारूधेषु वानव्यन्तरपर्यवसानेषूपद्धर्तनाविरह- कालनिरूपणम्	१६६
६०८.	ज्योतिष्क-वैमानिकेषु च्यवनविरहकालनिरूपणम्	१६७
६०९-२५.	तृतीयं सान्तरद्वारम्	१६७-६८
६०९-१२.	चतुर्विधगतौ सान्तर-निरन्तरोपपातवक्तव्यता	१६७
६१३-२२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सान्तर-निरन्तरोपपातवक्तव्यता	१६७-६८
६२३.	सिद्धेषु सान्तर-निरन्तरसेधनावक्तव्यता	१६८
६२४-२५.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सान्तर-निरन्तरोद्धर्तनावक्तव्यता	१६८
६२६-३८.	चतुर्थमेकसमयद्वारम्	१६८-६९
६२६-३५.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकसमयोपपातवक्तव्यता	१६८-१६९
६३६.	सिद्धानामेकसमयसेधनावक्तव्यता	१६९
६३७-३८.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकसमयोद्धर्तनावक्तव्यता	१६९
६३९-६५.	पञ्चमं कुतःद्वारम्	१६९-७०
६३९-४७.	नैरयिकेष्वोवतो विभागशश्रोपपातवक्तव्यता	१६९-७४
६४८-४९.	असुरकुमारादिभवनवासिपूपपातवक्तव्यता	१७४
६५०-५३.	एकेन्द्रियेषूपपातवक्तव्यता	१७४-७६
६५४.	विकलेन्द्रियेषूपपातवक्तव्यता	१७६
६५५-५८.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-मनुष्य-वानव्यन्तर-ज्योतिष्केषूपपात- वक्तव्यता	१७६-७७
६५९-६५.	वैमानिकदेवेषूपपातवक्तव्यता	१७७-७८

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
६६६ - ७६.	पष्ठमुद्वर्तनाद्वारम् चतुर्विंशतिदण्डकेषु गत्यन्तरगमनवक्तव्यता	१७८ - ८१
६७६ - ८३.	सप्तमं परभवायुष्कद्वारम् चतुर्विंशतिदण्डकेषु परभवायुर्वन्धकालवक्तव्यता	१८१ - ८२
६८४ - ९२.	अष्टममार्कषद्वारम् चतुर्विंशतिदण्डकेषु जातिनामनिधत्तायुष्कादिषड्विधायुर्वन्ध- निरूपणम्, तदाकर्षाः, अल्पबहुत्वं च	१८२ - ८३
६९३ - ७२४.	सप्तममुच्छ्वासपदम्	१८४ - ८७
६९३.	नैरयिकाणामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
६९४ - ९६.	भवनवासिनामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
६९७ - ९८.	एकेन्द्रियारूढानां मनुष्यावसानानामुच्छ्वासविरहकाल- निरूपणम्	१८४
६९९.	वानव्यन्तराणामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
७००.	ज्योतिष्काणामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४
७०१ - २४.	वैमानिकानामुच्छ्वासविरहकालनिरूपणम्	१८४ - ८७
७२५ - ३७.	अष्टमं संज्ञापदम्	१८८ - ८९
७२५.	संज्ञाभेदप्ररूपणम् - दशविधसंज्ञानामानि	१८८
७२६ - २९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु दशविधसंज्ञासद्भावनिरूपणम्	१८८
७३० - ३१.	नैरयिकाणां संज्ञाविचारोऽल्पबहुत्वं च	१८८
७३२ - ३३.	तिर्यग्योनिकानां " "	१८९
७३४ - ३५.	मनुष्याणां " "	१८९
७३६ - ३७.	देवानां " "	१८९
७३८ - ७३.	नवमं योनिपदम्	१९० - ९२
७३८.	योनेः शीतादिभेदत्रयम्	१९०
७३९ - ५२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु शीतादियोनिवक्तव्यता	१९० - ९१
७५३.	शीतादियोनिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	१९१
७५४ - ६३.	प्रकारान्तरेण सचित्तादियोनिभेदत्रयनिरूपणम्	१९१
७५४.	योनेः सचित्तादिभेदत्रयम्	१९१
७५५ - ६२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सचित्तादियोनिवक्तव्यता	१९१
७६३.	सचित्तादियोनिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	१९१
७६४ - ७२.	प्रकारान्तरेण संवृतादियोनिभेदत्रयनिरूपणम्	१९१ - ९२
७६४.	योनेः संवृतादिभेदत्रयम्	१९१ - ९२
७६५ - ७१.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु संवृतादियोनिवक्तव्यता	१९२

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
७७२.	संवृतादियोनिकानां जीवानामल्पबहुत्वम्	१९२
७७३.	मनुष्येषु कूर्मोज्ञता शङ्खावर्ता वंशीपत्रा चेति योनेः भेदत्रयम्, तत्रोत्पत्तिमतां निरूपणं च	१९२
७७४-८२९.	दशमं चरमपदम्	१९३-२०८
७७४-७६.	लोकालोकयोश्चरमाचरमविभागः	१९३
७७७-८०.	चरमाचरमादिपदानां द्रव्यार्थतादिभिरल्पबहुत्वम्	१९३-९४
७८१-९०.	परमाणुपुद्गलानां चरमाचरमादिविभागः	१९४-२०२
७९१-८०१.	संस्थाननामानि, संस्थानापेक्षया विभागशः प्रमाण-प्रदेश- अवगाढ-चरमादिवक्तव्यता च	२०२-३
८०२-६.	संस्थानापेक्षया विभागशश्चरमादीनां द्रव्यार्थतादिभिरल्प- बहुत्वम्	२०३-५
८०७-९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु गतिचरमाचरमनिरूपणम्	२०५
८१०-११.	स्थितिचरमाचरमनिरूपणम्	२०५
८१२-१३.	भवचरमाचरमनिरूपणम्	२०५-६
८१४-१५.	भाषाचरमाचरमनिरूपणम्	२०६
८१६-१७.	आनप्राणचरमाचरमनिरूपणम्	२०६
८१८-१९.	आहारचरमाचरमनिरूपणम्	२०६
८२०-२१.	भावचरमाचरमनिरूपणम्	२०६-७
८२२-२३.	वर्णचरमाचरमनिरूपणम्	२०७
८२४-२५.	गन्धचरमाचरमनिरूपणम्	२०७
८२६-२७.	रसचरमाचरमनिरूपणम्	२०७
८२८-२९.	स्पर्शचरमाचरमनिरूपणम्	२०८
८३०-९००.	एकादशं भाषापदम्	२०९-२२
८३०-३१.	अवधारणीभाषाप्ररूपणम्	२०९
८३२-३८.	प्रज्ञापनीभाषाप्ररूपणम्	२०९-१०
८३९-४८.	मन्दकुमारादिभाषासंज्ञाप्ररूपणम्	२१०-११
८४९-५७.	एकवचनादिभाषाप्ररूपणम्	२११-१३
८५८-५९.	भाषास्वरूपम्	२१३
८६०-६६.	८६०. पर्याप्तिका अपर्याप्तिका चेति भाषाभेदद्वयम्, ८६१. पर्याप्तिकाया भाषायाः सत्या-मृषेति भेदद्वयम्, ८६२. सत्याया भाषाया जनपदसत्याप्रभृतयो दश भेदाः, ८६३. मृषाभाषायाः क्रोधनिःसृताप्रभृतयो दश भेदाः, ८६४. अपर्याप्तिकाया भाषायाः सत्यामृषा असत्यामृषा चेति भेदद्वयम्, ८६५. सत्यामृषाया भाषाया उत्पन्नमिश्रिका- प्रभृतयो दश भेदाः, ८६६. असत्यामृषाया भाषाया आमन्त्रणीप्रभृतयो द्वादश भेदाः	२१३-१४

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
८६७-६९.	भाषकाभाषकप्ररूपणम्	२१४-१५
८७०-७६.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु सत्यादिभाषाजातप्ररूपणम्	२१५-१६
८७७-९५.	भाषाद्रव्यग्रहणादिप्ररूपणम्	२१६-२१
८८०-८६.	खण्डभेद-प्रतरभेदादिभिः प्रकारैर्भाषाद्रव्यभेदनप्ररूपणम्	२१९
८९६-९००.	एकवचन-द्विवचनादिषोडशविधवचनप्ररूपणादि	२२१-२२
९०१-२४.	द्वादशं शरीरपदम्	२२३-२८
९०१.	औदारिकादिपञ्चविधशरीरनामानि	२२३
९०२-९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु शरीरप्ररूपणा	२२३
९१०.	ओषेन बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२३-२४
९११.	नैरयिकाणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२४-२५
९१२-१३.	भवनवासिनां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२५
९१४-१७.	एकेन्द्रियाणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२५-२६
९१८-१९.	विकलेन्द्रियाणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२६-२७
९२०.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२७
९२१.	मनुष्याणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२७-२८
९२२.	वानव्यन्तराणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२८
९२३.	ज्योतिष्काणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२८
९२४.	वैमानिकानां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२८
९२५-५७.	त्रयोदशं परिणामपदम्	२२९-३३
९२५.	परिणामस्य जीवपरिणामाजीवपरिणामेति भेदद्वयम्	२२९
९२६-३७.	जीवपरिणामस्य गतिपरिणामाद्या दश भेदाः, तत्रभेदाश्च	२२९-३०
९३८.	नैरयिकाणां परिणामाः	२३०
९३९.	भवनवासिनां परिणामाः	२३१
९४०.	एकेन्द्रियाणां परिणामाः	२३१
९४१.	विकलेन्द्रियाणां परिणामाः	२३१
९४२.	पञ्चेन्द्रियतिरश्चां परिणामाः	२३१
९४३.	मनुष्याणां परिणामाः	२३२
९४४-४६.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकानां परिणामाः	२३२
९४७-५७.	अजीवपरिणामस्य बन्धनपरिणामाद्या दश भेदाः, तत्रभेदाश्च	२३२-३३
९५८-७१.	चतुर्दशं कपायपदम्	२३४-३६
९५८.	कपायस्य क्रोधाद्यश्चत्वारो भेदाः	२३४
९५९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु कपायप्ररूपणा	२३४
९६०.	कपायप्रतिष्ठाप्ररूपणा-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वात्मप्रतिष्ठितादि- भेदैः क्रोधादीनां निरूपणम्	२३४

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१६१.	कषायोत्पत्तिप्ररूपणा-क्षेत्रादि प्रतीत्य चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रोधाद्युत्पत्तिनिरूपणम्	२३४
१६२ - ६३.	कषायप्रभेदप्ररूपणा-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वनन्तानुबन्ध्यादिभेदैराभोगनिर्वृतितादिभेदैश्च क्रोधादीनां निरूपणम्	२३४ - ३५
१६४ - ७१.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु कषायैः कर्मचयोपचयादिप्ररूपणा	२३५ - ३६
१७२ - १०६७.	पञ्चदशमिन्द्रियपदम्	२३७ - ६०
१७२ - १००५.	प्रथमोद्देशकः	२३७ - ४८
१७२.	प्रथमोद्देशकस्य संस्थानादीनि चतुर्विंशतिद्वाराणि	२३७
१७३.	इन्द्रियाणां श्रोत्रेन्द्रियादयः पञ्च भेदाः	२३८
१७४.	प्रथमं संस्थानद्वारम्-इन्द्रियाणां संस्थानानि	२३८
१७५.	द्वितीयं बाह्यत्वद्वारम्-इन्द्रियाणां बाह्यत्वनिरूपणम्	२३९
१७६.	तृतीयं पृथुत्वद्वारम्-इन्द्रियाणां पृथुत्वनिरूपणम्	२३९
१७७.	चतुर्थं कतिप्रदेशद्वारम्-इन्द्रियाणां प्रदेशप्रमाणनिरूपणम्	२३९
१७८.	पञ्चममवगाहद्वारम्-इन्द्रियाणामवगाहनानिरूपणम्	२३९
१७९ - ८२.	षष्ठमल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामिन्द्रियाणामवगाहनार्थता - दिनाऽल्पबहुत्वम्	२३९ - ४१
१८३ - ८९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु संस्थानादिद्वारषट्कनिरूपणम्	२४१ - ४३
१९०.	सप्तमं स्पष्टद्वारम्-स्पष्टानां शब्द-रूपादीनां संवेदनानिरूपणम्	२४३
१९१.	अष्टमं प्रविष्टद्वारम्-प्रविष्टानां शब्दादीनां सविषयत्वम्	२४४
१९२.	नवमं विषयद्वारम्-पञ्चानामिन्द्रियाणां विषयभूतक्षेत्रनिरूपणम्	२४४
१९३ - १४.	दशममनगारद्वारम्-मारणान्तिकसमुद्घातगतस्य भावितात्मनोऽनगारस्य चरमनिर्जरापुद्गलानां सूक्ष्मत्वनिरूपणम्	२४४ - ४५
१९५ - १८.	एकादशमाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु निर्जरापुद्गलाहरणस्य ज्ञाताज्ञातत्व-दृष्टादृष्टत्वविचारः	२४५ - ४६
१९९.	द्वादशतोऽष्टादशपर्यन्तमादर्शादिद्वारसप्तकम्-आदर्शासि-मण्यादिषु स्वप्रतिबिम्बं पश्यन् आदर्शमात्मानं प्रतिबिम्बं च प्रतीत्य किं पश्यति ? इत्येतद्विषयो विचारः	२४६-२४७
१०००.	एकोनविंशं कम्बलद्वारम्-आवेष्टित-परिवेष्टितकम्बलशाट-कावकाशान्तरविचारः	२४७
१००१.	विंशतितमं स्थूणाद्वारम्-ऊर्ध्व-तिर्यगायतस्थितस्थूणावकाशान्तरविचारः	२४७
१००२.	पृकविंशं थिगलद्वारम्-आकाशखण्डमाश्रित्य पञ्चास्ति-कायस्पर्शविषयको विचारः	२४७

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
८६७-६९.	भाषकाभाषकप्ररूपणम्	२१४-१५
८७०-७६.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु सत्यादिभाषाजातप्ररूपणम्	२१५-१६
८७७-९५.	भाषाद्रव्यग्रहणादिप्ररूपणम्	२१६-२१
८८०-८६.	खण्डभेद-प्रतरभेदादिभिः प्रकारैर्भाषाद्रव्यभेदनप्ररूपणम्	२१९
८९६-९००.	एकवचन-द्विवचनादिषोडशविधवचनप्ररूपणादि	२२१-२२
९०१-२४.	द्वादशं शरीरपदम्	२२३-२८
९०१.	औदारिकादिपञ्चविधशरीरनामानि	२२३
९०२-९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु शरीरप्ररूपणा	२२३
९१०.	ओषेन बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२३-२४
९११.	नैरयिकाणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२४-२५
९१२-१३.	भवनवासिनां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२५
९१४-१७.	एकेन्द्रियाणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२५-२६
९१८-१९.	विकलेन्द्रियाणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२६-२७
९२०.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिकानां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२७
९२१.	मनुष्याणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२७-२८
९२२.	वानव्यन्तराणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२८
९२३.	ज्योतिष्काणां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२८
९२४.	वैमानिकानां बद्ध-मुक्तशरीरप्ररूपणा	२२८
९२५-५७.	त्रयोदशं परिणामपदम्	२२९-३३
९२५.	परिणामस्य जीवपरिणामाजीवपरिणामेति भेदद्वयम्	२२९
९२६-३७.	जीवपरिणामस्य गतिपरिणामाद्या दश भेदाः, तत्प्रभेदाश्च	२२९-३०
९३८.	नैरयिकाणां परिणामाः	२३०
९३९.	भवनवासिनां परिणामाः	२३१
९४०.	एकेन्द्रियाणां परिणामाः	२३१
९४१.	विकलेन्द्रियाणां परिणामाः	२३१
९४२.	पञ्चेन्द्रियतिरिक्तां परिणामाः	२३१
९४३.	मनुष्याणां परिणामाः	२३२
९४४-४६.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकानां परिणामाः	२३२
९४७-५७.	अजीवपरिणामस्य बन्धनपरिणामाद्या दश भेदाः, तत्प्रभेदाश्च	२३२-३३
९५८-७१.	चतुर्दशं कपायपदम्	२३४-३६
९५८.	कपायस्य क्रोधाद्यश्चत्वारो भेदाः	२३४
९५९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु कपायप्ररूपणा	२३४
९६०.	कपायप्रतिष्ठाप्ररूपणा-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वात्मप्रतिष्ठितादि- भेदैः क्रोधादीनां निरूपणम्	२३४

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१६१.	कषायोत्पत्तिप्ररूपणा-क्षेत्रादि प्रतीत्य चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रोधाद्युत्पत्तिनिरूपणम्	२३४
१६२ - ६३.	कषायप्रभेदप्ररूपणा-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वनन्तानुबन्धादिभे- दैराभोगनिर्वर्तितादिभेदैश्च क्रोधादीनां निरूपणम्	२३४ - ३५
१६४ - ७१.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु कषायैः कर्मचयोपचयादिप्ररूपणा	२३५ - ३६
१७२ - १०६७.	पञ्चदशमिन्द्रियपदम्	२३७ - ६०
१७२ - १००५.	प्रथमोद्देशकः	२३७ - ४८
१७२.	प्रथमोद्देशकस्य संस्थानादीनि चतुर्विंशतिद्वाराणि	२३७
१७३.	इन्द्रियाणां श्रोत्रेन्द्रियादयः पञ्च भेदाः	२३८
१७४.	प्रथमं संस्थानद्वारम्-इन्द्रियाणां संस्थानानि	२३८
१७५.	द्वितीयं बाहल्यद्वारम्-इन्द्रियाणां बाहल्यनिरूपणम्	२३९
१७६.	तृतीयं पृथुत्वद्वारम्-इन्द्रियाणां पृथुत्वनिरूपणम्	२३९
१७७.	चतुर्थं कतिप्रदेशद्वारम्-इन्द्रियाणां प्रदेशप्रमाणनिरूपणम्	२३९
१७८.	पञ्चममवगाढद्वारम्-इन्द्रियाणामवगाहनानिरूपणम्	२३९
१७९ - ८२.	षष्ठमल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामिन्द्रियाणामवगाहनार्थता - दिनाऽल्पबहुत्वम्	२३९ - ४१
१८३ - ८९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु संस्थानादिद्वारषट्कनिरूपणम्	२४१ - ४३
१९०.	सप्तमं स्पृष्टद्वारम्-स्पृष्टानां शब्द-रूपादीनां संवेदनानि- रूपणम्	२४३
१९१.	अष्टमं प्रविष्टद्वारम्-प्रविष्टानां शब्दादीनां सविषयत्वम्	२४४
१९२.	नवमं विषयद्वारम्-पञ्चानामिन्द्रियाणां विषयभूतक्षेत्रनि- रूपणम्	२४४
१९३ - १४.	दशममनगारद्वारम्-मारणान्तिकसमुद्घातगतस्य भाविता- त्मनोऽनगारस्य चरमनिर्जरापुद्गलानां सूक्ष्मत्वनिरूपणम्	२४४ - ४५
१९५ - १८.	एकादशमाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु निर्जरापुद्गलाह- रणस्य ज्ञाताज्ञातत्व-दृष्टादृष्टत्वविचारः	२४५ - ४६
१९९.	द्वादशतोऽष्टादशपर्यन्तमादशादिद्वारसप्तकम्-आदर्शासि-म- ण्यादिषु स्वप्रतिबिम्बं पश्यन् आदर्शमात्मानं प्रतिबिम्बं च प्रतीत्य किं पश्यति ? इत्येतद्विषयो विचारः	२४६ - २४७
१०००.	एकोनविंशं कम्बलद्वारम्-आवेष्टित-परिवेष्टितकम्बलशाट- कावकाशान्तरविचारः	२४७
१००१.	विंशतितमं स्थूणाद्वारम्-ऊर्ध्व-तिर्यगायतस्थितस्थूणाव- काशान्तरविचारः	२४७
१००२.	एकविंशं थिगलद्वारम्-आकाशखण्डमाश्रित्य पञ्चास्तित- कायस्पर्शविषयको विचारः	२४७

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१००३.	द्वाविंशं द्वीपोदधिद्वारम्—द्वीपोदधीन् प्रतीत्य पञ्चास्तिकाय- स्पर्शविषयको विचारः	२४७—४८
१००४.	त्रयोविंशं लोकद्वारम्—लोकमाश्रित्य पञ्चास्तिकायस्पर्श- विषयको विचारः	२४८
१००५.	चतुर्विंशमलोकद्वारम्—अलोकमाश्रित्य पञ्चास्तिकायस्पर्श- विषयको विचारः	२४८
१००६—६७.	द्वितीयोद्देशकः	२४९—६०
१००६.	द्वितीयोद्देशकस्येन्द्रियोपचयादीनि द्वादश द्वाराणि	२४९
१००७—८.	प्रथममिन्द्रियोपचयद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रादी- न्द्रियोपचयनिरूपणम्	२४९
१००९.	द्वितीयमिन्द्रियनिर्वर्तनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रा- दीन्द्रियनिर्वर्तनानिरूपणम्	२४९
१०१०.	तृतीयमिन्द्रियनिर्वर्तनासमयद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चानामिन्द्रियाणां निर्वर्तनासमयनिरूपणम्	२४९
१०११.	चतुर्थमिन्द्रियलब्धिद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रादी- न्द्रियलब्धिनिरूपणम्	२५०
१०१२.	पञ्चममिन्द्रियोपयोगाद्वाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रादीन्द्रियोपयोगाद्धानिरूपणम्	२५०
१०१३.	षष्ठमिन्द्रियोपयोगाद्वाल्लपबहुत्वद्वारम्—पञ्चानामिन्द्रियाणा- मुपयोगाद्वाया अल्पबहुत्वम्	२५०—५१
१०१४.	सप्तममिन्द्रियावगाहनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रा- दीन्द्रियावगाहनानिरूपणम्	२५१
१०१५.	अष्टममिन्द्रियापायद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रादी- न्द्रियापायनिरूपणम्	२५१
१०१६.	नवममिन्द्रियेहाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु श्रोत्रादीन्द्रिये- हानिरूपणम्	२५१
१०१७—२३.	दशममवग्रहद्वारम्—अवग्रहस्यार्थावग्रह-व्यञ्जनावग्रहेति भेदद्वयम्, व्यञ्जनावग्रहस्य चत्वारो भेदाः, अर्थावग्रहस्य पद् भेदाः, चतुर्विंशतिदण्डकेष्ववग्रहनिरूपणं च	२५१—५२
१०२४.	प्रकारान्तरेणेन्द्रियाणां द्रव्येन्द्रिय-भावेन्द्रियेति भेदद्वयम्	२५२
१०२५—५५.	एकादशं द्रव्येन्द्रियद्वारम्—१०२५. द्रव्येन्द्रियस्याष्टौ भेदाः, १०२६—२९. चतुर्विंशतिदण्डकेषु द्रव्येन्द्रियसङ्ख्यानि- रूपणम्, १०३०—३७. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्व-पृथक्त्वा- भ्यामतीत-ब्रह्मपुरस्कृतद्रव्येन्द्रियसङ्ख्यानिरूपणम्, १०३८— ५५. चतुर्विंशतिदण्डकेषु चतुर्विंशतिदण्डकान् प्रतीत्यैकत्व- पृथक्त्वाभ्यामतीत-ब्रह्म-पुरस्कृतद्रव्येन्द्रियसङ्ख्यानिरूपणं च	२५२—५९

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१०५६-६७. द्वादशं भावेन्द्रियद्वारम्-१०५६. भावेन्द्रियस्य श्रोत्रेन्द्रियादयः पञ्च भेदाः, १०५७. चतुर्विंशतिदण्डकेषु भावेन्द्रियसङ्ख्यानिरूपणम्, १०५८-६४. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्व-पृथक्त्वाभ्यामतीत-बद्ध-पुरस्कृतभावेन्द्रियसङ्ख्यानिरूपणम्, १०६५-६७. चतुर्विंशतिदण्डकेषु चतुर्विंशतिदण्डकान् प्रतीत्यैकत्व-पृथक्त्वाभ्यामतीत-बद्ध-पुरस्कृतभावेन्द्रियसङ्ख्यानिरूपणम्

२५९-६०

१०६८-११२२. षोडशं प्रयोगपदम्

२६१-७३

१०६८. प्रयोगस्य सत्यमनःप्रयोगादयः पञ्चदश भेदाः २६१
 १०६९. जीवेष्वोघेन प्रयोगप्ररूपणम् २६१
 १०७०-७६. चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोघेन प्रयोगप्ररूपणम् २६१-६२
 १०७७. जीवेषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम् २६२
 १०७८-८२. नैरयिक-भवनवास्येकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-
 निकेषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम् २६२-६३
 १०८३. मनुष्येषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम् २६३-६७
 १०८४. वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकेषु विभागेन प्रयोगप्ररूपणम् २६७-६८
 १०८५. गतिप्रपातस्य प्रयोगगत्यादिकाः पञ्च भेदाः २६८
 १०८६-८९. प्रयोगगतिप्ररूपणम्-प्रयोगगतेः सत्यमनःप्रयोगगत्या-
 दिकाः पञ्चदश भेदाः, चतुर्विंशतिदण्डकेषु प्रयोगगतिप्ररू-
 पणं च २६८
 १०९०. ततगतिप्ररूपणम् २६८
 १०९१. वन्धनच्छेदनगतिप्ररूपणम् २६८
 १०९२-११०४. उपपातगतिप्ररूपणम्-क्षेत्रोपपातगति-भवोपपातगति-
 नोभवोपपातगतीनां विस्तरतः प्ररूपणम् २६९-७१
 ११०५-२२. विहायोगतिप्ररूपणम्-स्पृशद्वत्यादिसप्तदशविधानां गती-
 नां विस्तरतः प्ररूपणम् २७१-७३

११२३-१२५८. सप्तदशं लेश्यापदम्

२७४-३०३

११२३-५५. प्रथमोद्देशकः

२७४-७९

११२३. प्रथमोद्देशकस्य समाहारादीनि सप्त द्वाराणि २७४
 ११२४-३०. नैरयिकेषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम् २७४-७५
 ११३३-३६. भवनवासिषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम् २७५-७६
 ११३७-४०. एकैन्द्रिय-विकलेन्द्रियेषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम् २७६
 ११४१. पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो निकेषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम् २७७
 ११४२. मनुष्येषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम् २७७-७८

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
११४३-४४.	ज्ञानव्यन्तर-ज्योतिष्क-त्रैन्नानिकेषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम्	२७८
११४५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोद्येन समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम्	२७८
११४६-५५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेन समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम्	२७८-७९
११५६-९८. द्वितीयोद्देशकः		२७९-८७
११५६.	लेश्यायाः कृष्णलेश्यादिषड्भेदनिरूपणम्	२७९
११५७-६९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु लेश्याप्ररूपणम्	२७९-८१
११७०.	सलेश्येषु जीवेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्यबहुत्वम्	२८१
११७१-९०.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्यबहुत्वम्	२८१-८६
११९१.	सलेश्येषु जीवेषु ऋद्धयल्पबहुत्वम्	२८६
११९२-९८.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु ऋद्धयल्पबहुत्वम्	२८६-८७
११९९-१२१७. तृतीयोद्देशकः		२८७-९१
११९९-१२००.	नयमतेन चतुर्विंशतिदण्डकेषूपपातोद्वर्तनाप्ररूपणम्	२८७
१२०१-७.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोद्येनोपपातोद्वर्तनाप्ररूपणम्	२८७-८८
१२०८-१४.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेनोपपातोद्वर्तनाप्ररूपणम्	२८८-८९
१२१५.	कृष्णादिलेश्येषु नैरथिकेष्ववधिसेत्रप्ररूपणम्	२९०-९१
१२१६-१७.	कृष्णादिलेश्येषु जीवेषु ज्ञानप्ररूपणम्	२९१
१२१८-४९. चतुर्थोद्देशकः		२९१-३००
१२१८.	चतुर्थोद्देशकस्य परिणामादीनि पञ्चदश द्वाराणि	२९१
१२१९.	लेश्यायाः षड् भेदाः	२९२
१२२०-२५.	प्रथमं परिणामद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां पारस्परिकपरिणामनप्ररूपणम्	२९२-९३
१२२६-३२.	द्वितीयं वर्णद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां वर्णप्ररूपणम्	२९३-९५
१२३३-३८.	तृतीयं रसद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां रसप्ररूपणम्	२९५-९७
१२३९-४१.	चतुर्थोद्देशकपर्यन्तानि गन्ध-शुद्ध-अप्रशस्त-संक्लिष्ट-उष्ण-नातिद्वाराणि-कृष्णादिलेश्यानां गन्धादिप्ररूपणम्	२९७
१२४२.	दशमं परिणामद्वारम्-कृष्णादिलेश्यासु परिणामसङ्ख्याप्ररूपणम्	२९७
१२४३.	एकादशं प्रदेशद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तप्रदेशात्मकत्वप्रतिपादनम्	२९८

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१२४४.	द्वादशमवगाहनाद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्ख्येयप्रदेशावगाहत्वप्रतिपादनम्	२९८
१२४५.	त्रयोदशं वर्गणाद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तवर्गणाप्रतिपादनम्	२९८
१२४६.	चतुर्दशं स्थानद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्ख्येयस्थानप्रतिपादनम्	२९९
१२४७ - ४९.	पञ्चदशमल्पबहुत्वद्वारम् - पङ्क्तेश्यास्थानानामल्पबहुत्वम्	२९९ - ३००
१२५० - ५५.	पञ्चमोद्देशकः	३०० - १
१२५०.	लेश्याभेदप्ररूपणम्	३००
१२५१ - ५५.	लेश्यानां रूप-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शैः पारस्परिकपरिणामन-विचारः	३०० - १
१२५६ - ५८.	षष्ठोद्देशकः	३०१ - ३
१२५६.	लेश्याभेदप्ररूपणम्	३०१
१२५७.	मनुष्येषु लेश्याप्ररूपणम्	३०१ - २
१२५८.	लेश्यां प्रतीत्य गर्भोत्पत्तिप्ररूपणम्	३०२ - ३
१२५९-१३९८.	अष्टादशं कायस्थितिपदम्	३०४ - १७
१२५९.	अष्टादशपदस्य जीव-गत्यादीनि द्वाविंशतिद्वाराणि	३०४
१२६०.	प्रथमं जीवद्वारम् - जीवस्थितिप्ररूपणम्	३०४
१२६१ - ७०.	द्वितीयं गतिद्वारम् - नैरयिकादिगतीराश्रित्य स्थितिप्ररूपणम्	३०४ - ५
१२७१ - ८४.	तृतीयमिन्द्रियद्वारम् - एकेन्द्रियादिषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०५ - ६
१२८५ - १३२०.	चतुर्थं कायद्वारम् - षड्विधकायिकेषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०६ - ९
१३२१ - २५.	पञ्चमं योगद्वारम् - मनो-वाक्-काययोग्यादिषु कायस्थिति-प्ररूपणम्	३०९ - १०
१३२६ - ३०.	षष्ठं वेदद्वारम् - स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१०
१३२१ - ३४.	सप्तमं कषायद्वारम् - क्रोधकषायिकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१० - ११
१३३५ - ४२.	अष्टमं लेश्याद्वारम् - कृष्णादिलेश्यावतां स्थितिप्ररूपणम्	३११
१३४३ - ४५.	नवमं सम्यक्त्वद्वारम् - सम्यग्-मिथ्या-सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां स्थितिप्ररूपणम्	३१२
१३४६ - ५३.	दशमं ज्ञानद्वारम् - पञ्चविधज्ञानिनां त्रिविधाज्ञानिनां च स्थितिप्ररूपणम्	३१२ - १३
१३५४ - ५७.	एकादशं दर्शनद्वारम् - चक्षुर्दर्शनादिचतुर्विधदर्शनिनां स्थितिप्ररूपणम्	३१३
१३५८ - ६१.	द्वादशं संयतद्वारम् - संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयत-नोअसंयतनोसंयतासंयतानां स्थितिप्ररूपणम्	३१३

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
११४३ - ४४.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकेषु समाहारादिसद्वारप्ररूपणम्	२७८
११४५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोघेन समाहारादिसद्वारप्ररूपणम्	२७८
११४६ - ५५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेन समाहारादिसद्वारप्ररूपणम्	२७८ - ७९
११५६ - ९८. द्वितीयोद्देशकः		२७९ - ८७
११५६.	लेश्यायाः कृष्णलेश्यादिषड्भेदनिरूपणम्	२७९
११५७ - ६९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु लेश्याप्ररूपणम्	२७९ - ८१
११७०.	सलेश्येषु जीवेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्पबहुत्वम्	२८१
११७१ - ९०.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्पबहुत्वम्	२८१ - ८६
११९१.	सलेश्येषु जीवेषु ऋद्धयल्पबहुत्वम्	२८६
११९२ - ९८.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु ऋद्धयल्पबहुत्वम्	२८६ - ८७
११९९ - १२१७. तृतीयोद्देशकः		२८७ - ९१
११९९ - १२००.	नयमतेन चतुर्विंशतिदण्डकेषूपपातोद्वर्तनाप्ररूपणम्	२८७
१२०१ - ७.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वोघेनोपपातोद्वर्तनाप्ररूपणम्	२८७ - ८८
१२०८ - १४.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेनोपपातोद्वर्तनाप्ररूपणम्	२८८ - ८९
१२१५.	कृष्णादिलेश्येषु नैरयिकेष्ववधिक्षेत्रप्ररूपणम्	२९० - ९१
१२१६ - १७.	कृष्णादिलेश्येषु जीवेषु ज्ञानप्ररूपणम्	२९१
१२१८ - ४९. चतुर्थोद्देशकः		२९१ - ३००
१२१८.	चतुर्थोद्देशकस्य परिणामादीनि पञ्चदश द्वाराणि	२९१
१२१९.	लेश्यायाः षड् भेदाः	२९२
१२२० - २५.	प्रथमं परिणामद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां पारस्परिकपरिणामनप्ररूपणम्	२९२ - ९३
१२२६ - ३२.	द्वितीयं वर्णद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां वर्णप्ररूपणम्	२९३ - ९५
१२३३ - ३८.	तृतीयं रसद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां रसप्ररूपणम्	२९५ - ९७
१२३९ - ४१.	चतुर्थान्नवमपर्यन्तानि गन्ध-शुद्ध-अप्रशस्त-संक्लिष्ट-उष्ण-गतिद्वाराणि - कृष्णादिलेश्यानां गन्धादिप्ररूपणम्	२९७
१२४२.	दशमं परिणामद्वारम् - कृष्णादिलेश्यासु परिणामसङ्ख्याप्ररूपणम्	२९७
१२४३.	एकादशं प्रदेशद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तप्रदेशात्मकस्वप्रतिपादनम्	२९८

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१२४४.	द्वादशमवगाहनाद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्ख्ये- यप्रदेशावगाहत्वप्रतिपादनम्	२९८
१२४५.	त्रयोदशं वर्गणाद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तवर्ग- णाप्रतिपादनम्	२९८
१२४६.	चतुर्दशं स्थानद्वारम् - कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्ख्येय- स्थानप्रतिपादनम्	२९९
१२४७ - ४९.	पञ्चदशमल्पवहुत्वद्वारम् - पङ्कश्यास्थानानामल्पवहुत्वम्	२९९ - ३००
१२५० - ५५.	पञ्चमोद्देशकः	३०० - १
१२५०.	लेश्याभेदप्ररूपणम्	३००
१२५१ - ५५.	लेश्यानां रूप-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शैः पारस्परिकपरिणमन- विचारः	३०० - १
१२५६ - ५८.	षष्ठोद्देशकः	३०१ - ३
१२५६.	लेश्याभेदप्ररूपणम्	३०१
१२५७.	मनुष्येषु लेश्याप्ररूपणम्	३०१ - २
१२५८.	लेश्यां प्रतीत्य गर्भोत्पत्तिप्ररूपणम्	३०२ - ३
१२५९ - ३२८.	अष्टादशं कायस्थितिपदम्	३०४ - १७
१२५९.	अष्टादशपदस्य जीव-गत्यादीनि द्वाविंशतिर्द्वाराणि	३०४
१२६०.	प्रथमं जीवद्वारम् - जीवस्थितिप्ररूपणम्	३०४
१२६१ - ७०.	द्वितीयं गतिद्वारम् - नैरयिकादिगतीराश्रित्य स्थितिप्ररूपणम्	३०४ - ५
१२७१ - ८४.	तृतीयमिन्द्रियद्वारम् - एकेन्द्रियादिषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०५ - ६
१२८५ - १३२०.	चतुर्थं कायद्वारम् - षड्विधकायिकेषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०६ - ९
१३२१ - २५.	पञ्चमं योगद्वारम् - मनो-वाक्-काययोग्यादिषु कायस्थिति- प्ररूपणम्	३०९ - १०
१३२६ - ३०.	षष्ठं वेदद्वारम् - स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१०
१३३१ - ३४.	सप्तमं कषायद्वारम् - क्रोधकषायिकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१० - ११
१३३५ - ४२.	अष्टमं लेश्याद्वारम् - कृष्णादिलेश्यावतां स्थितिप्ररूपणम्	३११
१३४३ - ४५.	नवमं सम्यक्त्वद्वारम् - सम्यग्-सिथ्या-सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां स्थितिप्ररूपणम्	३१२
१३४६ - ५३.	दशमं ज्ञानद्वारम् - पञ्चविधज्ञानिनां त्रिविधाज्ञानिनां च स्थितिप्ररूपणम्	३१२ - १३
१३५४ - ५७.	एकादशं दर्शनद्वारम् - चक्षुर्दर्शनादिचतुर्विधदर्शनिनां स्थि- तिप्ररूपणम्	३१३
१३५८ - ६१.	द्वादशं संयतद्वारम् - संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयत- नोअसंयतनोसंयतासंयतानां स्थितिप्ररूपणम्	३१३

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
११४३-४४.	वानव्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकेषु समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम्	२७८
११४५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेन्द्रोघेन समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम्	२७८
११४६-५५.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेन समाहारादिसप्तद्वारप्ररूपणम्	२७८-७९
११५६-९८. द्वितीयोद्देशकः		२७९-८७
११५६.	लेश्यायाः कृष्णलेश्यादिषड्भेदनिरूपणम्	२७९
११५७-६९.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु लेश्याप्ररूपणम्	२७९-८१
११७०.	सलेश्येषु जीवेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्पबहुत्वम्	२८१
११७१-९०.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कृष्णादिलेश्यावतामल्पबहुत्वम्	२८१-८६
११९१.	सलेश्येषु जीवेषु ऋद्धयल्पबहुत्वम्	२८६
११९२-९८.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु ऋद्धयल्पबहुत्वम्	२८६-८७
१२९९-१२१७. तृतीयोद्देशकः		२८७-९१
१२९९-१२००.	नयमतेन चतुर्विंशतिदण्डकेषूपपातोद्धर्तनाप्ररूपणम्	२८७
१२०१-७.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेन्द्रोघेनोपपातोद्धर्तनाप्ररूपणम्	२८७-८८
१२०८-१४.	सलेश्येषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु विभागेनोपपातोद्धर्तनाप्ररूपणम्	२८८-८९
१२१५.	कृष्णादिलेश्येषु नैरथिकेष्ववधिसेत्रप्ररूपणम्	२९०-९१
१२१६-१७.	कृष्णादिलेश्येषु जीवेषु ज्ञानप्ररूपणम्	२९१
१२१८-४९. चतुर्थोद्देशकः		२९१-३००
१२१८.	चतुर्थोद्देशकस्य परिणामादीनि पञ्चदश द्वाराणि	२९१
१२१९.	लेश्यायाः षड् भेदाः	२९२
१२२०-२५.	प्रथमं परिणामद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां पारस्परिकपरिणामनप्ररूपणम्	२९२-९३
१२२६-३२.	द्वितीयं वर्णद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां वर्णप्ररूपणम्	२९३-९५
१२३३-३८.	तृतीयं रसद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां रसप्ररूपणम्	२९५-९७
१२३९-४१.	चतुर्थान्नवमपर्यन्तानि गन्ध-शुद्ध-अप्रशस्त-संक्लिष्ट-उष्ण-गतिद्वाराणि-कृष्णादिलेश्यानां गन्धादिप्ररूपणम्	२९७
१२४२.	दशमं परिणामद्वारम्-कृष्णादिलेश्यासु परिणामसङ्ख्याप्ररूपणम्	२९७
१२४३.	एकादशं प्रदेशद्वारम्-कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तप्रदेशात्मकत्वप्रतिपादनम्	२९८

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१२४४.	द्वादशमवगाहनाद्वारम्—कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्ख्ये- यप्रदेशावगाढत्वप्रतिपादनम्	२९८
१२४५.	त्रयोदशं वर्गेणाद्वारम्—कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमनन्तवर्ग- णाप्रतिपादनम्	२९८
१२४६.	चतुर्दशं स्थानद्वारम्—कृष्णादिलेश्यानां प्रत्येकमसङ्ख्येय- स्थानप्रतिपादनम्	२९९
१२४७—४९.	पञ्चदशमल्पबहुत्वद्वारम्—पड्लेश्यास्थानानामल्पबहुत्वम्	२९९—३००
१२५०—५५.	पञ्चमोद्देशकः	३००—१
१२५०.	लेश्याभेदप्ररूपणम्	३००
१२५१—५५.	लेश्यानां रूप-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शैः पारस्परिकपरिणमन- विचारः	३००—१
१२५६—५८.	षष्ठोद्देशकः	३०१—३
१२५६.	लेश्याभेदप्ररूपणम्	३०१
१२५७.	मनुष्येषु लेश्याप्ररूपणम्	३०१—२
१२५८.	लेश्यां प्रतीत्य गभौत्वत्तिप्ररूपणम्	३०२—३
१२५९—१३९८.	अष्टादशं कायस्थितिपदम्	३०४—१७
१२५९.	अष्टादशपदस्य जीव-गत्यादीनि द्वाविंशतिद्वाराणि	३०४
१२६०.	प्रथमं जीवद्वारम्—जीवस्थितिप्ररूपणम्	३०४
१२६१—७०.	द्वितीयं गतिद्वारम्—नैरयिकादिगतीराश्रित्य स्थितिप्ररूपणम्	३०४—५
१२७१—८४.	तृतीयमिन्द्रियद्वारम्—एकेन्द्रियादिषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०५—६
१२८५—१३२०.	चतुर्थं कायद्वारम्—षड्विधकायिकेषु कायस्थितिप्ररूपणम्	३०६—९
१३२१—२५.	पञ्चमं योगद्वारम्—मनो-वाक्-काययोग्यादिषु कायस्थिति- प्ररूपणम्	३०९—१०
१३२६—३०.	षष्ठं वेदद्वारम्—स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१०
१३३१—३४.	सप्तमं कषायद्वारम्—क्रोधकषायिकादिषु स्थितिप्ररूपणम्	३१०—११
१३३५—४२.	अष्टमं लेश्याद्वारम्—कृष्णादिलेश्यावतां स्थितिप्ररूपणम्	३११
१३४३—४५.	नवमं सम्यक्त्वद्वारम्—सम्यग्-मिथ्या-सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां स्थितिप्ररूपणम्	३१२
१३४६—५३.	दशमं ज्ञानद्वारम्—पञ्चविधज्ञानिनां त्रिविधाज्ञानिनां च स्थितिप्ररूपणम्	३१२—१३
१३५४—५७.	एकादशं दर्शनद्वारम्—चक्षुर्दर्शनादिचतुर्विधदर्शनिनां स्थि- तिप्ररूपणम्	३१३
१३५८—६१.	द्वादशं संयतद्वारम्—संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयत- नोअसंयतनोसंयतासंयतानां स्थितिप्ररूपणम्	३१३

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१३६२ - ६३.	त्रयोदशमुपयोगद्वारम् - साकारानाकारोपयोगोपयुक्तयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१४
१३६४ - ७३.	चतुर्दशमाहारद्वारम् - छद्मस्थ-केवलयाहारकानाहारकयोर्वि- स्तरेण स्थितिप्ररूपणम्	३१४ - १५
१३७४ - ७५.	पञ्चदशं भाषकद्वारम् - भाषकाभाषकयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३७६ - ८२.	षोडशं परित्तद्वारम् - काय-संसारपरित्तापरित्तयोर्नोपरित्त- नोअपरित्तस्य च स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३८३ - ८५.	सप्तदशं पर्याप्तद्वारम् - पर्याप्त-अपर्याप्त-नोपर्याप्तनोअपर्याप्त- प्तानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८६ - ८८.	अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम् - सूक्ष्म-वादर-नोसूक्ष्मनोवादराणां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८९ - ९१.	एकोनविंशं संज्ञिद्वारम् - संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिनां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३९२ - ९४.	विंशतितमं भवसिद्धिकद्वारम् - भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक- नोअभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिकानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६ - १७
१३९५ - ९६.	एकविंशमस्तिकायद्वारम् - धर्मास्तिकायादीनां षण्णां स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९७ - ९८.	द्वाविंशं चरमद्वारम् - चरमाचरमयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९९ - १४०५.	एकोनविंशं सम्यक्त्वपदम्	३१८
१३९९-१४०५.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सिद्धेषु च सम्यग्-मिथ्या-सम्यग्मि- थ्यादष्टित्वविचारः	३१८
१४०६ - ७३.	विंशतितममन्तक्रियापदम्	३१९ - २८
१४०६.	विंशतितमपदस्यान्तक्रियादीनि दश द्वाराणि	३१९
१४०७ - ९.	प्रथममन्तक्रियाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्वन्तक्रियाकरण- प्ररूपणम्	३१९
१४१० - १३.	द्वितीयमनन्तरद्वारम् - अनन्तरागत-परम्परागतानां चतुर्विं- शतिदण्डकानामन्तक्रियाकरणप्ररूपणम्	३१९ - २०
१४१४ - १६.	तृतीयमेकसमथद्वारम् - अनन्तरागतानां चतुर्विंशतिदण्ड- कानामेकसमथेनान्तक्रियां कुर्वाणानां सङ्ख्याप्ररूपणम्	३२०
१४१७ - ४३.	चतुर्थमुद्धर्तद्वारम् - अनन्तरोद्धृत्तचतुर्विंशतिदण्डकानामुप- पातविचारः	३२१ - २५
१४४४ - ५८.	पञ्चमं तीर्थकरद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्धृतानामन- न्तरं तीर्थकरत्वप्राप्तिविचारः	३२५ - २६
१४५९ - ६३.	षष्ठं चक्रिद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्धृतानामनन्तरं चक्रवर्तित्वप्राप्तिविचारः	३२६ - २७

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१४६४ - ६९.	सप्तमादिदशमपर्यन्तानि बल-वासुदेव-माण्डलिकचक्रिरत्न-द्वाराणि - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्भूतानां बलदेवत्वादि-प्राप्तिविचारः	३२७
१४७०.	असंग्रतभव्यदेव-अविराधितसंग्रम-विराधितसंग्रमादीनां देव-लोकोपपातप्ररूपणम्	३२७ - २८
१४७१ - ७३.	असंज्ञायुःप्ररूपणम्	३२८
१४७४-१५६६.	एकविंशमवगाहनापदम्	३२९-४९
१४७४.	एकविंशतितमपदस्य विधि-संस्थानादीनि सप्त द्वाराणि	३२९
१४७५ - १५५२.	प्रथम-द्वितीय-तृतीयानि विधि-संस्थान-प्रमाणद्वाराणि	३२९ - ४६
१४७५.	औदारिकादीनि पञ्च शरीराणि	३२९
१४७६ - ८७.	औदारिकशरीरे विधिद्वारम् - औदारिकशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३२९ - ३१
१४८८ - १५०१.	औदारिकशरीरे संस्थानद्वारम् - औदारिकशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३३१ - ३३
१५०२ - १३.	औदारिकशरीरे प्रमाणद्वारम् - औदारिकशरीरभेदप्रभेदानामवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३३३ - ३५
१५१४ - २०.	वैक्रियशरीरे विधिद्वारम् - वैक्रियशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३३५ - ३८
१५२१ - २६.	वैक्रियशरीरे संस्थानद्वारम् - वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३३९ - ४०
१५२७ - ३२.	वैक्रियशरीरे प्रमाणद्वारम् - वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानामवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४० - ४१
१५३३ - ३५.	आहारकशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४२ - ४३
१५३६ - ३९.	तैजसशरीरे विधिद्वारम् - तैजसशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३४४
१५४० - ४४.	तैजसशरीरे संस्थानद्वारम् - तैजसशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३४४ - ४५
१५४५ - ५१.	तैजसशरीरे प्रमाणद्वारम् - जीव - चतुर्विंशतिदण्डकानां तैजसशरीरमहदवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४५ - ४६
१५५२.	कार्मणशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४६
१५५३ - ५८.	चतुर्थं पुद्गलचयनद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां दिशः प्रतीत्य पुद्गलचयनप्ररूपणम्	३४६ - ४७
१५५९ - ६४.	पञ्चमं शरीरसंयोगद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां समकालमन्यान्यशरीरसंयोगविचारः	३४७ - ४८
१५६५.	षष्ठं द्रव्य-प्रदेशाल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां द्रव्यार्थतादिनाऽल्पबहुत्वम्	३४८
१५६६.	सप्तमं शरीरावगाहनाल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां जघन्यावगाहनाया अल्पबहुत्वम्	३४८ - ४९

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१३६२ - ६३.	त्रयोदशमुपयोगद्वारम् - साकारानाकारोपयोगोपयुक्तयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१४
१३६४ - ७३.	चतुर्दशमाहारद्वारम् - छद्मस्थ-केवल्याहारकानाहारकयोर्वि- स्तरेण स्थितिप्ररूपणम्	३१४ - १५
१३७४ - ७५.	पञ्चदशं भाषकद्वारम् - भाषकाभाषकयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३७६ - ८२.	षोडशं परित्तद्वारम् - काय-संसारपरित्तापरित्तयोर्नोपरित्त- नोअपरित्तस्य च स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३८३ - ८५.	सप्तदशं पर्याप्तद्वारम् - पर्याप्त-अपर्याप्त-नोपर्याप्तनोअपर्या- प्तानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८६ - ८८.	अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम् - सूक्ष्म-ब्राह्म-नोसूक्ष्मनोब्राह्मराणां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८९ - ९१.	एकोनविंशं संज्ञिद्वारम् - संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिनां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३९२ - ९४.	विंशतितमं भवसिद्धिकद्वारम् - भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक- नोभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिकानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६ - १७
१३९५ - ९६.	एकविंशमस्तिकायद्वारम् - धर्मास्तिकायादीनां षण्णां स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९७ - ९८.	द्वाविंशं चरमद्वारम् - चरमाचरमयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९९ - १४०५.	एकोनविंशं सम्यक्त्वपदम्	३१८
१३९९ - १४०५.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सिद्धेषु च सम्यग्-मिथ्या-सम्यग्मि- थ्यादृष्टित्वविचारः	३१८
१४०६ - ७३.	विंशतितममन्तक्रियापदम्	३१९ - २८
१४०६.	विंशतितमपदस्यान्तक्रियादीनि दश द्वाराणि	३१९
१४०७ - ९.	प्रथममन्तक्रियाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्वन्तक्रियाकरण- प्ररूपणम्	३१९
१४१० - १३.	द्वितीयमन्तरद्वारम् - अनन्तरागत-परम्परागतानां चतुर्विं- शतिदण्डकानामन्तक्रियाकरणप्ररूपणम्	३१९ - २०
१४१४ - १६.	तृतीयमेकसमयद्वारम् - अनन्तरागतानां चतुर्विंशतिदण्ड- कानामेकसमयेनान्तक्रियां कुर्वाणानां सङ्ख्याप्ररूपणम्	३२०
१४१७ - ४३.	चतुर्थमुद्धर्तद्वारम् - अनन्तरोद्धृत्तचतुर्विंशतिदण्डकानामुप- पातविचारः	३२१ - २५
१४४४ - ५८.	पञ्चमं तीर्थकरद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्धृत्तानामन- न्तरं तीर्थकरत्वप्राप्तिविचारः	३२५ - २६
१४५९ - ६३.	षष्ठं चक्रिद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्धृत्तानामनन्तरं चक्रवर्तित्वप्राप्तिविचारः	३२६ - २७

सूत्राङ्कः

विषयः

प्रश्नाङ्कः

१४६४ - ६९.	सप्तमादिदशमपर्यन्तानि बल-त्रासुदेव-माण्डलिकचक्रिः-न- द्वाराणि - चतुर्विंशतिदण्डकम्भ्य उद्धृतानां बलदेवत्वादि- प्राप्तिविचारः	३२७
१४७०.	असंयतभव्यदेव-अत्रिराधितसंयम-विराधितसंयमादीनां देव- लोकोपपातप्ररूपणम्	३२७ - २८
१४७१ - ७३.	असंज्ञायुःप्ररूपणम्	३२८
१४७४ - १५६६.	एकविंशमवगाहनापदम्	३२९ - ४९
१४७४.	एकविंशतितमपदस्य विधि-संस्थानादीनि सप्त द्वाराणि	३२९
१४७५ - १५५२.	प्रथम-द्वितीय-तृतीयानि विधि-संस्थान-प्रमाणद्वाराणि	३२९ - ४६
१४७५.	औदारिकादीनि पञ्च शरीराणि	३२९
१४७६ - ८७.	औदारिकशरीरे विधिद्वारम् - औदारिकशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३२९ - ३१
१४८८ - १५०१.	औदारिकशरीरे संस्थानद्वारम् - औदारिकशरीरभेद- प्रभेदानां संस्थानानि	३३१ - ३३
१५०२ - १३.	औदारिकशरीरे प्रमाणद्वारम् - औदारिकशरीरभेदप्रभेदाना- मवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३३३ - ३५
१५१४ - २०.	वैक्रियशरीरे विधिद्वारम् - वैक्रियशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३३५ - ३८
१५२१ - २६.	वैक्रियशरीरे संस्थानद्वारम् - वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३३९ - ४०
१५२७ - ३२.	वैक्रियशरीरे प्रमाणद्वारम् - वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानामवगा- हनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४० - ४१
१५३३ - ३५.	आहारकशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४२ - ४३
१५३६ - ३९.	तैजसशरीरे विधिद्वारम् - तैजसशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३४४
१५४० - ४४.	तैजसशरीरे संस्थानद्वारम् - तैजसशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३४४ - ४५
१५४५ - ५१.	तैजसशरीरे प्रमाणद्वारम् - जीव - चतुर्विंशतिदण्डकानां तैजसशरीरमहदवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४५ - ४६
१५५२.	कामेणशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४६
१५५३ - ५८.	चतुर्थं पुद्गलचयनद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां दिशः प्रतीत्य पुद्गलचयनप्ररूपणम्	३४६ - ४७
१५५९ - ६४.	पञ्चमं शरीरसंयोगद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां समका- लमन्यान्यशरीरसंयोगविचारः	३४७ - ४८
१५६५.	षष्ठं द्रव्य-प्रदेशाल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां द्रव्यार्थतादिनाऽल्पबहुत्वम्	३४८
१५६६.	सप्तमं शरीरावगाहनाल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामपि शरी- राणां जघन्यावगाहनायाऽल्पबहुत्वम्	३४८ - ४९

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१३६२ - ६३.	त्रयोदशमुपयोगद्वारम् - साकारानाकारोपयोगोपयुक्तयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१४
१३६४ - ७३.	चतुर्दशमाहारद्वारम् - छद्मस्थ-केवलयाहारकानाहारकयोर्वि- स्तरैण स्थितिप्ररूपणम्	३१४ - १५
१३७४ - ७५.	पञ्चदश भाषकद्वारम् - भाषकाभाषकयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३७६ - ८२.	षोडशं परिच्छेदद्वारम् - काय-संसारपरित्तापरित्तयोर्नोपरित्त- नोअपरित्तस्य च स्थितिप्ररूपणम्	३१५
१३८३ - ८५.	सप्तदशं पर्याप्तद्वारम् - पर्याप्त-अपर्याप्त-नोपर्याप्तनोअपर्याप्त- प्तानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८६ - ८८.	अष्टादशं सूक्ष्मद्वारम् - सूक्ष्म-ब्राह्म-नोसूक्ष्मनोब्राह्मणां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३८९ - ९१.	एकोनविंशं संज्ञिद्वारम् - संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिनां स्थितिप्ररूपणम्	३१६
१३९२ - ९४.	विंशतितमं भवसिद्धिकद्वारम् - भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक- नोभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिकानां स्थितिप्ररूपणम्	३१६ - १७
१३९५ - ९६.	एकविंशमस्तिकायद्वारम् - धर्मास्तिकायादीनां षण्णां स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९७ - ९८.	द्वाविंशं चरमद्वारम् - चरमाचरमयोः स्थितिप्ररूपणम्	३१७
१३९९ - १४०५.	एकोनविंशं सम्यक्त्वपदम्	३१८
१३९९-१४०५.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु सिद्धेषु च सम्यग्-मिथ्या-सम्यगिम- ध्यादष्टित्वविचारः	३१८
१४०६ - ७३.	विंशतितममन्तक्रियापदम्	३१९ - २८
१४०६.	विंशतितमपदस्यान्तक्रियादीनि दश द्वाराणि	३१९
१४०७ - ९.	प्रथममन्तक्रियाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्वन्तक्रियाकरण- प्ररूपणम्	३१९
१४१० - १३.	द्वितीयमन्तरद्वारम् - अनन्तरागत-परम्परागतानां चतुर्विं- शतिदण्डकानामन्तक्रियाकरणप्ररूपणम्	३१९ - २०
१४१४ - १६.	तृतीयमेकसमयद्वारम् - अनन्तरागतानां चतुर्विंशतिदण्ड- कानामेकसमयेनान्तक्रियां कुर्वाणानां सङ्ख्याप्ररूपणम्	३२०
१४१७ - ४३.	चतुर्थमुद्धर्तद्वारम् - अनन्तरोद्धृतचतुर्विंशतिदण्डकानामुप- पातविचारः	३२१ - २५
१४४४ - ५८.	पञ्चमं तीर्थकरद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्धृतानामन- न्तरं तीर्थकरत्वप्राप्तिविचारः	३२५ - २६
१४५९ - ६३.	षष्ठं चक्रिद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्धृतानामनन्तरं चक्रवर्तित्वप्राप्तिविचारः	३२६ - २७

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१४६४ - ६९.	सप्तमादिदशमपर्यन्तानि बल-वासुदेव-माण्डलिकचक्रिरत्न- द्वाराणि - चतुर्विंशतिदण्डकेभ्य उद्भूतानां बलदेवत्वादि- प्राप्तिविचारः	३२७
१४७०.	असंयतभन्वदेव-अत्रिराधितसंयम-विराधितसंयमादीनां देव- लोकोपपातप्ररूपणम्	३२७ - २८
१४७१ - ७३.	असंख्यायुःप्ररूपणम्	३२८
१४७४-१५६६.	एकविंशमवगाहनापदम्	३२९-४९
१४७४.	एकविंशतितमपदस्य विधि-संस्थानादीनि सप्त द्वाराणि	३२९
१४७५ - १५५२.	प्रथम-द्वितीय-तृतीयानि विधि-संस्थान-प्रमाणद्वाराणि	३२९ - ४६
१४७५.	औदारिकीनि पञ्च शरीराणि	३२९
१४७६ - ८७.	औदारिकशरीरे विधिद्वारम् - औदारिकशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३२९ - ३१
१४८८ - १५०१.	औदारिकशरीरे संस्थानद्वारम् - औदारिकशरीरभेद- प्रभेदानां संस्थानानि	३३१ - ३३
१५०२ - १३.	औदारिकशरीरे प्रमाणद्वारम् - औदारिकशरीरभेद-प्रभेदाना- मवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३३३ - ३५
१५१४ - २०.	वैक्रियशरीरे विधिद्वारम् - वैक्रियशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३३५ - ३८
१५२१ - २६.	वैक्रियशरीरे संस्थानद्वारम् - वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३३९ - ४०
१५२७ - ३२.	वैक्रियशरीरे प्रमाणद्वारम् - वैक्रियशरीरभेद-प्रभेदानामवगा- हनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४० - ४१
१५३३ - ३५.	आहारकशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४२ - ४३
१५३६ - ३९.	तैजसशरीरे विधिद्वारम् - तैजसशरीरस्य भेदाः प्रभेदाश्च	३४४
१५४० - ४४.	तैजसशरीरे संस्थानद्वारम् - तैजसशरीरभेद-प्रभेदानां संस्थानानि	३४४ - ४५
१५४५ - ५१.	तैजसशरीरे प्रमाणद्वारम् - जीव - चतुर्विंशतिदण्डकानां तैजसशरीरमहदवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४५ - ४६
१५५२.	कार्मणशरीरस्य भेद-संस्थान-अवगाहनाप्रमाणप्ररूपणम्	३४६
१५५३ - ५८.	चतुर्थं पुद्गलचयनद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां दिशः प्रतीत्य पुद्गलचयनप्ररूपणम्	३४६ - ४७
१५५९ - ६४.	पञ्चमं शरीरसंयोगद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां समका- लमन्यान्यशरीरसंयोगविचारः	३४७ - ४८
१५६५.	षष्ठं द्रव्य-प्रदेशाल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामपि शरीराणां द्रव्यार्थतादिनाऽल्पबहुत्वम्	३४८
१५६६.	सप्तमं शरीरावगाहनाल्पबहुत्वद्वारम् - पञ्चानामपि शरी- राणां जघन्याद्यवगाहनायाः अल्पबहुत्वम्	३४८ - ४९

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१५६७-१६६३.	द्वाविंशं क्रियापदम्	३५०-६२
१५६७-७२.	क्रियाणां कायिक्यादिकाः पञ्च भेदाः, तद्व्यभेदाश्च	३५०
१५७३.	जीवेषु सक्रियत्वाक्रियत्वप्ररूपणम्	३५०-५१
१५७४-८०.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रियाविषयप्ररूपणम्	३५१
१५८१-८४.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रियाहेतुभिः कर्मप्रकृतिबन्धप्ररूपणम्	३५२
१५८५-८७.	जीवादेषु कर्मबन्धमधिकृत्य क्रियाप्ररूपणम्	३५२
१५८८-१६०४.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्व-पृथक्त्वाभ्यां क्रियासहभावप्ररूपणम्	३५३-५४
१६०५-६.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चक्रियत्वप्रतिपादनम्	३५५
१६०७-१६.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चानां क्रियाणां सहभाववक्तव्यता	३५५-५६
१६१७-१९.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वायोजिकाक्रियाप्ररूपणम्	३५६
१६२०.	जीवेषु क्रियाणां स्पृष्टास्पृष्टभावप्ररूपणम्	३५६-५७
१६२१.	प्रकारान्तरेण क्रियाणामारम्भिक्यादिकाः पञ्च भेदाः	३५७
१६२२-२६.	आरम्भिक्यादिक्रियास्वामित्वप्ररूपणम्	३५७
१६२७.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारम्भिक्यादिक्रियाप्ररूपणम्	३५७
१६२८-३६.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारम्भिक्यादिक्रियाणां सहभाववक्तव्यता	३५८-५९
१६३७-४१.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टादशपापस्थानविरतिप्ररूपणम्	३५९
१६४२-४९.	पापस्थानविरतेषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिबन्धप्ररूपणम्	३६०-६१
१६५०-६२.	पापस्थानविरतेषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारम्भिक्यादिक्रियाभेदप्ररूपणम्	३६१-६२
१६६३.	आरम्भिक्यादिक्रियाणामल्पबहुत्वम्	३६२
१६६४-१७५३.	त्रयोविंशं कर्मप्रकृतिपदम्	३६३-८४
१६६४-८६.	प्रथमोद्देशकः	३६३-६७
१६६४.	प्रथमोद्देशकस्य कतिप्रकृत्यादीनि पञ्च द्वाराणि	३६३
१६६५-६६.	प्रथमं कतिप्रकृतिद्वारम्-अष्टविधकर्मप्रकृतिनामानि, चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिसद्भावप्रतिपादनं च	३६३
१६६७-६९.	द्वितीयं कथंबन्धतिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिबन्धहेतुप्ररूपणम्	३६३-६४
१६७०-७४.	तृतीयं कतिस्थानबन्धद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिबन्धस्थानप्ररूपणम्	३६४
१६७५-७८.	चतुर्थं कतिप्रकृतिवेदद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिवेदवक्तव्यता	३६४

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१६७९-८६. पञ्चमं कतिविधानुभावद्वारम्-ज्ञानावरणीयाद्यष्टकर्मणां
विस्तरतोऽनुभावस्वरूपप्ररूपणम् ३६५-६७

१६८७-१७५३. द्वितीयोद्देशकः ३६७-८४

१६८७-९६. कर्मप्रकृतीनां मूलोत्तरभेदप्ररूपणम् ३६७-७०

१६९७-१७०४. कर्मप्रकृतीनां स्थितिप्ररूपणम् ३७१-७७

१७०५-१४. एकेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम् ३७७-७९

१७१५-२०. द्वीन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम् ३७९

१७२१-२४. त्रीन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम् ३८०

१७२५-२७. चतुरिन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम् ३८०

१७२८-३३. असंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम् ३८०-८१

१७३४-४१. संज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम् ३८१-८२

१७४२-४४. जवन्यस्थितिवन्धकप्ररूपणम् ३८३

१७४५-५३. उत्कृष्टस्थितिवन्धकप्ररूपणम् ३८३-८४

१७५४-६८. चतुर्विंशं कर्मवन्धपदम् ३८५-८७

१७५४-६१. ज्ञानावरणीयवन्धकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृ-
तिवन्धप्ररूपणम् ३८५-८६

१७६२. दर्शनावरणीयवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम् ३८६

१७६३-६५. वेदनीयवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम् ३८६-८७

१७६६-६८. मोहनीय-आयुः-नाम-गोत्र-अन्तरायवन्धकेषु जीवादिषु कर्म-
प्रकृतिवन्धप्ररूपणम् ३८७

१७६९-७४. पञ्चविंशं कर्मवन्धवेदपदम् ३८८

१७६९-७४. ज्ञानावरणीयादिवन्धकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृ-
तिवेदप्ररूपणम् ३८८

१७७५-८६. षड्विंशं कर्मवेदवन्धपदम् ३८९-९०

१७७५-८२. ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय-अन्तरायवेदकेषु जीव-चतुर्विं-
शतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम् ३८९-९०

१७८३-८४. वेदनीयवेदकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम् ३९०

१७८५-८६. आयुः-नाम-गोत्र-मोहनीयवेदकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्ध-
प्ररूपणम् ३९०

१७८७-९२. सप्तविंशं कर्मवेदवेदकपदम् ३९१

१७८७-९२. ज्ञानावरणीयादिवेदकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्र-
कृतिवेदप्ररूपणम् ३९१

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१५६७-१६६३.	द्वाविंशं क्रियापदम्	३५०-६२
१५६७-७२.	क्रियाणां कायिक्यादिकाः पञ्च भेदाः, तत्प्रभेदाश्च	३५०
१५७३.	जीवेषु सक्रियत्वाक्रियत्वप्ररूपणम्	३५०-५१
१५७४-८०.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रियाविषयप्ररूपणम्	३५१
१५८१-८४.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु क्रियाहेतुभिः कर्मप्रकृतिबन्धप्ररूपणम्	३५२
१५८५-८७.	जीवादिषु कर्मबन्धमधिकृत्य क्रियाप्ररूपणम्	३५२
१५८८-१६०४.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्व-पृथक्त्वाभ्यां क्रियासहभावप्ररूपणम्	३५३-५४
१६०५-६.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चक्रियत्वप्रतिपादनम्	३५५
१६०७-१६.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पञ्चानां क्रियाणां सहभाववक्तव्यता	३५५-५६
१६१७-१९.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वायोजिकाक्रियाप्ररूपणम्	३५६
१६२०.	जीवेषु क्रियाणां स्पृष्टास्पृष्टभावप्ररूपणम्	३५६-५७
१६२१.	प्रकारान्तरेण क्रियाणामारम्भिक्यादिकाः पञ्च भेदाः	३५७
१६२२-२६.	आरम्भिक्यादिक्रियास्वामित्वप्ररूपणम्	३५७
१६२७.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारम्भिक्यादिक्रियाप्ररूपणम्	३५७
१६२८-३६.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारम्भिक्यादिक्रियाणां सहभाववक्तव्यता	३५८-५९
१६३७-४१.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टादशपापस्थानविरतिप्ररूपणम्	३५९
१६४२-४९.	पापस्थानविरतेषु चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिबन्धप्ररूपणम्	३६०-६१
१६५०-६२.	पापस्थानविरतेषु चतुर्विंशतिदण्डकेष्वारम्भिक्यादिक्रियाभेदप्ररूपणम्	३६१-६२
१६६३.	आरम्भिक्यादिक्रियाणामल्पबहुत्वम्	३६२
१६६४-१७५३.	त्रयोविंशं कर्मप्रकृतिपदम्	३६३-८४
१६६४-८६.	प्रथमोद्देशकः	३६३-६७
१६६४.	प्रथमोद्देशकस्य कतिप्रकृत्यादीनि पञ्च द्वाराणि	३६३
१६६५-६६.	प्रथमं कतिप्रकृतिद्वारम्-अष्टविधकर्मप्रकृतिनामानि, चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिसद्भावप्रतिपादनं च	३६३
१६६७-६९.	द्वितीयं कथंबन्धतिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिबन्धहेतुप्ररूपणम्	३६३-६४
१६७०-७४.	तृतीयं कतिस्थानबन्धद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिबन्धस्थानप्ररूपणम्	३६४
१६७५-७८.	चतुर्थं कतिप्रकृतिवेदद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वष्टकर्मप्रकृतिवेदवक्तव्यता	३६४

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१६७९-८६.	पञ्चमं कतिविधानुभावद्वारम्-ज्ञानावरणीयाद्यष्टकर्मणां विस्तरतोऽनुभावस्वरूपप्ररूपणम्	३६५-६७
१६८७-१७५३.	द्वितीयोद्देशकः	३६७-८४
१६८७-९६.	कर्मप्रकृतीनां मूलोत्तरभेदप्ररूपणम्	३६७-७०
१६९७-१७०४.	कर्मप्रकृतीनां स्थितिप्ररूपणम्	३७१-७७
१७०५-१४.	एकेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३७७-७९
१७१५-२०.	द्वीन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३७९
१७२१-२४.	त्रीन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८०
१७२५-२७.	चतुरिन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८०
१७२८-३३.	असंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८०-८१
१७३४-४१.	संज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु कर्मप्रकृतिस्थितिवन्धप्ररूपणम्	३८१-८२
१७४२-४४.	जघन्यस्थितिवन्धकप्ररूपणम्	३८३
१७४५-५३.	उत्कृष्टस्थितिवन्धकप्ररूपणम्	३८३-८४
१७५४-६८.	चतुर्विंशं कर्मवन्धपदम्	३८५-८७
१७५४-६१.	ज्ञानावरणीयवन्धकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८५-८६
१७६२.	दर्शनावरणीयवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८६
१७६३-६५.	वेदनीयवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८६-८७
१७६६-६८.	मोहनीय-आयुः-नाम-गोत्र-अन्तरायवन्धकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८७
१७६९-७४.	पञ्चविंशं कर्मवन्धवेदपदम्	३८८
१७६९-७४.	ज्ञानावरणीयादिवन्धकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवेदप्ररूपणम्	३८८
१७७५-८६.	षड्विंशं कर्मवेदवन्धपदम्	३८९-९०
१७७५-८२.	ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय-अन्तरायवेदकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३८९-९०
१७८३-८४.	वेदनीयवेदकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३९०
१७८५-८६.	आयुः-नाम-गोत्र-मोहनीयवेदकेषु जीवादिषु कर्मप्रकृतिवन्धप्ररूपणम्	३९०
१७८७-९२.	सप्तविंशं कर्मवेदवेदकपदम्	३९१
१७८७-९२.	ज्ञानावरणीयादिवेदकेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु कर्मप्रकृतिवेदप्ररूपणम्	३९१

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१७९३-१९०७.	अष्टाविंशमाहारपदम्	३९२-४०६
१७९३-१८६४.	प्रथमोद्देशकः	३९२-४००
१७९३.	प्रथमोद्देशकस्य सच्चित्ताहारदीन्येकादश द्वाराणि	३९२
१७९४.	प्रथमं सच्चित्ताहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु सच्चित्ता- चित्त-मिश्राहारवक्तव्यता	३९२
१७९५-१८०५.	नैरयिकेषु आहारार्थि-कियत्काल-किं-सर्वतः-कतिभागं-सर्वे- -परिणामद्वाराणां वक्तव्यता	३९२-९४
१८०६.	भवनवासिषु आहारार्थादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९४
१८०७-१३.	एकेन्द्रियेषु आहारार्थादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९४-९५
१८१४-२३.	विकलेन्द्रियेष्वआहारार्थादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९५-९६
१८२४-२८.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-मनुष्य-वानव्यन्तर-ज्योतिष्केष्वआहा- रार्थादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९६-९७
१८२९-५२.	वैमानिकेष्वआहारार्थादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९७-९९
१८५३-५८.	नवममेकेन्द्रियशरीरादिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकेन्द्रिया- दिशरीराहारवक्तव्यता	३९९
१८५९-६१.	दशमं लोमाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु लोमाहार-प्र- क्षेपाहारवक्तव्यता	३९९
१८६२-६४.	एकादशं मनोभक्षिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु ओजआहार- मनोभक्षित्ववक्तव्यता	४००
१८६५-१९०७.	द्वितीयोद्देशकः	४००-६
१८६५.	द्वितीयोद्देशकस्याहार-भग्यादीनि त्रयोदश द्वाराणि	४००
१८६६-७०.	प्रथममाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वआहारकानाहारकत्व- वक्तव्यता	४००-१
१८७१-७५.	द्वितीयं भव्यद्वारम्-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक-नोभवसि- द्धिकनोअभवसिद्धिकानामाहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०१
१८७६-८२.	तृतीयं संज्ञिद्वारम्-संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञिषु जीव- चतुर्विंशतिदण्डकेष्वआहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०१-२
१८८३-८६.	चतुर्थं लेश्याद्वारम्-सलेश्यानामलेश्यानां च जीवानामा- हारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०२-३
१८८७-८९.	पञ्चमं दृष्टिद्वारम्-सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृ- ष्टिषु जीवेष्वआहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०३
१८९०-९३.	षष्ठं संयतद्वारम्-संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयतनोअ- संयतेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वआहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०३-४

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१८९४-९६.	सप्तमं कषायद्वारम् - सकषयाकषायेषु जीवादिप्लाहार- कानाहारकत्ववक्तव्यता	४०४
१८९७-९९.	अष्टमं ज्ञानद्वारम् - ज्ञान्यज्ञानेषु जीवादिप्लाहारकानाहार- कत्ववक्तव्यता	४०४-५.
१९००.	नवमं योगद्वारम् - सयोगयोगेषु जीवादिप्लाहारकानाहा- रकत्ववक्तव्यता	४०५.
१९०१.	दशममुपयोगद्वारम् - साकारानाकारोपयोगोपयुक्तोप्लाहार- कानाहारकत्ववक्तव्यता	४०५.
१९०२.	एकादशं वेदद्वारम् - स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकेष्वेदकेषु चाहारका- नाहारकत्ववक्तव्यता	४०५.
१९०३.	द्वादशं शरीरद्वारम् - औदारिकादिशरीरिष्वशरीरिषु चाहा- रकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०५-६
१९०४-७.	त्रयोदशं पर्यासिद्वारम् - आहारादिपर्यासिकापर्यासकेष्व- हारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०६
१९०८-३५.	एकोनत्रिंशमुपयोगपदम्	४०७-९
१९०८-१०.	उपयोगस्य साकारोपयोगानाकारोपयोगेति भेदद्वयम्, तत्प्रभेदाश्च	४०७
१९११-२७.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषूपयोगभेद-प्रभेदवक्तव्यता	४०७-८
१९२८-३५.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु साकारानाकारोपयोगित्ववक्तव्यता	४०८-९
१९३६-६४.	त्रिंशं पश्यत्तापदम्	४१०-१२
१९३६-३८.	पश्यत्तायाः साकारानाकारपश्यत्तेति भेदद्वयम्, तत्प्रभेदाश्च	४१०
१९३९-५३.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु पश्यत्ताभेद-प्रभेदवक्तव्यता	४१०-११
१९५४-६२.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु साकारानाकारपश्यत्तित्ववक्तव्यता	४११-१२
१९६३-६४.	केवल्युपयोगव्यव्यता	४१२
१९६५-७३.	एकत्रिंशं संज्ञिपदम्	४१३
१९६५-७३.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञि- त्ववक्तव्यता	४१३
१९७४-८०.	द्वात्रिंशं संयमपदम्	४१४
१९७४-८०.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु-संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंय- तनोअसंयतनोसंयतासंयतत्ववक्तव्यता	४१४
१९८१-२०३१.	त्रयास्त्रिंशमधिपदम्	४१५-१८
१९८१.	त्रयास्त्रिंशत्तमपदस्य भेद-विषयादीनि सप्त द्वाराणि	४१५

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१७९३-१९०७.	अष्टाविंशमाहारपदम्	३९२-४०६
१७९३-१८६४.	प्रथमोद्देशकः	३९२-४००
१७९३.	प्रथमोद्देशकस्य सचित्ताहारार्थान्येकादश द्वाराणि	३९२
१७९४.	प्रथमं सचित्ताहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु सचित्ता- चित्त-सिञ्चाहारवक्तव्यता	३९२
१७९५-१८०५.	नैरयिकेषु आहारार्थि-कियत्काल-किं-सर्वतः-कतिभागं-सर्वे- -परिणामद्वाराणां वक्तव्यता	३९२-९४
१८०६.	भवनवासिषु आहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९४
१८०७-१३.	एकेन्द्रियेषु आहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९४-९५
१८१४-२३.	विकलेन्द्रियेष्वआहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९५-९६
१८२४-२८.	पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-मनुष्य-वानव्यन्तर-ज्योतिष्केष्वआहा- रार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९६-९७
१८२९-५२.	वैमानिकेष्वआहारार्थ्यादिद्वारसप्तकवक्तव्यता	३९७-९९
१८५३-५८.	नवममेकेन्द्रियशरीरादिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकेन्द्रिया- दिशरीराहारवक्तव्यता	३९९
१८५९-६१.	दशमं लोमाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु लोमाहार-प्र- क्षेपाहारवक्तव्यता	३९९
१८६२-६४.	एकादशं मनोभक्षिद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेषु भोजआहार- मनोभक्षित्ववक्तव्यता	४००
१८६५-१९०७.	द्वितीयोद्देशकः	४००-६
१८६५.	द्वितीयोद्देशकस्याहार-भव्यादीनि त्रयोदश द्वाराणि	४००
१८६६-७०.	प्रथममाहारद्वारम्-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वआहारकानाहारकत्व- वक्तव्यता	४००-१
१८७१-७५.	द्वितीयं भव्यद्वारम्-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक-नोभवसि- द्धिकनोभवसिद्धिकानामाहारकानाहारकावक्तव्यता	४०१
१८७६-८२.	तृतीयं संज्ञिद्वारम्-संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोभसंज्ञिषु जीव- चतुर्विंशतिदण्डकेष्वआहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०१-२
१८८३-८६.	चतुर्थं लेख्याद्वारम्-सलेख्यानामलेख्यानां च जीवानामा- हारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०२-३
१८८७-८९.	पञ्चमं दृष्टिद्वारम्-सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृ- ष्टिषु जीवेष्वआहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०३
१८९०-९३.	षष्ठं संयतद्वारम्-संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंयतनोअ- संयतेषु जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेष्वआहारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०३-४

सूत्राङ्कः

विषयः

पृष्ठाङ्कः

१८९४-९६.	सप्तमं कषायद्वारम् - सकषायकषायेषु जीवादिप्लाहार- कानाहारकत्ववक्तव्यता	४०४
१८९७-९९.	अष्टमं ज्ञानद्वारम् - ज्ञान्यज्ञानेषु जीवादिप्लाहारकानाहार- कत्ववक्तव्यता	४०४-५
१९००.	नवमं योगद्वारम् - सयोगयोगेषु जीवादिप्लाहारकानाहा- रकत्ववक्तव्यता	४०५
१९०१.	दशममुपयोगद्वारम् - साकारानाकारोपयोगोपयुक्तेप्लाहार- कानाहारकत्ववक्तव्यता	४०५
१९०२.	एकादशं वेदद्वारम् - स्त्री-पुं-नपुंसकवेदकेष्वेदकेषु चाहारका- नाहारकत्ववक्तव्यता	४०५
१९०३.	द्वादशं शरीरद्वारम् - औदारिकादिशरीरिष्वशरीरिषु चाहा- रकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०५-६
१९०४-७.	त्रयोदशं पर्यासिद्धारम् - आहारादिपर्यासिपर्यासकेप्ला- हारकानाहारकत्ववक्तव्यता	४०६
१९०८-३५.	एकोनविंशमुपयोगपदम्	४०७-९
१९०८-१०.	उपयोगस्य साकारोपयोगानाकारोपयोगेति भेदद्वयम्, तत्प्रभेदाश्च	४०७
१९११-२७.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषूपयोगभेद-प्रभेदवक्तव्यता	४०७-८
१९२८-३५.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु साकारानाकारोपयोगित्ववक्तव्यता	४०८-९
१९३६-६४.	त्रिंशं पश्यन्तापदम्	४१०-१२
१९३६-३८.	पश्यन्तायाः साकारानाकारपश्यन्तेति भेदद्वयम्, तत्प्रभेदाश्च	४१०
१९३९-५३.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु पश्यन्ताभेद-प्रभेदवक्तव्यता	४१०-११
१९५४-६२.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु साकारानाकारपश्यन्तित्ववक्तव्यता	४११-१२
१९६३-६४.	केवल्युपयोगवक्ष्यन्त्या	४१२
१९६५-७३.	एकत्रिंशं संज्ञिपदम्	४१३
१९६५-७३.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु संज्ञि-असंज्ञि-नोसंज्ञिनोअसंज्ञि- त्ववक्तव्यता	४१३
१९७४-८०.	द्वात्रिंशं संयमपदम्	४१४
१९७४-८०.	जीव-चतुर्विंशतिदण्डकेषु-संयत-असंयत-संयतासंयत-नोसंय- तनोअसंयतनोसंयतासंयतत्ववक्तव्यता	४१४
१९८१-२०३१.	त्रयस्त्रिंशमवधिपदम्	४१५-१८
१९८१.	त्रयस्त्रिंशत्तमपदस्य भेद-विषयादीनि सप्त द्वाराणि	४१५

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१९८२.	प्रथमं भेदद्वारम्—अवधिज्ञानस्य भवप्रत्ययिक-शायोपश- मिकैति भेदद्वयम्	४१५
१९८३—२००७.	द्वितीयं विषयद्वारम्—नैरयिकादिष्ववधिज्ञानविषयकक्षे- त्रवक्तव्यता	४१५—१७
२००८—१६.	तृतीयं संस्थानद्वारम्—नैरयिकाद्यवधिज्ञानस्य संस्थानानि	४१७—१८
२०१७—२१.	चतुर्थमवध्यभ्यन्तर-बहिर्द्वारम्—नैरयिकादिष्वभ्यन्तर-ग्राह्या- वधिवक्तव्यता	४१८
२०२२—२६.	पञ्चमं देशावधिद्वारम्—नैरयिकादिषु देशावधि-सर्वावधि- त्ववक्तव्यता	४१८
२०२७—३१.	षष्ठं सप्तमं अवधिक्षय-वृद्धिद्वारं प्रतिपात्यप्रतिपातिद्वारं च—नैरयिकादिष्वानुगामिकाद्यवधिज्ञानवक्तव्यता	४१८
२०३२—५३.	चतुस्त्रिंशं प्रवीचारपदम्	४१९—२३
२०३२.	चतुस्त्रिंशत्तमपदस्यानन्तरागताहारादीनि पद् द्वाराणि	४१९
२०३३—३७.	प्रथममनन्तरागताहारद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वनन्तराहार- निर्वर्तनता-पर्यादानता-परिणामनता-परिचरणादिविक्रि- याणांप्ररूपणम्	४१९
२०३८—३९.	द्वितीयमाहाराभोगताद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वभोगनि- र्वर्तितानाभोगनिर्वर्तितहारवक्तव्यता	४१९—२०
२०४०—४६.	तृतीयं पुद्गलज्ञानद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वहारपुद्गलानां ज्ञाताज्ञातत्व-दृष्टादृष्टत्वविचारः	४२०
२०४७—४८.	चतुर्थमध्यवसानद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वध्यवसानस- ङ्ख्या, तत्प्रशस्तत्वाप्रशस्तत्वनिरूपणं च	४२०
२०४९—५०.	पञ्चमं सम्यक्त्वाभिगमद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु सम्य- क्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वाभिगमित्ववक्तव्यता	४२१
२०५१—५३.	षष्ठं परिचरणाद्वारम्—चतुर्विधदेवनिकायेषु काय-स्पर्श- -रूपादिप्रवीचारवक्तव्यता, तदल्पबहुत्वं च	४२१—२३
२०५४—८४.	पञ्चत्रिंशं वेदनापदम्	४२४—२७
२०५४.	पञ्चत्रिंशत्तमपदस्य शीतादीनि सप्त द्वाराणि	४२४
२०५५—५९.	प्रथमं शीतादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु शीत-उष्ण- शीतोष्णवेदनावक्तव्यता	४२४
२०६०—६२.	द्वितीयं द्रव्यादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु द्रव्य- क्षेत्र-काल-भाववेदनाप्रतिपादनम्	४२५
२०६३—६५.	तृतीयं शरीरादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु शारीर- मानस-शारीरमानसवेदनावक्तव्यता	४२५
२०६६—६८.	चतुर्थं सातादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु सात- असात-सातासातवेदनाप्रतिपादनम्	४२५

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
२०६९ - ७१.	पञ्चमं दुःखादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेषु दुःख-सुख- अदुःखासुखवेदनाप्रतिपादनम्	४२५ - २६
२०७२ - ७६.	षष्ठमाभ्युपगमिकथादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्व्वा- भ्युपगमिक्यौपक्रमिकीवेदनावक्तव्यता	४२६
२०७७ - ८४.	सप्तमं निदादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेषु निदाऽ- निदावेदनावक्तव्यता	४२६ - २७
२०८५ - २१७६.	पट्त्रिंशं समुद्घातपदम्	४२८ - ४६
२०८५ - ८६.	समुद्घातस्य वेदनासमुद्घातादिकाः पद् भेदाः	४२८
२०८७ - ८८.	समुद्घातकालप्ररूपणम्	४२८
२०८९ - ९२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु समुद्घातप्ररूपणम्	४२८ - २९
२०९३ - ९६.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्वेनातीत-पुरस्कृतसमुद्घातप्ररूपणम्	४२९
२०९७ - २१००.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पृथक्त्वेनातीत-पुरस्कृतसमुद्घातप्ररू- पणम्	४३०
२१०१ - २०.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्वेनातीतादि- समुद्घातप्ररूपणम्	४३० - ३३
२१२१ - २४.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेषु पृथक्त्वेनातीतादि- समुद्घातप्ररूपणम्	४३३ - ३४
२१२५ - ३२.	समुद्घातसमवहतासमवहतानां जीव-चतुर्विंशतिदण्डकाना- मल्पबहुत्वम्	४३४ - ३६
२१३३ - ४६.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्वपृथक्त्वाभ्यां कषायसमुद्घातवक्तव्यता	४३६ - ३८
२१४७ - ५२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु छात्रस्थिकसमुद्घातप्ररूपणम्	४३८ - ३९
२१५३ - ५४.	वेदनासमुद्घातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४३९ - ४०
२१५५.	कषायसमुद्घातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४०
२१५६ - ५८.	मारणान्तिकसमुद्घातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्र- रूपणम्	४४० - ४१
२१५९ - ६४.	वैक्रियसमुद्घातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४१
२१६५.	तैजससमुद्घातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४१ - ४२
२१६६ - ६७.	आहारकसमुद्घातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूप- णम्	४४२
२१६८ - ७५.	केवलिसमुद्घातवक्तव्यता	४४२ - ४५
२१७६.	सिद्धस्वरूपम्	४४६

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
१९८२.	प्रथमं भेदद्वारम्—अवधिज्ञानस्य भवप्रत्ययिक-क्षायोपश- मिकेति भेदद्वयम्	४१५
१९८३-२००७.	द्वितीयं विषयद्वारम्—नैरयिकादिष्ववधिज्ञानविषयकक्षे- प्रवक्तव्यता	४१५-१७
२००८-१६.	तृतीयं संस्थानद्वारम्—नैरयिकाद्यवधिज्ञानस्य संस्थानानि	४१७-१८
२०१७-२१.	चतुर्थमवध्यभ्यन्तर-ब्रह्मिद्वारम्—नैरयिकादिष्वभ्यन्तर-ब्राह्म- वधिवक्तव्यता	४१८
२०२२-२६.	पञ्चमं देशावधिद्वारम्—नैरयिकादिषु देशावधि-सर्वावधि- त्ववक्तव्यता	४१८
२०२७-३१.	षष्ठं सप्तमं अवधिक्षय-वृद्धिद्वारं प्रतिपात्यप्रतिपातिद्वारं च—नैरयिकादिष्वानुगामिकाद्यवधिज्ञानवक्तव्यता	४१८
२०३२-५३.	चतुर्विंशं प्रवीचरपदम्	४१९-२३
२०३२.	चतुर्विंशत्तमपदस्यानन्तरागताहारादीनि षड् द्वाराणि	४१९
२०३३-३७.	प्रथममनन्तरागताहारद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वनन्तराहार- -निर्वर्तनता-पर्यादानता-परिणामनता-परिचरणादिक्रि- याणांप्ररूपणम्	४१९
२०३८-३९.	द्वितीयमाहाराभोगताद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वभोगनि- र्वर्तितानाभोगनिर्वर्तितहारवक्तव्यता	४१९-२०
२०४०-४६.	तृतीयं पुद्गलज्ञानद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वाहारपुद्गलानां ज्ञाताज्ञातत्व-दृष्टादृष्टत्वविचारः	४२०
२०४७-४८.	चतुर्थमध्यवसानद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेष्वध्यवसानस- ङ्ख्या, तदप्रशस्तत्वाप्रशस्तत्वनिरूपणं च	४२०
२०४९-५०.	पञ्चमं सम्यक्त्वाभिगमद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु सम्य- क्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वाभिगमित्ववक्तव्यता	४२१
२०५१-५३.	षष्ठं परिचरणाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु काय-स्पर्श- -रूपादिप्रवीचरवक्तव्यता, तदल्पवहुत्वं च	४२१-२३
२०५४-८४.	पञ्चत्रिंशं वेदनापदम्	४२४-२७
२०५४.	पञ्चत्रिंशत्तमपदस्य शीतादीनि सप्त द्वाराणि	४२४
२०५५-५९.	प्रथमं शीतादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु शीत-उष्ण- शीतोष्णवेदनावक्तव्यता	४२४
२०६०-६२.	द्वितीयं द्रव्यादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु द्रव्य- क्षेत्र-काल-भाववेदनाप्रतिपादनम्	४२५
२०६३-६५.	तृतीयं शारीरादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु शारीर- मानस-शारीरमानसवेदनावक्तव्यता	४२५
२०६६-६८.	चतुर्थं सातादिवेदनाद्वारम्—चतुर्विंशतिदण्डकेषु सात- जसात-सातासातवेदनाप्रतिपादनम्	४२५

सूत्राङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
२०६९-७१.	पञ्चमं दुःखादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेषु दुःख-सुख- अदुःखासुखवेदनाप्रतिपादनम्	४२५ - २६
२०७२-७६.	षष्ठमाभ्युपगमिकथादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेष्व्या- भ्युपगमिकयौपक्रमिकीवेदनावक्तव्यता	४२६
२०७७-८४.	सप्तमं निदादिवेदनाद्वारम् - चतुर्विंशतिदण्डकेषु निदास- निदावेदनावक्तव्यता	४२६ - २७
२०८५-२१७६.	षट्त्रिंशं समुद्धातपदम्	४२८ - ४६
२०८५-८६.	समुद्धातस्य वेदनासमुद्धातादिकाः पद् भेदाः	४२८
२०८७-८८.	समुद्धातकालप्ररूपणम्	४२८
२०८९-९२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु समुद्धातप्ररूपणम्	४२८ - २९
२०९३-९६.	चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्वेनातीत-पुरस्कृतसमुद्धातप्ररूपणम्	४२९
२०९७-२१००.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु पृथक्त्वेनातीत-पुरस्कृतसमुद्धातप्ररू- पणम्	४३०
२१०१-२०.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्वेनातीतादि- समुद्धातप्ररूपणम्	४३० - ३३
२१२१-२४.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेषु पृथक्त्वेनातीतादि- समुद्धातप्ररूपणम्	४३३ - ३४
२१२५-३२.	समुद्धातसमवहतासमवहतानां जीव-चतुर्विंशतिदण्डकाना- मल्पवहुत्वम्	४३४ - ३६
२१३३-४६.	चतुर्विंशतिदण्डकानां चतुर्विंशतिदण्डकेष्वेकत्वपृथक्त्वाभ्यां कषायसमुद्धातवक्तव्यता	४३६ - ३८
२१४७-५२.	चतुर्विंशतिदण्डकेषु छात्रस्थिकसमुद्धातप्ररूपणम्	४३८ - ३९
२१५३-५४.	वेदनासमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४३९ - ४०
२१५५.	कषायसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४०
२१५६-५८.	मारणान्तिकसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्र- रूपणम्	४४० - ४१
२१५९-६४.	वैक्रियसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४१
२१६५.	तैजससमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूपणम्	४४१ - ४२
२१६६-६७.	भाहारकसमुद्धातसमवहतजीवादीनामवगाह-स्पर्शादिप्ररूप- णम्	४४२
२१६८-७५.	केवलिसमुद्धातवक्तव्यता	४४२ - ४५
२१७६.	सिद्धस्वरूपम्	४४६

भगवंसिरिसामज्जायगविरइयं

पण्णावणारुत्तं

चरत्थमुवंगं

॥ णमो त्थु णं समणस्स भगवओ महइमहावीरवद्धमाणसामिस्स ॥

णमो अणुओगधराणं थेराणं ।

भगवंसिरिसामज्जवायगविरइयं

पणवणासुत्तं

१. पढमं पणवणापदं

ॐ नमो वीतरागाय ।

[सुत्तं १. मंगलं अभिधेयं च]

[नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं ।
नमो उवज्जायाणं । नमो लोए सव्वसाहूणं ।]

१. ववगयजर-मरणभए सिद्धे अभिवंदिऊण तिविह्णेणं ।

वंदामि जिणवरिंदं तेलोक्कगुरुं महावीरं ॥ १ ॥

सुययणनिहाणं जिणवरेण भवियजणणिव्वुइकरेण ।

उवदंसिया भयवया पणवणा सव्वभावाण ॥ २ ॥

[वायगवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेण ।

हुद्धरधरेण सुणिणा पुव्वसुयसमिद्धबुद्धीण ॥ १ ॥

सुयसागरा विणेऊण जेण सुययणसुत्तमं दिन्नं ।

सीसगणस्स भगवओ तस्स नमो अज्जसामस्स ॥ २ ॥]

[पक्खित्तं गाहाजुयलयं]

अज्जयणामिणं चित्तं सुययणं दिट्ठिवायणीसंदं ।

जह वण्णियं भगवया अहमवि तह वण्णइस्सामि ॥ ३ ॥

५

१०

१५

१. श्रीहरिभद्रसूरि-श्रीमलयगिरिपादाभ्यां स्वस्ववृत्तावव्याख्यातोऽप्ययं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारः
ग्रन्थादौ मङ्गलार्थमुपन्यस्तः सर्वेष्वपि मूलसूत्रादर्शेषूपलभ्यते ॥ २. ०हूणं । एसो पंचनसुक्कारो
सव्वपावप्पणासणो । मंगलाणं च सव्वेत्तिं पढमं हवइ मंगलं ॥] ववग^० जे०ध० ॥ ३. भगवच्छ्यामार्य-

॥ नमो त्थु णं समणस्स भगवथो महइमहावीरवद्धमाणसामिस्स ॥

णमो अणुओगधराणं श्रेराणं ।

भगवंसिरिसामज्जवायगविरइयं

पणवणासुत्तं

१. पढमं पणवणापदं

ॐ नमो वीतरागाय ।

[सुत्तं १. मंगलं अभिधेयं च]

[नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं ।
नमो उवज्जायाणं । नमो लोए सव्वसाहूणं ।]

१. ववगयजर-मरणभए सिद्धे अभिवंदिऊण तिविहेणं ।

वंदाभि जिणवरिंदं तेलोक्कगुरुं महावीरं ॥ १ ॥

सुयरयणनिहाणं जिणवरेण भवियजणणिव्वुड्करेण ।

उवदंसिया भयवया पणवणा सव्वभावाण ॥ २ ॥

[वैयागवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेण ।

दुद्धरधरेण सुणिणा पुव्वसुयसमिद्धवुद्धीण ॥ १ ॥

सुयसागरा विणेऊण जेण सुयरयणसुत्तमं दिच्चं ।

सीसगणस्स भगवथो तस्स नमो अज्जसामस्स ॥ २ ॥]

[पक्खित्तं गाहाजुयलयं]

अज्जयणामिणं चित्तं सुयरयणं दिट्ठिवायणीसंदं ।

जह वणियं भगवया अहमवि तह वणणइस्सामि ॥ ३ ॥

१. श्रीहरिभद्रसूरि-श्रीमलयगिरिपादाभ्यां स्वस्ववृत्तावव्याख्यातोऽप्ययं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारः
ग्रन्थादौ मङ्गलार्थमुपन्यस्तः सर्वेष्वपि मूलसूत्रादर्शेषूपलभ्यते ॥ २. °हूणं । एसो पंचनमुक्कारो
सव्वपावपणासणो । मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥] ववग^० जे०ध० ॥ ३. भगवच्छयामार्थ-
वन्दनप्रख्यापकमिदं गाथायुगलं श्रीहरिभद्रपाद-मलयगिरिपादाभ्यां स्वस्ववृत्तौ प्रक्षिप्तत्वेन निष्टङ्कितं
व्याख्यातं च दृश्यते ॥ ४. चियेऊण ह० ॥

॥ णमो त्थु णं समणस्स भगवओ महइमहावीरवद्धमाणसामिस्स ॥

णमो अणुओगधराणं थेराणं ।

भगवंसिरिसामज्जवायगविरइयं

पणवणासुत्तं

१. पढमं पणवणापदं

उं नमो वीतरागाय ।

[सुत्तं १. मंगलं अभिधेयं च]

[नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं ।
नमो उवज्झायाणं । नमो लोए सव्वसाहूणं ।]

१. ववगयजर-मरणभए सिद्धे अभिवंदिऊण तिविहेणं । ५

वंदामि जिणवरिंदं तेलोक्कगुरुं महावीरं ॥ १ ॥

सुयरयणनिहाणं जिणवरेण भवियजणणिव्वुइकरेण ।

उवदंसिया भयवया पणवणा सव्वभावाण ॥ २ ॥

[वैयागवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेण ।

दुद्धरधरेण सुणिणा पुव्वसुयसभिद्धलुद्धीण ॥ १ ॥ १०

सुयसागरा विणेऊण जेण सुयरयणमुत्तमं दिच्चं ।

सीसगणस्स भगवओ तस्स नयो अज्जसामस्स ॥ २ ॥]

[पक्खित्तं गाहाज्जुयलयं]

अज्जयणमिणं चित्तं सुयरयणं दिट्ठिवायणीसंदं ।

जह वणिणयं भगवया अहमवि तह वणणइस्सामि ॥ ३ ॥ १५

१. श्रीहरिभद्रसूरि-श्रीमलयगिरिपादाभ्यां स्वस्ववृत्तावव्याख्यातोऽप्ययं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारः
मन्थादौ मङ्गलार्थमुपन्यस्तः सर्वेष्वपि मूलसूत्रादशेषूपलभ्यते ॥ २. ०हूणं । एसो पंचनमुक्कारो
सव्वपावपणासणो । मंगलाणं च सव्वेसि पढमं हवइ मंगलं ॥] ववग^० जे^०ध^०॥ ३. भगवच्छ्यामार्थ-
वन्दनप्रख्यापकमिदं गाथायुगलं श्रीहरिभद्रपाद-मलयगिरिपादाभ्यां स्वस्ववृत्तौ प्रक्षिप्तत्वेन निष्कृतं
व्याख्यातं च दृश्यते ॥ ४. त्रिवेज्जण ह० ॥

[सुत्ताइं २-३. छत्तीसपयनामाणि पणवणोवक्कमो य]

२. पणवणा १ ठाणाइं २ बहुवत्तव्वं ३ ठिई ४ विसेसा य ५ ।
 वक्कंती ६ उस्सासो ७ सण्णा ८ जोणी य ९ चरिमाइं १० ॥ ४ ॥
 भासा ११ सरीर १२ परिणाम १३ कसाए १४ इंदिए १५
 पओगे य १६ ।
 लेसा १७ कायठिई या १८ सम्मत्ते १९ अंतकिरिया य २० ॥ ५ ॥
 ओगाहणसंठाणे २१ किरिया २२ कम्मत्ति य्वावरे २३ ।
 कम्मस्स वंधए २४ कम्मवेदए २५ वेदस्स वंधए २६
 वेयवेयए २७ ॥ ६ ॥
 १० आहारे २८ उवओगे २९ पासणया ३० सण्णि ३१ संजमे ३२ चेव ।
 ओही ३३ पवियारण ३४ वेयणा य ३५ तत्तो समुग्घाए ३६ ॥ ७ ॥
 ३. से किं तं पणवणा ? पणवणा दुविहा पन्नत्ता । तं जहा-जीव-
 पणवणा य १ अजीवपणवणा य २ ।

[सुत्ताइं ४-१३. अजीवपणवणा]

४. से किं तं अजीवपणवणा ? अजीवपणवणा दुविहा पणत्ता ।
 तं जहा-रूविअजीवपणवणा य १ अरूविअजीवपणवणा य २ ।

[सुत्तं ५. अरूविअजीवपणवणा]

५. से किं तं अरूविअजीवपणवणा ? अरूविअजीवपणवणा दसविहा
 पन्नत्ता । तं जहा-धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स
 २० पदेसा ३, अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६,
 आगासत्थिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९,
 अद्धासमए १० । से तं अरूविअजीवपणवणा ।

[सुत्ताइं ६-१३. रूविअजीवपणवणा]

६. से किं तं रूविअजीवपणवणा ? रूविअजीवपणवणा चउव्विहा
 २५ पणत्ता । तं जहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधप्पएसा ३ परमाणुपोगगला ४ ।

७. ते समासतो पंचविहा पणत्ता । तं जहा—वण्णपरिणया १
गंधपरिणया २ रसपरिणया ३ फासपरिणया ४ संठाणपरिणया ५ ।

८. [१] जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पणत्ता । तं जहा—काल-
वण्णपरिणया १ नीलवण्णपरिणया २ लोहियवण्णपरिणया ३ हालिद्ववण्णपरिणया
४ सुक्किलवण्णपरिणया ५ ।

[२] जे गंधपरिणता ते दुविहा पन्नत्ता । तं जहा—सुब्भिगंधपरिणता
य १ दुब्भिगंधपरिणता य २ ।

[३] जे रसपरिणता ते पंचविहा पन्नत्ता । तं जहा—तित्तरसपरिणता १
कडुयरसपरिणता २ कसायरसपरिणता ३ अंबिलरसपरिणता ४ महुररसपरिणता ५ ।

[४] जे फासपरिणता ते अड्वविहा पणत्ता । तं जहा—कक्खडफासपरिणता १
मउयफासपरिणता २ गरुयफासपरिणता ३ लहुयफासपरिणता ४ सीयफास-
परिणता ५ उसिणफासपरिणता ६ निद्धफासपरिणता ७ लुक्खफासपरिणता ८ ।

[५] जे संठाणपरिणता ते पंचविहा पणत्ता । तं जहा—परिमंडल-
संठाणपरिणता १ वट्टसंठाणपरिणता २ तंसंठाणपरिणता ३ चउरंसंठाणपरिणता
४ आयतसंठाणपरिणता ५ । २५ ।

९. [१] जे वण्णओ कालवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता
वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि
कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि
तंसंठाणपरिणता वि चउरंसंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[२] जे वण्णओ नीलवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि
दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरस-
परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता
वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफास-
परिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि,
संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंसंठाणपरिणता वि
चउरंसंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[सुत्ताइं २-३. छत्तीसपयनामाणि पणवणोवकमो य]

२. पणवणा १ ठाणाइं २ बहुवत्त्वं ३ ठिई ४ विसेसा य ५ ।
 वक्कंती ६ उस्सासो ७ सण्णा ८ जोणी य ९ चरिमाइं १० ॥ ४ ॥
 भासा ११ सरीर १२ परिणाम १३ कसाए १४ इंदिए १५
 पओगे य १६ ।
 लेसा १७ कायठिई या १८ सम्मत्ते १९ अंतकिरिया य २० ॥ ५ ॥
 ओगाहणसंठाणे २१ किरिया २२ कम्मे ति थावरे २३ ।
 कम्मस्स बंधए २४ कम्मवेदए २५ वेदस्स बंधए २६
 वेयवेयए २७ ॥ ६ ॥
 १० आहारे २८ उवओगे २९ पासणया ३० सण्णि ३१ संजमे ३२ चेव ।
 ओही ३३ पवियारण ३४ वेयणा य ३५ तत्तो समुग्घाए ३६ ॥ ७ ॥
 ३. से किं तं पणवणा ? पणवणा दुविहा पन्नत्ता । तं जहा-जीव-
 पणवणा य १ अजीवपणवणा य २ ।

[सुत्ताइं ४-१३. अजीवपणवणा]

- १५ ४. से किं तं अजीवपणवणा ? अजीवपणवणा दुविहा पणत्ता ।
 तं जहा-रूविअजीवपणवणा य १ अरूविअजीवपणवणा य २ ।

[सुत्तं ५. अरूविअजीवपणवणा]

- २० ५. से किं तं अरूविअजीवपणवणा ? अरूविअजीवपणवणा दसविहा
 पन्नत्ता । तं जहा-धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स
 पदेसा ३, अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६,
 आगासत्थिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९,
 अद्धासमए १० । से तं अरूविअजीवपणवणा ।

[सुत्ताइं ६-१३. रूविअजीवपणवणा]

- २५ ६. से किं तं रूविअजीवपणवणा ? रूविअजीवपणवणा चउच्चिहा
 पणत्ता । तं जहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधप्पेसा ३ परमाणुपोग्गला ४ ।

७. ते समासतो पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा—वण्णपरिणया १
गंधपरिणया २ रसपरिणया ३ फासपरिणया ४ संठाणपरिणया ५ ।

८. [१] जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा—काल-
वण्णपरिणया १ नीलवण्णपरिणया २ लोहियवण्णपरिणया ३ हालिद्ववण्णपरिणया
४ सुक्किलवण्णपरिणया ५ ।

[२] जे गंधपरिणता ते दुविहा पन्नत्ता । तं जहा—सुब्भिगंधपरिणता
य १ दुब्भिगंधपरिणता य २ ।

[३] जे रसपरिणता ते पंचविहा पन्नत्ता । तं जहा—तित्तरसपरिणता १
कडुयरसपरिणता २ कसायरसपरिणता ३ अंबिलरसपरिणता ४ महुुररसपरिणता ५ ।

[४] जे फासपरिणता ते अट्टविहा पण्णत्ता । तं जहा—कक्खडफासपरिणता १
मउयफासपरिणता २ गरुयफासपरिणता ३ लहुयफासपरिणता ४ सीयफास-
परिणता ५ उसिणफासपरिणता ६ निद्धफासपरिणता ७ लुक्खफासपरिणता ८ ।

[५] जे संठाणपरिणता ते पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा—परिमंडल-
संठाणपरिणता १ वट्टसंठाणपरिणता २ तंससंठाणपरिणता ३ चउरंससंठाणपरिणता
४ आयतसंठाणपरिणता ५ । २५ ।

९. [१] जे वण्णओ कालवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता
वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि
कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुुररसपरिणता वि, फासओ
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[२] जे वण्णओ नीलवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि
दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरस-
परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता
वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफास-
परिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि,
संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि
चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[३] जे वण्णओ लोहियवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि
 ५ सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[४] जे वण्णओ हालिद्वण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि
 १० सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

[५] जे वण्णओ सुक्किलवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि
 १५ सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २०।१००।१।

१०. [१] जे गंधओ सुब्भिगंधपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि णीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्वण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कड्डुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि
 २५ अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता

वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २३ ।

[२] जे गंधओ दुँब्भिगंधपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि नीलवण्णपरिणया वि लोहियवण्णपरिणया वि हालिद्ववण्णपरिणया वि सुक्किलवण्णपरिणया वि, रसतो तित्तरसपरिणया वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि वट्टसंठाणपरिणया वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणया वि । २३ । ४६ । २ ।

५

१०

११. [१] जे रसओ तित्तरसपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणया वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणया वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

१५

[२] जे रसओ कडुयरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुँब्भिगंधपरिणता वि दुँब्भिगंधपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० ।

२०

[३] जे रसओ कसायरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि

२५

१. दुरभिगंध° म० पुरविना ॥ २. कालवण्णपरिणया वि जाव आययसंठाणपरिणया वि जे० । कालवण्णपरिणया वि जाव सुक्किलवण्णपरिणया वि, रसओ तित्तरसपरिणया वि जाव महुररसपरिणया वि, फासओ कक्खडफासपरिणया वि जाव लुक्खफासपरिणया वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि जाव आयतसंठाणपरिणया वि प्र० म० ॥ ३. सुरभिगंध° ध० ॥ ४. दुरभिगंध° ध० ॥

नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-
परिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणया वि, फासओ
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
५ लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[४] जे रसओ अंवलरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-
परिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, फासओ
१० कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता
वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[५] जे रसओ महुररसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि
१५ नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-
परिणता वि, गंधतो सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, फासतो
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता
२० वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता
वि २०।१००।३।

१२. [१] जे फासतो कक्खडफासपरिणता ते वण्णओ कालवण्ण-
परिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि
सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ
२५ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंवलरसपरिणता
वि महुररसपरिणता वि, फासतो गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि
सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास-

नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-
परिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणया वि, फासओ
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
५ लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[४] जे रसओ अंवलरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-
परिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, फासओ
१० कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता
वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० ।

[५] जे रसओ महुररसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि
१५ नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण-
परिणता वि, गंधतो सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, फासतो
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास-
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता
२० वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता
वि २०।१००।३।

१२. [१] जे फासतो कक्खडफासपरिणता ते वण्णओ कालवण्ण-
परिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि
सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ
२५ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंवलरसपरिणता
वि महुररसपरिणता वि, फासतो गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि
सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास-

महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३ ।

५ [६] जे फासतो उसिणफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणया वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि

१० गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३ ।

[७] जे फासतो णिद्धफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३ ।

२० [८] जे फासतो लुक्खफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३।१८४। हँ ॥

महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३ ।

५ [६] जे फासतो उसिणफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणया वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंघिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३ ।

१० [७] जे फासतो णिद्धफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंघिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३ ।

२० [८] जे फासतो लुक्खफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्ववण्णपरिणता वि सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुंभिगंधपरिणता वि दुंभिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंघिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३।१८४। हूँ ॥

सुक्किलवणपरिणता वि, गंधतो सुन्निगंधपरिणता वि दुन्निगंधपरिणता वि, रसतो तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंवलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफास-
 ५ परिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०।१००।५ । से तं रूविअजीवपणवणा । से तं अजीवपणवणा ।

[सुत्ताइं १४-१४७. जीवपणवणा]

१४. से किं तं जीवपणवणा ? जीवपणवणा दुविहा पणत्ता । तं जहा-संसारसमावणजीवपणवणा य १ असंसारसमावणजीवपणवणा य २ ।

१०

[सुत्ताइं १५-१७. असंसारसमावणजीवपणवणा]

१५. से किं तं असंसारसमावणजीवपणवणा ? असंसारसमावणजीव-
 पणवणा दुविहा पणत्ता । तं जहा-अणंतरसिद्धअसंसारसमावणजीवपणवण
 य १ परंपरसिद्धअसंसारसमावणजीवपणवणा य २ ।

१६. से किं तं अणंतरसिद्धअसंसारसमावणजीवपणवणा ? अणंतर-
 १५ सिद्धअसंसारसमावणजीवपणवणा पन्नरसविहा पन्नत्ता । तं जहा-तित्थसिद्धा १
 अतित्थसिद्धा २ तित्थगरसिद्धा ३ अतित्थगरसिद्धा ४ सयंबुद्धसिद्धा ५ पत्तेयबुद्ध-
 सिद्धा ६ बुद्धबोहियसिद्धा ७ इत्थीलिंगसिद्धा ८ पुरिसलिंगसिद्धा ९ नपुंसकलिंग-
 सिद्धा १० सलिंगसिद्धा ११ अणलिंगसिद्धा १२ गिहिलिंगसिद्धा १३ एगसिद्धा
 १४ अणेगसिद्धा १५ । से तं अणंतरसिद्धअसंसारसमावणजीवपणवणा ।

२०

१७. से किं तं परंपरसिद्धअसंसारसमावणजीवपणवणा ? परंपरसिद्ध-
 असंसारसमावणजीवपणवणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-अपढमसमयसिद्धा
 दुसमयसिद्धा तिसमयसिद्धा चउसमयसिद्धा जाव संखेज्जसमयसिद्धा असंखेज्जसमय-
 सिद्धा. अणंतसमयसिद्धा । से तं परंपरसिद्धअसंसारसमावणजीवपणवणा । से तं
 असंसारसमावणजीवपणवणा ।

२५

[सुत्ताइं १८-१४७. संसारसमावणजीवपणवणा]

१८. से किं तं संसारसमावणजीवपणवणा ? संसारसमावणजीव-
 पणवणा पंचविहा पन्नत्ता । तं जहा-एगिंदियसंसारसमावणजीवपणवणा १

वदियंसंसारसमावण्णजीवपणवणा २ तेंदियंसंसारसमावण्णजीवपणवणा ३
चउरेंदियंसंसारसमावण्णजीवपणवणा ४ पंचेंदियंसंसारसमावण्णजीवपणवणा ५ ।

[सुत्ताइं १९-५५. एगिंदियजीवपणवणा]

१९. से किं तं एगेंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ? एगेंदियसंसार-
समावण्णजीवपणवणा पंचविहा पणत्ता । तं जहा-पुढविकाइया १ ५
आउकाइया २ तेउकाइया ३ वाउकाइया ४ वणरसइकाइया ५ ।

[सुत्ताइं २०-२५. पुढवीकायजीवपणवणा]

२०. से किं तं पुढविकाइया ? पुढविकाइया दुविहा पणत्ता । तं जहा-
सुहुमपुढविकाइया य बादरपुढविकाइया य ।

२१. से किं तं सुहुमपुढविकाइया ? सुहुमपुढविकाइया दुविहा पणत्ता । १०
तं जहा-पजत्तसुहुमपुढविकाइया य अपजत्तसुहुमपुढविकाइया य । से तं
सुहुमपुढविकाइया ।

२२. से किं तं बादरपुढविकाइया ? बादरपुढविकाइया दुविहा पन्नत्ता ।
तं जहा-सण्हवादरपुढविकाइया य खरवादरपुढविकाइया य ।

२३. से किं तं सण्हवादरपुढविकाइया ? सण्हवादरपुढविकाइया १५
सत्तविहा पन्नत्ता । तं जहा-किण्हमत्तिया १ नीलमत्तिया २ लोहियमत्तिया ३
हालिद्धमत्तिया ४ सुक्किल्लमत्तिया ५ पंडुमत्तिया ६ पणगमत्तिया ७ । से तं
सण्हवादरपुढविकाइया ।

२४. से किं तं खरवादरपुढविकाइया ? खरवादरपुढविकाइया अणेगविहा
पणत्ता । तं जहा-

पुढवी य १ सक्करा २ वालुया य ३ उवले ४ सिला य ५ लोण्णसे ६-७ । २०

अँय ८ तंव ९ तउय १० सीसय ११ रूप्प १२ सुवण्णे य १३ वइरे
य १४ ॥ ८ ॥

हरियाले १५ हिंगुलुए १६ मणोसिला १७ सासगंडंजण १८-१९

पवालें २० । २५

१. वेइंदियं ध० पुर ॥ २. तेइंदियं ध० पुर ॥ ३. चउरिंदिं म० प्र० पुर ॥
४. अय तउय तंव सीसय जे० पुर ॥

अब्भपडल २१ ऽब्भवालुय २२ वादरकाए मणिविहाणा ॥ ९ ॥

गोमेज्जए य २३ रुयए २४ अंके २५ फल्लिहे य २६ लोहियक्खे य २७ ।

मरगय २८ मसारगल्ले २९ भुयमोयग ३० इंदनीले य ३१ ॥ १० ॥

चंदण ३२ गेरुय ३३ हंसे ३४ पुलए ३५ सोगंधिए य ३६ वोधव्वे ।

५ चंदप्पभ ३७ वेरुलिए ३८ जलकंते ३९ सूरकंते य ४० ॥ ११ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

२५. [१] ते समासतो दुविहा पन्नत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

[२] तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

१० [३] तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा एतेसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसा-
देसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणिप्पमुहसतसहस्साइं ।
पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमंति—जत्थ एगो तत्थ णियमा असंखिज्जा । से तं
खरवादरपुढविकाइया । से तं वादरपुढविकाइया । से तं पुढविकाइया ।

[सुत्ताइं २६—२८, आउक्कायजीवपण्णवणा]

१५ २६. से किं तं आउक्काइया ? आउक्काइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
सुहुमआउक्काइया य वादरआउक्काइया य ।

२७. से किं तं सुहुमआउक्काइया ? सुहुमआउक्काइया दुविहा पन्नत्ता ।
तं जहा—पज्जत्तसुहुमआउक्काइया य अपज्जत्तसुहुमआउक्काइया य । से तं
सुहुमआउक्काइया ।

२० २८. [१] से किं तं वादरआउक्काइया ? वादरआउक्काइया अणेगविहा
पण्णत्ता । तं जहा—ओसा हिमए महिया करए हरतणूए सुद्धोदए सीतोदए

१. गोमेज्जए य २३ रुयने २४ अंके २५ फल्लिहे य २६ लोहियक्खे य २७ । चंदण २८
गेरुय २९ हंसग ३० भुयमोय ३१ मसारगल्ले य ३२ ॥ ७५ ॥ चंदप्पह ३३ वेरुलिए ३४
जलकंते ३५ चेव सूरकंते य ३६ । एए खरपुढवीए नामं छत्तीसयं होइ ॥ ७६ ॥
इतिरूपे आचाराङ्गसूत्रनिर्णयुक्तिगाथे आचार्यश्रीशीलाङ्गेन व्याख्याते । आचाराङ्गचूर्णिकृता तु
प्रज्ञापनोपाङ्गसमे एव व्याख्याते स्तः । उत्तराध्ययनसूत्रे षट्त्रिंशोऽध्ययनेऽपि प्रज्ञापना-
सूत्रसमे एव गाथे विद्येते । केवलं तत्र हंसे इति स्थाने हंसगब्भ इति पाठभेदो दृश्यते, गा०
७६-७७ ॥ २. उस्सा ध० । आचाराङ्गसूत्रनिर्णयुक्तिगाथे “सुद्धोदए य १ उरसा २ हिमे य
३ महिया य ४ हरतणू चेव ५ । वायरआउविहाणा पंचविहा वण्णिया एए ॥ १०८ ॥”
इत्येवं वादराप्कायस्य पञ्चैव भेदा निर्दिष्टाः सन्ति । उत्तराध्ययनसूत्रेऽपि पञ्चैव भेदा वर्तन्ते,
अ. ३६ गा. ८६ ॥

उसिणोदए खारोदए खट्टोदए अंबिलोदए लवणोदए वारुणोदए खीरोदए घंओदए
खोतोदए रसोदए, जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नत्ता । तं जहा — पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

[३] तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[४] तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा एतेसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसादेसेणं
फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणीपमुहसयसहस्साइं ।
पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमंति — जत्थ एगो तत्थ गियमा असंखेज्जा ।
से तं वादरआउक्काइया । से तं आउक्काइया ।

[सुत्ताइं २९-३१. तेउकायजीवपण्णवणा]

२९. से किं तं तेउक्काइया ? तेउक्काइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा — १०
सुहुमतेउक्काइया य वादरतेउक्काइया य ।

३०. से किं तं सुहुमतेउक्काइया ? सुहुमतेउक्काइया दुविहा पन्नत्ता । तं
जहा — पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं सुहुमतेउक्काइया ।

३१. [१] से किं तं वादरतेउक्काइया ? वादरतेउक्काइया अणेगविहा
पण्णत्ता । तं जहा — इंगाले जाला मुम्मुरे अच्ची अलाए सुद्धागणी उक्का विज्जू १५
असणी णिग्घाए संघरिससमुट्टिए सूरकंतमणिणिसिसेए, जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नत्ता । तं जहा — पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

[३] तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[४] तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा एएसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणिप्पमुहसयसहस्साइं । २०
पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमंति — जत्थ एगो तत्थ गियमा असंखेज्जा । से
तं वादरतेउक्काइया । से तं तेउक्काइया ।

[सुत्ताइं ३२-३४. वाउकायजीवपण्णवणा]

३२. से किं तं वाउक्काइया ? वाउक्काइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा —
सुहुभवाउक्काइया य वादरवाउक्काइया य ।

१. टीकाकृताऽस्वीकृतमपि घओदए इति पदं सर्वास्वपि सूत्रप्रतिषु दृश्यते ॥ २. रसोदए इति
पदं पुत्रप्रतावेवोपलभ्यते ॥

३३. से किं तं सुहुमवाउक्काइया ? सुहुमवाउक्काइया दुविहा पन्नता । तं जहा—पज्जत्तगसुहुमवाउक्काइया य अपज्जत्तगसुहुमवाउक्काइया य । से तं सुहुमवाउक्काइया ।

३४. [१] से किं तं वादरवाउक्काइया ? वादरवाउक्काइया अणेगविहा
५ पणत्ता । तं जहा—पाईणवाए पडीणवाए दाहिणवाए उदीणवाए उड्डुवाए
अहोवाए तिरियवाए विदिसीवाए वाउन्भामे वाउक्कलिया वाँयमंडलिया उक्कलियावाए
मंडलियावाए गुँजावाए झंझावाए संवट्टवाए घणवाए तणुवाए सुद्धवाए, जे या-
वडण्णे तहप्पगारे ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य ।

१० [३] तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[४] तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा एतेसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणिप्पमुहसयसहस्साइं ।
पज्जत्तगणिसाए अपज्जत्तया वक्कमंति—जत्थ एगो तत्थ णियमा असंखेज्जा । से तं
वादरवाउक्काइया । से तं वाउक्काइया ।

१५

[सुत्ताइं ३५—५५. वणस्सइकायजीवपणवणा]

३५. से किं तं वणस्सइकाइया ? वणस्सइकाइया दुविहा पणत्ता । तं
जहा—सुहुमवणस्सइकाइया य वादरवणस्सतिकाइया य ।

३६. से किं तं सुहुमवणस्सइकाइया ? सुहुमवणस्सइकाइया दुविहा
पन्नता । तं जहा—पज्जत्तसुहुमवणस्सइकाइया य अपज्जत्तसुहुमवणस्सइकाइया
२० य । से तं सुहुमवणस्सइकाइया ।

३७. से किं तं वादरवणस्सइकाइया ? वादरवणस्सइकाइया दुविहा
पणत्ता । तं जहा—पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया य साहारणसरीरवादरवणप्फ-
इकाइया य ।

३८. से किं तं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया ? पत्तेयसरीरवादरवण-
२५ प्फइकाइया दुवालसविहा पन्नता । तं जहा—

रुक्खा १ गुँच्छा २ गुम्मा ३ लता य ४ वल्ली य ५ पव्वगा चैव ६ ।

१. °वाए स्थाने °वाते ध० ॥ २. वाउन्ं पुर ॥ ३. उक्कलियाए मंडलियाए जे० ॥ ४. गुँजालिया-
वाते ध० ॥ ५. झंझावाए जे० ॥ ६. संवट्टवाए जे० म०पुर ॥ संवट्टवाए ध० ॥ ७. गच्छा जे० ॥

तण ७ वलय ८ हरिय ९ ओसहि १० जलरुह ११ कुहणा य १२
बोधव्वा ॥ १२ ॥

३९. से किं तं रुक्खा ? रुक्खा दुग्घिहा पन्नत्ता । तं जहा—एगड्डिया
य बहुवीयगा य ।

४०. से किं तं एगड्डिया ? एगड्डिया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा— ५

णिंघंघ जंबु कोसंघ साल अंकोल्लं पल्लु सेलू य ।

सलइ मोयइ मालुय वउल पलासे करंजे य ॥ १३ ॥

पुत्तंजीवयऽरिद्धे विभेलेण हरंडए य भँल्लाए ।

उंवेभरिया खीरिणि बोधव्वे धायइ पियाले ॥ १४ ॥

पूईकरंज सेण्हा(सण्हा) तह सीसवा य असणे य ।

पुण्णाग पागरुक्खे सीवण्णि तहा असोमे य ॥ १५ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । एतेसि णं मूला वि असंखेज्जजीविया, कंदा वि
खंधा वि तथा वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तयजीविया । पुप्फा अणेग-
जीविया । फला एगड्डिया । से चं एगड्डिया ।

४१. से किं तं बहुवीयगा ? बहुवीयगा अणेगविहा पणत्ता । १५
तं जहा—

अत्थिय तिंदु कविद्धे अंवाडग माउलिंग चिल्ले य ।

औमलग फणस दाडिम आसोत्थे उंवर वडे य ॥ १६ ॥

णंगोह णंदिरुक्खे पिप्परि सयरी पिल्लुक्खरुक्खे य ।

कांउंवरि कुत्थुंभरि बोधव्वा देवदाली य ॥ १७ ॥

तिलए लँउए छत्तोह सिरीसे सँत्तिवण्ण दहिवन्ने ।

लोद्ध धव चंदणऽज्जण णीमे कुडए कयंवे य ॥ १८ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । एएसि णं मूला वि असंखेज्जजीविया, कंदा वि खंधा

१-२-३. एगवीयगा ध० ॥ ४. अंकुल्ल जे० म० ॥ ५. चित्तए जे० । विहेलए म० ।
वहेलए प्र० ॥ ६. हरिडए ध० म० ॥ ७. भिल्लाए म० पु२ ॥ ८. खीरणि म० ॥
९. पूई य निंव सेण्हा पासिय तह जे० । पूई य निंव करण सेण्हा तह ध० म० । पूई य
करण सेण्हा पासिय तह पु२ । पूइ य निंव करंजे सुण्हा तह मु० ॥ १०. अणेगजीवा जे० पु२ ॥
११. आगलग जे० ध० म० ॥ १२. णिगोह प्र० ॥ १३. पिल्लुक्खरुक्खे प्र० ॥ १४. काउंभरि
कत्थुंभरि जे० ध० ॥ १५. मलयनिरिपादैरत्त टीकायां लवक इति नाम निर्दिष्टमस्ति प्रतिषु तु
लउए इत्येव पाठो वर्तते ॥ १६. सत्तवण्ण पु२ ॥

वि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुप्फा अणेगजीविया ।
फला बहुवीया । से तं बहुवीयगा । से तं रुक्खा ।

४२. से किं तं गुच्छा ? गुच्छा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
वाइंगण सलइ वोडई य तह कच्छुरी य जासुमणा ।

५ रूवी आढइ नीली तुलसी तह माउलिगी य ॥ १९ ॥

कँत्थुंभरि पिप्पलिया अतसी विंछी य कायमाई या ।

चुच्चु पडोला कंदलि चाउच्चा वत्थुले वदरे ॥ २० ॥

पत्तउर सीयउरए हवति तहा जवसए य बोधव्वे ।

णिगुंडि अक्क तूवरि आँढई चेव तलऊडा ॥ २१ ॥

६० सण वाँण कास महग अगघाडग साम सिंदुवारे य ।

करमह अदरूसग करीर एरावण महित्थे ॥ २२ ॥

जाउलग माल परिली गयमारिणि कुच्च कारिया भंडी ।

जावइ केयइ तह गंज पाडला दासि अंकोल्ले ॥ २३ ॥

जे यावण्णे तहप्पगारा । से तं गुच्छी ।

६५ ४३. से किं तं गुम्मा ? गुम्मा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

सेरियँ पोमालिय कोरंटयँ वंधुजीवग मणोज्जे ।

पीईय पाण कँणइर कुज्जय तह सिंदुवारे य ॥ २४ ॥

जाई मोगगर तह जूहिया य तह मल्लिया य वासंती ।

वत्थुल कँच्छुल सेवाल गंठि मगदंतिया चेव ॥ २५ ॥

२० चंपगजाती णवणीईया य कुंदो तहा महाजाई ।

एवमणेगागारा हवंति गुम्मा मुणेयव्वा ॥ २६ ॥

से तं गुम्मा ।

१. बहुवीयगा सु० ॥ २-३. गच्छा जे० ध० ॥ ४. णि सु० ॥ ५. थुंडई सु० ॥

६. कँत्थुंभरि ध० पुर । कुच्छुंभरि म० प्र० । कच्छुंभरि.सु० ॥ ७. वल्ली जे० म० पुर ॥

८. चुच्चुपडोला कंदलि ध० म० प्र० । चुच्चु पडोलकंदे सु० ॥ ९. अदइ जे० ध० ॥

१०. पाण कास मुहग अगघाडग म० प्र० सु० पुर ॥ ११. करमहियइरूसग ध० ।

करमह अदरूसग सु० ॥ १२. महित्थे ध० प्र० ॥ १३. जाउल तमाल परिली ध० पुर ॥

१४ गच्छा जे० ध० ॥ १५. सेणियए पुर । सेणियए सु० ॥ १६. पोमालिय पुर ।

पोमालिय प्र० ॥ १७. कोरंटे पुर ॥ १८. कणयर पुर ॥ १९. कत्थुल म० प्र० सु० ॥

२०. णीतया ध० ॥

४४. से किं तं लयाओ ? लयाओ अणेगविहाओ पणत्ताओ । तं जहा-
पउमलता नागलता असोग-चंपयलता यं चूतलता ।
वणलय वासंतिलया अइमुत्तय-कुंदं-सामलता ॥ २७ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं लयाओ ।

४५. से किं तं वल्लीओ ? वल्लीओ अणेगविहाओ पणत्ताओ । तं ५
जहा-

पूसफली कालिंगी तुंची तैउसी य एलवालुंकी ।
घोसाडई पडोला पंचंगुलिया यं णालीया ॥ २८ ॥
कंगूया कहुइया कंकोडइ कारियलई सुभगा ।
कुंवा(या) य वागली पाववलि तह देवदारू य ॥ २९ ॥ १०
अप्फोया अइमुत्तय् णागलया कण्ह-सूरवली य ।
संघट्ट सुमणसा वि य जासुवण कुविंदवल्ली य ॥ ३० ॥
सुदिय अप्पा भल्ली छीरविराली जियंति गोवांली ।
पाणी मांसावल्ली गुंजावल्ली य वच्छाणी ॥ ३१ ॥
संसविंदु गोत्तफुसिया गिरिकण्णइ मालुया य अंजणई । १५
देहफुल्लइ कागणि मोगली य तह अक्कवोदी य ॥ ३२ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं वल्लीओ ।

४६. से किं तं पव्वगा ? पव्वगा अणेगविहा पत्तता । तं जहा-

इक्खू य इक्खुवांठी वीरण तह एक्कडे भमासे य ।
सुवे सरे य वेत्ते तिमिरे सतपोरग णले य ॥ ३३ ॥
वंसे वेल् कणए कंकावंसे यं चाववंसे य ।
उदए कुडए विमए कंडावेल् य कल्लणे ॥ ३४ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं पव्वगा ।

१. य भूतलता जे० म० । य पयलता प्र० ॥ २. 'कंद' पुर विना ॥ ३. तपुसी प्र० ॥
४. घोसालती पडोला ध० । घोसाई य पडोला जे० । घोसाडई पडोला मु० ॥ ५. य णाली
य प्र० मु० ॥ ६. कंकोडइ ध० ॥ ७. कुयवा यवा गली ध० पुर मु० ॥ ८. देवदाली मु० पुर ॥
९. अंजावल्ली किण्हछिराली जयंति मु० ॥ १०. गोवल्ली ध० ॥ ११. सामावल्ली पुर ॥
१२. सत्तिवी हुगोत्त' मु० ॥ १३. देहफोल्लइ कागलि ध० । देहफोल्लइ कागलि मु० ॥
१४. 'वादिग वी' प्र० ॥ १५. एक्कडे य माले म० पुर मु० ॥ १६. य चाउवंसे य प्र० ॥

४७. से किं तं तणा ? तणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

सैडिय भत्तिय होत्तिय डब्भं कुसे पव्वए य पोड्डइला ।

अज्जुण असाढए रोहियंसे सुय वेय खीर तुंसे ॥ ३५ ॥

एरंडे कुसविंदे कर्कखड सुठे तहा विभंगू य ।

५. महुरतण लुणय सिप्पिय वोधव्वे सुंकलितणा य ॥ ३६ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं तणा ।

४८. से किं तं वलया ? वलया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

ताल तमाले तक्कलि तेयलि सारे य सारकल्लणे ।

सरले जावति केयइ कंदीलि तह धम्मस्सक्खे य ॥ ३७ ॥

१०. भुयस्सक्ख हिंसुस्सक्खे लवंगस्सक्खे य होति वोधव्वे ।

पूयफली खज्जुरी वोधव्वा नालिपरी य ॥ ३८ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं वलया ।

४९. से किं तं हरिया ? हरिया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

अज्जोरुह वोडाणे हरितग तह तंदुलेज्जग तणे य ।

१५. वत्थुल पारंग मज्जार पाइ दिही य पालक्का ॥ ३९ ॥

दगपिप्पली य दव्वी सोत्थियसाए तहेव मंडुक्की ।

मूलग सरिसव अंबिलसाए य जियंतए चेव ॥ ४० ॥

तुलसी कण्ह उरले फणिज्जए अज्जए य भूयणए ।

चोरंग दमणग मसूयग सयपुप्फिदीवरे य तहा ॥ ४१ ॥

२०. जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं हरिया ।

५०. से किं तं ओसहीओ ? ओसहीओ अणेगविहाओ पणत्ताओ ।
तं जहा-

साली १ वीही २ गोधूस ३ जवजवा ४ कल ५ मसूर ६ तिल ७ मुग्गा ८ ।

१. सेडिय गंतिय ध० पुर । संडिय मंतिय मु० ॥ २. दब्भ ध० पुर ॥ ३. पाड्डइला जे० ॥
४. भुसे म० प्र० ॥ ५. करकर सुठे म० प्र० पुर ॥ ६. विसंगू म० प्र० ॥ ७. धुरय म० ।
छुरय प्र० पुर मु० ॥ ८. वडण्णा जे० ध० ॥ ९. सारे य सालक० ध० । साले य
सारक० म० । साजी य सारक० मु० पुर । सरले य सारक० प्र० ॥ १०. कडली मु० ॥
११. अज्जोरुह म० ॥ १२. तंदुलिज्जग म० प्र० ॥ १३. पोरग म० प्र० पुर मु० ॥
१४. मज्जारयाइ प्र० मु० ॥ १५. पालंका प्र० ॥ १६. वारग पुर ॥

मास ९ निष्फाव १० कुलत्थ ११ अलिसंद १२ सतीण १३

पल्लिमंथा १४ ॥ ४२ ॥

अयसी १५ कुसुंभ १६ कोदव १७ कंगू १८ रालग १९

वरसामग २० कोदूसा २१ ।

सण २२ सरिसव २३ मूलग २४ वीय २५ जा यावडण्णा तहपगारा ॥ ४३ ॥ ५
से तं ओसहीओ ।

५१. से किं तं जलरूहा ? जलरूहा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
उदए अवए पणए सेवाले कलंबुया हडे कसेरुया कळ्ळा भाणी उप्पले पउमे
कुमुदे नलिणे सुमए सुगंधिए पोंडरीए महापोंडरीए सयपत्ते सहस्सपत्ते कल्हारे
कोकणदे अरविंदे तामरसे भिसे भिसमुणाले पोक्खले पोक्खलैत्थिभए, जे यावडण्णे १०
तहप्पगारा । से तं जलरूहा ।

५२. से किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-आए
काए कुहणे कुणक्के दव्वहलिया सँप्पाए सँज्जाए सिँत्ताए वंसी णँहिया कुरए, जे
यावडण्णे तहप्पगारा । से तं कुहणा ।

५३. णाणाविहसंठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता ।

खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ ४४ ॥ १५

जह सगलसरिसवाणं सिलेसमिस्साण वट्टिया वट्टी ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंधाया ॥ ४५ ॥

जह वा तिलपप्पडिया बहुएहिं तिलेहि संहिता संती ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंधाया ॥ ४६ ॥ २०

से तं पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया ।

५४. [१] से किं तं साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया ? साहारण-
सरीरबादरवणस्सइकाइया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

अवए पणए सेवाले लोहिणीं मिहू त्थिहू त्थिभगा ।

अंसकण्णी सीहकण्णी सिउंढि तत्तो मुसुंढी य ॥ ४७ ॥ २५

१. अयसि कुसुंभक कोदव ध० ॥ २. °लविभए ध० । °लत्थिभए मु० ॥ ३. कुडुके ध० ।
अणुक्के म० ॥ ४. सप्पाए प्र० ॥ ५. सज्जाए ध० म० प्र० मु० ॥ ६. सत्ताए प्र० ।
उत्ताए ध० म० पु२ । उत्तोए मु० ॥ ७. अणहिया जे० ॥ ८. °णी त्थिहू त्थिसुगा म०
प्र० ॥ ९. असक्किणी सीहक्किणी जे० ॥

४७. से किं तं तणा ? तणा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
 १ सैडिय भत्तिय होत्तिय डब्भं कुसे पव्वए य पोड्डइला ।
 अज्जुण असाढए रोहियसे सुय वेय खीर तुंसे ॥ ३५ ॥
 एरंडे कुरुविंदे कर्कखड सुंठे तहा विभंगू य ।
 ५ महुरतण लुणय सिण्णिय बोधव्वे सुंकलितणा य ॥ ३६ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं तणा ।

४८. से किं तं वलया ? वलया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
 ताल तमाले तक्कलि तेयलि सारे य सारकहाणे ।
 सरले जावति केयइ कंदालि तह धम्मरुक्खे य ॥ ३७ ॥
 १० भुयरुक्ख हिंगुरुक्खे लवंगरुक्खे य होत्ति बोधव्वे ।
 पूयफली खज्जूरी बोधव्वा नालिएरी य ॥ ३८ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं वलया ।

४९. से किं तं हरिया ? हरिया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
 १ अज्जोरुह बोडाणे हरित्तग तह तंदुलेज्जग तणे य ।
 १५ वत्थुल पारंग मँजार पाइ चिल्ली य पालक्का ॥ ३९ ॥
 दगपिप्पली य दव्वी सौत्थियसाए तहेव मंडुक्की ।
 मूलग सरिसव अंबिलसाए य जियंतए चेव ॥ ४० ॥
 तुलसी क्कण्ह उराले फणिज्जए अज्जए य भूयणए ।
 चोरुं दमणग मरुयग सयपुण्णिकदीवरे य तहा ॥ ४१ ॥

२० जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं हरिया ।

५०. से किं तं ओसहीओ ? ओसहीओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ ।
 तं जहा-

साली १ वीही २ गोधूम ३ जवजवा ४ कल ५ मसूर ६ तिल ७ मुग्गा ८ ।

१. सैडिय मंतिय ध० पुर । संडिय मंतिय सु० ॥ २. दब्भ ध० पुर ॥ ३. पाड्डइला जे० ॥
 ४. भुसे म० प्र० ॥ ५. करकर सुंठे म० प्र० पुर ॥ ६. विसंगू म० प्र० ॥ ७. थुरय म० ।
 छुरय प्र० पुर मु० ॥ ८. वडण्णा जे० ध० ॥ ९. सारे य सालक० ध० । साले य
 सारक० म० । साली य सारक० मु० पुर । सरले य सारक० प्र० ॥ १०. कट्टी मु० ॥
 ११. अब्भोरुह म० ॥ १२. तंदुलेज्जग म० प्र० ॥ १३. पोरग म० प्र० पुर मु० ॥
 १४. मज्जारयाइ प्र० मु० ॥ १५. पालंका प्र० ॥ १६. वारग पुर ॥

मास ९ निष्फाव १० कुलत्थ ११ अलिसंद १२ सतीण १३
पलिमंथा १४ ॥ ४२ ॥

अंयसी १५ कुसुंभ १६ कोद्व १७ कंगू १८ रलग १९
वरसामग २० कोदूसा २१ ।

सण २२ सरिसव २३ मूलग २४ वीय २५ जा यावऽण्णा तहपगारा ॥ ४३ ॥ ५
से तं ओसहीओ ।

५१. से किं तं जलरुहा ? जलरुहा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—
उदए अवए पणए सेवाले कलंबुया ह्ठे कसेरुया कळ्ळा भाणी उप्पले पउमे
कुमुदे नल्लिणे सुभए सुगंधिए पौंडरीए महापौंडरीए सयपत्ते सहस्सपत्ते कल्हारे
कोक्कणदे अरविंदे तामरसे भिसे भिसमुणाले पोक्खले पोक्खलैत्थिभए, जे यावऽण्णे १०
तहप्पगारा । से तं जलरुहा ।

५२. से किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—आए
काए कुहणे कुण्णके दव्वहलिया सँप्फाए सँज्जाए सिँत्ताए वंसी णँहिया कुरए, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं कुहणा ।

५३. णाणाविहसंठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता ।

खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ ४४ ॥

जह सगलसरिसवाणं सिलेसमिस्साण वट्टिया वट्टी ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरिरसंधाया ॥ ४५ ॥

जह वा तिलपप्पडिया वहुएहिं तिलेहि संहिता संती ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरिरसंधाया ॥ ४६ ॥

से तं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया ।

५४. [१] से किं तं साहारणसरीरवादरवणस्सइकाइया ? साहारण-
सरीरवादरवणस्सइकाइया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—

अवए पणए सेवाले लोहिणीं मिहू त्थिहू त्थिभगा ।

अंसकणी सीहकणी सिउंढि ततो मुसुंढी य ॥ ४७ ॥

१. अयस्सि कुसुंभक कोद्व ध० ॥ २. °लविभए ध० । °लत्थिभुए सु० ॥ ३. कुहुके ध० ।
अणुके म० ॥ ४. सप्पाए प्र० ॥ ५. सज्जाए ध० म० प्र० सु० ॥ ६. सत्ताए प्र० ।
इत्ताए ध० म० पु२ । इत्तोए सु० ॥ ७. अणहिया जे० ॥ ८. °णो त्थिहू त्थिभुगा म०
प्र० ॥ ९. असक्किणी सीहक्किणी जे० ॥

रुरु कुंडुरिया जारू छीरविराली तहेव किट्टीया ।
हलिद्धा सिंगेरे य आलूगा मूलए इ य ॥ ४८ ॥
कंबू य कण्हकडवू महुओ वलई तहेव महुसिंगी ।
गिरूहा सप्पसुयंधा छिण्णरूहा चेव वीयरूहा ॥ ४९ ॥

- ५ पाठा मियवालुंकी महुररसा चेव रायवल्ली य ।
पउमा य माढरी दंती चंडी किट्टि त्ति यावरा ॥ ५० ॥
मासपण्णी मुग्गपण्णी जीविय रसभेय रेणुया चेव ।
काओली खीरकाओली तहा भंगी णही इ य ॥ ५१ ॥
किमिरासि भद्दसुत्था णंगलई पलुंगा इ य ।
१० किण्हे पउले य ह्ढे हरतणुया चेव लोयाणी ॥ ५२ ॥
कण्हे कंदे वजे सूरणकंदे तहेव खल्लुडे ।
एए अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५३ ॥

[२] तणमूल कंदमूले वंसमूले त्ति यावरे ।

- संखेज्जमसंखेज्जा बोधव्वाऽणंतजीवा य ॥ ५४ ॥
१५ सिंघाडगस्स गुंच्छे अणेगजीवो उ होति नायव्वो ।
पत्ता पत्तेयजिया, दोण्णिं य जीवा फले भणित्ता ॥ ५५ ॥

[३] जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए ।

- अणंतजीवे उ से मूले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५६ ॥
जस्स कंदस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए ।
२० अणंतजीवे उ से कंदे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५७ ॥
जस्स खंधस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
अणंतजीवे उ से खंधे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५८ ॥
जीसे तथाए भग्गाए समो भंगो पदीसए ।
अणंतजीवा तथा सा उ, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ५९ ॥

१. कुंडुरिया ध० मु० । कुंडुरिया पु२ । कुंडुरिया म० । कुंडुरी प्र० ॥ २. जीरू मु० ॥
३. किट्टीया प्र० मु० ॥ ४. कण्णुकडत्त महुओ ध० । कण्णुकड सुमत्तओ मु० ॥ ५. विरूहा
प्र० ॥ ६. तन्नाभं० म० ॥ ७. पेलुगा म० प्र० पु२ मु० ॥ ८. वंसिमूले पु२ ॥
९. गच्छो जे० ॥ १०. दोण्हि य म० पु२ ॥ ११. अत्र गाथा कदम्बके पदीसए, पदीसई,
पदीसइ, पदीसती, पदीसत्ति स्थाने सर्वास्वपि प्रतिष्ठावृत्त्या य दीसए, य दीसई, य दीसइ,
य दीसती, य दीसत्ति इति पाठो वरीवृत्त्यते ॥

- जस्स सालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से साले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६० ॥
- जस्स पवालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे पवाले से, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६१ ॥
- जस्स पत्तस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से पत्ते, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६२ ॥
- जस्स पुप्फस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से पुप्फे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६३ ॥
- जस्स फलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसती ।
 अणंतजीवे फले से उ, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६४ ॥
- जस्स बीयस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से बीए, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६५ ॥
- [४] जस्स मूलस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवे उ से मूले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६६ ॥
- जस्स कंदस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवे उ से कंदे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६७ ॥
- जस्स खंधस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवे उ से खंधे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६८ ॥
- जीसे तयाए भग्गाए हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवा तया सा उ, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ६९ ॥
- जस्स सालस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसती ।
 परित्तजीवे उ से साले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७० ॥
- जस्स पवालस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे पवाले उ, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७१ ॥
- जस्स पत्तस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे उ से पत्ते, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७२ ॥
- जस्स पुप्फस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे उ से पुप्फे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७३ ॥
- जस्स फलस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे फले से उ, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७४ ॥

जस्स वीयस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।

परित्तजीवे उ से वीए, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७५ ॥

[५] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७६ ॥

५ जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा तु सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७७ ॥

जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७८ ॥

जीसे सालाए कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

१० अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७९ ॥

[६] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८० ॥

जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८१ ॥

१५ जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८२ ॥

जीसे सालाए कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८३ ॥

[७] चक्कागं भज्जमाणस्स गंठी चुण्णवणो भवे ।

२० पुढ्विसरिसेण भेएण अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८४ ॥

गूढछिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होति णिच्छीरं ।

जं पि य पणइसंधिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८५ ॥

[८] पुप्फा जलया थलया य वेंटवद्धा य णालवद्धा य ।

संखेज्जमसंखेज्जा वोधच्चाऽणंतजीवा य ॥ ८६ ॥

२५ जे केइ नालियावद्धा पुप्फा संखेज्जजीविया भणिता ।

णिहुया अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८७ ॥

पउमुप्पलिणीकंदे अंतरकंदे तहेव शिल्ली य ।

१. पुढ्वीसरिसेण जे० म० पु२ ॥ २. यावऽण्णा प्र० ॥ ३. अणंतरं जे० ध० म० प्र० ॥

४. जिल्ली जे० म० प्र० ॥

एते अणंतजीवा एगो जीवो भिसं-मुणाले ॥ ८८ ॥

पलंडू-ल्हसणकंदे य कंदली य कुंसुंवाए ।

एए परित्तजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८९ ॥

पउमुप्पल-नलिणाणं सुभग-सोगंधियाण य ।

अरविंद-कौकैणाणं सतवत्त-सहस्सवत्ताणं ॥ ९० ॥

५

वेणं चाहिरपत्ता य कण्णिपया चेव एगजीवस्स ।

अब्भितरगा पत्ता पत्तेयं केसरा मिजा ॥ ९१ ॥

वेणु णल इक्खुवाडिय मंसमा सइखू य इक्खेडेरंडे ।

करकर सुंठि विहुंगुं तणाण तह पव्वगाणं च ॥ ९२ ॥

अच्छि पव्वं चलिमोडओ य एगस्स हेंति जीवस्स ।

१०

पत्तेयं पत्ताइं पुप्फाइं अणेगजीवाइं ॥ ९३ ॥

पुंसफलं कालिंगं तुवं तउसेलवालु वालुंकं ।

घोसांडयं पडोलं तिंदूयं चेव तेंदूसं ॥ ९४ ॥

विटं^१ संसकडाहं एयाइं हेंति एगजीवस्स ।

पत्तेयं पत्ताइं सकेसरमकेसरं मिजा ॥ ९५ ॥

१५

संप्पाए सज्जाए उव्वेहलिया य कुहण कंदुक्के ।

एए अणंतजीवा कंडुक्के होति भयणा उ ॥ ९६ ॥

[९] जोगिन्भूए वीए जीवो वक्कमइ सो व अण्णे वा ।

जो वि य मूले जीवो सो वि य पत्ते पढमताए ॥ ९७ ॥

सव्वो वि किसलओ खलु उगममाणो अणंतओ भणिओ ।

२०

सो चेव विवडुंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ९८ ॥

[१०] समयं वक्कताणं समयं तेसिं सरीरनिव्वत्ती ।

समयं आणुग्गहणं समयं ऊत्तास-नीसासे ॥ ९९ ॥

१. विस-मुणाले सु० ॥ २. कुंडुंवाए जे० ध० । कुंडुंवाए म० प्र० ॥ ३. कौकैणाणं म० प्र० । कुंडु-
णाणं पु२ ॥ ४. केसरं पु२ ॥ ५. ममसा सइखू जे० ध० । गसमा सइखू प्र० । समास इक्खू
सु० पु२ ॥ ६. विहुंगू सु० ॥ ७. पूसफलं सु० ॥ ८. घोसालयं म० प्र० पु२ ॥ ९. षड्य पडोलं
सु० ॥ १०. तिंदूयं चेव तेंदूसं म० प्र० ॥ ११. विटं संसकडाहं म० । विटं गिरं कडाहं प्र०,
श्रीहरिभद्रपादसम्मतोऽयं पाठः ॥ १२. पु२ प्रतौ समंसइत्यस्योपरि "गिर" इति कडाहइत्यस्योपरि
"पो(जो)परी" इति च टिप्पणी वर्तते ॥ १३. संप्पाए जे० ध० म० ॥ १४. कुंडुक्के जे०
ध० म० ॥ १५. श्रीमलयगिरिभिः वीए जोगिन्भूए इति पाठ आहतोऽस्ति, नोपलब्धोऽसावादशैशु ॥

जस्स वीयस्स भगस्स हीरो भंगे पदीसति ।

परित्तजीवे उ से वीए, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७५ ॥

[५] जस्स मूलस्स कद्दाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७६ ॥

५

जस्स कंदस्स कद्दाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा तु सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७७ ॥

जस्स खंधस्स कद्दाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७८ ॥

जीसे सालाए कद्दाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

१०

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७९ ॥

[६] जस्स मूलस्स कद्दाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८० ॥

जस्स कंदस्स कद्दाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८१ ॥

१५

जस्स खंधस्स कद्दाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८२ ॥

जीसे सालाए कद्दाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८३ ॥

[७] चक्कागं भज्जमाणस्स गंठी चुण्णघणो भवे ।

२०

पुढविसरिसेण भेएण अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८४ ॥

गूढछिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होति णिच्छीरं ।

जं पि य पण्डुसंधिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८५ ॥

[८] पुप्फा जलया थलया य वेंटवद्धा य णालवद्धा य ।

संखेज्जमसंखेज्जा बोधच्चाऽणंतजीवा य ॥ ८६ ॥

२५

जे केइ नालियावद्धा पुप्फा संखेज्जजीविया भणिता ।

णिहुया अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८७ ॥

पउमुप्पलिणीकंदे अंतरकंदे तहेव झिल्ली य ।

१. पुढवीसरिसभेएण जे० म० पुर ॥ २. यावऽण्णा प्र० ॥ ३. अणंतर्० जे० ध० म० प्र० ॥

४. जिह्मी जे० म० प्र० ॥

एते अणंतजीवा एगो जीवो मिसं-मुणाले ॥ ८८ ॥

पलंडू-ल्हसणकंदे य कंदली य कुसुंवाए ।

एए परित्तजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८९ ॥

पउसुप्पल-नलिणाणं सुअग-सोगंधियाण य ।

अरविंद-कौकणाणं सतवत्त-सहस्सवत्ताणं ॥ ९० ॥

वेटं वाहिरपत्ता य कण्णिआ चेव एगजीवस्स ।

अम्भितरगा पत्ता पत्तेयं केसरा मिंजा ॥ ९१ ॥

वेणु णल इक्खुवाडिय मंसमा सइखू य इक्खेरेंडे ।

करकर सुंठि विहुंगुं तणाण तह पव्वगाणं च ॥ ९२ ॥

अच्छि पव्वं वलिमोडओ य एगस्स होंति जीवस्स ।

पत्तेयं पत्ताइं पुप्फाइं अणेगजीवाइं ॥ ९३ ॥

पुंसफलं कालिंगं तुवं तउसेलवालु वालुकं ।

घोसांडयं पडोलं तिंदूयं चेव तेंदूसं ॥ ९४ ॥

विंटं^१ संस-कडाहं एयाइं होंति एगजीवस्स ।

पत्तेयं पत्ताइं सकेसरपकेसरं मिंजा ॥ ९५ ॥

संप्पाए सज्जाए उव्वेहलिया य कुहण कंडुक्के ।

एए अणंतजीवा कंडुक्के होति भयणा उ ॥ ९६ ॥

[९] जोगिन्भूए वीए जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा ।

जो वि य मूले जीवो सो वि य पत्ते पढमताए ॥ ९७ ॥

सव्वो वि किसलओ खलु उग्गममाणो अणंतओ भणिओ ।

सो चेव विवडुंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ९८ ॥

[१०] समयं वक्कंताणं समयं तेसिं सरिरनिव्वत्ती ।

समयं आपुग्गहणं समयं ऊत्तास-नीसासे ॥ ९९ ॥

१. विस-मुणाले सु० ॥ २. कुडुंवाए जे० थ० । कुडुंवाए म० प्र० ॥ ३. कौकणाणं म० प्र० । कुंठु-
णाणं पु० ॥ ४. केसरं पु० ॥ ५. ममसा सइखू जे० थ० । मसमा सइखू प्र० । समास इक्खू
सु० पु० ॥ ६. विहुंगुं सु० ॥ ७. पुंसफलं सु० ॥ ८. घोसालयं म० प्र० पु० ॥ ९. ङयं पंडोलं
सु० ॥ १०. तिंदूयं चेव तेंदूसं म० प्र० ॥ ११. विंटं संसकडाहं म० । विंटं गिरं कडाहं प्र०,
श्रीहरिभद्रपादसम्मत्तोऽयं पाठः ॥ १२. पु० प्रती समसइत्यस्योपरि “गिर” इति कडाहइत्यस्योपरि
“घो(वो)परी” इति च टिप्पणी वर्तते ॥ १३. सप्पाए जे० थ० म० ॥ १४. कुंडुक्के जे०
थ० म० ॥ १५. श्रीमलयगिरिभिः वीए जोगिन्भूए इति पाठ आहतोऽस्ति, नोपलब्धोऽसावादशेषु ॥

एकस्स उ जं गहणं वहुण साहारणाण तं चेव ।
 जं बहुयाणं गहणं समासओ तं पि एगस्स ॥ १०० ॥
 साहारणमाहारो साहारणमाणुपाणगहणं च ।
 साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥ १०१ ॥
 जह अयगोलो धंतो जाओ तत्तवणिज्जसंकासो ।
 सच्चो अगणिपरिणतो निगोयजीवे तहा जाण ॥ १०२ ॥
 एगस्स दोण्ह तिण्ह व संखेज्जाण व न पासिउं सक्का ।
 दीसंति सरीराइं णिओयजीवाणऽणंताणं ॥ १०३ ॥

[११] लोगागासपएसे णिओयजीवं ठवेहि एक्केकं ।

१०

एवं मवेज्जमाणा हवंति लोया अणंता उ ॥ १०४ ॥

लोगागासपएसे परित्तजीवं ठवेहि एक्केकं ।

एवं मविज्जमाणा हवंति लोया असंखेज्जा ॥ १०५ ॥

पत्तेया पज्जत्ता पयरस्स असंखभागमेत्ता उ ।

लोगाऽसंखाऽपज्जत्तगाण साहारणमणंता ॥ १०६ ॥

१५

[एएहिं सरीरेहिं पच्चक्खं ते परूविया जीवा ।

सुहुमा आणागेज्जा चक्खुप्फासं ण ते एंति ॥ १ ॥] [पक्खित्ता गाहा]
 जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

५५. [१] ते समासओ दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य
 अपज्जत्तगा य ।

२०

[२] तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[३] तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा तेसिं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसादेसेणं
 फासादेसेणं सहस्सगसो विहाणाइं, संखेज्जाइं जोणिप्पसुहसयसहस्साइं ।
 पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमंति—जत्थ एगो तत्थ सिय संखेज्जा
 सिय असंखेज्जा सिय अणंता । एएसि णं इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओ ।
 तं जहा—

२५

कंदा य १ कंदमूला य २ रुक्खमूला इ ३ यावरे ।

गुच्छा य ४ गुम्म ५ वल्ली य ६ वेलुयाणि ७ तणाणि य ८ ॥ १०७ ॥

पउमुपल ९-१० संघडे ११ हंडे य १२ सेवाल १३ किण्हए १४
पणए १५ ।

अवए य १६ कच्छ १७ भाणी १८ कंडुक्केक्कूणवीसइमे १९ ॥ १०८ ॥
तय-छलि-पवालेसु य पत्त-पुप्फ-फलेसु य ।

मूलऽग्ग-मज्झ-वीएसु जोणी कस्स य कित्तिया ? ॥ १०९ ॥

से तं साहारणसरीरवादरवणस्सइकाइया । से तं चादरवणस्सइकाइया । से तं
वणस्सइकाइया । से तं एगिंदिया ।

[सुत्तं ५६. वेदंदिद्यजीवपणवणा]

५६. [१] से किं तं वेदियाँ ? वेदिया (? से किं तं वेदंदिद्यसंसारसमा-
वणजीवपणवणा ? वेदंदिद्यसंसारसमावणजीवपणवणा) अणेगविहा पन्नत्ता । तं १०
जहा - पुलाकिमिया कुच्छिकिमिया गंडूयलगा गोलोमा णेउँरा सोमंगलगा वंसीमुहा
सँईमुहा गोजलोया जलोया जँलोउया संखा संखणगा घुल्लाँ खुल्ला वराडा सोत्तिया
मोत्तिया कलुया वासा एगओवत्ता दुहओवत्ता णंदियावत्ता संवुक्का माईवाहा सिप्पिसंपुडा
चंदणा समुहलिक्खा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिमा नपुंसगा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नत्ता । तं जहा-पजत्तगा य अपजत्तगा १५
य । एएसि णं एवमादियाणं वेदंदिद्याणं पजत्ताऽपजत्ताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणी-
पमुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । से तं वेदंदिद्यसंसारसमावणजीवपणवणा ।

[सुत्तं ५७. तेदंदिद्यजीवपणवणा]

५७. [१] से किं तं तेदंदिद्यसंसारसमावणजीवपणवणा ? तेदंदिद्य-
संसारसमावणजीवपणवणा अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा-ओवइया रोहिणीया १०
कुंथू पिपीलिया उदंसगा उद्वेहिया उक्कलिया उप्पाया उक्कडा उप्पडा तणाहारा

१. हंडे य म० प्र० ॥ २. किण्हए अवए । पणए य कच्छ इति पाठानुसारेण श्रीमलयनिरिपादै-
व्याख्यातमस्ति । नोपलभ्यतेऽयं पाठः काप्यादर्शे ॥ ३. वेदंदिद्या ? वेदंदिद्या पुर म० प्र० ॥
४. णेयरा म० प्र० ॥ ५. सूयीमुहा म० प्र० ॥ ६. जालाउया म० प्र० पुर मु० ॥ ७. वेह्ला
कुल्ला कुच्चा वराडा जे० । वल्ला फुल्ला खंधा वराडा थ० । वेह्ला फुल्ला गुल्ल्या खुल्ला वराडा म० ।
घुल्ला खुल्ला गुल्ल्या खंधा वराडा मु० । घुल्ला फुल्ला गुल्ल्या खुल्ला वराडा पुर, अत्र खुल्ला
इत्येतस्योपरि “ खंधा ” इति पुर प्रती टिप्पणी वर्तते । प्रदेशव्याख्यायां तु खुल्ला खुडा वराडा इति
पाठानुसारेण व्याख्यातं वर्तते ॥ ८-९. तेदंदिद्यसं मु० पुर ॥ १०. वप्पाया उप्पाडा तणाहारा
कट्टहारा समाखुया म० प्र० । वप्पाया उप्पाया उप्पाडा तणाहारा कट्टहारा माल्लया पुर ॥

कद्दाहारा मालुया पत्ताहारा तणविंटिया पत्तविंटिया पुण्फविंटिया फलविंटिया वीयविंटिया तेदुरणमज्जिया तउसमिंजिया कप्पासट्टिसमिंजिया हिल्लिया झिल्लिया झिंगिरा किंगिरिडाँ पाँहुया सुभगा सोवच्छिया सुयविंटा इंदिकाइया इंदगोवया उँरुलुं चगा कोत्थलवाहगा जूया हालहला पिसुया सतवाइया गोम्ही हत्थिसोंडा, जे यावऽण्णे ५ तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिम-णपुंसगा ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एएसि णं एवमाइयाणं तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं अट्ट जातिकुलकोडिजोणिप्प-मुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं तेंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ।

[सुत्तं ५८. चउरिंदियजीवपणवणा]

१० ५८. [१] से किं तं चउरिंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ? चउरिंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—

अंधिय पेत्तियँ मच्छिय मंगमिगकीडे तहा पयंगे य ।

ढिंकुण कुक्कुड कुक्कुह गंदावत्ते य सिंगिरिडे ॥ ११० ॥

१५ क्किण्हपत्ता नीलपत्ता लोहियपत्ता हलिदपत्ता सुक्किलपत्ता चित्तपक्खा विचित्तपक्खा ओभंजलिया जलचारिया गंभीरा णीणिया तंतवा अच्छिरोडा अच्छिवेहा सारंगा णेउँला दोला भमरा भरिली जरुला तोइँ विच्छुता पत्तविच्छुयाँ छाणविच्छुया जलविच्छुया पियंगाला केँणगा गोमयकीडगा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिमा नपुंसगा ।

२० [२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एतेसि णं एवमाइयाणं चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं णव जातिकुलकोडि-जोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं चउरिंदियसंसारसमावण्ण-जीवपणवणा ।

१. पणविंटिया म० ॥ २. तंबुरणमज्जिया म० प्र० । तंबुरणमज्जिया ध० । तेवुरणमिंजिया मु० पुर ॥ ३. झिमिरिडा प्र० ॥ ४. बाहुया लहुया सुभगा मु० पुर ॥ ५. इंदकाइया प्र० मु० ॥ ६. उरुलुंमुगा म० प्र० पुर । उरुलुंवगा मु० ॥ ७. पोत्तिय म० प्र० पुरसं० । पत्तिय मु० पुर ॥ ८. मगसिरकीडे म० । मगासकीडे प्र० पुर । मसगा कीडे मु० ॥ ९. ढंकुण म० प्र० मु० पुर ॥ १०. णेउरा म० प्र० पुर ॥ ११. तोइया म० प्र० पुर ॥ १२. ण्या वालजणविच्छुता जल० जे० ॥ १३. कणभागा जे० ॥

[सुत्ताइं ५९-१४७. पंचिंदियजीवपणवणा]

५९. से किं तं पंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ? पंचिंदियसंसार-
समावण्णजीवपणवणा चउच्चिहा पणत्ता । तं जहा—नेरइयपंचिंदियसंसार-
समावण्णजीवपणवणा १ तिरिक्खजोगियपंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा २
मणुस्सपंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ३ देवपंचिंदियसंसारसमावण्णजीव-
पणवणा ४ ।

[सुत्तं ६०. नेरइयजीवपणवणा]

६०. से किं तं नेरइया ? नेरइया सत्तविहा पणत्ता । तं जहा—रयण-
प्पभापुढविनेरइया १ सक्करप्पभापुढविनेरइया २ वालुयप्पभापुढविनेरइया ३
पंकप्पभापुढविनेरइया ४ धूमप्पभापुढविनेरइया ५ तमप्पभापुढविनेरइया ६ १०
तमत्तमप्पभापुढविनेरइया ७ । ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य
अपज्जत्तगा य । से तं नेरइया ।

[सुत्ताइं ६१-९१. तिरिक्खजोगियजीवपणवणा]

६१. से किं तं पंचिंदियतिरिक्खजोगिया ? पंचिंदियतिरिक्खजोगिया
तिविहा पणत्ता । तं जहा—जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिया १ थलयरपंचिंदिय- १५
तिरिक्खजोगिया २ खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिया ३ ।

६२. से किं तं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोगिया ? जलयरपंचिंदियतिरिक्ख-
जोगिया पंचविहा पणत्ता । तं जहा—मच्छा १ कच्छहा २ गाहा ३ मगरा ४
सुसुमारा ५ ।

६३. से किं तं मच्छा ? मच्छा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—सण्हमच्छा २०
खवल्लमच्छा जुंगमच्छा विज्झिंडियमच्छा हल्लिमच्छा मंगारिमच्छा रोहियमच्छा
हलीसागरा गागरा वडा वडगरा तिमी तिमिगिलां णक्का तंदुलमच्छां कणिक्कामच्छा

१. तमत्तमापुढवीं प्र० ॥ २. सिंसुमारा जे० । सुसुमारा सु० ॥ ३. जुंगमच्छा सु० ॥

४. विज्झिंडिं म० प्र० जीटी० । विज्झाडिं सु० ॥ ५. हल्लिइमच्छा म० । हेलियमच्छा
जीटी० ॥ ६. मगरिं पुर सु० ॥ ७. लोहियं म० ॥ ८. १रा गम्भगा ज्झसागरा

तिमी पुर । १रा गम्भया उखगारा तिमी मुद्रिते । १रा तिमितिमंगिलमच्छा तंदुलं प्र० ॥

९. तिमिगिला म० ॥ १०. ०च्छा सल्लिच्छियामच्छा लेमूलमच्छा पडागातिं जे० ॥

सालिसच्छियामच्छा लंभणमच्छा पडागा पडागातिपडागा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।
से तं मच्छा ।

६४. से किं तं कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-
अट्टिकच्छभा य मंसकच्छभा य । से तं कच्छभा ।

५ ६५. से किं तं गाहा ? गाहा पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा-दिली
१ वेढला २ सुद्धया ३ पुलगा ४ सीमागारा ५ । से तं गाहा ।

६६. से किं तं मगरा ? मगरा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सौंडमगरा
य मंडुमगरा य । से तं मगरा ।

६७. से किं तं सुंसुमारा ? सुंसुमारा एगागारा पण्णत्ता । से तं
१० सुंसुमारा । जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

६८. [१] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सम्मुच्छिमा य
गन्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा ।

१५ [३] तत्थ णं जे ते गन्भवक्कंतिया ते तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-इत्थी
१ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एतेसि णं एवमाइयाणं जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं अद्धतेरस जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

२० ६९. से किं तं थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
जोणिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य
परिसप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य ।

७०. से किं तं चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? चउप्पयथल-
यरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पण्णत्ता । तं जहा-एगखुरा १ दुँखुरा २
गंडीपदा ३ सणप्फदा ४ ।

२५ ७१. से किं तं एगखुरा ? एगखुरा अपेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
अस्सा अस्सतरा घोडगा गद्दभा गोरक्खरा कंदलगा सिरिकंदलगा आवत्ता, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं एगखुरा ।

१. वेढगा प्र० सु० पुरसं० । वेढली पुर ॥ २. सुद्धया म० प्र० ॥ ३. मद्धमगरा म० प्र० ॥

४. बिखुरा जे० विना ॥

७२. से किं तं दुखुरा ? दुखुरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—उट्टा गोणा गवया रोज्झा पसया महिसा मिया संवरा वराहा अय-एलग-रुस-सरभ-चमर-कुरंग-गोकण्णमादी । से तं दुखुरा ।

७३. से किं तं गंडीपया ? गंडीपया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—हत्थी पूयणया मंकुणहत्थी खग्गा गंडा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं गंडीपया । ५

७४. से किं तं सणप्फदा ? सणप्फदा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—सीहा वग्घा दीविया अच्छा तरच्छ परस्सरा सियाला चिडाला सुणगा कोलसुणगा [ग्रन्थाग्रम् ५००] कोकंतिया ससगा चित्तगा चित्तलगा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं सणप्फदा । १०

७५. [१] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—सम्मुच्छिमा य गम्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे णपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गम्भवक्कंतिया ते तिविहा पणत्ता । तं जहा—इत्थी १ पुरिसा २ णपुंसगा ३ । १५

[४] एतेसि णं एवमादियाणं थलयरपंचेदियतिरिक्खजोगियाणं पज्जत्ता-ऽपज्जत्ताणं दस जाईकुलकोडिजोगिप्पमुहसयसहस्सा हवंतीति मक्खातं । से तं चउप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोगिया ।

७६. से किं तं परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोगिया ? परिसप्पथलयर-पंचेदियतिरिक्खजोगिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरपंचेदिय-तिरिक्खजोगिया य भुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोगिया य । २०

७७. से किं तं उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोगिया ? उरपरि-सप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोगिया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—अही १ अयगरा २ आसालिया ३ महोरगा ४ ।

७८. से किं तं अही ? अही दुविहा पणत्ता । तं जहा—दव्वीकरा य मउलिणो य । २५

१. °मादी, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं मुद्रिते ॥ २. हत्थी हत्थिपूयणया म० मु० । हत्थी हत्थिपूयणा पु२ ॥ ३. चिद्धलगा प्र० पु२ ॥

सालिसच्छियामच्छा लंभणमच्छा पडागा पडागातिपडागा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।
से तं मच्छा ।

६४. से किं तं कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पणत्ता । तं जहा-
अड्डिकच्छभा य मंसकच्छभा य । से तं कच्छभा ।

५ ६५. से किं तं गाहा ? गाहा पंचविहा पणत्ता । तं जहा-दिली
१ वेढला २ सुद्धया ३ पुलगा ४ सीमागारा ५ । से तं गाहा ।

६६. से किं तं मगरा ? मगरा दुविहा पणत्ता । तं जहा-सौंडमगरा
य मंडुमगरा य । से तं मगरा ।

६७. से किं तं सुंसुमारा ? सुंसुमारा एगागारा पणत्ता । से तं
१० सुंसुमारा । जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

६८. [१] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा-सम्मच्छिमा य
गम्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सच्चे नपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गम्भवक्कंतिया ते तिविहा पणत्ता । तं जहा-इत्थी
१५ १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एतेसि णं एवमाइयाणं जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जता-
पज्जताणं अद्धतेरस जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

६९. से किं तं थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
२० जोणिया दुविहा पणत्ता । तं जहा-चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य
परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य ।

७०. से किं तं चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? चउप्पयथल-
यरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा-एगखुरा १ दुँखुरा २
गंडीपदा ३ सणप्फदा ४ ।

७१. से किं तं एगखुरा ? एगखुरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
अस्सा अस्सतरा घोडगा गद्दभा गोरक्खरा कंदलगा सिरिकंदलगा आवत्ता, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं एगखुरा ।

१. वेढगा प्र० मु० पु२सं० । वेढली पु२ ॥ २. सुद्धया म० प्र० ॥ ३. मट्टमगरा म० प्र० ॥
४. विखुरा जे० विना ॥

७२. से किं तं दुखुरा ? दुखुरा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—उट्टा गोणा गवया रोज्झा पसया महिसा मिया संवरा वराहा अय-एलग-रुरु-सरभ-चमर-कुरंग-गोकण्णमादी । से तं दुखुरा ।

७३. से किं तं गंडीपया ? गंडीपया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—हत्थी पूयणया मंक्कुणहत्थी खग्गा गंडा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं गंडीपया । ५

७४. से किं तं सणप्फदा ? सणप्फदा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—सीहा वग्घा दीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा सियाला विडाला सुणगा कोलसुणगा [ग्रन्थाग्रम् ५००] कोकंतिया ससगा चित्तगा चित्तलगा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं सणप्फदा । १०

७५. [१] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सम्मुच्छिमा य गम्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे णपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गम्भवक्कंतिया ते तिविहा पण्णत्ता । तं जहा—इत्थी १ पुरिसा २ णपुंसगा ३ । १५

[४] एतेसि णं एवमादियाणं थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ता-ऽपज्जत्ताणं दस जाईकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा हवंतीति मक्ख्खातं । से तं चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ।

७६. से किं तं परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पथलयर-पंचेदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरपंचेदिय-तिरिक्खजोणिया य भुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया य । २०

७७. से किं तं उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? उरपरि-सप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पण्णत्ता । तं जहा—अही १ अयगरा २ आसालिया ३ महोरगा ४ ।

७८. से किं तं अही ? अही दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—दब्बीकरा य मउलिणो य । २५

१. मादी, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं मुद्रिते ॥ २. हत्थी हत्थिपूयणया म० मु० । हत्थी हत्थिपूयणा पु२ ॥ ३. चित्तलगा प्र० पु२ ॥

७९. से किं तं दञ्चीकरा ? दञ्चीकरा अणेगविहा पण्यता । तं जहा-
आसीविसा दिङ्गीविसा उग्गविसा भोगविसा तयाविसा लालविसा उस्सासविसा
निस्सासविसा कण्हसप्पा सेदंसप्पा काओदरा दञ्चपुप्फा कोलाहा सेलिभिदाँ, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं दञ्चीकरा ।

५ ८०. से किं तं मउलिणो ? मउलिणो अणेगविहा पण्यता । तं जहा-
दिञ्चारा गोणसा कसाहीया वइउला चित्तलिणो मंडलिणो मालिणो अही अहिसलागाँ
पडागा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं मउलिणो । से तं अही ।

८१. से किं तं अयगरा ? अयगरा एगागारा पण्यता । से तं अयगरा ।

८२. से किं तं आसालिया ? कहि णं भंते ! आसालिया सम्मुच्छति ?
१० गीयमा ! अंतोमणुस्सखित्ते अड्डाज्जेसु दीवसेसु, निञ्चावाएणं पण्यरससु कम्मभूमीसु,
वाघातं पडुच्च पंचसु महाविदेहेसु, चक्कवट्ठिखंधावारेसु वा वासुदेवखंधावारेसु वलदेव-
खंधावारेसु मंडलियखंधावारेसु महामंडलियखंधावारेसु वा गामनिवेशेसु नगरनिवेशेसु
निगमणिवेशेसु खेडनिवेशेसु कच्चडनिवेशेसु मंडवनिवेशेसु वाँ दोणमुहनिवेशेसु
पट्टणनिवेशेसु आगरनिवेशेसु आसमनिवेशेसु संवाहनिवेशेसु रायहाणीनिवेशेसु एतेसि
१५ णं चेवँ विणासेसु एत्थ णं आसालिया सम्मुच्छति, जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइ-
भाँगेमेत्तीए ओगाहणाए उक्कोसेणं वारसजोयणाइं, तँयणुरूवं च णं विक्खंभ-
वाहलेणं भूमिं दालिताणं ससुड्ढेति अस्सण्णी मिच्छद्विड्ढी अण्णाणी अंतोमुहुत्तँद्दा-
उया चेव कालं करेइ । से तं आसालिया ।

८३. से किं तं महोरगा ? महोरगा अणेगविहा पण्यता । तं जहा-
२० अत्थेगइया अंगुलं पि अंगुलपुहत्तिया वि वियत्थिं पि वियत्थिपुहत्तिया वि रयणिं
पि रयणिपुहत्तिया वि कुच्छिं पि कुच्छिपुहत्तिया वि धणुं पि धणुपुहत्तिया वि

१. सेससप्पा प्र० ॥ २. काऊदरा जे० ॥ ३. दञ्चपुप्फा म० प्र० ॥ ४. °दा सेलिंदा, जे वा°
मु० ॥ ५. मउलिणो ध० ॥ ६. °गा वायपडागा ध० । °गा वासपडागा सु० ॥ ७. अइगरा
जे० ॥ ८. आसालिया ? आसालिया एगागारा पण्यता । कहि णं प्र० ॥ ९, १०, १२, वा
इति पुर प्रतावेवोपलभ्यते । “वाशब्दः सर्वत्रापि विकल्पार्थो द्रष्टव्यः” इति मलयदीका-
व्याख्यानात् चक्कवट्ठिखंधावारेसु इत्यत आरब्धानां रायहाणीनिवेशेसु इत्येतदन्तानां सर्वेषामपि
पदानामनन्तरं श्रीमलयनिरिपादा वाशब्दं निर्दिशन्ति, परं नोपलभ्यतेऽयं ऐदंयुगानेवादर्शेण ॥
११. नगरनिवेशेसु इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ १२. चेव निवासेसु जे० ध० ॥
१३. °गमेत्ताए पुर ॥ १५. तयायु° ध० प्र० ॥ १६. °त्तमद्दाउया ध० । °त्तद्विइया प्र० ॥
१७. °पुहुत्तं पि रयणिं जे० ध० ॥

गाउयं पि गाउयपुहत्तिया वि जोयणं पि जोयणपुहत्तिया वि जोयणसतं पि जोयणसतपुहत्तिया वि जोयणसंहस्सं पि । ते णं थले जाता जले वि चरंति थले वि चरंति । ते णत्थि इहं, वाहिरएसु दीव-समुद्दएसु हवंति, जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं महोरगा ।

८४. [१] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा-सम्मुच्छिमा य ५
गम्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गम्भवक्कंतिया ते णं तिविहा पणत्ता । तं जहा-
इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एसि णं एवमाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं उरपरिसप्पाणं दस जाइ- १०
कुलकोडीजोणिप्पमुहसतसहस्सा हवंतीति मक्खातं । से तं उरपरिसप्पा ।

८५. [१] से किं तं भुयपरिसप्पा ? भुयपरिसप्पा अणेगविहा पणत्ता ।
तं जहा-णउला गोहा सरडा सल्ला सरंठा सारा खारा धरोइला विस्संभरा मूसा
मंगुंसा पयलाइया छीरविरालिया जाहा चउप्पाइया, जे यावडण्णे तहप्पगारा ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं तहा-सम्मुच्छिमा य १५
गम्भवक्कंतिया य ।

[३] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे णपुंसगा ।

[४] तत्थ णं जे ते गम्भवक्कंतिया ते णं तिविहा पणत्ता । तं जहा-
इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[५] एतेसि णं एवमाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं भुयपरिसप्पाणं णव २०
जाइकुलकोडिजोणीप्पमुहसतसहस्सा हवंतीति मक्खायं । से तं भुयपरिसप्पथलयर-
पंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से तं परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

८६. से किं तं खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? खहयरपंचेंदिय-
तिरिक्खजोणिया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा-चम्मपक्खी १ लोमपक्खी २
समुग्गपक्खी ३ वियतपक्खी ४ ।

८७. से किं तं चम्मपक्खी ? चम्मपक्खी अणेगविहा पणत्ता । तं
जहा-त्रग्गुली जलोया अँडिला भारंडपक्खी जीवंजीवा समुदवायसा कणत्तिया २५

१. सहस्सिया वि । ते ध० ॥ २. सेहा मु० पुर सं० ॥ ३. मंगुंसा जे० । मंगुंसा पुर ॥

४. अडिहा पुर मु० ॥

पक्खिविराली, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं चम्मपक्खी ।

८८. से किं तं लोमपक्खी ? लोमपक्खी अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा-हंका कंका कुरला वायसा चैक्कागा हंसा कलहंसा पायहंसा रायहंसा अडा सेडी वगा बलागा पारिप्पवा कोंचा सारसा मेसैरा मसूरा मयूरा सँतवच्छा गहरा पोंडरीया कागा कामंजुगा वंजुलगा तित्तिरा वँट्टगा लावगा कवोया कविंजला पारेवया चिडगा चासा कुक्कुडा सुगा वरहिणा मदनसलागा कोइला सेहँ वरेल्लगमादी । से तं लोमपक्खी ।

८९. से किं तं समुग्गपक्खी ? समुग्गपक्खी एगागारा पण्णत्ता । ते णं पत्थि इहं, वाहिरएसु दीव-ससुहएसु भवंति । से तं समुग्गपक्खी ।

९०. से किं तं विततपक्खी ? विततपक्खी एगागारा पण्णत्ता । ते णं नत्थि इहं, वाहिरएसु दीव-ससुहएसु भवंति । से तं विततपक्खी ।

९१. [१] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सम्मच्छिमा य गन्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा ।

१५ [३] तत्थ णं जे ते गन्भवक्कंतिया ते णं ति विहा पण्णत्ता । तं जहा-इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एएसि णं एवमाइयाणं खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ता-ऽपज्जत्ताणं वारस जातीकुलंकोडीजोणिप्पसुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खातं ।

सत्तइ जातिकुलंकोडिलक्ख नव अद्धतेरसाइं च ।

२० दस दस य होंति णवगा तह वारस चेव बोधव्वा ॥ १११ ॥

से तं खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से तं पंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से तं तिरिक्खजोणिया ।

[मुत्ताइं ९२-१३८. मणुस्सजीवपण्णवणा]

२५ ९२. से किं तं मणुस्सा ? मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सम्मच्छिमणुस्सा य गन्भवक्कंतियमणुस्सा य ।

१. °विरालिया पुरसं० मु० ॥ २. चक्कागा म० प्र० ॥ ३. सेसरा म० प्र० ॥ ४. सतवस्सा पु१ पु२ पु३ म० प्र० । सत्तहत्था मु० ॥ ५. कामंजुगा पुर म० प्र० मु० ॥ ६. वट्टागा पुर ॥ ७. सिला जे० ध० ॥ ८. °ल्लकोडि होंति नव पुरसं० विना ॥

९३. से किं तं सम्मुच्छिममणुस्ता ? कहि णं भंते ! सम्मुच्छिममणुस्ता सम्मुच्छंति ? गोयमा ! अंतोमणुस्सखेत्ते पणुतालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अड्डाङ्गेषु दीव-समुद्देसु पन्नरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पण्णाए अंतरदीवएसु गन्भवक्कंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा १ पासवणेषु वा २ खेलेसु वा ३ सिंवाणेषु वा ४ वंतेसु वा ५ पित्तेशु वा ६ पूएसु वा ७ सोणिएसु वा ८ सुक्केसु वा ९ सुक्कपोग्गलपरिसाडेसु वा १० विगतजीवकलेवरेसु वा ११ श्री-पुरिससंजोएसु वा १२ [गामणिद्धमणेषु वा १३] णगरणिद्धमणेषु वा १४ सच्चेशु चेव असुइएसु ठणेषु, एत्थ णं सम्मुच्छिममणुस्ता सम्मुच्छंति । अंगुलस्स असंखेज्ज-भागमेत्तीए ओगाहणाए असण्णी मिच्छद्दिद्धी सच्चाहिं पज्जत्तीहिं अपज्जत्तगा अंतोमुहुत्ताउया चेव कालं करेति । से तं सम्मुच्छिममणुस्ता ।

९४. से किं तं गन्भवक्कंतियमणुस्ता ? गन्भवक्कंतियमणुस्ता तिविहा पणत्ता । तं जहा—कम्मभूमगा १ अकम्मभूमगा २ अंतरदीवगा ३ ।

९५. से किं तं अंतरदीवया ? अंतरदीवया अट्टावीसतिविहा पणत्ता । तं जहा—एगोरुया १ आभासिया २ वेसाणिया ३ णंगोली ४ हयकण्णा ५ गयकण्णा ६ गोकण्णा ७ सक्कुलिकण्णा ८ आयंसमुहा ९ भेंढसुहा १० अयोसुहा ११ गोसुहा १२ आसमुहा १३ हत्थिसुहा १४ सीहसुहा १५ वग्घसुहा १६ आसकण्णा १७ सीहकण्णा १८ अकण्णा १९ कण्णपाउरणा २० उक्कासुहा २१ मेहसुहा २२ विज्जुसुहा २३ विज्जुदंता २४ घणदंता २५ लङ्कदंता २६ गूढदंता २७ सुद्धदंता २८ । से तं अंतरदीवगा ।

९६. से किं तं अकम्मभूमगा ? अकम्मभूमगा तीसतिविहा पत्तत्ता । तं जहा—पंचहिं हेमवएहिं पंचहिं हिरण्णवएहिं पंचहिं हरिवासेहिं पंचहिं रम्मगवासेहिं पंचहिं देवकुरूहिं पंचहिं उत्तरकुरूहिं । से तं अकम्मभूमगा ।

९७. [१] से किं तं कम्मभूमया ? कम्मभूमया पण्णरसविहा पणत्ता । तं जहा—पंचहिं भरहेहिं पंचहिं एरवतेहिं पंचहिं महाविदेहेहिं ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—आरिया य मिलक्खू य ।

१. पणत्ता^० पुर म० प्र० सु० ॥ २. पासवणेषु वा इति जे० ध० नास्ति ॥ ३. सिंवाणएसु म० प्र० पुर सु० ॥ ४. पूएसु वा इति जे० ध० मलयगिरिनन्दीटीकायामुद्धरणे च नास्ति ॥ ५. गामणिद्धमणेषु वा इति पाठे मलयगिरिनन्दीटीकोद्धरणे वर्तते ॥ ६. कुराहिं ध० म० ॥ ७. कुराहिं पुर ॥

९८. से किं तं मिलंक्खू ? मिलंक्खू अणेगविहा पण्वत्ता । तं जहा-
सगै-जवण-चिलाय-सवर-वच्चर-काय-मुंरुडोडुं-भडग-णिण्णग-पक्कणिय-कुलक्ख-
गोंड-सिंहल-पारस-गोंधोडंव-दमिल-चिल्ल-पुलिंद-हारोस-डोंव-वोक्काण-गंधार्हांग-
वहलिय-अंजल-रोम-पांस-पउंसा-मलया यं चुंचुया य मूंयलि-कोंकणग-मेय-पल्लव-
५. मालव-गंगगर-आभासिय-णंक्क-चीणा ल्हसिय-खंस-खासिय-णेडूर-मंड-डोंविलग-
लउस-वउस-केक्कैया अरवांगा हूण-रोसंग-भरुंग-रुय-विलायविसयवासी य एवमादी ।
से तं मिलंक्खू ।

९९. से किं तं आरिया ? आरिया दुविहा पण्वत्ता । तं जहा-
इड्डिपत्तारिया य अण्डिपत्तारिया य ।

१०. १००. से किं तं इड्डिपत्तारिया ? इड्डिपत्तारिया छव्विहा पण्वत्ता । तं जहा-
अरहंता १ चक्कव्वट्टी २ वलदेवा ३ वासुदेवा ४ चारणा ५ विज्जाहंरा ६ । से तं
इड्डिपत्तारिया ।

१०१. से किं तं अण्डिपत्तारिया ? अण्डिपत्तारिया णवविहा पण्वत्ता ।

१-२. मिलक्खा म० प्र० ॥ ३. एतद्देशविशेषज्ञानार्थमिमाः प्रवचनसारोद्धारप्रकरणसत्का गाथा
अत्रोद्भिद्यन्ते—“सग-जवण-सवर-वच्चर-काय-मुंरुडोडुं-गोण-पक्कणया । अरवाण-होण-रोमय-पारस-
खसखासिया चव ॥ १५.८३ ॥ दुं विलय-लउस-वोक्कस-भिहंउंध-पुलिंद-कुंच-भमररुवा । क्वायाय-चीण-
चंचुय-मालव-दमिला कुलरघा थ ॥ १५.८४ ॥ केक्कय-किराय-हयमुह-खरमुह-गय-नुरय-मिडयमुहा य ।
हयक्कना गयक्कना अचे वि अणारिया वहवे ॥ १५.८५ ॥” “शकाः यवनाः शवराः वर्वराः कायाः
मुरुग्जाः उड्ढाः गौड्ढाः पक्कणगाः अरवाणाः हूणाः रोमकाः पारसाः खसाः खासिकाः द्रुम्बिलकाः
लकुशाः वोक्कशाः भिल्लाः अन्धाः पुलिन्द्राः कुन्वाः भ्रमररुवाः कोर्षकाः चीनाः चंचुकाः मालवाः
द्रविडाः कुलार्थाः केक्कयाः किराताः हयमुखाः खरमुखाः गजमुखाः तुरङ्गमुखाः मिण्डकमुखाः
हयकर्गाः गजकर्णाश्चित्येते देसा अन्तार्याः ।” इति वृत्तिः । पत्रं ४४५-२ ॥ ४. “मुंरुडो” म० सु० ॥
५. “डोडुं” जे० म० प्र० सु० ॥ ६. “सीहल” म० प्र० ॥ ७. “पारस-गोधोत्व-दमिल” जे० म० ।
“पारस-गोधोडुं-दमिल” पुर, “पारस-कोंच-अंव-डंव-दमिल” पुरसं० । “पारस-कोंच-
अव्वद-दमिल” प्र० । “पारस-गोधा-कोंच-अंवडुं-दमिल” मु० ॥ ८. “विहस” जे० । “चिल्ल”
ध० ॥ ९. “डोंव” म० । “दोव” मु० । “चोव” ध० । “चेचस” प्र० ॥ १०. “हारवा व”
जे० म० प्र० सु० । “हार-व्वाणव्वा-वा” पुर ॥ ११. “अज्जल” म० सु० ॥ १२. “भोस”
ध० ॥ १३. “पओस” ध० ॥ १४. य वंचुया य जे० म० प्र० पुर सु० ॥ १५. “स्यलि”
म० सु० ॥ १६. “मगर” जे० म० प्र० सु० ॥ १७. “कण-चीण” ध० । “कणवीर” मु० ॥
१८. “खग-वासिय” जे० म० पुर ॥ १९. “चउस” ध० ॥ २०. “केक्कैया” ध० पुर ॥
२१. अक्कवाणा पुर पु३ दिना ॥ २२. “रोमग” जे० ध० प्र० सु० ॥ २३. “भरु-भल्य” म०
प्र० सु० ॥ २४. मिलक्खा ध० दिना ॥ २५. “आरिया” जे० ॥ २६. “हरा पडिवासुदेवा ।
से तं ध० ॥

तं जहा—खेत्तारिया १ जातिआरिया २ कुलारिया ३ कम्मारिया ४ सिप्पारिया
५ भासारिया ६ णाणारिया ७ दंसणारिया ८ चरित्तारिया ९ ।

१०२. से किं तं खेत्तारिया ? खेत्तारिया अद्धच्छ्वीसतिविहा पणत्ता ।

तं जहा—

रायगिह मगह १, चंपा अंगा २, तह तौमलित्ति वंगा य ३ । ५
कंचणपूरं कलिंगा ४, वाणारसि चैव कासी य ५ ॥ ११२ ॥
साएय कोसला ६, गयपुरं च कुरु ७, सोरियं कुसुद्धा य ८ ।
कंपिल्लं पंचाला ९, अहिच्छत्ता जंगला चैव १० ॥ ११३ ॥
चौरवती य सुरद्धा ११, महिल विदेहा य १२, वच्छ कोसंधी १३ ।
णंदिपुरं संडिल्लो १४, भदिलपुरमेव मलया य १५ ॥ ११४ ॥ १०
वड्डराड वच्छ १६, वरणा अच्छा १७, तह मत्तियावड् दसण्णा १८ ।
सुत्तीमई य चेदी १९, वीइभयं सिन्धुसोवीरा २० ॥ ११५ ॥
महुरा य सूरसेणा २१ पावा भंगी य २२ मासपुरि वडा २३ ।
सावत्थी य कुणाला २४, कोडीवरिसं च लाढा य २५ ॥ ११६ ॥
सेयविया वि य णयरी केयइअद्धं च २५ ॥ आरियं भणितं । १५
एत्थुप्पत्ति जिणाणं चक्कीणं राम-कण्हाणं ॥ ११७ ॥

से तं खेत्तारिया ।

१०३. से किं तं जातिआरिया ? जातिआरिया छविहा पणत्ता । तं जहा—

१. मलयटीकायां प्रवचनसारोद्धारवृत्तौ च “तामलिनी” इति व्याख्यातम् ॥ २. ०पुरी प्र० ॥
३. वारवती सोरद्धा ११ मिहिल म० प्र० ॥ ४. अत्र मलयनिरिवृत्तिः—“वत्सेषु कौशाम्बी
१३ शाण्डिल्येषु नन्दिपुरं १४ मलयेषु भदिलपुरं १५ वत्सेषु वैराटपुरं १६ वरणेषु अच्छापुरी १७
दशाणेषु मृत्तिकावती १८ चेदिपु शौम्भितकावती १९ वीतभयं सिन्धुपु २० सौवीरेषु मथुरा २१
सूरसेनेषु पापा २२ भङ्गेषु मासपुरिवडा २३ कुणालेषु श्रावस्ती २४” । अत्रार्थे पुनरियं प्रवचन
सारोद्धारसत्क १५८९ तः ९२ पर्यन्तगाथावृत्तिर्विचाराहार्हा—“वत्सादेशः कौशाम्बी नगरी १३
नन्दिपुरं नगरं शाण्डिल्यो शाण्डिल्या वा देशः १४ भदिलपुरं नगरं मलयादेशः १५ वैराटो देशः
वत्सा राजधानी, अन्ये तु ‘वत्सादेशो वैराटं पुरं नगरम्’ इत्याहुः १६ वरुणानगरं अच्छादेशः,
अन्ये तु ‘वरुणेषु अच्छापुरी’ इत्याहुः १७ तथा मृत्तिकावती नगरी दशाणो देशः १८ शुक्तिमती
नगरी चेदयो देशः १९ वीतभयं नगरं सिन्धुसौवीरा जनपदः २० मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देशः
२१ पापा नगरी भङ्गयो देशः २२ मासपुरी नगरी वतों देशः २३, अन्ये त्वाहुः ‘चेदिपु सौभित-
कावती, वीतभयं सिन्धुपु, सौवीरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पापा, भङ्गेषु मासपुरिवडा’ इति, तदतिव्यव-
हृतम्, परं बहुश्रुतसम्प्रदायः प्रमाणम्, तथा श्रावस्ती नगरी कुणालादेशः २४” [पत्रं ४४६-२] ॥
५. संडिम्भा जे० थ० ॥ ६. शौम्भित्यमई य चेदी १९. वीयभयं म० पुर० मु० ॥

९८. से किं तं मिलंक्खू ? मिलंक्खू अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
सग^१-जवण-चिलाय-सवर-वच्चर-काय-मुंरंडोडु^२-भडग-णिण्णग-पक्कणिय-कुलक्ख-
गोड^३-सिंहल^४-पारस-गो^५धोडंब-दमिल-चिल्ल^६-पुल्लि^७-हारोस-डो^८वं-वोक्काण-गंधा^९हारग-
वहलिय-अंजल^{१०}-रोम-पासं-पउ^{११}सा-मलया यं चुंचुया य मूयलि-को^{१२}कणग-मेय-पल्हव-
५ मालव-गंगर-आभासिय-णं^{१३}क्क-चीणा ल्हसिय-खंस-खासिय-णेडूर-मंड-डो^{१४}विलग-
लउस-वउ^{१५}स-के^{१६}क्या अरवांगा हूण-रोसंग-भरुंग-रुय-विलायविसयवासी य एवमादी ।
से तं मिलंक्खू ।

९९. से किं तं आरिया ? आरिया दुविहा पणत्ता । तं जहा-
इड्ढिपत्तारिया य अण्डिपत्तारिया य ।

१० १००. से किं तं इड्ढिपत्तारिया ? इड्ढिपत्तारिया छविहा पणत्ता । तं जहा-
अरहंता १ चक्कवट्ठी २ वलदेवा ३ वासुदेवा ४ चारणा ५ विज्जाहेरा ६ । से तं
इड्ढिपत्तारिया ।

१०१. से किं तं अण्डिपत्तारिया ? अण्डिपत्तारिया णवविहा पणत्ता ।

१-२. मिलक्खा म० प्र० ॥ ३. एतदेशविशेषज्ञानार्थमिमाः प्रवचनसारोद्धारप्रकरणसत्का गाथा
अत्रोद्घ्रियन्ते—“सग-जवण-सवर-वच्चर-काय-मुंरंडोडु-गोण-पक्कणया । अरवाग-होण-रोमय-पारस-
खसखासिया चेव ॥ १५,८३ ॥ दुं विलय-लउस-वोक्कस-भिल्लं^३ध-पुल्लि^७-कुंच-भमररुया । कोवाय-चीण-
चंचुय-मालव-दमिला कुलगया य ॥ १५,८४ ॥ केकय-किराय-हयमुह-खरमुह-गय-तुरय-मिडयमुहा य ।
हयकन्ना गयकन्ना अने वि अणारिया वहवे ॥ १५,८५ ॥” “शकाः यचनाः शवराः वर्वराः कायाः
मुरुण्डाः उट्टाः गौड्ढाः पक्कणगाः अरवागाः हूणाः रोमकाः पारसाः खसाः खासिकाः द्रुम्बिलकाः
लकुशाः वोक्कशाः भिल्लाः अन्ध्राः पुल्लिन्द्राः कुञ्चाः भ्रमररुचाः कोर्पकाः चीनाः चञ्चुकाः मालवाः
द्रविडाः कुलार्थाः केकयाः किराताः हयमुखाः खरमुखाः गजमुखाः तुरङ्गमुखाः मिण्डकमुखाः
हयकर्णाः गजकर्णाश्चेत्येते देशा अनार्याः ।” इति वृत्तिः । पत्रं ४४५-२ ॥ ४. “मुंरंडो” म० मु० ॥
५. “डोडु” जे० म० प्र० मु० ॥ ६. “सीहल” म० प्र० ॥ ७. “पारस-गोधोत्व-दमिल” जे० म० ।
“पारस-गोधोडंब-दमिल” पुर, “पारस-कोच-अंब-डंब-दमिल” पुरसं० । “पारस-कोच-
अंब-दमिल” प्र० । “पारस-गोधा-कोच-अंबडडु-दमिल” मु० ॥ ८. “विल्लस” जे० । “चिल्लस”
ध० ॥ ९. “डोवं” म० । “डोव” मु० । “चोव” ध० । “येचस” प्र० ॥ १०. “हारवा व”
जे० म० प्र० मु० । “हार-व्जाणव्जा-त्रा” पुर ॥ ११. “अज्जल” म० मु० ॥ १२. “मोस”
ध० ॥ १३. “वओस” ध० ॥ १४. य वंचुया य जे० म० प्र० पुर मु० ॥ १५. सूयलि^{१२}
म० मु० ॥ १६. “मगर” जे० म० प्र० मु० ॥ १७. “कण-चीण” ध० । “कणवीर” मु० ॥
१८. “खग-वासिय” जे० म० पुर ॥ १९. “चउस” ध० ॥ २०. “केक्या ध० पुर ॥
२१. अक्खागा पुर पुर विना ॥ २२. “रोमग” जे० ध० प्र० मु० ॥ २३. “भरु-भरुय” म०
प्र० मु० ॥ २४. मिलक्खा ध० विना ॥ २५. आयरिया” जे० ॥ २६. “हरा पडिवासुदेवा ।
से तं ध० ॥

११०. से किं तं सरागदंसणारिया? सरागदंसणारिया दसविहा
पणत्ता । तं जहा-

निस्सग्गुवएसरुई^१-२ आणारुइ^३ सुत्त^४-वीयरुई^५ मेव ।
अहिगम^६-वित्थाररुई^७ किरिया^८-संखेव^९-धम्मरुई^{१०} ॥ ११९ ॥
भूअत्थेणाधिगया जीवा^१डीवं च पुण्ण-पावं च ।
सहसम्मुइया^२सव-संवरे यं रोएइ उ णिसग्गो ॥ १२० ॥
जो जिणदिडे भावे चउव्विहे सदहाइ सयमेव ।
एमेव ण^३ण्णह ति य णिस्सग्गरुइ ति णायव्वो १ ॥ १२१ ॥
एते चेव उ भावे उवदिडे जो परेण सदहइ ।
छउमत्थेण जिणेण व उवएसरुइ ति नायव्वो २ ॥ १२२ ॥
जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए पवयणं तु ।
एमेव ण^३ण्णह ति य एसो आणारुई नाम ३ ॥ १२३ ॥
जो सुत्तमहिजंतो सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं ।
अंणेण बाहिरेण व सो सुत्तरुइ ति णायव्वो ४ ॥ १२४ ॥
एगपए^५णेगाइं पदाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।
उदए व्व तेल्लविंदू सो वीयरुइ ति णायव्वो ५ ॥ १२५ ॥
सो होइ अहिगमरुई सुयणाणं जस्स अत्थओ दिडुं ।
एक्कारस अंगाइं पइण्णगं दिड्ढिवाओ य ६ ॥ १२६ ॥
दव्वाण सव्वभावा सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा ।
सव्वाहिं णयविहीहिं वित्थाररुइ ति णायव्वो ७ ॥ १२७ ॥
दंसण-णाण-चरित्ते तव-विणए सव्वसमिइ-गुत्तीसु ।
जो किरियाभावरुई सो खलु किरियारुई णाम ८ ॥ १२८ ॥
अणभिग्गहियकुदिडी संखेवरुइ ति होइ णायव्वो ।
अविसारओ पवयणे अणभिग्गहिओ य सेसेसु ९ ॥ १२९ ॥
जो अत्थिकायधम्मं सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
सदहइ जिणाभिहियं सो धम्मरुइ ति नायव्वो १० ॥ १३० ॥

१. °रुइ चेव पु२ ॥ २. °डीवे य पु° म० प्र० सु० । °डीवाइ पु° पु२ ॥
३. य रोवेइ उ प्र० । श्रीमलयगिरिपादैः पुनः य वेपुइ उ इति पाठावुसारेण व्याख्यातमस्ति,
किन्तु नोपलब्धोऽर्थ पाठः कस्मिंश्चिदप्यादर्शे ॥

अंबडा १ य कलिंदा २ विदेहा ३ वेदंगा ४ इ य ।

हरिया ५ चुंचुणा ६ चेव, छ एया इन्मजातिओ ॥ ११८ ॥

से तं जातिआरिया ।

१०४. से किं तं कुलारिया ? कुलारिया छविहा पन्नत्ता । तं जहा-
५ उग्गा १ भोगा २ राइण्णा ३ इक्खागा ४ णाता ५ कोरव्वा ६ । से तं कुलारिया ।

१०५. से किं तं कम्मारिया ? कम्मारिया अणेगविहा पणत्ता । तं
जहा-दोस्सिया सोत्तिया कप्पासिया सुत्तवेयालिया मंडवेयालिया कोलालिया
णरदावणिया, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं कम्मारिया ।

१०६. से किं तं सिप्पारिया ? सिप्पारिया अणेगविहा पणत्ता । तं
१० जहा-तुण्णागा तंतुवाया पट्टगारा देयडा वरणा छच्चिया कट्टपाउयारा
मुंजपाउयारा छत्तारा वज्झारा पोत्थारा लेप्पारा चित्तारा संखारा दंतारा भंडारा
जिज्झंगारा सेल्लंगारा कोडिगारा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं सिप्पारिया ।

१०७. से किं तं भासारिया ? भासारिया जे णं अद्धमागहाए भासाए
भासिंति, जत्थ वि य णं बंभी लिवी पवत्तइ । बंभीए णं लिवीए अट्टारसविहे
१५ लेक्खविहाणे पणत्ते । तं जहा-बंभी १ जवणालिया २ दोसांपुरिया ३ खंरोट्ठी ४
पुक्खरसारिया ५ भोगवईया ६ पहराईयाओ य ७ अंतक्खरिया ८ अक्खरपुट्टिया ९
वेणइया १० णिण्हइया ११ अंकलिवी १२ गणितलिवी १३ गंधवलिवी १४
आयंसलिवी १५ माहेसरी १६ दौमिली १७ पोलिंदी १८ । से तं भासारिया ।

१०८. से किं तं णाणारिया ? णाणारिया पंचविहा पणत्ता । तं जहा-
२० आभिणिबोहियणाणारिया १ सुयणाणारिया २ ओहिणाणारिया ३ मणपज्जवणाणारिया
४ केवलणाणारिया ५ । से तं णाणारिया ।

१०९. से किं तं दंसणारिया ? दंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा-
सरागदंसणारिया य वीयरगदंसणारिया य ।

१. विंदगा जे० । वेदसा पुर ॥ २. चुंचुणा म० प्र० ॥ ३. अज्जजातित्ते जे० थ० ॥
४. णरवावणिया म० प्र० । णरवाहणिया पुर मु० ॥ ५. वरुणा म० प्र० पुर । वरुट्ठा
मु०, टीकाकृताऽयमेव पाठ आहतोऽस्ति, नोपलब्धोऽयमस्माभिः प्रतिपु ॥ ६. पवभारा म० प्र० ।
छज्झारा वज्झारा पुरसं० ॥ ७. जिभगारा प्र० । जिभारा म० ॥ ८. सेल्लारा म० प्र० मु० ॥
९. दासापुरिया पु१ पु३ मु० विना अन्यत्र ॥ १०. खरोट्ठी म० प्र० ॥ ११. राइया७ अंत०
म० मु० ॥ १२. दोमिली प्र० । दोमिलिवी मु० ॥

११०. से किं तं सरागदंसणारिया? सरागदंसणारिया दसविहा
पणत्ता । तं जहा-

निस्सग्गुवएसरुई १-२ आणारुइ ३ सुत्त ४-चीयरुई ५ मेव ।

अहिगम ६-वित्थारुई ७ किरिया ८-संखेव ९-धम्मरुई १० ॥ ११९ ॥

भूअत्थेणाधिगया जीवाऽजीवं च पुण्ण-पावं च ।

सहसम्मुइयाऽऽसव-संवरे यं रोएइ उ णिसग्गो ॥ १२० ॥

जो जिणदिट्ठे भावे चउव्विहे सदहाइ सयमेव ।

एमेव णऽण्ह ति य णिस्सग्गरुइ ति णायव्वो १ ॥ १२१ ॥

एते चेव उ भावे उवदिट्ठे जो परेण सदहइ ।

छउमत्थेण जिणेण व उवएसरुइ ति नायव्वो २ ॥ १२२ ॥

जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए पवयणं तु ।

एमेव णऽण्ह ति य एसो आणारुई नाम ३ ॥ १२३ ॥

जो सुत्तमहिज्जंतो सुण्ण ओगाहई उ सम्मत्तं ।

अंगेण वाहिरेण व सो सुत्तरुइ ति णायव्वो ४ ॥ १२४ ॥

एगपएऽणेगाइं पदाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।

उदए व्व तेल्लबिंदू सो चीयरुइ ति णायव्वो ५ ॥ १२५ ॥

सो होइ अहिगमरुई सुयणाणं जस्स अत्थओ दिट्ठं ।

एक्कारस अंगाइं पइण्णगं दिट्ठिवाओ य ६ ॥ १२६ ॥

दव्वाण सव्वभावा सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा ।

सव्वाहिं णयविहीहिं वित्थारुइ ति णायव्वो ७ ॥ १२७ ॥

दंसण-णाण-चरित्ते तव-विणए सव्वसमिइ-गुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई सो खलु किरियारुई णाम ८ ॥ १२८ ॥

अणभिग्गहियकुदिट्ठी संखेवरुइ ति होइ णायव्वो ।

अविसारओ पवयणे अणभिग्गहिओ य सेसेसु ९ ॥ १२९ ॥

जो अत्थिकायधम्मं सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।

सदहइ जिणाभिहियं सो धम्मरुइ ति नायव्वो १० ॥ १३० ॥

१. 'रुइ' चेव पु २ ॥ २. 'ऽजीवे' य पुं म० प्र० सु० । 'ऽजीवाइ' पुं पु २ ॥
३. य रोवेइ उ प्र० । श्रीमलयगिरिपादैः पुनः य वेएइ उ इति पाठानुसारेण व्याख्यातमस्ति,
किन्तु नोपलब्धोऽयं पाठः कस्मिंश्चिदप्यादर्शे ॥

परमत्थसंथवो वा सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वा वि ।

वावण्ण-कुदंसणवज्जणा य सम्मत्तसद्दहणा ॥ १३१ ॥

निस्संक्रिय १ निक्कंखिय २ निव्वितिगिच्छा ३ अमूढदिट्ठी ४ य ।

उववूह ५ थिरीकरणे ६ वच्छल ७ पभावणे ८ अट्ट ॥ १३२ ॥

५. से तं सरागदंसणारिया ।

१११. से किं तं वीयरगदंसणारिया ? वीयरगदंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया खीणकसायवीयरायदंसणारिया ।

११२. से किं तं उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया ? उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—पढमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया अपढमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया, अहवा चरिमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य ।

११३. से किं तं खीणकसायवीयरायदंसणारिया ? खीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—छउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य केवल्लिखीणकसायवीयरगदंसणारिया य ।

११४. से किं तं छउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया ? छउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य ।

११५. से किं तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया ? सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—पढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य अपढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य । से तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया ।

११६. से किं तं बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया ? बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—पढमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य अपढमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरगदंसणारिया य अचरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्थ-

खीणकसायवीयरायदंसणारिया य । से तं बुद्धचोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागदंसणारिया । से तं छउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया ।

११७. से किं तं केवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया ? केवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य ।

११८. से किं तं सजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया ? सजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढमसमयसजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अपढमसमयसजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अचरिमसमयसजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य । से तं सजोगिकेवल्लिखीणकसायवीयरगदंसणारिया ।

११९. से किं तं अजोगिकेवल्लिखीणकसायवीयरगदंसणारिया ? अजोगिकेवल्लिखीणकसायवीयरगदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढमसमयअजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अपढमसमयअजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयअजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवल्लिखीणकसायवीयरगदंसणारिया य । से तं अजोगिकेवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया । से तं केवल्लिखीणकसायवीतरागदंसणारिया । से तं खीणकसायवीतरागदंसणारिया । से तं वीयरायदंसणारिया । से तं दंसणारिया ।

१२०. से किं तं चरित्तारिया ? चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सरागचरित्तारिया य वीयरगचरित्तारिया य ।

१२१. से किं तं सरागचरित्तारिया ? सरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य वायरसंपरायसरागचरित्तारिया य ।

१२२. से किं तं सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य अपढमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य अचरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—संकिलिस्समाणा य विसुज्झमाणा य । से तं सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया ।

१२३. से किं तं वादरसंपरायसरागचरित्तारिया ? वादरसंपरायसराग-
चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढमसमयवादरसंपरायसरागचरित्तारिया
य अपढमसमयवादरसंपरायसरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयवादरसंपराय-
सरागचरित्तारिया य अचरिमसमयवादरसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा
वादरसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—पडिवाती य अपडिवाती
य । से तं वादरसंपरायसरागचरित्तारिया । से तं सरागचरित्तारिया ।

१२४. से किं तं वीयरागचरित्तारिया ? वीयरागचरित्तारिया दुविहा
पण्णत्ता । तं जहा—उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य खीणकसायवीतरागचरि-
त्तारिया य ।

१२५. से किं तं उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया ? उवसंतकसायवीय-
रायचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढमसमयउवसंतकसायवीयराय-
चरित्तारिया य अपढमसमयउवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिम-
समयउवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीयराग-
चरित्तारिया य । से तं उवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया ।

१२६. से किं तं खीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? खीणकसायवीयराय-
चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया
य केवल्लिखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य ।

१२७. से किं तं छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? छउमत्थ-
खीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सयंबुद्धछउमत्थ-
खीणकसायवीयरागचरित्तारिया य बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्ता-
रिया य ।

१२८. से किं तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ?
सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
पढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अपढमसमयसयंबुद्ध-
छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसयंबुद्ध-
छउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणक-
सायवीतरागचरित्तारिया य । से तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतराग-
चरित्तारिया ।

१२९. से किं तं बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ?

बुद्धबोहियच्छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
 पढमसमयबुद्धबोहियच्छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अपढमसमयबुद्ध-
 बोहियच्छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयबुद्धबोहिय-
 छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयबुद्धबोहियच्छउमत्थखीण-
 कसायवीयरायचरित्तारिया य । से त्तं बुद्धबोहियच्छउमत्थखीणकसायवीयराय- ५
 चरित्तारिया । से त्तं छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ।

१३०. से किं तं केवलखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? केवलखीण-
 कसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सजोगिकेवलखीणकसाय-
 वीयरागचरित्तारिया य अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य ।

१३१. से किं तं सजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ? १०
 सजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढम-
 समयसजोगिकेवलखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अपढमसमयसजोगिकेवलि-
 खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलखीणक-
 सायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयसजोगिकेवलखीणकसायवीयराय-
 चरित्तारिया य । से त्तं सजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया । १५

१३२. से किं तं अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ?
 अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
 पढमसमयअजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य अपढमसमयअजोगि-
 केवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलखीण-
 कसायवीयरागचरित्तारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलखीणकसायवीतराग- २०
 चरित्तारिया य । से त्तं अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया । से त्तं
 केवलखीणकसायवीतरागचरित्तारिया । से त्तं खीणकसायवीतरागचरित्तारि-
 या । से त्तं वीयरागचरित्तारिया ।

१३३. अहवा चरित्तारिया पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा—सामाइयचरित्ता-
 रिया १ छेदोवद्वावणियचरित्तारिया २ परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ३ सुहुम- २५
 संपरायचरित्तारिया ४ अहक्खायचरित्तारिया ५ ।

१३४. से किं तं सामाइयचरित्तारिया ? सामाइयचरित्तारिया दुविहा
 पण्णत्ता । तं जहा—इत्तरियसामाइयचरित्तारिया य आवकहियसामाइयचरित्ता-
 रिया य । से त्तं सामाइयचरित्तारिया ।

१२३. से किं तं चादरसंपरायसरागचरित्तारिया ? चादरसंपरायसराग-
चरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—पढमसमयचादरसंपरायसरागचरित्तारिया
य अपढमसमयचादरसंपरायसरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयचादरसंपराय-
सरागचरित्तारिया य अचरिमसमयचादरसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा
५ चादरसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा पणत्ता, तं जहा—पडिवाती य अपडिवाती
य । से तं चादरसंपरायसरागचरित्तारिया । से तं सरागचरित्तारिया ।

१२४. से किं तं वीयरागचरित्तारिया ? वीयरागचरित्तारिया दुविहा
पणत्ता । तं जहा—उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य खीणकसायवीतरागचरि-
त्तारिया य ।

१० १२५. से किं तं उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया ? उवसंतकसायवीय-
रायचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—पढमसमयउवसंतकसायवीयराय-
चरित्तारिया य अपढमसमयउवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिम-
समयउवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीयराग-
चरित्तारिया य । से तं उवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया ।

१५ १२६. से किं तं खीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? खीणकसायवीयराय-
चरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया
य केवल्लिखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य ।

१२७. से किं तं छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? छउमत्थ-
खीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—सयंबुद्धछउमत्थ-
२० खीणकसायवीयरागचरित्तारिया य बुद्धचोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्ता-
रिया य ।

१२८. से किं तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ?
सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—
पढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अपढमसमयसयंबुद्ध-
२५ छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसयंबुद्ध-
छउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणक-
सायवीतरागचरित्तारिया य । से तं सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीतराग-
चरित्तारिया ।

१२९. से किं तं बुद्धचोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ?

बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
 पढमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अपढमसमयबुद्ध-
 बोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयबुद्धबोहिय-
 छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्थखीण-
 कसायवीयरायचरित्तारिया य । से तं बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयराय- ५
 चरित्तारिया । से तं छउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ।

१३०. से किं तं केवलखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? केवलखीण-
 कसायवीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सजोगिकेवलखीणकसाय-
 वीयरागचरित्तारिया य अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य ।

१३१. से किं तं सजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ? १०
 सजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पढम-
 समयसजोगिकेवलखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अपढमसमयसजोगिकेवल-
 खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलखीणक-
 सायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयसजोगिकेवलखीणकसायवीयराय-
 चरित्तारिया य । से तं सजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया । १५

१३२. से किं तं अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ?
 अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
 पढमसमयअजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य अपढमसमयअजोगि-
 केवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलखीण-
 कसायवीयरागचरित्तारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलखीणकसायवीतराग- २०
 चरित्तारिया य । से तं अजोगिकेवलखीणकसायवीयरागचरित्तारिया । से तं
 केवलखीणकसायवीतरागचरित्तारिया । से तं खीणकसायवीतरागचरित्तारि-
 या । से तं वीयरागचरित्तारिया ।

१३३. अहवा चरित्तारिया पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा—सामाइयचरित्ता-
 रिया १ छेदोवद्धानियचरित्तारिया २ परिहारचिसुद्धियचरित्तारिया ३ सुहुम- २५
 संपरायचरित्तारिया ४ अहक्खायचरित्तारिया ५ ।

१३४. से किं तं सामाइयचरित्तारिया ? सामाइयचरित्तारिया दुविहा
 पण्णत्ता । तं जहा—इत्तरियसामाइयचरित्तारिया य आवकहियसामाइयचरित्ता-
 रिया य । से तं सामाइयचरित्तारिया ।

१३५. से किं तं छेदोवद्वावणियचरित्तारिया ? छेदोवद्वावणियचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—साइयारछेदोवद्वावणियचरित्तारिया य णिरइयारछेओवद्वावणियचरित्तारिया य । से तं छेदोवद्वावणियचरित्तारिया ।

१३६. से किं तं परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ? परिहारविसुद्धियचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—निव्विसमाणपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य निव्विड्काइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । से तं परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ।

१३७. से किं तं सुहुमसंपरायचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—संकिलिस्समाणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य विसुज्जमाणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य । से तं सुहुमसंपरायचरित्तारिया ।

१३८. से किं तं अहक्खायचरित्तारिया ? अहक्खायचरित्तारिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—छउमत्थअहक्खायचरित्तारिया य केवलिअहक्खायचरित्तारिया य । से तं अहक्खायचरित्तारिया । से तं चरित्तारिया । से तं अण्डिपत्तारिया । से तं आरिया । से तं कम्मभूमगा । से तं गम्भवक्कंतिया । से तं मणुस्सा ।

१५

[सुत्ताइं १३९-१४७. देवजीवपणवणा]

१३९. से किं तं देवा ? देवा चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—भवणवासी १ वाणमंतरा २ जोइसिया ३ वेमाणिया ४ ।

१४०. [१] से किं तं भवणवासी ? भवणवासी दसविहा पन्नत्ता । तं जहा—असुरकुमारा १ नागकुमारा २ सुवण्णकुमारा ३ विज्जुकुमारा ४ अग्गिकुमारा ५ दीवकुमारा ६ उदहिकुमारा ७ दिसाकुमारा ८ वाउकुमारा ९ थणियकुमारा १० ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं भवणवासी ।

१४१. [१] से किं तं वाणमंतरा ? वाणमंतरा अड्ढविहा पणत्ता । तं जहा—किन्नरा १ किंपुरिसा २ महोरगा ३ गंधव्वा ४ जक्खा ५ रक्खसा ६ भूया ७ पिसाया ८ ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं वाणमंतरा ।

१४२. [१] से किं तं जोइसिया ? जोइसिया पंचविहा पञ्चत्ता । तं जहा—चंदा १ सूरा २ गहा ३ नक्खत्ता ४ तारा ५ ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्ता य अपज्जत्ता य । से तं जोइसिया ।

१४३. से किं तं वेमाणिया ? वेमाणिया दुविहा पणत्ता । तं जहा— ५ कप्पोवगा य कप्पातीता य ।

१४४. [१] से किं तं कप्पोवगा ? कप्पोवगा चारसविहा पणत्ता । तं जहा—सोहम्मा १ ईसाणा २ सणकुमारा ३ माहिंदा ४ बंमलोया ५ लंतयाँ ६ सुक्का ७ सहस्सारा ८ आणता ९ पाणता १० आरणा ११ अच्चुता १२ ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्ता य अपज्जत्ता य । १० से तं कप्पोवगा ।

१४५. से किं तं कप्पातीया ? कप्पातीया दुविहा पणत्ता । तं जहा—गेवेज्जगा य अणुत्तरोववाइया य ।

१४६. [१] से किं तं गेवेज्जगा ? गेवेज्जगा णवविहा पणत्ता । तं जहा—हेट्ठिमहेट्ठिमगेवेज्जगा १ हेट्ठिममज्झिमगेवेज्जगा २ हेट्ठिमउवरिमगेवेज्जगा ३ १५ मज्झिमहेट्ठिमगेवेज्जगा ४ मज्झिममज्झिमगेवेज्जगा ५ मज्झिमउवरिमगेवेज्जगा ६ उवरिमहेट्ठिमगेवेज्जगा ७ उवरिममज्झिमगेवेज्जगा ८ उवरिमउवरिमगेवेज्जगा ९ ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्ता य अपज्जत्ता य । से तं गेवेज्जगा ।

१४७. [१] से किं तं अणुत्तरोववाइया ? अणुत्तरोववाइया पंचविहा २० पणत्ता । तं जहा—विजया १ वैजयंता २ जयंता ३ अपराजिता ४ सव्वड्ढसिद्धा ५ ।

[२] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्ता य अपज्जत्ता य । से तं अणुत्तरोववाइया । से तं कप्पाईया । से तं वेमाणिया । से तं देवा । से तं पंचिंदिया । से तं संसारसमावण्णजीवपणवणा । से तं जीवपणवणा । से तं पणवणा ।

॥ पणवणाप भगवईप पढमं पणवणापयं समत्तं ॥

२. विइयं ठाणपयं

[सुत्ताइं १४८-१५०. पुढविकायठाणाइं]

१४८. कहि णं भंते ! बादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सट्ठाणेणं अइसु पुढविसु । तं जहा-रयणप्पभाए १ सक्करप्पभाए २
 ५ वालुयप्पभाए ३ पंकप्पभाए ४ धूमप्पभाए ५ तमप्पभाए ६ तमतमप्पभाए ७
 इसीपन्भाराए ८-१, अहोलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु णिरएसु
 निरयावलियासु निरयपत्थडेसु २, उड्डलोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु
 विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए टंकेसु कूडेसु सेलेसु सिहरीसु पन्भारेसु विजएसु
 वक्खारेसु वासेसु वासहरपव्वएसु वेलासु वेइयासु दारेसु तोरणेसु दीवेसु समुद्देसु
 १० ण्कै, एत्थ णं बादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स
 असंखेज्जइभागे ।

१४९. कहि णं भंते ! बादरपुढविकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जत्थेव बादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव बादरपुढ-
 १५ विकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । तं जहा-उववाएणं सव्वलोए,
 समुग्घाएणं सव्वलोए, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

१५०. कहि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं य ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमपुढविकाइया जे पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

२० [सुत्ताइं १५१-१५३. आउक्कायठाणाइं]

१५१. कहि णं भंते ! बादरआउक्काइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सट्ठाणेणं सत्तसु घणोदधीसु सत्तसु घणोदधिवलएसु १, अहोलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु २, उड्डलोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु
 २५ पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु

बिलपंतियासु उज्झरेसु निज्झरेसु चिह्लेलेसु पल्लेसु वण्णिणसु दीविसु समुद्देसु
सव्वेसु चेव जलासएसु जलद्वाणेषु ४, एत्थ णं चादरआउक्काइयाणं पँजत्ताणं
ठाणा पणत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, ससुग्घाएणं लोयस्स
असंखेज्जइभागे, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

१५२. कहि णं भंते ! चादरआउक्काइयाणं अपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता ?
गोयमा ! जत्थेव चादरआउक्काइयाणं पज्जत्ताणं ठाणा तत्थेव चादरआउक्काइयाणं
अपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं सव्वलोए, ससुग्घाएणं सव्वलोए,
सद्वाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

१५३. कहि णं भंते ! सुहुमआउक्काइयाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं ठाणा
पणत्ता ? गोयमा ! सुहुमआउक्काइया जे पज्जत्ता जे य अपज्जत्ता ते सव्वे
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावण्णगा पन्नत्ता समणाउसो ! ।

[सुत्ताइं १५४-१५६. तेउकायठाणाइं]

१५४. कहि णं भंते ! चादरतेउकाइयाणं पज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता ?
गोयमा ! सद्वाणेणं अंतोमणुस्सखेत्ते अड्डाइज्जेसु दीव-समुद्देसु निव्वाघाएणं
पण्णरससु कम्मभूमीसु, वाँघायं पडुच्च पंचसु महाविदेहेसु एत्थ णं चादरतेउक्काइयाणं
पज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, ससुग्घाएणं
लोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । -

१५५. कहि णं भंते ! चादरतेउकाइयाणं अपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता ?
गोयमा ! जत्थेव चादरतेउकाइयाणं पज्जत्ताणं ठाणा तत्थेव चादरतेउकाइयाणं
अपज्जत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स दोसुउकवाडेसुं तिरियलोयतट्ठे य,
ससुग्घाएणं सव्वलोए, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

१५६. कहि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं य ठाणा
पणत्ता ? गोयमा ! सुहुमतेउकाइया जे पज्जत्ता जे य अपज्जत्ता ते सव्वे एगविहा
अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावण्णगा पणत्ता समणाउसो ! ।

१. चिल्लएसु पल्लएसु जे० ॥ २. पज्जत्ताणं ध० पुर ॥ ३. पज्जत्ताणं ध० पुर ॥ ४. वाघा-
एणं पंचसु पद-३ सू० २२८ मलयदीक्याम् ॥ ५. प्रदेव्याख्याकृद्भिः श्रीहरिभद्रपादैस्तु
- - एतच्चिह्नान्तर्गतपाठस्थाने तीसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे इति सूत्रपाठः आहतोऽस्ति ॥
६. दोसु उट्टकं प्र० मु० मलयदीका । हरिभद्रपादैस्तु दोसुउकं इत्येव पाठो निर्दिष्टोऽस्ति ॥

[सुत्ताइं १५७-१५९. वाउकायठाणाइं]

१५७. कहि णं भंते ! वादरवाउकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पणत्ता ? गोयमा ! सद्दण्णेणं सत्तसु घणवाएसु सत्तसु घणवायवलएसु सत्तसु तणुवाएसु सत्तसु तणुवायवलएसु १, अहोलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु भवणच्छिडेसु भवणणिखुडेसु निरएसु निरयावलियासु गिरयपत्थडेसु गिरयच्छिडेसु गिरयणिखुडेसु २, उड्डलोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु विमाणपत्थडेसु विमाणच्छिडेसु विमाणणिखुडेसु ३, तिरियलोए पाईण-पडीण-दाहिण-उदीण सव्वेसु चैव लोगागासच्छिडेसु लोगनिखुडेसु य ४, एत्थ णं वायरवाउकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु, सद्दण्णेणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु ।

१५८. कहि णं भंते ! अपज्जत्तवादरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जत्थेव वादरवाउकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव वादरवाउकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं सव्वलोए, समुग्घाएणं सव्वलोए, सद्दण्णेणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु ।

१५९. कहि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सुहुमवाउकाइया जे य पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावण्णगा पणत्ता समणाउसो ! ।

[सुत्ताइं १६०-१६२ वणस्सइकायठाणाइं]

१६०. कहि णं भंते ! वादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सद्दण्णेणं सत्तसु घणोदहीसु सत्तसु घणोदहिवलएसु १, अहोलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु २, उड्डलोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए अगडेसु तंडागेसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उच्चरेसु निच्चरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्देसु सव्वेसु चैव जलासएसु जलड्डणेसु ४, एत्थ णं वादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं सव्वलोए, समुग्घाएणं सव्वलोए, सद्दण्णेणं लोयस्स असंखेज्जइमागे ।

१. °त्तगाणं वादर° ध० ॥ २. पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ध० पु२ ॥ ३. सुहुमा वाउ° जे० ॥

४. तलागेसु ध० पु२ ॥

१६१. कहि णं भंते ! वादरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जत्थेव वादरवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव वादरवणस्सइकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं सच्चलोए, समुग्घाएणं सच्चलोए, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

१६२. कहि णं भंते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं य ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमवणस्सइकाइया जे य पज्जत्तगा जे य अपज्जत्तगा ते सच्चे एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सच्चलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

[सुत्तं १६३. वेइंदियठाणाइं]

१६३. कहि णं भंते ! वेइंदियाणं पज्जत्तगाऽपज्जत्तगाणं ठाणा पज्जत्ता ? गोयमा ! उड्डलोए तदेक्कदेसभागे १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्झरेसु निज्झरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्देसु सच्चेसु चेव जलासएसु जलट्ठाणेसु ३, एत्थ णं वेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्तं १६४. तेइंदियठाणाइं]

१६४. कहि णं भंते ! तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उड्डलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्झरेसु निज्झरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्देसु सच्चेसु चेव जलासएसु जलट्ठाणेसु ३, एत्थ णं तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्तं १६५. चउरिंदियठाणाइं]

१६५. कहि णं भंते ! चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उड्डलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २, तिरियलोए

अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्जरेसु निज्जरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्वेसु सव्वेसु चैव जलासएसु जलट्टाणेसु ३, एत्थ णं चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पज्जत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्तं १६६. पंचिंदियठाणाइं]

१६६. कहि णं भंते ! पंचिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उड्डुलोएँ तदेक्कदेसभाए १, अहोलोएँ तदेक्कदेसभाए २, तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु १० सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्जरेसु निज्जरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्वेसु सव्वेसु चैव जलासएसु जलट्टाणेसु ३, एत्थ णं पंचिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्ताइं १६७-१७४. नेरइयठाणाइं]

१६७. कहि णं भंते ! नेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! नेरइया परिवसंति ? गोयमा ! सट्टाणेणं सत्तसु पुढवीसु । तं जहा-रयणप्पभाए सक्करप्पभाए बालुयप्पभाए पंकप्पभाए धूमप्पभाए तमप्पभाए तमतम-प्पभाए, एत्थ णं णेरइयाणं चउरासीति णिरैयावाससतसहस्सा भवंतीति मक्ख्वायं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा चाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा २० ववगयगह-चंद-सूर-णक्खत्त-जोईसपहा मेद-वसा-पूय-रुहिर-मंसचिक्खिल्लित्ता-णुलेवणतला असुई वीसाँ परमदुब्धिगंधा काँऊरगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा णरगा असुभा णरगेसु देयणाओ, एत्थ णं णेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स

१-२. °लोयस्स त° पु२ विना ॥ ३. णेरइयावास° ध० ॥ ४. खुरूप° ध० ॥ ५. °जोईसियपहा पु२सं० मलय० ॥ ६. °पूयपडल-रुहिर° जे० म० सु० ॥ ७. °चिक्खल्ल° ध० म० प्र० पु२, एवमग्घेऽपि ॥ ८. वीमच्छा इति मलय० । नोपलब्धोऽयं पाठः प्रतिष्ठु । वीसा इति पाठमेवो श्रीमल्लयगिरिभिर्निर्दिष्टोऽस्ति ॥ ९. काऊरजगणि° ध० । काऊरजगणि° प्र० पु२-कोन्नोयजगणि° म० । एवमग्घेऽपि पंचल्ल सूत्रेण ॥

असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । एत्थ णं वहवे णेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकण्हा वण्णेणं पण्णत्ता समणाउसो ! । ते णं तत्थ णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१६८. कहि णं भंते ! रयणप्पभापुढविणेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! रयणप्पभापुढविणेरइया परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे अडुहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं रयणप्पभापुढविनेरइयाणं तीसं णिरयावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा ववगय- १०
गह-चंद-सूर-णक्खत्तजोइसप्पभा भेद-वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसचिक्खल्लित्ताणुले-
वणतला असुई वीसा परमदुब्भिमंघा काऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा
असुभा णरगा असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ णं रयणप्पभापुढविणेरइयाणं पज्जत्ता-
ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घातेणं लोयस्स
असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । एत्थ णं वहवे रयणप्पभापुढ- १५
विनेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परम-
किण्हा वण्णेणं पण्णत्ता समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं
तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१६९. कहि णं भंते ! सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सक्करप्पभापुढविनेरइया परिवसंति ? गोयमा ! २०
सक्करप्पभाए पुढवीए वत्तीसुत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं
ओगाहिता हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जित्ता मज्जे तीसुत्तरे जोयणसतसहस्से,
एत्थ णं सक्करप्पभापुढविणेरइयाणं पण्णत्तासं णिरयावाससतसहस्सा हवंतीति
मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता
णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-णक्खत्तजोइसप्पभा भेद-वसा-पूयपडल-रुहिर- २५
मंसचिक्खल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्भिमंघा काऊअगणिवण्णाभा
कक्खडफासा दुराहियासा असुभा णरगा असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ णं

१. तत्थ णं जे० ध० पु२ ॥ २. आसीडत्तरं ध० प्र० । आसीडुत्तरं प्रदे० ॥ ३. विस्सा
य० ॥ ४. तत्थ णं जे० प्र० म० पु२ ॥ ५. सक्करापुढविं म० पु२ ॥

संकरप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे संकरप्पभापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संवद्धं नरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१७०. कहि णं भंते ! वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! वालुयप्पभाए पुढवीए अट्ठावीसुत्तरजोयणसतसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे छव्वीसुत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पण्णरस गिरयावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसप्पहा मेद-वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसचिक्खिल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्धिगंधा काऊ-अगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरएसु वेदणाओ, एत्थ णं वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे वालुयप्पभापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संवद्धं णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१७१. कहि णं भंते ! पंकप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पज्जत्ता ? गोयमा ! पंकप्पभाए पुढवीए वीसुत्तरजोयणसतसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता हिट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे अट्ठारसुत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं पंकप्पभापुढविनेरइयाणं दस गिरयावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाण-संठिता णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसप्पहा मेद-वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसचिक्खिल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्धिगंधा काऊअगणि-

वृष्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगोसु वेयणाओ,
 एत्थ णं पंकप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स
 असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे पंकप्पभापुढविनेरइया परिवसंति काला
 कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता
 समाणाउसो ! । ते णं निच्चं भीता निच्चं तत्था निच्चं तसिया निच्चं उच्चिग्गा निच्चं
 परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१७२. कहि णं भंते ! धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं
 ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! धूमप्पभाए पुढवीए अट्टारसुत्तरजोयणसतसहस्सवाहलाए
 उव्वरिं एणं जोयणसहस्सं ओगाहिता हिट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेता मज्जे १०
 सोलसुत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं धूमप्पभापुढविनेरइयाणं तिच्चिं निरयावाससत-
 सहस्सं भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चउरंसा अहे
 खुरप्पसंठाणसंठिता णिच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा मेद-
 वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसच्चिक्खिल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुच्चिग्गांधा १५
 काळअराणिवृष्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगोसु
 वेयणाओ, एत्थ णं धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ।
 उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे धूमप्पभापुढविनेरइया परिवसंति काला
 कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता
 समाणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा २०
 णिच्चं परममसुहं संबद्धं णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१७३. कहि णं भंते ! तमप्पभापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? गोयमा ! तमप्पभाए पुढवीए सोलसुत्तरजोयणसतसहस्सवाहलाए उव्वरिं
 एणं जोयणसहस्सं ओगाहिता हिट्ठा वि एणं जोयणसहस्सं वज्जेता मज्जे चोइसुत्तरे
 जोयणसतसहस्से, एत्थ णं तमप्पभापुढविनेरइयाणं एगे पंचूणे णरगावाससतसहस्से २५
 हवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाण-
 संठिता निच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा मेद-वसा-पूयपडल-

१. तमापुढविं ध० म० प्र० पु२ ॥ २. तमाए पुढं ध० म० पु२ प्र० ॥ ३. हेट्ठा
 वेगं ध० म० प्र० पु२ ॥

रुहिर-मंसचिक्खल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्धिगंधा कक्खडफासा
 ५ दुरहियासा असुभा णरगा असुभा नरगेसु वेदणाओ, एत्थ णं तमप्पमापुढविनेरइ-
 याणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे,
 समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ
 णं वहवे तमप्पमापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा
 भीसा उत्तासंणया परमक्किण्हा वण्णेणं पणत्ता समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता
 णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संबद्धं नरगभयं
 पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१७४. कहि णं भंते ! तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 १० पणत्ता ? गोयमा ! तमतमाए पुढवीए अट्टोत्तरजोयणसतसहस्सचाहल्लाए उवरिं
 अद्धतेवण्णं जोयणसहस्साइं ओगाहित्ता हिट्ठा वि अद्धतेवण्णं जोयणसहस्साइं
 वज्जेत्ता मज्जे तिसु जोयणसहस्सेसु, एत्थ णं तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं
 पंचदिसिं पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणिरया पणत्ता, तं जहा-काले १
 १५ महाकाले २ रोरूपे ३ महारोरूपे ४ अपइट्ठाणे ५ । ते णं णरगा अंतो वट्ठा वाहिं
 चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता निच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्त-
 जोइसपहा मेद-वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसचिक्खल्लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा
 परमदुब्धिगंधा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेसु वेयणाओ,
 एत्थ णं तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स
 २० असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे तमतमापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा
 गंभीरलोमहरिसा भीसा उत्तासणया परमक्किण्हा वण्णेणं पणत्ता समणाउसो ! ।
 ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संबद्धं
 णरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

आसीतं १ वत्तीसं २ अट्ठावीसं च होइ ३ वीसं च ४ ।
 २५ अट्ठारस ५ सोलसगं ६ अट्टोत्तरमेव ७ हिट्ठिमया ॥ १३३ ॥
 अँडहुत्तरं च १ तीसं २ छव्वीसं चैव सतसहस्सं तुं ३ ।
 अट्ठारस ४ सोलसगं ५ चोदसमाहियं तु छट्ठीए ६ ॥ १३४ ॥

अद्धतिवण्णसहस्सा उवरिमऽहे वज्जिऊण तो भणियं ।
 मंज्जे उ तिसु सहस्सेसु होंति नरगा तमतमाए ७ ॥ १३५ ॥
 तीसा य १ पण्णवीसा २ पण्णरस ३ दसेव सयसहस्साइं ४ ।
 तिण्णि य ५ पंचूणेगं ६ पंचेव अणुत्तरा नरगा ७ ॥ १३६ ॥

[सुत्तं १७५. पंचिदियतिरिक्खजोणियठाणाइं]

१७५. कहि णं भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जताऽपज्जत्ताणं
 ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उड्डुलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २,
 तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु
 गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उच्चरेसु
 निच्चरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वप्पिणेसु दीवेसु समुद्देसु सव्वेसु चेव जलासएसु १०
 जलद्वाणेसु ३, एत्थ णं पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ।
 उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सद्वाणेणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्तं १७६. मणुस्सठाणाइं]

१७६. कहि णं भंते ! मणुस्साणं पज्जताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? १५
 गोयमा ! अंतोमणुस्सखेत्ते पणतालीसाए जोयणसतसहस्सेसु अड्डाइजेसु दीव-
 समुद्देसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पण्णाए अंतरदीवेसु,
 एत्थ णं मणुस्साणं पज्जताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स
 असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं सव्वलोए, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्ताइं १७७-८७. भवणवासिदेवठाणाइं]

१७७. कहि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं पज्जताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! भवणवासी देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए
 पुढवीए अंसीउत्तरजोयणसतसहस्सवाहल्लाए उवरिं एणं जोयणसहस्सं ओगाहिता
 हेड्डा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मैज्जिमअड्डहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं
 भवणवासीणं देवाणं सत्त भवणक्कोडीओ वावत्तरिं च भवणावाससतसहस्सा भवंतीति २५
 मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा अंतो समचउरंसा अहे पुक्खरकण्णि-

रुहिर-मंसचिक्खल्ललित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्धिगंधा कक्खडफासा
 दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेषु वेदणाओ, एत्थ णं तमप्पभापुढविनेरइ-
 याणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे,
 समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ
 ५ णं बहवे तमप्पभापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा
 भीमा उत्तासणगा परमक्किण्हा वण्णेणं पणत्ता समणाउसो ! । ते णं णिच्चं भीता
 णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संबद्धं नरगभयं
 पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

१७४. कहि णं भंते ! तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 १० पणत्ता ? गोयमा ! तमतमाए पुढवीए अट्ठोत्तरजोयणसतसहस्सचाहल्लए उवरिं
 अद्धतेवण्णं जोयणसहस्साइं ओगाहित्ता हिट्ठा वि अद्धतेवण्णं जोयणसहस्साइं
 वज्जेत्ता मज्जे तिसु जोयणसहस्सेसु, एत्थ णं तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं
 पंचदिसिं पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणिरया पणत्ता, तं जहा-काले ?
 महाकाले २ रोरुए ३ महारोरुए ४ अपइट्ठाणे ५ । ते णं नरगा अंतो वट्ठा वाहिं
 १५ चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठित्ता निच्चंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्त-
 जोइसपहा मेद-वसा-पूयपडल-रुहिर-मंसचिक्खल्ललित्ताणुलेवणतला असुई वीसा
 परमदुब्धिगंधा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेषु वेयणाओ,
 एत्थ णं तमतमापुढविनेरइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । उववाएणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स
 २० असंखेज्जइभागे । तत्थ णं बहवे तमतमापुढविनेरइया परिवसंति काला कालोभासा
 गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमक्किण्हा वण्णेणं पणत्ता समणाउसो ! ।
 ते णं णिच्चं भीता णिच्चं तत्था णिच्चं तसिया णिच्चं उच्चिग्गा णिच्चं परममसुहं संबद्धं
 नरगभयं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

आसीतं १ वत्तीसं २ अट्ठावीसं च होइ ३ वीसं च ४ ।
 २५ अट्ठारस ५ सोलसगं ६ अट्ठोत्तरमेव ७ हिट्ठिमया ॥ १३३ ॥
 अंडहुत्तरं च १ तीसं २ छव्वीसं चैव सतसहस्सं तुं ३ ।
 अट्ठारस ४ सोलसगं ५ चोइसमहियं तु छट्ठीए ६ ॥ १३४ ॥

अद्धतिवण्णसहस्सा उवरिमऽहे वज्जिऊण तो भणियं ।
 मंज्जे उ तिसु सहस्सेसु होंति नरगा तमतमाए ७ ॥ १३५ ॥
 तीसा य १ पण्णवीसा २ पण्णरस ३ दसेव सयसहस्साइं ४ ।
 तिण्णि य ५ पंचूणेगं ६ पंचेव अणुत्तरा नरगा ७ ॥ १३६ ॥

[सुत्तं १७५. पंचिंद्रियतिरिक्खजोणियठाणाइं]

१७५. कहि णं भंते ! पंचिंद्रियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं
 ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उड्डुलोए तदेक्कदेसभाए १, अहोलोए तदेक्कदेसभाए २,
 तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु
 गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु विलेसु विलपंतियासु उज्जरेसु
 निज्जरेसु चिल्लेसु पल्लेसु वण्णिएसु दीवेसु समुद्देसु सच्चेसु चेव जलासएसु १०
 जलट्टाणेसु ३, एत्थ णं पंचिंद्रियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ।
 उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्टाणेणं
 लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्तं १७६. मणुस्सठाणाइं]

१७६. कहि णं भंते ! मणुस्साणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? १५
 गोयमा ! अंतोमणुस्सखेत्ते पणतालीसाए जोयणसतसहस्सेसु अड्डाइज्जेसु दीव-
 समुद्देसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पण्णाए अंतरदीवेसु,
 एत्थ णं मणुस्साणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स
 असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं सच्चलोए, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।

[सुत्ताइं १७७-८७. भवणवासीदेवठाणाइं]

१७७. कहि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! भवणवासी देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए
 पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता
 हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वजेत्ता मैज्जिमअट्टहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं
 भवणवासीणं देवाणं सत्त भवणकोडीओ वावत्तरिं च भवणावाससतसहस्सा भवंतीति २५
 मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा अंतो समचउरंसा अहे पुक्खरकण्णि-

यासंठाणसंठिता उक्किण्णंतरविउलगंभीरखात-परिहा पागार-उड्डालय-क्वाड-तोरण-
 पडिदुवारदेसभागा जंत-सयग्धि-मुसल-मुसंढिपरियैरिया अउज्जा सदाजंता सदासुत्ता
 अडयालकोडगरइया अडयालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवरक्खिया
 लाउल्लोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणदद्वरदिण्णपंचंगुलितला उवचियचंदण-
 ५ कलसा चंदणवडसुकततोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवड्वग्वारिय-
 मल्लदामकलावा पंचवण्णसरससुरहिसुकुपुप्फपुंजोवयारकलिया [ग्रन्थाग्रम् १०००]
 कालागरु-पवरकुंदुरुक्क-तुरुक्कधूवमचमघेतंगंधुद्धुयाभिरामा सुगंधवरगंधगंधिया
 गंधवट्टिभूता अच्छरगणसंधैसंधिगिण्णा दिव्वत्तुडितसदसंपणादिता सच्चरयणाभया
 अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा णीरया णिम्मला निप्यंका निक्कंउडच्छाया संप्पहा
 १० संस्सरिया संसरिया सउज्जोया पासातीता दंसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा, एत्थ णं
 भवणवासीणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोगस्स असं-
 खेज्जभागे, समुग्घाएणं लोगस्स असंखेज्जभागे, सट्टणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे ।
 तत्थ णं वह्वे भवणवासी देवा परिवसंति । तं जहा-

असुरा १ नाग २ सुवण्णा ३ विज्जू ४ अग्गी य ५ दीव ६ उदही य ७ ।
 १५ दिसि ८ पवण ९ थणिय १० नामा दसहा एए भवणवासी ॥ १३७ ॥
 चूडामणिमउडरयण १-भूसण्णणगफड २-गरुल ३-वइर ४-पुण्णकलसविउप्फेस ५-सीहँ-
 ६-हयवर ७-गयअंक ८-मगर ९-वद्धमाण १० निज्जुत्तचित्तचिंधगता सुरूवा महिड्डीया
 महज्जुतीया महायसा महच्चला महाणुभंग्गा महसोक्खा हारविराइयवच्छ
 कडग-तुडियथंभियभुया अंगद-कुंडल-मट्टगंडंतलकण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा
 २० विचित्तमाला-मउलीमउडा कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेवणधरा
 भूसुरवोदी पलंचवणमालधरा दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं

१. उक्किण्णंतरगंभीर° इति हरिभद्रटीकायां पाठः ॥ २. °फलहा इति मलयटीका ॥ ३. °परिवारिया
 जे० । परिवारिया इति पुरसं० मलयटीकायां च ॥ ४. °जट्टा ध० ॥ ५. °महल्ल° ध० ॥
 ६. सुगंधवर° ध० ॥ ७. °संधसंधिगिण्णा दिव्व° जे० । °संधविगिण्णा इति पाठाणुसारेण
 मलयटीका ॥ ८. लिट्टा(लट्टा) जे० ॥ ९. सप्पहा सस्सरिया समिरिया सउज्जोता
 पासादीया दंसणिज्जा ध० म० प्र० ॥ १०. सस्सरिया इत्येतत् पदं पुर प्रतौ नास्ति, नापि
 मलयटीकायां व्याख्यातम् ॥ ११. समरीइया पुर, एवमन्यत्रापि ॥ १२. इरिस° पुर,
 एवमन्यत्रापि ॥ १३. °भूसण्णणित्तणग° इति मलयटीकायाम् ॥ १४. °सीहँ-मगर७-नयंक-
 ८-अस्सवर९-वद्धमाण° जे० म० ॥ १५. °भावा ध० ॥ १६. महसोक्खा इति मलयटीकायाम्,
 महासोक्खा महासक्खा इति पाठमेदद्वयनिर्देशोऽपि तत्र ॥ १७. °गंडकण्णपीढधारी एतत्पाठाणुसारिणी
 मलयटीका ॥ १८. भासर° ध० ॥

दिव्णेणं संघयणेणं दिव्णेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए
 दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्णेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दसदिसाओ
 उज्जेवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं भवणावाससयसहस्साणं साणं
 साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं तांयत्तीसगाणं साणं साणं लोगपालाणं साणं
 साणं अग्गमहिस्सीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं अणि- ५
 याहिवतीणं साणं साणं आयरक्खेदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च चहूणं भवणवासीणं
 देवाणं य देवीणं य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्ठित्तं मँहयरगतं आणाईसरसेणावच्चं
 कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतनट्ट-गीत-वाइततंती-तल-ताल-तुडिय-घणसुयंग-
 पडुप्पवाइयरवेण दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति ।

१७८. [१] कहि णं भंते ! असुरकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं १०
 ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! असुरकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे
 रतणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्लाए उवरिं एणं जोयणसहस्सं
 ओगाहित्ता हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे अट्टहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ
 णं असुरकुमाराणं देवाणं चोवडिं भवणावाससतसहस्सा हवंतीति मक्खायं ।
 ते णं भवणा चाहिं वट्ठा अंतो चउरंसा अहे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिता १५
 उक्किण्णंतरविउल-गंभीरखायँ-परिहा पागार-ऽट्टालय-क्वाड-तोरण-पडिदुवारदेस-
 भागा जंतसयग्घि-मुसल-मुसुंढिपरियरिया अओज्झा सदाजया सदागुत्ता
 अडयालकोट्टगरइया अडयालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवरक्खिया-
 लाउल्लोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणदहरदिण्णपंचंगुलितला उवचित्तचंदण-
 कलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवट्टवग्घारिय- २०
 मल्लदामकलावा पंचवण्णसरससुरभिसुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिया कालागरू-पवरकुंदुरु-
 क्क-तुरुक्कंधूवमघमधेंतगंधुंहुयाभिरामा सुगंधवरगंधगंधिया गंधवट्टिभूता अच्छरगण-
 संघसंविगिण्णा दिव्वतुडितसहसंपणदिया सच्चरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा
 मट्ठा पीरया निम्मला निप्पंका णिक्कंडच्छाया सप्पभाँ समरीया सउज्जोया
 पासाईया दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा, एत्थ णं असुरकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्ज- २५
 ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स

१. तावत्तीसगाणं ध० पु२ । तायत्तीसाणं म० प्र० ॥ २. मयहरं ध० विना, नवरं पु२ प्रती
 महत्तरगतं इति पाठः ॥ ३. °य-फलहां ध० म० ॥ ४. °क्कधूवडज्जंतमघं जे० । °क्कडज्जंत-
 धूवमघं म० ॥ ५. °गंधहुयां जे० म० प्र० पु२ ॥ ६. °भा सस्तिरीया समरीइया सडं पु२ ॥

असंखेज्जभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे असुरकुमारा
 देवा परिवसंति काला लोहियक्ख-विचोद्धा धवलपुप्फदंता असियकेसा वामेयकुंडल-
 धरा अद्दचंदणाणुलित्तगत्ता, ईसीसिलिंधपुप्फपगासाइं असंक्किलिद्धाइं सुहुमाइं वत्थाइं
 पवर परिहिया, वयं च पढमं समइक्कंता, विइयं च असंपत्ता, भद्दे जोव्वणे
 ५ वट्ठमाणा, तलभंगय-तुडित्तं-पवरभूसण-निम्मलमणि-रयणमंडितमुया दसमुद्दामंडियग्ग-
 हत्था चूडामणिचित्तचिंधगता सुरूवा महिड्डिया महज्जुइया महायसा महव्वला
 महाणुभागा महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडियथंभियमुया अंगय-कुंडल-
 मड्ढगंडयलकण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली कल्लाणगपवरवत्थ-
 परिहिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेव्वणधरा भासुरवोदी पलंबवणमालधरा दिव्वेणं
 १० वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं
 दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुईए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए
 दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थ
 साणं साणं भवणावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं
 तावत्तीसाणं साणं साणं लोणपालाणं साणं साणं अग्गमहिसीणं साणं साणं परिसाणं
 १५ साणं साणं अणियाणं साणं साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेव-
 साहस्सीणं अण्णेसिं च वहुणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेक्खं पोरंक्खं
 सौमिच्चं भट्ठित्तं महत्तरगत्तं आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतण्ड-
 गीत-वाइयतंती-तल-ताल-तुडिय-घणसुइंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाइं
 भुंजमाणा विहरंति ।

२० [२] चमर-त्रलिणो यँऽत्थ दुवे असुरकुमारिंदा असुरकुमाररायाणो
 परिवसंति काला महानीलसरिसा णीलगुलिय-गत्रल-अयसिकुसुमप्पगासा वियसिय-
 सयवत्तणिम्मलइसीसित-रत्त-तंबणयणा गरुल्लययउज्जुतुंगणासा ओयवियसिलप्पवाल-
 विंचफलसन्निभाहरोद्धा पंडरससिसगलविमल-निम्मलदहिघण-संख-गोखीर-कुंद-
 दगरय-मुणालियाधवलदंतसेदी हुयव्वहणिद्धंतधोयतत्ततवणिज्जरत्ततल-तालु-जीहा
 २५ अंजण-वणकसिणरुयगरमणिज्जणिद्धकेसा वामेयकुंडलधरा अद्दचंदणाणुलित्तगत्ता,
 ईसीसिलिंधपुप्फपगासाइं असंक्किलिद्धाइं सुहुमाइं वत्थाइं पवर परिहिया, वयं च पढमं

१. वामे एगकुंडल° जे० ॥ २. °त-वरभूसणं एतदनुवारिणी मलयव्याख्या ॥ ३. °मणि-
 चित्तं जे० पुर ॥ ४. °भावा जे० ॥ ५. सामित्तं पुर ॥ ६. मयहरगत्तं ध० ॥ ७.
 इत्थ म० प्र० पुर । य तत्थ ध० ॥ ८. °लाइयं जे० ॥ ९. °घणमत्तिणं पुर
 विना ॥

समइकंता, विईयं तु असंपत्ता, भदे जोव्वणे वट्टमाणा, तलभंगय-तुडित-पवरभूसण-
 निम्मलमाणि-रयणमंडितभुया दसमुद्दामंडितग्गहत्था चूडामणिचित्तिचिंधगता सुरूवा
 महिड्डीया महज्जुईया महायसा महाबला महाणुभागा महासोक्खा हारविराइयवच्छा
 कडय-तुडितयंभियभुया अंगद-कुंडल-मट्टगंडतलकण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा-
 विचित्तमाला-मउली कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेवणा भासर-
 चोदी पलंववणमालधरा दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं
 संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए भासाए दिव्वाए
 छायाए दिव्वाए पहाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेणं दिव्वाए लेसाए दस
 दिसाओ उज्जीवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं भवणावाससतसहस्साणं
 साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं तावत्तीसाणं साणं साणं लोणपालाणं
 साणं साणं अग्गमहिस्सीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं
 साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आतरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च वहूणं
 भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्टित्तं मह्यरगतं
 आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतनट्ट-गीत-वाइततंती-तल-ताल-
 तुडित-वणमुइंगपड्डुप्पवाइतरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति ।

५

१०

१५

१७९. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं
 पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला असुरकुमारा देवा
 परिवसंति ? गोयमा ! जंबुद्वीवे दीवे मंदरस्स पच्चतस्स दाहिणेणं इमीसे रयण-
 प्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं
 ओगाहित्ता हेड्डा वेगं जोयणसहस्सं वज्जित्ता मज्जे अट्टहत्तरे जोयणसतसहस्से,
 एत्थ णं दाहिणिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं चोत्तीसं भवणावाससतसहस्सा
 भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्टा अंतो चउरंसा, सो चैव वण्णओ
 (सु. १७८[१]) जाव पडिरूवा । एत्थ णं दाहिणिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं
 पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोणस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं
 वहवे दाहिणिल्ला असुरकुमारा देवा य देवीओ य परिवसंति । काला लोहियक्खा
 तहेव (सु. १७८[१]) जाव भुंजमाणा विहरंति । एतेसि णं तहेव
 तायत्तीसगलोणपाला भवंति । एवं सव्वत्थ भाणितव्वं भवणवासीणं ।

२०

२५

१. समयकंता जे० ॥ २. वीयं च असं ध० पु २ ॥ ३. मणिचित्तं जे० ॥ ४. भवणवा
 जे० पु २ ॥ ५. मयहरगतं ध० । महत्तरगतं पु २ ॥ ६. जाणितव्वं ध० ॥

[२] चमरे अत्थ असुरकुमारिंदे असुरकुमाराया परिवसति काले महानीलसरिसे जाव (सु. १७७[१]) पभासेमाणे । से णं तत्थ चोत्तीसाए भवणावाससतसहस्साणं चउसट्ठीए सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसाणं चउण्हं लोगपालाणं पंचण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं चउण्ह य चउसट्ठीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च व्हूणं दाहिणिल्लाणं देवाणं देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं जाव (सु. १७८[२]) विहरति ।

१० १८०. [१] कहि णं भंते ! उत्तरिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-
 ऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता ? कहि णं भंते ! उत्तरिल्ला असुरकुमारा देवा परिवसंति ?
 गीयमा ! जंबुद्वीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए
 [ग्रन्थाग्रम् ११००] असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयण-
 सहस्सं ओगाहित्ता हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे अट्ठहत्तरे जोयण-
 सतसहस्से, एत्थ णं उत्तरिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं तीसं भवणावाससतसहस्सा
 भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्ठा अंतो चउरंसा, सेसं जहा
 १५ दाहिणिल्लाणं (सु. १७९[१]) जाव विहरंति ।

[२] वली यत्थ वइरोयणिंदे वइरोयणराया परिवसति काले महानील-
 सरिसे जाव (सु. १७७[२]) पभासेमाणे । से णं तत्थ तीसाए भवणावाससय-
 सहस्साणं सट्ठीए सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसाणं चउण्हं लोगपालाणं
 पंचण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं
 २० अणियाधिवतीणं चउण्ह य सट्ठीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च व्हूणं
 उत्तरिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं कुव्वमाणे विहरति ।

२५ १८१. [१] कहि णं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पणत्ता ? कहि णं भंते ! णागकुमारा देवा परिवसंति ? गीयमा ! इमीसे रयणप्पभाए
 पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता
 हेट्ठा वेगं जोयणसहस्सं वज्जिऊण मज्जे अट्ठहत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थ
 णं णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं चुलसीइ भवणावाससयसहस्सा
 हवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्ठा अंतो चउरंसा जाव
 (सु. १७७[१]) पडिरूवा । तत्थ णं णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा

पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे णागकुमारा देवा परिवसंति महिड्डीया महाजुतीया, सेसं जहा ओहियाणं (सु. १७७[१]) जाव विहरंति ।

[२] धरण-भूयाणंदा एत्थ दुवे णागकुमारिंदा णागकुमाररायाणे परिवसंति महिड्डीया, सेसं जहा ओहियाणं जाव (सु. १७७[२]) विहरंति ।

१८२. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-
 ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला णागकुमारा देवा परिवसंति ?
 गोयमा ! जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए
 असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहेत्ता हेट्ठा वेगं
 जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे अड्डहत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थ णं दाहिणिल्लाणं
 णागकुमाराणं देवाणं चोयालीसं भवणावाससयसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं १०
 भवणा वाहिं वट्ठा अंतो चउरंसा जाव पडिरूवा । एत्थ णं दाहिणिल्लाणं
 णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स
 असंखेज्जभागे । एत्थ णं वहवे दाहिणिल्ला णागकुमारा देवा परिवसंति महिड्डीया
 जाव (सु. १७७[१]) विहरंति ।

[२] धरणे यँऽत्थ णागकुमारिंदे णागकुमारराया परिवसति महिड्डीए जाव १५
 (सु. १७७[२]) पमासेमाणे । से णं तत्थ चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साणं
 छण्हं सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं पंचण्हं
 अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं
 चउव्वीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च चहूणं दाहिणिल्लाणं णागकुमाराणं
 देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं कुव्वमाणे विहरति । २०

१८३. [१] कहि णं भंते ! उत्तरिल्लाणं णागकुमाराणं देवाणं पज्जत्ता-
 ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! उत्तरिल्ला णागकुमारा देवा परिवसंति ?
 गोयमा ! जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वतस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए
 असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहेत्ता हेट्ठा वेगं
 जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्जे अड्डहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं उत्तरिल्लाणं २५
 णागकुमाराणं देवाणं चत्तालीसं भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं
 भवणा वाहिं वट्ठा सेसं जहा दाहिणिल्लाणं (सु. १८२[१]) जाव विहरंति ।

[२] भूयाणंदे यऽत्थ णागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसति महिड्डीए जाव (सु. १७७[२]) पभासेयाणे । से णं तत्थ चत्तालीसाए भवणावाससतसहस्साणं आहेवच्चं जाव (सु. १७७[२]) विहरति ।

१८४. [१] कहि णं भंते ! सुवण्णकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव एत्थ णं सुवण्णकुमाराणं देवाणं वावत्तरिं भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्ठा जाव पडिरूवा । तत्थ णं सुवण्णकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असखेज्जइभागे । तत्थ णं बहवे सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति महिड्डीया, सेसं जहा ओहियाणं (सु. १७७[१]) जाव विहरंति ।

[२] वेणुदेव-वेणुदाली यऽत्थ दुवे सुवण्णकुमारिंदा सुवण्णकुमाररायाणो परिवसंति महड्डीया जाव (सु. १७७[२]) विहरंति ।

१८५. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे जाव मज्जे अट्टहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं अट्टत्तीसं भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा वाहिं वट्ठा जाव पडिरूवा । एत्थ णं दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असखेज्जइभागे । एत्थ णं बहवे सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ।

२० [२] वेणुदेवे यऽत्थ सुवण्णिंदे सुवण्णकुमारराया परिवसइ । सेसं जहा णागकुमाराणं (सु. १८२[२]) ।

१८६. [१] कहि णं भंते ! उत्तरिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! उत्तरिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए जाव एत्थ णं उत्तरिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं चोत्तीसं भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा जाव एत्थ णं बहवे उत्तरिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति महिड्डीया जाव (सु. १७७[१]) विहरंति ।

[२] वेणुदाली यऽत्थ सुवण्णकुमारिंदे सुवण्णकुमारराया परिवसति महिड्डीए, सेसं जहा णागकुमाराणं (सु. १८३[२]) ।

१८७. एवं जहा सुवर्णकुमाराणं वत्तव्वया भणिता तहा सेसाण वि
चोदिसण्हं इंदाणं भाणितव्वा । नवरं भवणनाणत्तं इंदणाणत्तं वण्णणाणत्तं परिहाण-
णाणत्तं च इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वं—

चोवड्ढिं असुराणं १ चुलसीती चेव होंति णागाणं २ ।

वावत्तरिं सुवण्णे ३ वाउकुमाराण छण्णउई ४ ॥ १३८ ॥

दीव-दिसा-उदहीणं विज्जुकुमारिंद-थणिय-मग्गीणं ।

छण्हं पि जुवलयणं छावत्तरि सो सतसहस्सा १० ॥ १३९ ॥

चोत्तीसा १ चोयाला २ अट्टत्तीसं च सयसहस्साई ३ ।

पण्णा ४ चत्तालीसा ५-१० दाहिणओ होंति भवणाई ॥ १४० ॥

तीसा १ चत्तालीसा २ चोत्तीसं चेव सयसहस्साई ३ ।

छायाला ४ छत्तीसा ५-१० उत्तरओ होंति भवणाई ॥ १४१ ॥

चउसड्डी १ सड्डी २ खलु छ च्च सहस्सा ३-१० उ असुरवज्जाणं ।

सामाणिया उ एए, चउग्गुणा आयरक्खा उ ॥ १४२ ॥

चमरे १ धरणे २ तह वेणुदेव ३ हरिकंत ४ अग्गिसीहे य ५ ।

पुण्णे ६ जलकंते या ७ अमिय ८ विलंबे य ९ घोसे य १० ॥ १४३ ॥

वलि १ भूयाणंदे २ वेणुदालि ३ हरिस्सहे ४ अग्गिमाणव ५

वसिड्ढे ६ ।

जलप्पहे ७ अमियवाहण ८ पभंजणे या ९ महाघोसे १० ॥ १४४ ॥

उत्तरिल्लाणं जाव विहरंति ।

काला असुरकुमारा, णागा उदही य पंडरा दो वि ।

वरकण्णगणिहसगोरा होंति सुवण्णा दिसा थणिया ॥ १४५ ॥

उत्तत्तकणगवन्ना विज्जू अग्गी य होंति दीवा य ।

सामा पियंगुवण्णा वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ १४६ ॥

असुरेसु होंति रत्ता, सिलिंधपुप्फप्पभा य नागुदही ।

आसासगवसणधरा होंति सुवण्णा दिसा थणिया ॥ १४७ ॥

णीलाणुरागवसणा विज्जू अग्गी य होंति दीवा य ।

संझाणुरागवसणा वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ १४८ ॥

[सुत्ताई १८८-१९४. वाणमंतरदेवठाणाई]

१८८. कहि णं भंते ! वाणमंतराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! वाणमंतरा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उवरिं एगं जोयणसतं ओग्गाहिता हेड्डा वि एगं जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अट्टसु जोयणसएसु, एत्थ णं वाणमंतराणं देवाणं तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जणगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खत्तांतं । ते णं भोमेज्जा णगरा वाहिं वट्टा अंतो चउरंसा अहे पुक्खर-कण्णियासंठाणसंठिता उक्किण्णंतरविउलगंभीरखाय-परिहा पागार-ऽट्टालय-कवाड-तोरण-पडिदुवारदेसभागा जंत-सयग्घि-मुसल-मुसुंदिपरियरिया अओज्झा सदाजता
- १० सदागुत्ता अडयालकोट्टगरइया अडयालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवर-क्खिया लाउल्लोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणैददरदिन्नपंचंगुलितला उवचितचं-दणकलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवट्टवग्घारिय-मल्लदामकलावा पंचवणणसरससुरभिसुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिया कालागरु-पवर-कुंदुरुक्क-तुरुक्कधूवमघमघेतंगंधुद्धुयाभिरामा सुगंधवैरगंधगंधिया गंधवट्टिभूता
- १५ अच्छरणसंघसंविक्किण्णा दिव्वतुडितसइसंपणादिता पड्डागमालाउलाभिरामा सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा वट्टा मट्टा नीरया निम्मला निप्पंका णिक्कक-डच्छाया सप्पभा सँमरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा, एत्थ णं वाणमंतराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे वाणमंतरा देवा परिवसंति । तं जहा-
- २० पिसाया १ भूया २ जक्खा ३ रक्खसा ४ किन्नरा ५ किंपुरिसा ६ भुयगवइणो य महाकाया ७ गंधव्वगणा य निउणगंधव्वगीतरइणो ८ अणवण्णिय १-पणवण्णिय २-इसिवाइय ३-भूयवाइय ४-कंदित ५-महाकंदिया य ६ कुहंड ७-पयगदेवा ८ चंचलचलचवलचित्तकीलण-दवप्पिया गहिरहसियं-गीय-णच्चरणई वणमाला-मेल-मउल-कुंडल-सच्छंदविउव्वियाभरणचारुमूसणधरा सव्वोउयसुरभिकुमुमसुरइ-
- २५ यपलंचसोहंतकंतवियंसंतचित्तवणमालरइयवच्छा कामकामा कामरूवेदेहधारी

१. खात-फल्लिहा ध० ॥ २. परियारिया जे० विना । परिवारिया सु० ॥ ३. चंदणदिन्न० म० प्र० ॥ ४. वरगंधिया म० विना ॥ ५. सस्सिरीया म० प्र० पु२ ॥ ६. पवरा० जे० ॥ ७. पयिगीय० ध० ॥ ८. सच्छद्विड० जे० ॥ ९. विद्वंसंत० जे० सु० पु२ ॥ १०. कामगमा मल्लघटीकायाम्, कामकामा इति पाठमेदस्तत्र । कामकमा जे० ध० ॥

णाणाविहवण्णरागवरवत्थचित्तचिह्ल[ल]गणियंसणा विविहदेसिणेवच्छगहियवेसा
 पमुइयकंदप्प-कलह-केलि-कोलाहलपिया हास-चोलवहुला असि-मोगगर-सँत्ति-कोंत-
 हत्था अणेगमणि-रयणविविहणिजुत्तँविचित्तचिंधगया सुरूवा महिड्डीया महज्जुतीया
 महायसा महाबला महाणुभांगा महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडितयंभिय-
 भुया अंगयै-कुंडल-मट्टगंडयलकन्नपीढधारी विचित्तँहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली ५
 कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेवणधरा भासुरवोदी पँलंचवणमालधरा
 दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं
 दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अचीए
 दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं
 तत्थ साणं साणं भोमेज्जगणगरावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं १०
 साणं साणं अग्गमहिस्सीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं
 अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहूणं वाणमं-
 तराणं देवाण य देवीण य ओहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्ठित्तं महयरगतं आणाई-
 सरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महयाऽहतणट्ट-गीय-त्राइयतंती-तल-ताल-तुडिय-
 वणमुइंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वइं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति । १५

१८९. [१] कहि णं भंते ! पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! पिसाया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए
 पुढवीए रयणाभयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उवरिं एगं जोयणसत्तं ओगाहिता
 हेड्डा वेगं जोयणसत्तं वज्जेत्ता मज्जे अट्टसु जोयणसएसु, एत्थ णं पिसायाणं देवाणं
 तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जगणगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भोमेज्जगणरा २
 वाहिं वट्टा जहा ओहिओ भवणवँण्णओ (सु. १७७) तहा भाणितव्वो जाव
 पडिरूवा । एत्थ णं पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि
 लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं बहवे पिसाया देवा परिवसंति महिड्डीया जहा
 ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

१. °वत्थललंतत्तित्तरूवगणियं° पुर मु० विनाऽन्यत्र, नवरं ध० प्रती °चित्तदेवालयणियं°
 इति पाठभेदो वर्तते ॥ २. °सत्तिमोत्थहत्था जे० ॥ ३. °त्तचित्तं° ध० मु० विना ॥ ४. °भावा
 म० ॥ ५. संगयं° म० प्र० मु० ॥ ६. °त्तवत्था° जे० ध० ॥ ७. पलंचसाणवणं° जे० ॥
 ८. साणं असंखेज्जभोमे° मु० ॥ ९. मयहरं° जे० । महत्तरगतं पुर ॥ १०. भोमेज्जा णं° ध० ॥
 ११. °वण्णओ भणित्तो तहा ध० ॥

पाणाविहवण्णारागवर्ण्यच्चित्तचित्तु [न] गणियंमना विविद्वेदमिनेवच्छादियवेसा
 पमुड्यकंदप्य-कलह-केन्द्रि-कंठाहलपिया ह्यम-चैलवहुल्य अमि-भोग्ग-मैति-कौत-
 हत्या अणेरामणि-नयविद्विद्वि-दुर्नैविचित्तविद्वगया मुद्वत्रा महिड्वीया महज्जुनीया
 महायसा महावला महागुमीगा मद्यामोक्रडा द्वागविगड्यवच्छा कडय-तुडितयंभिय-
 सुया अंगयै-कुंडल-मद्गांड्यलककपीदवार्ग विचित्तैह्यामरणा विचित्तमाल-मउली ५
 कल्लाणगपवरवत्यपरिद्विया कल्लाणगपवरमल्लणुलेवणवग भासुरवोदी पलंचवणमालधरा
 दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं वंवेणं दिव्वेणं फाम्पेणं दिव्वेणं संवयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं
 दिव्वाए इड्ढीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अचीए
 दिव्वेणं तेषाणं दिव्वाए केस्साए दम दिस्साओ उज्जेवमाणा पभासेमाणा । ते णं
 तत्थ साणं माणं भोमेज्जणगरावाममतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं १०
 साणं साणं अगमहिस्सीणं साणं माणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं
 अणियाविचर्त्ताणं माणं माणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च वड्डूणं वाणमं-
 तराणं देवाणं य देवीणं य ओहिवच्चं पागेवच्चं सामित्तं भट्टित्तं महयरगतं आणाई-
 सरसेणावच्चं क्कामेमाणा पालेमाणा महयाऽहतणट्ट-णीय-वाड्यतंती-तल-ताल-तुडिय-
 वणमुडंगपडुप्यवाड्यरवेणं दिव्वइं भोगभोगाइं मुंजमाणा विहरंति । १५

१८०. [१] कहि णं भंते ! पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! पिसाया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए
 पुट्ठीए रयणामयम्म कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उवरिं एगं जोयणसतं ओगाहिता
 द्वेडा वेगं जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अट्टसु जोयणसएसु, एत्थ णं पिसायाणं देवाणं
 तिरियमसंगेवजा भोमेज्जणगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भोमेज्जणगरा २०
 वाहिं वट्ठा जहा ओहिओ भवणवण्णओ (सु. १७७) तथा भाणितव्वो जाव
 पडिरूवा । एत्थ णं पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि
 लोमस्स असंगेवज्जभागे । तत्थ णं वड्डे पिसाया देवा परिवसंति महिड्डिया जहा
 ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

१. 'वत्यलकंचित्तस्त्वगणियं' पुर. मु० विनाऽन्यत्र, नवरं ध० प्रती 'चित्तदेवालयाणियं'
 इति पाठभेदे वर्तते ॥ २. 'सत्तिमोत्थहत्या जे० ॥ ३. 'चित्त' ध० मु० विना ॥ ४. 'पिसाया'
 म० ॥ ५. 'संगय' म० प्र० मु० ॥ ६. 'त्त्वत्या' जे० ध० ॥ ७. 'पलंचमाणवण'
 ८. 'साणं अगमवेज्जभोमे' मु० ॥ ९. 'मयडर' जे० । महत्तरगतं पुर० ॥ १०. 'भोमेजा णं'
 ११. 'वण्णओ अणित्तो तहा ध० ॥

णाणाविहवण्णरागवरवत्थचित्तचिल्ल[ल]गणियंसणा विविहदेसिणेवच्छगहियवेसा
 पमुइयकंदप्प-कलह-केलि-कोलाहलपिया हास-चोलवहुला असि-मोगगर-सत्ति-क्रोत-
 हत्था अणेगमणि-रयणविविहाणजुत्तविचित्तचिंधगया सुरूवा महिड्डीया महज्जुतीया
 महायसा महावला महाणुभांगा महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडितथंभिय-
 भुया अंगय-कुंडल-मट्टगंडयलकन्नपीढधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली ५
 कल्लणगपवरवत्थपरिहिया कल्लणगपवरमल्लणुलेवणधरा भासुरचोदी पल्लववणमालधरा
 दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं
 दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अचीए
 दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ उज्जोवैमाणा पभासेमाणा । ते णं
 तत्थ साणं साणं भोमेज्जणगरावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं १०
 साणं साणं अगमहिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं
 अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च चहूणं वाणमं-
 तराणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भट्ठित्तं मह्यरगतं आणाई-
 सरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महयाऽहतणट्ट-गीय-त्राइयतंती-तल-ताल-तुडिय-
 वणमुडंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति । १५

१८९. [१] कहि णं भंते ! पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! पिसाया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्यभाए
 पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उच्चरिं एगं जोयणसतं ओगाहिता
 हेट्ठा वेगं जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अट्टसु जोयणसएसु, एत्थ णं पिसायाणं देवाणं
 तिरियमसंखेजा भोमेज्जणगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भोमेज्जणगरा २०
 वाहिं वट्ठा जहा ओहियो भवणवण्णओ (सु. १७७) तहा भाणितव्वो जाव
 पडिरूवा । एत्थ णं पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि
 लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहुवे पिसाया देवा परिवसंति महिड्डीया जहा
 ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

१. 'वत्थल्लत्तचित्तव्वगणियं' पुर सु० विनाऽन्यत्र, नवरं ध० प्रती 'चित्तदेवालवणियं'
 इति पाठभेदो वर्तते ॥ २. 'सत्तिमोत्थहत्था जे० ॥ ३. 'त्तचित्त' ध० सु० विना ॥ ४. 'भावा
 म० ॥ ५. 'संगय' म० प्र० सु० ॥ ६. 'त्तवत्था' जे० ध० ॥ ७. 'पल्लवमागवणं' जे० ॥
 साणं धसंखेज्जभोमे' सु० ॥ ९. 'मयहर' जे० । महत्तरगतं पुर ॥ १०. 'भोमेजा णं' ध० ॥
 'वण्णओ भणितो तहा ध० ॥

[सुत्ताइं १८८-१९४. वाणमंतरदेवठाणाइं]

१८८. कहि णं भंते ! वाणमंतराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पणत्ता ? कहि णं भंते ! वाणमंतरा देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए
 पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उवरिं एगं जोयणसतं
 ५. ओगाहित्ता हेट्ठा वि एगं जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अइसु जोयणसएसु, एत्थ णं
 वाणमंतराणं देवाणं तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जणगरावाससतसहस्सा भवंतीति
 मक्खातं । ते णं भोमेज्जा णगरा वाहिं वट्ठा अंतो चउरंसा अहे पुक्खर-
 कण्णियासंठाणसंठिता उक्किण्णंतरविउलगंभीरखाय-परिहा पागार-ऽट्टालय-क्वाड-
 तोरण-पडिदुवारदेसभागा जंत-सयग्घि-मुसल-मुसुंढिपरियरिया अओज्झा सदाजता
 १०. सदागुत्ता अड्यालकोट्टगरइया अड्यालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवर-
 विख्या लाउल्लोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणदहरदिन्नपंचंगुलितला उवचित्तचं-
 दणकलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा आसत्तोसत्तविउलवट्टवघारिय-
 मल्लदामकलावा पंचवणसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिया कालागरु-पवर-
 कुंदुरुक्क-तुरुक्कधूवमघमघेंतगंधुदुयाभिरामा सुगंधवैरगंधगंधिया गंधवट्टिभूता
 १५. अच्छरणसंधसंविक्किणा दिव्वतुडितसहसंपणदिता पडागमालाउलाभिरामा
 सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा नीरया निम्मला निप्पंका णिक्कं-
 डच्छाया सप्पभा सैमरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा,
 एत्थ णं वाणमंतराणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । तिसु वि
 लोगस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहेवे वाणमंतरा देवा परिवसंति । तं जहा-
 २०. पिसाया १ भूया २ जक्खा ३ रक्खसा ४ किन्नरा ५ किंपुरिसा ६ भुयगवइणो
 य महाकाया ७ गंधव्वगणा य निउणगंधव्वगीतरइणो ८ अणवणिय १-
 पणवणिय २-इसिवाइय ३-भूयवाइय ४-कंदित ५-महाकंदिया य ६ कुहंड ७-पैयगदेवा
 ८ चंचलचलचवलचित्तकीलण-द्वप्पिया गहिरहसियं-गीय-णच्चणरई वणमाला-
 २५. मेल-मउल-कुंडल-सच्छंदविउव्वियाभरणचारुभूसणधरा सव्वोउयसुरभिकुसुमसुरइ-
 यपलंवसोहंतकंतवियंसंतचित्तवणमालरइयवच्छा कामकामा कामरूवदेहधारी

१. खात-फल्लहा ध० ॥ २. परिारिया जे० विना । परिवारिया मु० ॥ ३. चंदणदिन्न
 म० प्र० ॥ ४. वरगंधिया म० विना ॥ ५. सस्सिरीया म० प्र० पु२ ॥ ६. पवगं जे० ॥
 ७. यपियगीयं ध० ॥ ८. सच्छंदविउं जे० ॥ ९. विहसंतं जे० मु० पु२ ॥ १०. कामगमा
 मलयदीकायाम्, कामकामा इति पाठमेदस्तत्र । कामकमा जे० ध० ॥

णाणाविहवण्णरागवरवत्थचित्तचिल्ल[ल]गणियंसणा विविहदेसिणेवच्छमाहियवेसा
 पमुइयकंदप्प-कलह-केलि-कोलाहलपिया हास-बोलचहुला असि-मोगगर-सैत्ति-क्रांत-
 हत्था अणेगमणि-रयणविविहणित्तुत्तैविचित्तचिंघया सुरुवा महिड्डीया महज्जुतीया
 महायसा महाचला महाणुभांगा महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडितथंभिय-
 भुया अंगय-कुंडल-मड्ढांडयलकन्नपीढवारी विचित्तैहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली ५
 कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेवणधरा भासुरवोदी पल्लववणमालधरा
 दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संउणेणं
 दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए
 दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं
 तत्थ साणं साणं भोमेज्जगणगरावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं १०
 साणं साणं अग्गमहिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं
 अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च वहुणं वाणमं-
 तराणं देवाणं य देवीणं य आहैवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं मड्ढित्तं मह्यरगतं आणाई-
 सरसेणावच्चं करेमाणा पालेमाणा महयाऽहत्तण्ड-गीय-त्राइयतंती-तल-ताल-तुडिय-
 वणमुडंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति । १५

१८९. [१] कहि णं भंते ! पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
 पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! पिसाया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए
 पुढवीए रयणाभयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उव्वरिं एगं जोयणसतं ओगाहित्ता
 हेड्ढा वेगं जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अड्ढसु जोयणसएसु, एत्थ णं पिसायाणं देवाणं
 तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जगणगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भोमेज्जगणरा २०
 चाहिं वट्ठा जहा ओहिओ भवणवण्णओ (सु. १७७) तहा भाणितव्वो जाव
 पडिरूवा । एत्थ णं पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि
 लोमस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं बहवे पिसाया देवा परिवसंति महिड्डीया जहा
 ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

१. °वत्थल्लंतचित्तरूवेगणियं° पुर सु० विनाऽन्धत्त, नवरं ध० प्रती °चित्तदेवालयणियं°
 इति पाठभेदो वर्तते ॥ २. °सत्तिमोत्थंहत्था जे० ॥ ३. °त्तचित्तं° ध० मु० विना ॥ ४. °भावा
 म० ॥ ५. संगयं° म० प्र० मु० ॥ ६. °त्तवत्था° जे० ध० ॥ ७. पल्लवसाणवण्णं° जे० ॥
 ८. साणं असंखेज्जभागे° मु० ॥ ९. मयहरं° जे० । महत्तरगतं पुर ॥ १०. भोमेज्जा णं° ध० ॥
 ११. °वण्णओ भाणितो तहा ध० ॥

[२] काल-महाकाला यडत्थ दुवे पिसायइंदा पिसायरायाणो परिवसंति महिड्डिया महज्जुइया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

१९०. [१] कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पज्जत्ता-
 ऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! दाहिणिल्ला पिसाया देवा परिवसंति ?
 ५ गोयमा ! जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए
 रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहल्लस्स उवरिं एणं जोयणसतं ओगाहिता हेट्ठा वेणं
 जोयणसतं वज्जेत्ता मज्जे अट्ठसु जोयणसएसु, एत्थ णं दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं
 तिरियमसंखेज्जा भोमेज्जनगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते^३ णं भोमेज्जनगरा
 बाहिं वट्ठा जहा ओहिओ भवणवण्णओ (सु. १७७) तँहा भाणियच्चो जाव
 १० पडिरूवा । एत्थ णं दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ।
 तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे दाहिणिल्ला पिसाया देवा
 परिवसंति महिड्डिया जहा ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति ।

[२] काले यँडत्थ पिसायइंदे पिसायराया परिवसति महिड्डिए (सु. १८८)
 जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ तिरियमसंखेज्जाणं भोमेज्जनगरावाससतसहस्साणं चउण्हं
 १५ सामाणियसाहस्सीणं चउण्हमग्गमहिस्सीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणि-
 याणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं सोलसण्हं आतरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहूणं
 दाहिणिल्लाणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य ओहेवच्चं (सु. १८८) जाव विहरति ।

१९१. [१] उत्तरिल्लाणं पुच्छा । गोयमा ! जहेव दाहिणिल्लाणं वत्तव्वया
 (सु. १९० [१]) तहेव उत्तरिल्लाणं पि । नवरं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं ।

२० [२] महाकाले यडत्थ पिसायइंदे पिसायराया परिवसति जाव (सु.
 १९० [२]) विहरति ।

१९२. एवं जहा पिसायाणं (सु. १८९-१९०) तहा भूयाणं पि जाव
 गंधच्चाणं । णवरं इंदेसु णाणत्तं भाणियच्चं इमेण विहिणा-भूयाणं सुरूव-
 पडिरूवा, जक्खाणं पुण्णभद्द-माणिभद्दा, रक्खसाणं भीम-महाभीमा, किण्णराणं
 २५ किण्णर-किंपुरिसा, किंपुरिसाणं सप्पुरिस-महापुरिसा, महोरगाणं अइकाय-महाकाया,
 गंधच्चाणं गीतरती-गीतजसे जाव (सु. १८८) विहरति ।

१. पिसायंदा म० प्र० ॥ २. देवाणं ठाणा जे० ध० म० मु० ॥ ३. ते णं भवणा जहा जे० ध० प्र० मु० पु२ ॥ ४. तहेव भा० ध० म० पु२ ॥ ५. एत्थ प्र० मु० । इत्थ पु२ ॥

काले य महाकाले १ सुरूव पडिरूव २ पुण्णभदे य ।
 अमरवइ माणिभदे ३ भीमे य तहा महाभीमे ४ ॥ १४९ ॥
 किण्णर किंपुरिसे खलु ५ सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे ६ ।
 अइकाय महाकाए ७ गीयरई चेव गीतजसे ८ ॥ १५० ॥

१९३. [१] कहि णं भंते ! अणवन्नियाणं देवाणं [पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं] ५
 ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! अणवण्णिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे
 रयणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहल्लस्स उवरिं हेट्ठा य एगं
 जोयणसयं वज्जेत्ता मज्जे अइसु जोयणसतेसु, एत्थ णं अणवण्णियाणं देवाणं तिरियम-
 संखेज्जा णगरावाससयसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं जाव (सु.१८८) पडिरूवा ।
 एत्थ णं अणवण्णियाणं देवाणं ठाणा । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभागे, समुग्घाएणं १०
 लोयस्स असंखेज्जइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं व्हवे
 अणवन्निया देवा परिवसंति महड्डिया जहा पिसाया (सु.१८९[१]) जाव विहरंति ।
 [२] सन्नहिय-सामाणा यऽत्थ दुवे अणवण्णिदा अणवण्णियकुमाररायाणो
 परिवसंति महड्डिया जहा काल-महाकाला (सु.१८९[२]) ।

१९४. एवं जहा काल-महाकालाणं दोण्हं पि दाहिणिल्लाणं उत्तरिल्लाण १५
 य भणिया (सु.१९०[२], १९१[२]) तहा सन्नहिय-सामाणा[ई]णं पि
 भाणियन्ना । संगहणियाहा-

अणवन्निय १ पणवन्निय २ इसिवाइय ३ भूयवाइया चेव ४ ।
 कंद ५ महाकंदिय ६ कुहंडे ७ पययदेवा ८ इमे इंदा ॥ १५१ ॥
 सण्णिहिया सामाणा १ धाय विधाए २ इसी य इसिपाले ३ । २०
 ईसर महेसरे या ४ हवइ सुवच्छे विसाले य ५ ॥ १५२ ॥
 हासे हासरई वि य ६ सेते य तहा भवे महासेते ७ ।
 पयते पययपई वि य ८ नेय्यच्चा आणुपुव्वीए ॥ १५३ ॥

[सुत्तं १९५. जोइसियदेवठाणाई]

१९५. [१] कहि णं भंते ! जोइसियाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं २५
 ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! जोइसिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे

१. ँणियरायाणो जे० ॥ २. पवय० जे० ॥ ३. हस्से जे० ॥ ४. पयते य पययपयते नेयच्चा
 म० प्र० ॥ ५. नायच्चा पु२ ॥

- रतणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ सत्ताणउते जोयणसते उडुं
उप्पइत्ता दसुत्तरे जोयणसतवाहल्ले तिरियमसंखेज्जे जोतिसविसये, एत्थ णं
जोइसियाणं देवाणं तिरियमसंखेज्जा जोइसियविमाणावाससतसहस्सा भवंतीति
मक्खातं । ते णं विमाणा अद्धकविट्ठगसंठाणसंठिता सब्बफालियामया अब्भुग्गय-
- ५ मूसियपहसिया इव विविहमणि-कणग-रतणभत्तिचित्ता वाउद्धुतविजयवेजयंती-
पडाग-छत्ताइछत्तकलिया तुंगा गगणतलमणुलिहमाणासिहरा जालंतररतण-पंजरुम्मि-
लिय व्व मणि-कणगथूमियागा वियसियसयवत्तपुंडरीया(य-)तिलय-रयणद्धचंदचित्ता
णाणामणिमयदामालंकिया अंतो व्हिं च सण्हा तवणिज्जरुइलवालुयापैत्थडा
सुहफासा सस्सिरीया सुरूवा पासार्इया दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । एत्थ णं
- १० जोइसियाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखिज्जति-
भागे । तत्थ णं बहवे जोइसिया देवा परिवसंति, तं जहा-वहस्सती चंदा सूरा सुक्का
सणिच्छरा राहू धूमकेऊ बुहा अंगारगा तत्तवणिज्जकणगवण्णा, जे य गहा जोइसम्मि
चारं चरंति केतू य गइरइया अट्टावीसतिविहा य नक्खत्तदेवयगणा, णाणासंठाण-
संठियाओ य पंचवण्णाओ तारयाओ, ठितलेस्सा चारिणो अविस्साममंडलगई
१५ पैतैयणांमंकपागडियचिंधमउडा महिड्डिया जाव (सु.१८८) पभासेमाणा । ते णं
तत्थ साणं साणं विमाणावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं
साणं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं
साणं साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च व्हूणं
जोइसियाणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पारेवच्चं जाव (सु.१८८) विहरंति ।
- २० [२] चंदिम-सूरिया यऽत्थ दुवे जोइसिंदा जोइसियरायाणो परिवसंति
महिड्डिया जाव (सु.१८८) पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं जोइसियवि-
माणावाससतसहस्साणं चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं चउण्हं अग्गमहिसीणं
सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं सोलसण्हं
आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च व्हूणं जोइसियाणं देवाण य देवीण य
२५ आहेवच्चं पारेवच्चं जाव विहरंति ।

[सुत्ताइं १९६-२१०. वेमाणियदेवठाणाइं]

१९६. कहि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा

पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! वेमाणिया देवा परिवसंति ? गोथमा ! इमीसे रतणप्पमाए
 पुदवीए बहुसमरमणिजातो भूमिभागातो उडुं चंदिम-सूरिय-गह-णक्खत्त-तारारूवाणं
 वहूइं जोयणसत्ताइं वहूइं जोयणसहस्साइं वहूइं जोयणसयसहस्साइं वहुगीओ
 जोयणकोडीओ वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सोह-
 म्मीसाण-सणकुमार-माहिंद-वंभलोय-लंतग-महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण- ५
 अच्चुत्त-गेवेज्ज-अणुत्तरेसुं एत्थ णं वेमाणियाणं देवाणं चउरासीइ विमाणावाससत्त-
 सहस्सा सत्ताणउइं च सहस्सा तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खत्ते । ते णं
 विमाणा सव्वरतणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा नीरया निम्मला निप्पंका
 निक्कंइच्छया सप्पमा सस्सिरीया सँउज्जेया पासातीता दरसणिजा अभिरूवा
 पडिरूवा । एत्थ णं वेमाणियाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु १०
 वि लोयस्स असंखेज्जइमाणे । तत्थ णं वहवे वेमाणिया देवा परिवसंति ।
 तं जहा-सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिंद-वंभलोय-लंतग-महासुक्क-सहस्सार-आणय-
 पाणय-आरण-ऽच्चुय-गेवेज्जगा-ऽणुत्तरोववाइया देवा । ते णं मिग१-महिस् २-
 वराह ३-सीह ४-ऊगल ५-दहुर ६-हय ७-गयवइ ८-भुयग ९-खग्ग १०-उसभंक ११-
 विडिम १२-पामडियचिंधमउडा पसदिलवरमउड-तिरीडधारिणो वर-कुंडलुज्जोइयाणणा १५
 मउडदित्तसिरया रत्तामा पउसपमहगोरा सेया सुहवण्ण-गंध-फासा उत्तमवेउच्चिणो
 पवरवत्थ-गंध-मल्लणुलेवणधरा सहिड्डीया महाजुइया महायसा महावला महाणुमाया
 महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडियथंभियमुया अंगद-कुंडल-मट्टगंडतैलक्कण्ण-
 पीढधारी विचित्तहत्थाभरण विचित्तमाला-मउली कल्लणगपवरवत्थपरिहिया कल्लण-
 गपवरमल्लऽणुलेवणा भासरचोदी फलंबवणमालधरा दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं २०
 दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए
 दिव्वाए पमाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेस्साए दस
 दिसाओ उज्जेविमाणा पमासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयसह-
 स्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं तावत्तीसगाणं साणं साणं
 लोमपालाणं साणं साणं अग्गमहिस्सीणं सपरिवाराणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं २५
 अणियाणं साणं साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं
 च वहूणं वेमाणियाणं देवाणं देवीण य आहिवच्चं पौरेवच्चं सामित्तं भट्ठित्तं महयरगतं

१ गहगण-णक्खत्तं ध० ॥ २. रिसु त पुत्थ जे० ॥ ३. णियदेवाणं जे० ॥ ४. सउज्जेवा
 जे० ॥ ५. 'तलपीड' म० प्र० ॥

आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महताऽहतनट्ट-गीय-वाइततंती-तरु-
ताल-तुडित-घणसुइंगपडुप्पवाइतरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति ।

१९७. [१] कहि णं भंते ! सोहम्मगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सोहम्मगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! जंबुद्वीवे दीवे
५ मंदरस्स पव्वतस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढ्वीए बहुसमरमणिज्जाओ
भूमिभागाओ उडुं चंदिम-सूरिय-गंह-नक्खत्ततारारूवाणं बहूणि जोयणसताणि
बहूइं जोयणसहस्साइं बहूइं जोयणसतसहस्साइं बहुगीओ जोयणकोडीओ
बहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सोहम्मे णामं कप्पे
पण्णत्ते पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिणंवित्थिण्णे अद्धचंदसंठाणसंठिते अच्चिमालि-
१० भासरासिवण्णाभे असंखेज्जाओ जोयणकोडीओ असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ
आयाम-विक्खंभेणं, असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ परिवक्खेवेणं, सच्चरयणामए
अच्छे जाव (सु. १९६) पडिरूवे । तत्थ णं सोहम्मगदेवाणं वत्तीसं
विमाणावाससतसहस्सा हवंतीति मक्खातं । ते णं विमाणा सच्चरयणामया अच्छा
जाव (सु. १९६) पडिरूवा । तेसि णं विमाणाणं बहुमज्झदेसभागे पंच वडेंसया
१५ पण्णत्ता । तं जहा-असोगवडेंसए १ सत्तिवण्णवडेंसए २ चंपगवडेंसए ३ चूयवडेंसए
४ मज्जे यऽत्थ सोहम्मवडेंसए ५ । ते णं वडेंसया सच्चरयणामया अच्छा जाव
(सु. १९६) पडिरूवा । एत्थ णं सोहम्मगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ।
तीसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं बहवे सोहम्मगदेवा परिवसंति महिड्डीया
जाव (सु. १९६) पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससतसहस्साणं
२० साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं एवं जहेव ओहियाणं (सु. १९६) तहेव एतेसिं पि
भाणितव्वं जाव आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहूणं सोहम्मगकप्पवासीणं
वेमाणिय्याणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] सक्के यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति वज्जपाणी पुरंदरे सतक्कत्तू
सहस्सक्खे मघवं पागसासणे दाहिणडुल्लोगाधिवती वत्तीसविमाणावाससतसहस्सा-
२५ धिवती एरावणवाहणे सुरिंदे अरयंवरवत्थधरे आलइयमाल-मउडे णवहेमचारु-
चित्तचंचलकुंडलविलिहिज्जमाणगंडे महिड्डीए जाव (सु. १९६) पभासेमाणे ।
से णं तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससतसहस्साणं चउरासीए सामाणियसाहस्सीणं

१. °गहगण-नक्खं ध० म० पु२ ॥ २. °तारगरू° ध० ॥ ३. °णविच्छिण्णे पु१ पु३ विना ॥

४. °णियदेवार्यं देवीण ध० म० ॥

तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं अट्टण्हं अग्गमहिस्सीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं चउण्हं चउरासीईणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अणोसिं च बहूणं सोहम्मगकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं कुव्वमाणे जाव (सु. १९६) विहरइ ।

१९८. [१] कहि णं भंते ! ईसाणगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा ५
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! ईसाणगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! जंबुद्वीवे दीवे
मंदरस्स पव्वतस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्जाओ भूमि-
भागाओ उड्डुं चंदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त-तारारूवाणं बहूइं जोयणसताइं बहूइं
जोयणसहस्साइं जाव (सु. १९७ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं ईसाणे णामं कप्पे पण्णत्ते
पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिणाविच्छिण्णे एवं जहा सोहम्मे (सु. १९७ [१]) १०
जाव पडिरूवे । तत्थ णं ईसाणगदेवाणं अट्टावीसं विमाणावाससतसहस्सा हवंतीति
मक्खातं । ते णं विमाणा सव्वरयणामया जाव पडिरूवा । तेसि णं बहुमज्झदेसभाए
पंच वडेंसगा पण्णत्ता, तं जहा—अंकवडेंसए १ फलिहवडेंसए २ रत्तणवडेंसए ३
जातरूववडेंसए ४ मज्जे एत्थ ईसाणवडेंसए ५ । ते णं वडेंसया सव्वरयणामया
जाव (सु. १९६) पडिरूवा । एत्थ णं ईसाणाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा १५
पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जतिभागे । सेसं जहा सोहम्मगदेवाणं जाव
(सु. १९७ [१]) विहरंति ।

[२] ईसाणे यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति सूलपाणी वसभवाहणे
उत्तरडूलोगाधिवती अट्टावीसविमाणावाससतसहस्साधिवती अरयंवरवत्थधरे सेसं
जहा सक्कस्स (सु. १९७ [२]) जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ अट्टावीसाए विमाणा- २०
वाससतसहस्साणं असीतीए सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं
लोगपालाणं अट्टण्हं अग्गमहिस्सीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं
सत्तण्हं अणियाधिवतीणं चउण्हं असीतीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अणोसिं च
बहूणं ईसाणकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं
कुव्वमाणे जाव (सु. १९६) विहरति । २५

१९९. [१] कहि णं भंते ! सणंकुमारदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सणंकुमारा देवा परिवसंति ? गोयमा ! सोहम्मस्स कप्पस्स

उँपिं सपक्खिं सपडिदिसिं वहुइं जोयणाइं वहुइं जोयणसताइं वहुइं जोयणसहस्साइं वहुइं जोयणसतसहस्साइं वहुगीओ जोयणकोडीओ वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सणंकुमारे णामं कप्पे पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिण-विच्छिण्णे जहा सोहम्मे (सु. १९७ [१]) जाव पडिरूवे । एत्थ णं सणंकुमाराणं देवाणं वारस विमाणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं विमाणा सव्वरयणामया जाव (सु. १९६) पडिरूवा । तेसिं णं विमाणाणं बहुमज्झदेसभागे पंच वडेंसगा पणत्ता । तं जहा-असोगवडेंसए १ सत्तिवणवडेंसए २ चंपगवडेंसए ३ चूयवडेंसए ४ मज्जे यडत्थ सणंकुमारवडेंसए ५ । ते णं वडेंसया सव्वरयणामया अच्छा जाव (सु. १९६) पडिरूवा । एत्थ णं सणंकुमारदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जइभागे । तत्थ णं वहवे सणंकुमारा देवा परिवसंति महिड्डिया जाव (सु. १९६) पभासेमाणा विहरंति । णवरं अग्गमहिसीओ णत्थि ।

[२] सणंकुमारे यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति, अरयंवरवत्थधरे सेसं जहा सक्कस्स (सु. १९७ [२]) । से णं तत्थ वारसण्हं विमाणावाससतसहस्साणं वावत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं सेसं जहा सक्कस्स (सु. १९७ [२]) अग्गमहिसीवज्जं । णवरं चउण्हं वावत्तरीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरइ ।

२००. [१] कहि णं भंते ! माहिंदानं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पणत्ता ? कहि णं भंते ! माहिंदगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! ईसाणस्स कप्पस्स उँपिं सपक्खिं सपडिदिसिं वहुइं जोयणाइं जाव (सु. १९९ [१]) वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं माहिंदे णामं कप्पे पायीण-पडीणायए एवं जहेव सणंकुमारे (सु. १९९ [१]), णवरं अड्ड विमाणा-वाससतसहस्सा । वडेंसया जहा ईसाणे (सु. १९८ [१]), णवरं मज्जे यडत्थ माहिंदवडेंसए । एवं सेसं जहा सणंकुमारगदेवाणं (सु. १९६) जाव विहरति ।

[२] माहिंदे यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति अरयंवरवत्थधरे, एवं जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]) जाव विहरति । णवरं अड्डण्हं विमाणा-वाससतसहस्साणं सत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं चउण्हं सत्तरीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरइ ।

१. उवरि सप° म० ॥ २. सपक्खपडि° जे० म० ॥ ३. °स्तीए सेसं ध० ॥ ४. माहिंददेवाणं ध० म० प्र० मु० ॥ ५. उडुं जे० ॥ ६. °रक्खदेवाणं जाव ध० । °रक्ख० जाव म० । °रक्खाणं जाव जे० प्र० ॥

२०१. [१] कहि णं भंते ! वंभलोगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! वंभलोगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! सणंकुमार-माहिंदाणं कप्पाणं उप्पिं सपक्खिं सपडिदिसिं व्हूइं जोयणाइं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं वंभलोए णामं कप्पे पाईण-पडीणायए उदीण-दाहिणविच्छिण्णे पडिपुन्नचंद्रसंठाणसंठित्ते अच्चिमाली-भासरासिप्पमे अवसेसं जहा सणंकुमाराणं ५
(सु. १९९ [१]), णवरं चत्तारि विमाणावाससतसहस्सा । वडिसगा जहा सोहम्मवडैसया (सु. १९७ [१]), णवरं मज्झे यऽत्थ वंभलोयवडिसए । एत्थ णं वंभलोगाणं देवाणं ठाणा पन्नत्ता । सेसं तहेव जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] वंभे यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति अरयंवरवत्थधरे, एवं जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]) जाव विहरति । णवरं चउण्हं विमाणावाससतसहस्साणं १०
सडीए सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह य सडीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च व्हूणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

२०२. [१] कहि णं भंते ! लंतगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! लंतगदेवा परिवसंति ? गोयमा ! वंभलोगस्स कप्पस्स उप्पिं सपक्खिं सपडिदिसिं व्हूइं जोयणसयाइं जाव (सु. १९९ [१]) वहुगीओ १५
जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं लंतए णामं कप्पे पण्णत्ते पाईण-पडीणायए जहा वंभलोए (सु. २०१ [१]), णवरं पण्णासं विमाणावाससहस्सा भवंतीति मक्खातं । वडैसगा जहा ईसाणवडैसगा (सु. १९८ [१]), णवरं मज्झे यऽत्थ लंतगवडैसए । देवा तहेव जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] लंतए यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सणंकुमारे । (सु. २०
१९९ [२]) णवरं पण्णासाए विमाणावाससहस्साणं पण्णासाए सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह य पण्णासाणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च व्हूणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

२०३. [१] कहि णं भंते ! महासुक्काणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! महासुक्का देवा परिवसंति ? गोयमा ! लंतयस्स कप्पस्स २५
उप्पिं सपक्खिं सपडिदिसिं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं महासुक्के णामं कप्पे पण्णत्ते पायीण-पडीणायए उदीण-दाहिणविस्थिण्णे जहा वंभलोए (सु.

२०१ [१]), णवरं चत्तालीसं विमाणावाससहस्सा भवंतीति मक्खातं । वडेंसगा जहा सोहम्मवडेंसगा (सु. १९७ [१]), णवरं मज्जे यडत्थ महासुक्कवडेंसए जाव (सु. १९६) विहरति ।

५ [२] महासुक्के यडत्थ देविंदे देवराया जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]), णवरं चत्तालीसाए विमाणावाससहस्साणं चत्तालीसाए सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह य चत्तालीसाणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

२०४. [१] कहि णं भंते ! सहस्सारदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सहस्सारदेवा परिवसंति ? गोयमा ! महासुक्कस्स कप्पस्स उप्पिं सपक्खिं सपडिदिसिं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं सहस्सारे १० णामं कप्पे पण्णत्ते पाईण-पडीणायते जहा वंभलोए (सु. २०१ [१]), णवरं छच्चिमाणावाससहस्सा भवंतीति मक्खातं । देवा तहेव (सु. १९७ [१]) जाव वडेंसगा जहा ईसाणस्स वडेंसगा (सु. १९८ [१]), णवरं मज्जे यडत्थ सहस्सारवडेंसए जाव (सु. १९६) विहरति ।

१५ [२] सहस्सारे यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]), णवरं छण्हं विमाणावाससहस्साणं तीसाए सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह य तीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) आहेवच्चं कारेमाणे विहरति ।

२०५. [१] कहि णं भंते ! आणय-पाणयाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! आणय-पाणया देवा परिवसंति ? गोयमा ! सहस्सारस्स कप्पस्स उप्पिं सपक्खिं सपडिदिसिं जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णं आणय-पाणयनामेणं दुवे कप्पा पण्णत्ता पाईण-पडीणायता उदीण-दाहिणवित्थिण्णा अद्धचंदसंठाणसंठिता अच्चिमाली-भासरासिप्पभा, सेसं जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [१]) जाव पडिरूवा । तत्थ णं आणय-पाणयदेवाणं चत्तारि विमाणावाससता भवंतीति मक्खायं जाव पडिरूवा । वडिंसगा जहा सोहम्मे (सु. १९७ [१]), णवरं मज्जे पाणयवडेंसए । ते णं वडेंसगा २५ सच्चरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा (सु. १९६) । एत्थ णं आणय-पाणयदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं वहवे आणय-पाणयदेवा परिवसंति महिड्डीया जाव (सु. १९६) पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयाणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

[२] पाणए यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सणंकुमारे (सु. १९९

[२]), णवरं चउण्हं विमाणावाससयाणं वीसाए सामाणियसाहस्सीणं असीतीए आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहूणं जाव (सु. १९६) विहरति ।

२०६. [१] कहि णं भंते ! आरण-उच्चुताणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! आरण-उच्चुता देवा परिवसंति ? गोयमा ! आणय-पाणयाणं कप्पाणं उप्पिं सपक्खि सपडिदिसिं एत्थ णं आरणउच्चुया णामं दुवे कप्पा पण्णत्ता, पाईण-पडीणायया उदीण-दाहिणविच्छिण्णा अद्धचंदसंठाणसंठिता अच्चिमाली-भासरासिवण्णाभा असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविकखंभेणं असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ परिकखेवेणं सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा नीरया निम्मला निप्पंका निक्कंकरुद्धाया सप्पभा सस्सिरिया सउज्जोया पासार्इया दरसण्णिज्जा अभिरूवा पडिरूवा, एत्थ णं आरणउच्चुताणं देवाणं तिसिं विमाणावाससता हवंतीति मक्ख्वायं । ते णं विमाणा सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा नीरया निम्मला निप्पंका निक्कंकरुद्धाया सप्पभा सस्सिरिया सउज्जोता पासार्इया दरसण्णिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । तेसि णं विमाणाणं बहुमज्झेदसभाए पंच वडेंसगा पण्णत्ता, तं जहा-अंकवडेंसए १ फलिहवडेंसए २ रयणवडेंसए ३ जायरूववडेंसए ४ मज्झे यऽत्थ अच्चुतवडेंसए ५ । ते णं वडेंसया सव्वरयणामया जाव (सु. २०६[१]) पडिरूवा । एत्थ णं आरणउच्चुयाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जभागे । तत्थ णं बहवे आरणउच्चुता देवा जाव (सु. १९६) विहरंति ।

[२] अच्चुते यऽत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा पाणए (सु. २०५ [२]) जाव विहरति । णवरं तिण्हं विमाणावाससताणं दसण्हं सामाणियसाहस्सीणं चत्तालीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं आहेवच्चं कुव्वमाणे जाव. (सु. १९६) विहरति ।

वत्तीस अट्ठवीसा वारस अट्ठ चउरो सतसहस्सा ।

पण्णा चत्तालीसा छ च सहस्सा सहस्सारे ॥ १५४ ॥

आणय-पाणयकप्पे चत्तारि सयाऽऽरण-उच्चुए तिसिं ।

सत्त विमाणसयाइं चउसु वि एएसु कप्पेसु ॥ १५५ ॥

सामाणियसंगहणीगाहा—

चउरासीइ १ असीई २ वावत्तरि ३ सत्तरी य ४ सट्ठी य ५ ।

पण्णा ६ चत्तालीसा ७ तीसा ८ वीसा ९-१० दस सहस्सा ११-१२
॥ १५६ ॥

एते चेव आयरक्खा चउगुणा ।

२०७. कहि णं भंते ! हेड्डिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ?
५ कहि णं भंते ! हेड्डिमगेवेज्जगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! आरणच्चुताणं कप्पाणं
उप्पि जाव (सु. २०६[१]) उड्डं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं हेड्डिमगेवेज्जगाणं देवाणं
तओ गेवेज्जगविमाणपत्थडा पण्णत्ता पाईण-पडीणायया उदीण-दाहिणविच्छिण्णा
पडिपुण्णचंदसंठाणसंठिता अच्चिमाली-भासरासिवण्णाभा सेसं जहा वंभलोगे
जाव (सु. २०१[१]) पडिरूवा । तत्थ णं हेड्डिमगेवेज्जगाणं देवाणं एक्कारसुत्तरे
१० विमाणावाससते हवंतीति मक्खातं । ते णं विमाणा सच्चरयणामया जाव
(सु. २०६[१]) पडिरूवा । एत्थ णं हेड्डिमगेवेज्जगाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं
ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखिज्जभागे । तत्थ णं वहवे हेड्डिमगेवेज्जगा
देवा परिवसंति सच्चे समिड्डिया सच्चे समज्जुतीया सच्चे समजसा सच्चे समवला
सच्चे समाणुभावा महासोक्खा अणिंदा अप्पेस्सा अपुरोहिया अहमिंदा णामं ते
१५ देवगणा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

२०८. कहि णं भंते ! मज्झिमगाणं गेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! मज्झिमगेवेज्जगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! हेड्डिमगेवे-
ज्जगाणं उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं जाव (सु. २०६[१]) उप्पइत्ता एत्थ णं
मज्झिमगेवेज्जगदेवाणं तओ गेविज्जगविमाणपत्थडा पण्णत्ता । पाईण-पडीणायता
२० जहा हेड्डिमगेवेज्जगाणं णवरं सत्तुत्तरे विमाणावाससते हवंतीति मक्खातं । ते णं
विमाणा जाव (सु. २०६[१]) पडिरूवा । एत्थ णं मज्झिमगेवेज्जगाणं देवाणं
जाव (सु. २०७) तिसु वि लोगस्स असंखेज्जतिभागे । तत्थ णं वहवे मज्झिम-
गेवेज्जगा देवा परिवसंति जाव (सु. २०७) अहमिंदा नामं ते देवगणा पण्णत्ता
समणाउसो ! ।

२५. २०९. कहि णं भंते ! उवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! उवरिमगेवेज्जगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! मज्झिम-
गेवेज्जगदेवाणं उप्पि जाव (सु. २०६[१]) उप्पइत्ता एत्थ णं उवरिमगेवेज्जगाणं

देवाणं तओ गेविज्जगविमाणपत्थडा पण्णत्ता पाईण-पडीणायता सेसं जहा हेड्डिमगे-
विज्जगणं (सु. २०७), नवरं एगे विमाणावाससते भवंतीति मक्खातं । सेसं तहेव
भाणियच्चं (सु. २०७) जाव अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो ! ।

एक्कारसुत्तरं हेड्डिमेसु सत्तुत्तरं च मज्झिमए ।

सयमेगं उवरिमए पंचेव अणुत्तरविमाणा ॥ १५७ ॥

५

२१०. कहि णं भंते ! अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! अणुत्तरोववाइया देवा परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे
रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ उडुं चंदिम-सूरिय-गंह-नक्ख-
त्त-तारारूवाणं वहुइं जोयणसयाइं वहुइं जोयणसहस्साइं वहुइं जोयणसतसहस्साइं
वहुगीओ जोयणकोडीओ वहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता १०
सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिंद-वंमलोय-लंतग-सुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-
अच्चुयकप्पा तिण्णि य अट्टारसुत्तरे गेविज्जविमाणावाससते वीतीवतित्ता तेण परं दूरं
गता पीरया निम्मला वितिमिरा विसुद्धा पंचदिसिं पंच अणुत्तरा महतिमहालयो
विमाणा पण्णत्ता । तं जहा-विजये १ वेजयंते २ जयंते ३ अपराजिते ४ सच्चइसिद्धे
५ । ते णं विमाणा सच्चरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला १५
निष्पंका निक्कंठच्छया सप्पभा सस्सिरीया सउज्जोया पासईया दरसणिज्जा
अभिरूवा पडिरूवा, अत्थ णं अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं ठाणा
पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्जतिभागे । तत्थ णं वहवे अणुत्तरोववाइया
देवा परिवसंति सच्चे सैमिड्डिया सच्चे समचला सच्चे समाणुभावा महासोक्खा
अणिंदा अपेस्सा अपुरोहिता अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । २०

[सुत्तं २११. सिद्धठाणाई]

२११. कहि णं भंते ! सिद्धाणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! सिद्धा
परिवसंति ? गोयमा ! सच्चइसिद्धस्स महाविमाणस्स उवरिल्लओ थूमियग्गाओ दुवालस
जोयणे उडुं अचाहाए एत्थ णं ईसीपेम्भारा णामं पुढवी पण्णत्ता, पणतालीसं
जोयणसतसहस्साणि आयाम-विक्खंभेणं एगा जोयणकोडी वायालीसं च सतसहस्साइं २५
तीसं च सहस्साइं दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसते किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं

१. गहगण-न° प्र० पु२ सु० ॥ २. °या महाविमाणा थ० म० प्र० पु२ ॥ ३. समिद्धितीया
थ० प्र० । समट्टितीया पु२ ॥ ४. थूमियाओ थ० ॥ ५. ईसिपभारा जे० ॥

- पणत्ता । ईसीपब्भाराए णं पुढवीए बहुमज्झदेसभाए अट्टजोयणिए खेत्ते अट्ट
जोयणाइं बाहल्लेणं पणत्ते, तंतो अणंतरं च णं माताए माताए पएसपरिहाणीए
परिहायमाणी परिहायमाणी सव्वेसु चरिमंतोसु मच्छियपत्तातो तणुयरी अंगुलस्स
असंखेज्जतिभागं बाहल्लेणं पणत्ता । ईसीपब्भाराए णं पुढवीए दुवालस नामधिज्जा
५ पणत्ता । तं जहा-ईसी ति वा १ ईसीपब्भारा इ वा २ तणू ति वा ३ तणुतणू
ति वा ४ सिद्धी ति वा ५ सिद्धालए ति वा ६ मुत्ती इ वा ७ मुत्तालए ति वा
८ लोयग्गे इ वा ९ लोयग्गधूभिया ति वा १० लोयग्गपडिबुज्झणा इ वा ११
सव्वपाण-भूत-जीव-सत्तसुहावहा इ वा १२ । ईसीपब्भारा णं पुढवी सेता
संखेदलविमलसोत्थिय-मुणाल-दगरय-तुसार-गोकखीर-हारवण्णा उत्ताणयच्छत्तसंठाण-
१० संठिता सव्वज्जुणसुवण्णमती अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा नीरया निम्मला
निप्पंका निक्कंफडच्छया सप्पभा सस्सिरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिज्जा
अभिरूवा पडिरूवा । ईसीपब्भाराए णं सीताए जोयणम्मि लोगतो । तस्स णं
जोयणस्स जे से उवरिल्ले गाउए तस्स णं गाउयस्स जे से उवरिल्ले छब्भागे एत्थ
णं सिद्धा भगवंतो सादीया अपज्जवासिता अणेगजाति-जरा-मरण-जोणिसंसारकलं-
१५ कलीभाव-पुणब्भवर्गोब्भवासवसहीपवंचसमतिकंता सासयमणागतद्धं कालं चिड्ढंति ।

तत्थ वि य ते अवेदा अवेदणा निम्ममा असंगा य ।

संसारविप्पमुक्का पदेसनिव्वत्तसंठाणा ॥ १५८ ॥

कहिं पडिहता सिद्धा ? कहिं सिद्धा पइड्डिता ? ।

कहिं बोदिं चइत्ता णं ? कहिं गंतूण सिज्झई ? ॥ १५९ ॥

२० अलोए पडिहता सिद्धा, लोयग्गे य पइड्डिया ।

इहं बोदिं चाइत्ता णं तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ १६० ॥

दीहं वा हुस्सं वा जं चरिमभवे हवेज्ज संठाणं ।

तत्तो तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ १६१ ॥

जं संठाणं तु इहं भवं चयंतस्स चरिमसमयम्मि ।

२५ आसी य पदेसघणं तं संठाणं तहिं तस्स ॥ १६२ ॥

तिण्णि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होति बोधव्वो ।

एसा खलु सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया ॥ १६३ ॥

चत्तारि य रयणीओ रयणितिभागूणिया य वोद्धव्वा ।
 एसा खलु सिद्धाणं मज्झिम ओगाहणा भणिया ॥ १६४ ॥
 एगा य होइ रयणी अट्टेव य अंगुलाइं साहीया ।
 एसा खलु सिद्धाणं जहण्ण ओगाहणा भणिता ॥ १६५ ॥
 ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होंति परिहीणा । ५
 संठाणमणित्थं [ग्रन्थाग्रम् १५००] जरा-मरणविप्पमुक्काणं ॥ १६६ ॥
 जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्का ।
 अण्णोणसमोगाढा पुट्ठा सच्चे वि लोयंते ॥ १६७ ॥
 फुसइ अणंते सिद्धे सच्चपएसेहिं नियमसो सिद्धो ।
 ते वि असंखेज्जगुणा देस-पदेसेहिं जे पुट्ठा ॥ १६८ ॥ १०
 असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य नाणे य ।
 सागारमणागारं लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥ १६९ ॥
 केवलणाणुवउत्ता जाणंती सच्चभावगुण-भावे ।
 पासंति सच्चतो खलु केवलदिट्ठीहउणंताहिं ॥ १७० ॥
 न वि अत्थि माणुसाणं तं सोक्खं न वि य सच्चदेवाणं । १५
 जं सिद्धाणं सोक्खं अच्चावाहं उवगयाणं ॥ १७१ ॥
 सुरगणसुहं समत्तं सच्चद्धापिंडितं अणंतगुणं ।
 ण वि पावे मुत्तिसुहं णंताहिं वि वग्गवग्गूहिं ॥ १७२ ॥
 सिद्धस्स सुहो रासी सच्चद्धापिंडितो जइ हवेज्जा ।
 सोऽणंतवग्गभइतो सच्चागासे ण माएज्जा ॥ १७३ ॥ २०
 जह णाम कोइ मेच्छो णगरगुणे बहुविहे वियाणंतो ।
 न चएइ परिकहेउं उवमाए तहिं असंतीए ॥ १७४ ॥
 इय सिद्धाणं सोक्खं अणोवमं, णत्थि तस्स ओवम्मं ।
 किंचि विसेसेणेत्तो सारिक्खमिणं सुणह वोच्छं ॥ १७५ ॥
 जह सच्चकामगुणितं पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोइ । २५
 तण्हा-लुहाविमुक्को अच्छेज्ज जहा अमियतित्तो ॥ १७६ ॥
 इय सच्चकालतित्ता अंतुलं णेव्वाणसुवगया सिद्धा ।

१. केवलदिट्ठिहि णंताहिं पु२ ॥ २. मणुस्साणं ध० ॥ ३. किंच म० ॥ ४. अउलं निच्चाणपुरगया ध० ॥

पण्णत्ता । ईसीपब्भाराए णं पुढवीए बहुमज्झदेसभाए अट्टजोयणिए खेत्ते अट्ट जोयणाइं वाहल्लेणं पण्णत्ते, तंतो अणंतरं च णं माताए माताए पएसपरिहाणीए परिहायमाणी परिहायमाणी सव्वेसु चरिमंतोसु मच्छियपत्तातो तणुयरी अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं वाहल्लेणं पण्णत्ता । ईसीपब्भाराए णं पुढवीए दुवालस नामधिज्जा

- ५ पण्णत्ता । तं जहा-ईसी ति वा १ ईसीपब्भारा इ वा २ तणू ति वा ३ तणुतणू ति वा ४ सिद्धी ति वा ५ सिद्धालए ति वा ६ मुत्ती इ वा ७ मुत्तालए ति वा ८ लोयग्गे इ वा ९ लोयग्गथूमिया ति वा १० लोयग्गपडिबुज्झणा इ वा ११ सव्वपाण-भूत-जीव-सत्तसुहावहा इ वा १२ । ईसीपब्भारा णं पुढवी सेता संखेदलविमलसोत्थिय-मुणाल-दगरय-तुसार-गोक्खीर-हारवण्णा उत्ताणयच्छत्तसंठाण-
१० संठिता सव्वज्जुणसुवण्णमती अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्टा नीरया निम्मला निष्पंका निक्कं कडच्छया सप्पभा सस्सिरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । ईसीपब्भाराए णं सीताए जोयणम्मि लोगंतो । तस्स णं जोयणस्स जे से उवरिल्ले गाउए तस्स णं गाउयस्स जे से उवरिल्ले छब्भागे एत्थ णं सिद्धा भगवंतो सादीया अपज्जवासिता अणेगजाति-जरा-मरण-जोणिसंसारकलं-
१५ कलीभाव-पुणब्भवर्ग^१ब्भवासवसहीपंचसमतिकंता सासयमणागतद्धं कालं चिट्ठंति ।

तत्थ वि य ते अवेदा अवेदणा निम्ममा असंगा य ।

संसारविप्पमुक्का पदेसनिव्वत्तसंठाणा ॥ १५८ ॥

कहिं पडिहता सिद्धा ? कहिं सिद्धा पइड्डिता ? ।

कहिं वोदिं चइत्ता णं ? कहिं गंतूण सिज्झई ? ॥ १५९ ॥

- २० अलोए पडिहता सिद्धा, लोयग्गे य पइड्डिया ।

इहं वोदिं चाइत्ता णं तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ १६० ॥

दीहं वा हुस्सं वा जं चरिमभवे हवेज्ज संठाणं ।

ततो तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ १६१ ॥

जं संठाणं तु इहं भवं चयंतस्स चरिमसमयम्मि ।

- २५ आसी य पदेसघणं तं संठाणं तहिं तस्स ॥ १६२ ॥

तिणिण सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होति वोय्वो ।

एसा खलु सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया ॥ १६३ ॥

१. तयाणंतरं ध० ॥ २. संखतल^० ध० म० प्र० ॥ ३. ^०गन्भवसही^० एतदनुसारेण मल-
यटीक्का ॥ ४. कत्थ गंतूण ध० म० प्र० पु२ ॥ ५. णायव्वो ध० विना ॥

चत्तारि य रयणीओ रयणितिभागूणिया य वोद्धव्वा ।
 एसा खलु सिद्धाणं मज्झिम ओगाहणा भणिया ॥ १६४ ॥
 एगा य होइ रयणी अट्टेव य अंगुलाइं साहीया ।
 एसा खलु सिद्धाणं जहण्ण ओगाहणा भणिता ॥ १६५ ॥
 ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होंति परिहीणा । ५
 संठाणमणित्थं [ग्रन्थाग्रम् १५००] जरा-मरणविष्यमुक्काणं ॥ १६६ ॥
 जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्का ।
 अण्णोणसमोगाढा पुट्ठा सव्वे वि लोयंते ॥ १६७ ॥
 फुसइ अणंते सिद्धे सच्चपएसेहिं नियमसो सिद्धो ।
 ते वि असंखेज्जगुणा देस-पदेसेहिं जे पुट्ठा ॥ १६८ ॥ १०
 असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य नाणे य ।
 सागारमणागारं लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥ १६९ ॥
 केवलणाणुवउत्ता जाणंती सव्वभावगुण-भावे ।
 पासंति सव्वतो खलु केवलदिट्ठीहउणंताहिं ॥ १७० ॥
 न वि अत्थि माणुसाणं तं सोक्खं न वि य सव्वदेवाणं । १५
 जं सिद्धाणं सोक्खं अवाचाहं उवगयाणं ॥ १७१ ॥
 सुरगणसुहं समत्तं सव्वद्धापिंडितं अणंतगुणं ।
 ण वि पावे मुत्तिसुहं णंताहिं वि वग्गवग्गूहिं ॥ १७२ ॥
 सिद्धस्स सुहो रासी सव्वद्धापिंडितो जइ हवेज्जा ।
 सोऽणंतवग्गभइतो सव्वागासे ण माएज्जा ॥ १७३ ॥ २०
 जह णाम कोइ मेच्छो णगरगुणे बहुविहे वियाणंतो ।
 न चएइ परिकहेउं उवमाए तहिं असंतीए ॥ १७४ ॥
 इय सिद्धाणं सोक्खं अणोवमं, णत्थि तस्स ओवम्मं ।
 किंचि विसेसेणेतो सारिक्खमिणं सुणह वोच्छं ॥ १७५ ॥
 जह सव्वकामगुणितं पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोइ । २५
 तण्हा-छुहाविमुक्को अच्छेज्ज जहा अमियतित्तो ॥ १७६ ॥
 इय सव्वकालतित्ता अंतुलं णेव्वाणसुवगया सिद्धा ।

१. केवलदिट्ठिहि णंताहिं पु२ ॥ २. मणुस्ताणं ध० ॥ ३. किंच म० ॥ ४. अउल्लं
 निव्याणपुरग्गया ध० ॥

- पणत्ता । ईसीपव्वभाराए णं पुढवीए बहुमज्झदेसभाए अट्टजोयणिए खेत्ते अट्ट जोयणाइं वाहल्लेणं पणत्ते, ततो अणंतरं च णं माताए माताए पएसपरिह्णिए परिहायमाणी परिहायमाणी सव्वेसु चरिमंतेसु मच्छियपत्तातो तणुयरी अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं वाहल्लेणं पणत्ता । ईसीपव्वभाराए णं पुढवीए दुवालस नामधिज्जा
- ५ पणत्ता । तं जहा-ईसी ति वा १ ईसीपव्वभारा इ वा २ तणू ति वा ३ तणुतणू ति वा ४ सिद्धी ति वा ५ सिद्धालए ति वा ६ मुत्ती इ वा ७ मुत्तालए ति वा ८ लोयग्गे इ वा ९ लोयग्गथूभिया ति वा १० लोयग्गपडिवुज्झणा इ वा ११ सव्वपाण-भूत-जीव-सत्तसुहावहा इ वा १२ । ईसीपव्वभारा णं पुढवी सेता संखेदलविमलसोत्थिय-मुणाल-दगरय-तुसार-गोक्खीर-हारवण्णा उत्ताणयच्छत्तसंठाण-
- १० संठिता सव्वज्जुणसुवण्णमती अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा नीरया निम्मला निप्पंका निक्कंकाडच्छाया सप्पभा सस्सिरीया सउज्जेता पासातीता दरसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा । ईसीपव्वभाराए णं सीताए जोयणम्मि लोगतो । तस्स णं जोयणस्स जे से उवरिल्ले गाउए तस्स णं गाउयस्स जे से उवरिल्ले छब्भागे एत्थ णं सिद्धा भगवंतो सादीया अपज्जवसिता अणेगजाति-जरा-मरण-जोणिसंसारकलं-
- १५ कलीभाव-पुणभवग्गेभववासवसहीपव्वंचसमतिकंता सासयमणागतद्धं कालं चिडंति ।

तत्थ वि य ते अवेदा अवेदणा निम्ममा असंगा य ।

संसारविप्पमुक्का पदेसनिव्वत्तसंठाणा ॥ १५८ ॥

कहिं पडिहता सिद्धा ? कहिं सिद्धा पइडिता ? ।

कहिं वोदिं चइत्ता णं ? कहिं गंतूण सिज्झई ? ॥ १५९ ॥

२० अलोए पडिहता सिद्धा, लोयग्गे य पइडिया ।

इहं वोदिं चाइत्ता णं तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ १६० ॥

दीहं वा हुस्सं वा जं चरिमभवे हवेज्ज संठाणं ।

तत्तो तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ १६१ ॥

जं संठाणं तु इहं भवं चयंतस्स चरिमसमयम्मि ।

२५ आसी य पदेसघणं तं संठाणं तहिं तस्स ॥ १६२ ॥

तिण्णि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होति वोधव्वो ।

एसा खलु सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया ॥ १६३ ॥

३. तइयं बहुवत्तव्ययपयं

[सुत्तं २१२. दिसाइसत्तावीसइदारनामाइं]

२१२. दिसि १ गति २ इंदिय ३ काए ४ जोगे ५ वेदे ६ कसाय ७
लेस्सा य ८ ।
सम्मत्त ९ णाण १० दंसण ११ संजय १२ उवओग १३
आहारे १४ ॥ १८० ॥ ५
भासग १५ परित्त १६ पज्जत्त १७ सुहुम १८ सण्णी १९
भवत्थिए २०-२१ चरिसे २२ ।
जीवे य २३ खेत्त २४ बंधे २५ पोग्गल २६ महदंडए २७
चेव ॥ १८१ ॥

[सुत्ताइं २१३-२२४. पढमं दिसिदारं]

१०

२१३. दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा जीवा पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१४. [१] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पुढविकाइया दाहिणेणं, उत्तरेणं
विसेसाहिया, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा आउक्काइया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं १५
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[३] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरेणं, पुरत्थिमेणं
संखेज्जगुणा, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

[४] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउक्काइया पुरत्थिमेणं, पच्चत्थिमेणं
विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया ।

२०

[५] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइक्काइया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१५. [१] दिसाणुवाएणं -सव्वत्थोवा वेइंदिया पच्चत्थिमेणं,
पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं २५
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

सासयमव्वावाहं चिट्ठंति सुही सुहं पत्ता ॥ १७७ ॥
 सिद्ध त्ति य बुद्ध त्ति य पारगत त्ति य परंपरगत त्ति ।
 उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ १७८ ॥
 णिच्छिन्नसव्वदुक्खा जाति-जरा-मरणबंधणविमुक्खा ।
 ५ अव्वावाहं सोक्खं अणुहुंती सासयं सिद्धा ॥ १७९ ॥

॥ पणवणाए भगवईए विइयं ठाणपयं समत्तं ॥

॥ ग्रन्थाग्रम् १५२० ॥

३. तद्वयं बहुवत्तव्ययपर्यं

[सुत्तं २१२. दिसाइसत्तावीसइदारनामाइं]

२१२. दिसि १ गति २ इंदिय ३ काए ४ जोगे ५ वेदे ६ कसाय ७
लेस्सा य ८ ।
सम्मत्त ९ णाण १० दंसण ११ संजय १२ उवओग १३
आहारे १४ ॥ १८० ॥ ५
भासग १५ परित्त १६ पज्जत्त १७ सुहुम १८ सण्णी १९
भवत्थिए २०-२१ चरिसे २२ ।
जीवे य २३ खेत्त २४ वंधे २५ पोग्गल २६ महदंडए २७
चेव ॥ १८१ ॥

[सुत्ताइं २१३-२२४. पढमं दिसिदारं]

१०

२१३. दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा जीवा पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१४. [१] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा पुढविकाइया दाहिणेणं, उत्तरेणं
विसेसाहिया, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा आउक्काइया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं १५
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[३] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरेणं, पुरत्थिमेणं
संखेज्जगुणा, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

[४] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा वाउकाइया पुरत्थिमेणं, पच्चत्थिमेणं
विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया ।

[५] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा वणस्सइकाइया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं २०
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१५. [१] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा वेइंदिया पच्चत्थिमेणं,
पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा तेइंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं २५
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

सासयमव्वावाहं चिट्ठंति सुही सुहं पत्ता ॥ १७७ ॥
 सिद्ध त्ति य बुद्ध त्ति य पारगत त्ति य परंपरगत त्ति ।
 उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ १७८ ॥
 णिच्छिन्नसव्वदुक्खा जाति-जरा-मरणबंधणविमुक्खा ।
 अव्वावाहं सोक्खं अणुहुंती सासयं सिद्धा ॥ १७९ ॥

५

॥ पणवणाए भगवईए विइयं ठाणपयं समत्तं ॥

॥ ग्रन्थाग्रम् १५२० ॥

३. तद्वयं बहुवत्तव्यपयं

[सुत्तं २१२. दिसाइसत्तावीसइदारनामाइं]

२१२. दिसि १ गति २ इंदिय ३ काए ४ जोगे ५ वेदे ६ कसाय ७
लेस्सा य ८ ।
सम्मत्त ९ णाण १० दंसण ११ संजय १२ उवओग १३
आहारे १४ ॥ १८० ॥ ५
भासग १५ परित्त १६ पज्जत्त १७ सुहुम १८ सण्णी १९
भवत्थिए २०-२१ चरिसे २२ ।
जीवे य २३ खेत्त २४ बंधे २५ पोग्गल २६ महदंडए २७
चेव ॥ १८१ ॥

[सुत्ताइं २१३-२२४. पठमं दिसिदारं]

१०

२१३. दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा जीवा पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१४. [१] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पुढविकाइया दाहिणेणं, उत्तरेणं
विसेसाहिया, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा आउक्काइया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं १५
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[३] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरेणं, पुरत्थिमेणं
संखेज्जगुणा, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

[४] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया पुरत्थिमेणं, पच्चत्थिमेणं
विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया ।

[५] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं २०
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१५. [१] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वेइंदिया पच्चत्थिमेणं,
पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं २५
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

[३] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१६. [१] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

५ [२] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा रयणप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[३] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा सक्करप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

१० [४] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वालुयप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-
पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[५] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा पंकप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[६] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा धूमप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

१५ [७] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तमप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[८] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा अहेसत्तमापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

२० २१७. [१] दाहिणिलेहिंतो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो छट्ठीए तमाए
पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[२] दाहिणिलेहिंतो तमापुढविनेरइएहिंतो पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए
नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[३] दाहिणिलेहिंतो धूमप्पभापुढविनेरइएहिंतो चउत्थीए पंकप्पभाए
पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

२५ [४] दाहिणिलेहिंतो पंकप्पभापुढविनेरइएहिंतो तइयाए वालुयप्पभाए
पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखिज्जगुणा ।

[५] दाहिणिलेहिंतो वालुयप्पभापुढविनेरइएहिंतो दुइयाए सक्करप्पभाए
पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखिज्जगुणा, दाहिणेणं असंखिज्जगुणा ।

[३] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१६. [१] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

५ [२] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा रयणप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[३] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा सक्करप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

१० [४] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वालुयप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[५] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा पंकप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[६] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा धूमप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

१५ [७] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तमप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[८] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा अहेसत्तमापुढविनेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

२० २१७. [१] दैहिणिल्लेहिंतो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो छट्ठीए तमाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[२] दैहिणिल्लेहिंतो तमापुढविणेरइएहिंतो पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[३] दैहिणिल्लेहिंतो धूमप्पभापुढविनेरइएहिंतो चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

२५ [४] दैहिणिल्लेहिंतो पंकप्पभापुढविनेरइएहिंतो तइयाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[५] दैहिणिल्लेहिंतो वालुयप्पभापुढविनेरइएहिंतो दुइयाए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[६] दाहिणिल्लेहिंतो सकरप्पभापुढविनेरइएहिंतो इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

२१८. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा पंचेदियतिरिक्खजोणिया पच्चत्थिमेणं, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२१९. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं, पुरत्थिमेणं ५
संखेज्जगुणा, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ।

२२०. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा भवणवासी देवा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

२२१. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरत्थिमेणं, पच्चत्थि-
मेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया । १०

२२२. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा जोइसिया देवा पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं,
दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ।

२२३. [१] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा सोहम्मे कप्पे पुरत्थिम-
पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया ।

[२] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं, १५
उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया ।

[३] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा सणंकुमारे कप्पे पुरत्थिम-
पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया ।

[४] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिमेणं,
उत्तरेणं असंखेज्जगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । २०

[५] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा वंभलोए कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[६] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा लंतए कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[७] दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा महासुक्के कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा । २५

१-२. दाहिणेणं असंखेज्जगुणा, उत्तरेणं विसेसाहिया जे० ध० । नायं पाठः टीकाकृद्व्याख्या-
मुक्त्यनुगारेण सप्ततः ॥

[८] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा सहस्सारे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[९] तेण परं बहुसमोववण्णगा समणाउसो ! ।

२२४. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा सिद्धा दाहिणुत्तरेणं, पुरत्थिमेणं संखेज्ज-
५ गुणा, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया । दारं १ ॥

[सुत्ताइं २२५-२२६. त्रिइयं गतिदारं]

२२५. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं
सिद्धाण य पंचगतिसमासेणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा १, नेरइया असंखेज्जगुणा २,
१० देवा असंखेज्जगुणा ३, सिद्धा अणंतगुणा ४, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ५ ।

२२६. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं
मणुस्साणं मणुस्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण य अड्ढगतिसमासेणं कतरे कतरेहिंतो
अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ
१, मणुस्सा असंखेज्जगुणा २, नेरइया असंखेज्जगुणा ३, तिरिक्खजोणिणीओ
१५ असंखेज्जगुणाओ ४, देवा असंखेज्जगुणा ५, देवीओ संखेज्जगुणाओ ६, सिद्धा
अणंतगुणा ७, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ८ । दारं २ ॥

[सुत्ताइं २२७-२३१. तइयं इंदियदारं]

२२७. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं
चउरिंदियाणं पंचेदियाणं अणिंदियाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा
२० तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेदिया १, चउरिंदिया विसे-
साहिया २, तेइंदिया विसेसाहिया ३, वेइंदिया विसेसाहिया ४, अणिंदिया
अणंतगुणा ५, एगिंदिया अणंतगुणा ६, सइंदिया विसेसाहिया ७ ।

२२८. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं
चउरिंदियाणं पंचेदियाणं अपज्जत्तगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला
२५ वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेदिया अपज्जत्तगा १, चउरिंदिया

अपञ्जत्तया विसेसाहिया २, तेइंदिया अपञ्जत्तया विसेसाहिया ३, वेइंदिया अपञ्जत्तया विसेसाहिया ४, एगिंदिया अपञ्जत्तया अणंतगुणा ५, सइंदिया अपञ्जत्तया विसेसाहिया ६ ।

२२९. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचेंदियाणं पञ्जत्तयाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला ५ वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पञ्जत्तगा १, पंचेंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया २, वेइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया ३, तेइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया ४, एगिंदिया पञ्जत्तगा अणंतगुणा ५, सइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया ६ ।

२३०. [१] एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे १० कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सइंदिया अपञ्जत्तगा, सइंदिया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! एगिंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा एगिंदिया अपञ्जत्तगा, एगिंदिया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा । १५

[३] एतेसि णं भंते ! वेइंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वेइंदिया पञ्जत्तगा, वेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! तेइंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्तगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेइंदिया २० पञ्जत्तगा, तेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[५] एतेसि णं भंते ! चउरिंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पञ्जत्तगा, चउरिंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[६] एएसि णं भंते ! पंचेंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो २५ अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेंदिया पञ्जत्तगा, पंचेंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

२३१. एएसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचेंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा

[८] दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा देवा सहस्सारे कप्पे पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्जगुणा ।

[९] तेण परं वहुसमोववण्णगा समणाउसो ! ।

२२४. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा सिद्धा दाहिणुत्तरेणं, पुरत्थिमेणं संखेज्ज-
५ गुणा, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया । दारं १ ॥

[सुत्ताइं २२५-२२६. विइयं गतिदारं]

२२५. एएसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं
सिद्धाण य पंचगतिसमासेणं कतरे कतरेहितो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा १, नेरइया असंखेज्जगुणा २,
१० देवा असंखेज्जगुणा ३, सिद्धा अणंतगुणा ४, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ५ ।

२२६. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं
मणुस्साणं मणुस्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण य अड्ढगतिसमासेणं कतरे कतरेहितो
अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ
१, मणुस्सा असंखेज्जगुणा २, नेरइया असंखेज्जगुणा ३, तिरिक्खजोणिणीओ
१५ असंखेज्जगुणाओ ४, देवा असंखेज्जगुणा ५, देवीओ संखेज्जगुणाओ ६, सिद्धा
अणंतगुणा ७, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ८ । दारं २ ॥

[सुत्ताइं २२७-२३१. तइयं इंदियदारं]

२२७. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं
चउरिंदियाणं पंचेदियाणं अणिंदियाण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा वहुया वा
२० तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेदिया १, चउरिंदिया विसे-
साहिया २, तेइंदिया विसेसाहिया ३, वेइंदिया विसेसाहिया ४, अणिंदिया
अणंतगुणा ५, एगिंदिया अणंतगुणा ६, सइंदिया विसेसाहिया ७ ।

२२८. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं
चउरिंदियाणं पंचेदियाणं अपज्जत्तगाणं कतरे कतरेहितो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला
२५ वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेदिया अपज्जत्तगा १, चउरिंदिया

अपञ्जतया विसेसाहिया २, तेइंदिया अपञ्जतया विसेसाहिया ३, वेइंदिया अपञ्जतया विसेसाहिया ४, एगिंदिया अपञ्जतया अणंतगुणा ५, सइंदिया अपञ्जतया विसेसाहिया ६ ।

२२९. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचेदियाणं पञ्जतयाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पञ्जत्तगा १, पंचेदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया २, वेइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया ३, तेइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया ४, एगिंदिया पञ्जत्तगा अणंतगुणा ५, सइंदिया पञ्जत्तगा विसेसाहिया ६ ।

२३०. [१] एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सइंदिया अपञ्जत्तगा, सइंदिया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! एगिंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा एगिंदिया अपञ्जत्तगा, एगिंदिया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! वेइंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वेइंदिया पञ्जत्तगा, वेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! तेइंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्तगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेइंदिया पञ्जत्तगा, तेइंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[५] एतेसि णं भंते ! चउरिंदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पञ्जत्तगा, चउरिंदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[६] एतेसि णं भंते ! पंचेदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेदिया पञ्जत्तगा, पंचेदिया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

२३१. एतेसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचेदियाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा

- विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा १, पंचेदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया २, वेदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया ३, तेइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया ४, पंचेदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, चउरिंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ६, तेइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ७, वेदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ८,
 ५ एगेदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ९, सइंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १०, एगिंदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ११, सइंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया १२, सइंदिया विसेसाहिया १३ । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं २३२-२५१. चउत्थं कायदारं]

२३२. एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं
 १० तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सतिकाइयाणं तसकाइयाणं अकाइयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया १, तेउकाइया असंखेज्जगुणा २, पुढविकाइया विसेसाहिया ३, आउकाइया विसेसाहिया ४, वाउकाइया विसेसाहिया ५, अकाइया अणंतगुणा ६, वणस्सइकाइया अणंतगुणा ७, सकाइया विसेसाहिया ८ ।

२३३. एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं
 १५ तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सतिकाइयाणं तसकाइयाणं य अपज्जत्तगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तगा १, तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ३, आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ४, वाउकाइया
 २० अपज्जत्तगा विसेसाहिया ५, वणप्फइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ६, सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ७ ।

२३४. एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं
 २५ तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं य पज्जत्तयाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा १, तेउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ३, आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ४, वाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ५, वणप्फइकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा ६, सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ७ ।

२३५. [१] एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सकाइया अपज्जत्तगा, सकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविकाइया ५ अपज्जत्तगा, पुढविकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! आउकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा आउकाइया अपज्जत्तगा, आउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! तेउकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो १० अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेउकाइया अपज्जत्तगा, तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[५] एतेसि णं भंते ! वाउकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज्जत्तगा, वाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा । १५

[६] एतेसि णं भंते ! वणस्सइकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्तगाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा, वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ।

[७] एतेसि णं भंते ! तसकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया २० पज्जत्तगा, तसकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

२३६. एतेसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा १, तसकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २५ २, तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, पुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ४, आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ५, वाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ६, तेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ७, पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ८, आउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ९, वाउकाइया पज्जत्तगा

विसेसाहिया १०, वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ११, सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १२, वणप्फतिकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा १३, सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया १४, सकाइया विसेसाधिया १५ ।

२३७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउक्काइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमणिओयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया १, सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा असंखेज्जगुणा ५, सुहुमवणप्फइकाइया अणंतगुणा ६, सुहुमा विसेसाहिया ७ ।

१० २३८. एतेसि णं भंते ! सुहुमअपज्जत्तगाणं सुहुमपुढविकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमआउकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमवाउकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमवणप्फइकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमणिगोदापज्जत्तयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तया १, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, सुहुमवणप्फतिकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ६, सुहुमा अपज्जत्तगा विसेसाहिया ७ ।

२३९. एतेसि णं भंते ! सुहुमपज्जत्तगाणं सुहुमपुढविकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमआउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमतेउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमवाउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमवणप्फइकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमनिगोदपज्जत्तगाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउक्काइया पज्जत्तगा १, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ४, सुहुमणिओया

१. अत्राल्पबहुत्वे सूत्रादर्शेषु पञ्चदश पदानि वरीवृत्त्यन्ते, किञ्च श्रीमल्लयगिरिपादैः स्वटीकायां द्वादश पदान्येव निर्दिष्टानि दृश्यन्ते । तथाहि—“ततः पृथिव्यव्वायवः पर्याप्ताः क्रमेण विशेषाधिकाः ८।९।१०। ततो वनस्पतयोऽपर्याप्ता अनन्तगुणाः ११, पर्याप्ताः संख्येयगुणाः इति अस्मिन् व्याख्याने ‘सकायिकाः अपर्याप्ताः १ सकायिकाः पर्याप्ताः २ सकायिकाः पदत्रयविषयमल्पबहुत्वं नात्रार्थे दृश्यते इति तद्विदो गीतार्था एवात्र प्रमाणम् । सूत्रादर्शेषु एतत् पदत्रयं समुपलभ्यत इत्यस्माभिरत्राल्पबहुत्वे आदृतमस्ति ॥

पञ्चत्तया असंखेज्जगुणा ५, सुहुमवणप्फइकाइया पञ्चत्तया अणंतगुणा ६, सुहुमा पञ्चत्तया विसेसाधिया ७ ।

२४०. [१] एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्तयाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमा अपञ्चत्तगा, सुहुमा पञ्चत्तगा संखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमपुढविकाइया अपञ्चत्तगा, सुहुमपुढविकाइया पञ्चत्तगा संखेज्जगुणा ।

[३] एतेसि णं भंते ! सुहुमआउकाइयाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमआउकाइया अपञ्चत्तया, सुहुमआउकाइया पञ्चत्तगा संखेज्जगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपञ्चत्तया, सुहुमतेउकाइया पञ्चत्तगा संखेज्जगुणा ।

[५] एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमवाउकाइया अपञ्चत्तया, सुहुमवाउकाइया पञ्चत्तगा संखेज्जगुणा ।

[६] एएसि णं भंते ! सुहुमवणप्फइकाइयाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमवणप्फइकाइया अपञ्चत्तगा, सुहुमवणप्फइकाइया पञ्चत्तगा संखेज्जगुणा ।

[७] एएसि णं भंते ! सुहुमनिगोदाणं पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमनिगोदा अपञ्चत्तगा, सुहुमनिगोदा पञ्चत्तया संखेज्जगुणा ।

२४१. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं य पञ्चत्ताऽपञ्चत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाधिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपञ्चत्तगा १, सुहुमपुढविकाइया अपञ्चत्तया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया अपञ्चत्तया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया अपञ्चत्तया विसेसाहिया ४, सुहुमतेउकाइया पञ्चत्तगा

विसेसाहिया १०, वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ११, सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १२, वणप्फतिकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा १३, सकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया १४, सकाइया विसेसाधिया १५ ।

२३७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउक्काइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमणिओयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया १, सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा असंखेज्जगुणा ५, सुहुमवणप्फइकाइया अणंतगुणा ६, सुहुमा विसेसाहिया ७ ।

२३८. एतेसि णं भंते ! सुहुमअपज्जत्तगाणं सुहुमपुढविकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमआउकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमवाउकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमवणप्फइकाइयापज्जत्तयाणं सुहुमणिगोदापज्जत्तयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तया १, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, सुहुमवणप्फतिकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ६, सुहुमा अपज्जत्तगा विसेसाहिया ७ ।

२३९. एतेसि णं भंते ! सुहुमपज्जत्तगाणं सुहुमपुढविकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमआउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमतेउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमवाउकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमवणप्फइकाइयपज्जत्तगाणं सुहुमनिगोदपज्जत्तगाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउक्काइया पज्जत्तगा १, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया ४, सुहुमणिओया

१. अत्राल्पबहुत्वे सूत्रादेशेषु पञ्चदश पदानि वरीवृत्त्यन्ते, किञ्च श्रीमलयगिरिपादैः स्वटीकायां द्वादश पदान्येव निर्दिष्टानि दृश्यन्ते । तथाहि—“ततः पृथिव्यव्वायवः पर्याप्ताः क्रमेण विशेषाधिकाः ८१५।१०। ततो वनस्पतयोऽपर्याप्ता अनन्तगुणाः ११, पर्याप्ताः संख्येयगुणाः १२।” इति अस्मिन् व्याख्याने ‘सक्कायिकाः अपर्याप्ताः १ सक्कायिका. पर्याप्ताः २ सक्कायिकाः ३’ इति पदत्रयविषयमल्पबहुत्वं नात्रार्थे दृश्यते इति तद्विदो गीतार्था एवात्र प्रमाणम् । निखिलेष्वपि सूत्रादेशेषु एतत् पदत्रयं समुपलभ्यत इत्यस्माभिरत्राल्पबहुत्वे आदृतमस्ति ॥

वादरतसकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा २, पत्तेयसरीरवायरवणप्फइकाइया पञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, वायरनिगोदा पञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ४, वादरपुढविकाइया पञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, वादरआउकाइया पञ्जत्तगा असंखिज्जगुणा ६, वादरवाउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ७, वादरवणप्फइकाइया पञ्जत्तया अणंतगुणा ८, वायरपञ्जत्तया विसेसाहिया ९ ।

५

२४५. [१] एतेसि णं भंते ! वादराणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरा पञ्जत्तगा, वायरा अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! वादरपुढविकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरपुढविकाइया पञ्जत्तगा, वादरपुढविकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा । १०

[३] एतेसि णं भंते ! वादरआउकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरआउकाइया पञ्जत्तगा, वादरआउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! वादरतेउकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पञ्जत्तया, वादरतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा । १५

[५] एतेसि णं भंते ! वादरवाउकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरवाउकाइया पञ्जत्तगा, वादरवाउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा । २०

[६] एतेसि णं भंते ! वादरवणप्फइकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरवणप्फइकाइया पञ्जत्तगा, वादरवणप्फइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ।

[७] एतेसि णं भंते ! पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया पञ्जत्तगा, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा । २५

[८] एतेसि णं भंते ! वादरनिगोदाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो

- संखेज्जगुणा ५, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ६, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ७, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ८, सुहुमनिगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ९, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया संखेज्जगुणा १०, सुहुमवणप्फइकाइया अपज्जत्तया अणंतगुणा ११, सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया १२, सुहुमवणप्फइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा १३, सुहुमा पज्जत्तया विसेसाहिया १४, सुहुमा विसेसाहिया १५ ।

२४२. एतेसि णं भंते ! वादराणं वादरपुढविकाइयाणं वादरआउकाइयाणं वादरतेउकाइयाणं वादरवाउकाइयाणं वादरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीर-
 वादरवणप्फइकाइयाणं वादरनिगोदाणं वादरतसकाइयाणं य कतरे कतरेहिंतो
 १० अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरा तसकाइया १, वादरा तेउकाइया असंखेज्जगुणा २, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया असंखेज्जगुणा ३, वादरा निगोदा असंखेज्जगुणा ४, वादरा पुढविकाइया असंखेज्जगुणा ५, वादरा आउकाइया असंखेज्जगुणा ६, वादरा वाउकाइया असंखेज्जगुणा ७, वादरा वणप्फइकाइया अणंतगुणा ८, वादरा विसेसाहिया ९ ।

२४३. एतेसि णं भंते ! वादरअपज्जत्तगाणं वादरपुढविकाइयअपज्जत्तगाणं वादरआउकाइयअपज्जत्तगाणं वादरतेउकाइयअपज्जत्तगाणं वादरवाउकाइयअपज्जत्तगाणं वादरवणप्फइकाइयअपज्जत्तयाणं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइयअपज्जत्तगाणं वादरनिगोदापज्जत्तगाणं वादरतसकाइयापज्जत्तयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतसकाइया
 २० अपज्जत्तगा १, वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, वादरनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ४, वादरपुढविकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, वादरआउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ६, वादरवाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ७, वादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा ८, वादरअपज्जत्तगा विसेसाहिया ९ ।

२४४. एतेसि णं भंते ! वादरपज्जत्तयाणं वादरपुढविकाइयपज्जत्तयाणं वादरआउकाइयपज्जत्तयाणं वादरतेउकाइयपज्जत्तयाणं वादरवाउकाइयपज्जत्तयाणं वादरवणप्फइकाइयपज्जत्तयाणं पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइयपज्जत्तयाणं वादरनिगोदपज्जत्तयाणं वादरतसकाइयपज्जत्तयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तया १,

वाद्रतसकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा २, पत्तेयसरीरवायरवणप्फइकाइया पञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, वायरनिगोदा पञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ४, वाद्रपुढविकाइया पञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, वाद्रआउकाइया पञ्जत्तगा असंखिज्जगुणा ६, वाद्रवाउकाइया पञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ७, वाद्रवणप्फइकाइया पञ्जत्तया अणंतगुणा ८, वायरपञ्जत्तया विसेसाहिया ९ ।

५

२४५. [१] एतेसि णं भंते ! वादराणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वाद्रा पञ्जत्तगा, वायरा अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! वाद्रपुढविकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वाद्रपुढविकाइया पञ्जत्तगा, वाद्रपुढविकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा । १०

[३] एतेसि णं भंते ! वाद्रआउकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वाद्रआउकाइया पञ्जत्तगा, वाद्रआउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ।

[४] एतेसि णं भंते ! वाद्रतेउकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वाद्रतेउकाइया पञ्जत्तया, वाद्रतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा । १५

[५] एतेसि णं भंते ! वाद्रवाउकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वाद्रवाउकाइया पञ्जत्तगा, वाद्रवाउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा । २०

[६] एतेसि णं भंते ! वाद्रवणप्फइकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वाद्रवणप्फइकाइया पञ्जत्तगा, वाद्रवणप्फइकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ।

[७] एतेसि णं भंते ! पत्तेयसरीरवाद्रवणप्फइकाइयाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा पत्तेयसरीरवाद्रवणप्फइकाइया पञ्जत्तगा, पत्तेयसरीरवाद्रवणप्फइकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा । २५

[८] एतेसि णं भंते ! वाद्रनिगोदाणं पञ्जत्ताऽपञ्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो

अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चादर-
निगोदा पज्जत्ता, चादरनिगोदा अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ।

[९] एएसि णं भंते ! चादरतसकाइयाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे
कतरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
५ चादरतसकाइया पज्जत्ता, चादरतसकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ।

२४६. एएसि णं भंते ! चादराणं चादरपुढविकाइयाणं चादरआउका-
इयाणं चादरतेउकाइयाणं चादरवाउकाइयाणं चादरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीर-
चादरवणप्फइकाइयाणं चादरनिगोदाणं चादरतसकाइयाणं य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे
कतरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थो-
१० वा चादरतेउकाइया पज्जत्ता १, चादरतसकाइया पज्जत्ता असंखेज्जगुणा २,
चादरतसकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ३, पत्तेयसरीरचादरवणस्सइकाइया
पज्जत्ता असंखेज्जगुणा ४, चादरनिगोदा पज्जत्ता असंखेज्जगुणा ५, चादरपुढ-
विकाइया पज्जत्ता असंखेज्जगुणा ६, चादरआउकाइया पज्जत्ता असंखेज्जगुणा ७,
चादरवाउकाइया पज्जत्ता असंखेज्जगुणा ८, चादरतेउकाइया अपज्जत्ता
१५ असंखेज्जगुणा ९, पत्तेयसरीरचादरवणस्सइकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा १०,
चादरनिगोदा अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ११, चादरपुढविकाइया अपज्जत्ता
असंखेज्जगुणा १२, चादरआउकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा १३, चादरवाउ-
काइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा १४, चादरवणस्सइकाइया पज्जत्ता अणंतगुणा
१५, चादरपज्जत्ता विसेसाहिया १६, चादरवणस्सइकाइया अपज्जत्ता असंखे-
२० ज्जगुणा १७, चादरअपज्जत्ता विसेसाहिया १८, चादरा विसेसाहिया १९ ।

२४७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं
सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं
चादराणं चादरपुढविकाइयाणं चादरआउकाइयाणं चादरतेउकाइयाणं चादरवाउका-
इयाणं चादरवणप्फइकाइयाणं पत्तेयसरीरचादरवणप्फइकाइयाणं चादरणिगोदाणं
२५ चादरतसकाइयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चादरतसकाइया १, चादरतेउकाइया असंखेज्जगुणा २,
पत्तेयसरीरचादरवणप्फइकाइया असंखेज्जगुणा ३, चादरनिगोदा असंखेज्जगुणा ४,
चादरपुढविकाइया असंखेज्जगुणा ५, चादरआउकाइया असंखेज्जगुणा ६,

चादरवाउकाइया असंखेज्जगुणा ७, सुहुमतेउकाइया असंखेज्जगुणा ८, सुहुमपुढ-
विकाइया विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया
विसेसाहिया ११, सुहुमणिगोदा असंखेज्जगुणा १२, चादरवणस्सइकाइया
अणंतगुणा १३, चादरा विसेसाहिया १४, सुहुमवणस्सइकाइया असंखेज्जगुणा १५,
सुहुमा विसेसाहिया १६ ।

५

२४८. एतेसि णं भंते ! सुहुमअपज्जत्तयाणं सुहुमपुढविकाइयाणं
अपज्जत्तयाणं सुहुमआउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं
सुहुमवाउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुम-
णिगोदापज्जत्तयाणं चादरापज्जत्तयाणं चादरपुढविकाइयापज्जत्तयाणं चादरआउ-
काइयापज्जत्तयाणं चादरतेउकाइयापज्जत्तयाणं चादरवाउकाइयापज्जत्तयाणं चादर- १०
वणप्फइकाइयापज्जत्तयाणं पत्तेयसरीरचादरवणप्फइकाइयापज्जत्तयाणं चादरणि-
गोदापज्जत्तयाणं चादरतसकाइयापज्जत्तयाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा चादरतसकाइया अपज्जत्तगा १,
चादरतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पत्तेयसरीरचादरवणप्फइकाइया
अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, चादरणिगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ४, १५
चादरपुढविकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ५, चादरआउक्काइया अपज्जत्तगा
असंखेज्जगुणा ६, चादरवाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ७, सुहुमते-
उकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ८, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा
विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया
अपज्जत्तगा विसेसाहिया ११, सुहुमणिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा १२, २०
चादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा १३, चादरा अपज्जत्तगा
विसेसाहिया १४, सुहुमवणप्फइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा १५, सुहुमा
अपज्जत्तगा विसेसाहिया १६ ।

२४९. एतेसि णं भंते ! सुहुमपज्जत्तयाणं सुहुमपुढविकाइयपज्जत्तयाणं
सुहुमआउकाइयपज्जत्तयाणं सुहुमतेउकाइयपज्जत्तयाणं सुहुमवाउकाइयपज्जत्तयाणं २५
सुहुमवणप्फइकाइयपज्जत्तयाणं सुहुमनिगोयपज्जत्तयाणं चादरपज्जत्तयाणं चादर-
पुढविकाइयपज्जत्तयाणं चादरआउकाइयपज्जत्तयाणं चादरतेउकाइयपज्जत्तयाणं चादर-
वाउकाइयपज्जत्तयाणं चादरवणप्फइकाइयपज्जत्तयाणं पत्तेयसरीरचादरवणप्फइकाइय-
पज्जत्तयाणं चादरनिगोदपज्जत्तयाणं चादरतसकाइयपज्जत्तयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा

- वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तगा १, वादरतसकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, पत्तेयसरिीरवादरवणप्फइकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, वादरनिगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ४, वादरपुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ५, वादरआउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ६, वादरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ७, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ८, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया ११, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा १२, वादरवणप्फइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा १३, वादरा पज्जत्तया विसेसाहिया १४, सुहुमवणप्फइकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा १५, सुहुमा पज्जत्तया विसेसाहिया १६ ।

२५०. [१] एएसि णं भंते ! सुहुमाणं वादराण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरा पज्जत्तगा १, वादरा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, सुहुमा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, सुहुमा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ४ ।

१५ [२] एएसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं वादरपुढविकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरपुढविकाइया पज्जत्तगा १, वादरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा ४ ।

२० [३] एएसि णं भंते ! सुहुमआउकाइयाणं वादरआउकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरआउकाइया पज्जत्तया १, वादरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा ४ ।

२५ [४] एएसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं वादरतेउकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तगा १, वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २, सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ४ ।

[५] एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं वादरवाउकाइयाणं य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वादरवाउकाइया पज्जत्तया १, वादरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा ४ ।

५

[६] एएसि णं भंते ! सुहुमवणस्सतिकाइयाणं वादरवणस्सतिकाइयाणं य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वादरवणस्सइकाइया पज्जत्तया १, वादरवणस्सतिकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २, सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तया संखेज्जगुणा ४ ।

१०

[७] एतेसि णं भंते ! सुहुमनिगोदाणं वादरनिगोदाणं य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वादरनिगोदा पज्जत्तया १, वायरनिगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २, सुहुमनिगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया संखेज्जगुणा ४ ।

२५१. एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं वादरणं वादरपुढविकाइयाणं वादरआउकाइयाणं वादरतेउकाइयाणं वादरवाउकाइयाणं वादरवणस्सतिकाइयाणं पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइयाणं वादरनिगोदाणं वादरतसकाइयाणं य पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तया १, वादरतसकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा २, वादरतसकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ४, वादरनिगोदा पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ५, वादरपुढविकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ६, वादरआउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ७, वादरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ८, वादरतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ९, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा १०, वायरणिगोया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा ११, वादरपुढविकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा १२, वायरआउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा १३, वादरवाउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा १४, सुहुमतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा १५, सुहुमपुढविकाइया

१५

२०

२५

- अपज्जत्तगा विसेसाहिया १६, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १७, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया विसेसाहिया १८, सुहुमतेउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा १९, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया २०, सुहुमआउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया २१, सुहुमवाउकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया २२, सुहुम-
 ५ निगोदा अपज्जत्तया असंखेज्जगुणा २३, सुहुमनिगोदा पज्जत्तया संखेज्जगुणा २४, वादरवणप्फइकाइया पज्जत्तया अणंतगुणा २५, वादरपज्जत्तगा विसेसाहिया २६, वादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा २७, वादरअपज्जत्तया विसेसाहिया २८, वादरा विसेसाहिया २९, सुहुमवणप्फतिकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३०, सुहुमा अपज्जत्तया विसेसाहिया ३१, सुहुमवणप्फतिकाइया पज्जत्तगा
 १० संखेज्जगुणा ३२, सुहुमपज्जत्तया विसेसाहिया ३३, सुहुमा विसेसाहिया ३४ । दारं ४ ॥

[सुत्तं २५२. पंचमं जोगदारं]

२५२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सजोगीणं मणजोगीणं वइजोगीणं कायजोगीणं अजोगीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
 १५ वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मणजोगी १, वइजोगी असंखेज्जगुणा २, अजोगी अणंतगुणा ३, कायजोगी अणंतगुणा ४, सजोगी विसेसाहिया ५ । दारं ५ ॥

[सुत्तं २५३. छट्ठं वेयदारं]

२५३. एएसि णं भंते ! जीवाणं सवेदगाणं इत्थीवेदगाणं पुरिसवेदगाणं
 २० नपुंसकवेदगाणं अवेदगाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा पुरिसवेदगा १, इत्थीवेदगा संखेज्जगुणा २, अवेदगा अणंतगुणा ३, नपुंसकवेदगा अणंतगुणा ४, सवेयगा विसेसाहिया ५ । दारं ६ ॥

[सुत्तं २५४. सत्तमं कसायदारं]

२५४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सकसाईणं कोहकसाईणं माणकसाईणं मायकसाईणं लोभकसाईणं अकसाईणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अकसायी १, माणकसायी

अणंतगुणा २, कोहकसायी विसेसाहिया ३, मायकसाई विसेसाहिया ४, लोहकसाई विसेसाहिया ५, सकसाई विसेसाहिया ६ । दारं ७ ॥

[सुत्तं २५५. अट्टमं लेस्सादारं]

२५५. एएसि णं भंते ! जीवाणं सलेस्साणं किण्हलेस्साणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं सुकलेस्साणं अलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा सुकलेस्सा १, पम्हलेस्सा संखेज्जगुणा २, तेउलेस्सा संखेज्जगुणा ३, अलेस्सा अणंतगुणा ४, काउलेस्सा अणंतगुणा ५, नीललेस्सा विसेसाहिया ६, किण्हलेस्सा विसेसाहिया ७, सलेस्सा विसेसाधिया ८ । दारं ८ ॥

[सुत्तं २५६. नवमं सम्मत्तदारं]

१०

२५६. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सम्मद्दिट्ठीणं मिच्छद्दिट्ठीणं सम्मामिच्छद्दिट्ठीणं च कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा सम्मामिच्छद्दिट्ठी १, सम्मद्दिट्ठी अणंतगुणा २, मिच्छद्दिट्ठी अणंतगुणा ३ । दारं ९ ॥

[सुत्ताइं २५७-२५९. दसमं गाणदारं]

१५

२५७. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिवोहियणाणीणं सुतणाणीणं ओहिणाणीणं मणपज्जवणाणीणं केवलणाणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी १, ओहिणाणी असंखेज्जगुणा २, आभिणिवोहियणाणी सुयणाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया ३, केवलणाणी अणंतगुणा ४ ।

२०

२५८. एतेसि णं भंते ! जीवाणं मइअण्णाणीणं सुतअण्णाणीणं विहंगणाणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा विभंगणाणी १, मइअण्णाणी सुतअण्णाणी दो वि तुल्ला अणंतगुणा २ ।

२५९. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिवोहियणाणीणं सुयणाणीणं ओहिणाणीणं मणपज्जवणाणीणं केवलणाणीणं मतिअण्णाणीणं सुतअण्णाणीणं विभंगणाणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !

२५

सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी १, ओहिणाणी असंखेज्जगुणा २, आभिणि-
चोहियणाणी सुतणाणी य दो वि तुल्ला विसेसाहिया ३, विहंगणाणी असंखेज्जगुणा
४, केवलणाणी अणंतगुणा ५, मइअण्णाणी सुतअण्णाणी य दो वि तुल्ला
अणंतगुणा ६ । दारं १० ॥

५

[सुत्तं २६०. एक्कारसमं दंसणदारं]

२६०. एतेसि णं भंते ! जीवाणं चक्खुदंसणीणं अचक्खुदंसणीणं
ओहिदंसणीणं केवलदंसणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा ओहिदंसणी १, चक्खुदंसणी
असंखेज्जगुणा २, केवलदंसणी अणंतगुणा ३, अचक्खुदंसणी अणंतगुणा ४ ।

१०

दारं ११ ॥

[सुत्तं २६१. दुवालसमं संजयदारं]

२६१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं
नोसंजयनोअसंजयनोसंजतासंजताणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा संजता १, संजयासंजता
असंखेज्जगुणा २, नोसंजतनोअसंजतनोसंजतासंजता अणंतगुणा ३, असंजता
अणंतगुणा ४ । दारं १२ ॥

१५

[सुत्तं २६२. तेरसमं उवओगदारं]

२६२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताणं
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !
२० सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता १, सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा २ । दारं १३ ॥

[सुत्तं २६३. चोदसमं आहारदारं]

२६३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाणं य कतरे
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
जीवा अणाहारगा १, आहारगा असंखेज्जगुणा २ । दारं १४ ॥

२५

[सुत्तं २६४. पनरसमं भासगदारं]

२६४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं भासगाणं अभासगाणं य कतरे

कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा भासगा १, अभासगा अणंतगुणा २ । दारं १५ ॥

[सुत्तं २६५. सोलसमं परित्तदारं]

२६५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं परित्ताणं अपरित्ताणं नोपरित्तनोअपरित्ताणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा परित्ता १, नोपरित्तनोअपरित्ता अणंतगुणा २, अपरित्ता अणंतगुणा ३ । दारं १६ ॥

[सुत्तं २६६. सत्तरसमं पज्जत्तदारं]

२६६. एएसि णं भंते ! जीवाणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं नोपज्जत्तनोअपज्जत्ताणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा नोपज्जत्तगनोअपज्जत्तगा १, अपज्जत्तगा अणंतगुणा २, पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ३ । दारं १७ ॥

[सुत्तं २६७. अट्टारसमं सुहुमदारं]

२६७. एएसि णं भंते ! जीवाणं सुहुमाणं वादराणं नोसुहुमनोवादराणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा णोसुहुमणोवादरा १, वादरा अणंतगुणा २, सुहुमा असंखेज्जगुणा ३ । दारं १८ ॥

[सुत्तं २६८. एगूणवीसइमं सण्णिदारं]

२६८. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सण्णीणं असण्णीणं नोसण्णीनोअसण्णीणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सण्णी १, णोसण्णीणोअसण्णी अणंतगुणा २, असण्णी अणंतगुणा ३ । दारं १९ ॥

[सुत्तं २६९. वीसइमं भवदारं]

२६९. एतेसि णं भंते ! जीवाणं भवसिद्धियाणं अभवसिद्धियाणं णोभवसिद्धियणोअभवसिद्धियाणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया १, णोभवसिद्धियणोअभवसिद्धिया अणंतगुणा २, भवसिद्धिया अणंतगुणा ३ । दारं २० ॥

सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवणाणी १, ओहिणाणी असंखेज्जगुणा २, आमिणि-
चोहियणाणी सुतणाणी य दो वि तुल्ला विसेसाहिया ३, विहंगणाणी असंखेज्जगुणा
४, केवलणाणी अणंतगुणा ५, मइअण्णाणी सुतअण्णाणी य दो वि तुल्ला
अणंतगुणा ६ । दारं १० ॥

५

[सुत्तं २६०. एकारसमं दंसणदारं]

२६०. एतेसि णं भंते ! जीवाणं चक्खुदंसणीणं अचक्खुदंसणीणं
ओहिदंसणीणं केवलदंसणीणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा ओहिदंसणी १, चक्खुदंसणी
असंखेज्जगुणा २, केवलदंसणी अणंतगुणा ३, अचक्खुदंसणी अणंतगुणा ४ ।

१० दारं ११ ॥

[सुत्तं २६१. दुवालसमं संजयदारं]

२६१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं
नोसंजयनोअसंजयनोसंजतासंजताणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा संजता १, संजयासंजता
१५ असंखेज्जगुणा २, नोसंजतनोअसंजतनोसंजतासंजता अणंतगुणा ३, असंजता
अणंतगुणा ४ । दारं १२ ॥

[सुत्तं २६२. तेरसमं उवओगदारं]

२६२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताणं
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !
२० सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता १, सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा २ । दारं १३ ॥

[सुत्तं २६३. चोदसमं आहारदारं]

२६३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाणं य कतरे
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
जीवा अणाहारगा १, आहारगा असंखेज्जगुणा २ । दारं १४ ॥

२५

[सुत्तं २६४. पनरसमं भासगदारं]

२६४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं भासगाणं अभासगाणं य कतरे

कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा भासगा १, अभासगा अणंतगुणा २ । दारं १५ ॥

[सुत्तं २६५. सोलसमं परित्तदारं]

२६५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं परित्ताणं अपरित्ताणं नोपरित्तनोअपरित्ताणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा परित्ता १, नोपरित्तनोअपरित्ता अणंतगुणा २, अपरित्ता अणंतगुणा ३ । दारं १६ ॥

[सुत्तं २६६. सत्तरसमं पज्जत्तदारं]

२६६. एएसि णं भंते ! जीवाणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं नोपज्जत्तनोअपज्जत्ताणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा नोपज्जत्तगनोअपज्जत्तगा १, अपज्जत्तगा अणंतगुणा २, पज्जत्तगा संखेज्जगुणा ३ । दारं १७ ॥

[सुत्तं २६७. अट्टारसमं सुहुमदारं]

२६७. एएसि णं भंते ! जीवाणं सुहुमाणं वादराणं नोसुहुमनोवादराणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा णोसुहुमणोवादरा १, वादरा अणंतगुणा २, सुहुमा असंखेज्जगुणा ३ । दारं १८ ॥

[सुत्तं २६८. एगूणवीसइमं सण्णिदारं]

२६८. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सण्णीणं असण्णीणं नोसण्णीनोअसण्णीणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सण्णी १, णोसण्णीणोअसण्णी अणंतगुणा २, असण्णी अणंतगुणा ३ । दारं १९ ॥

[सुत्तं २६९. वीसइमं भवदारं]

२६९. एतेसि णं भंते ! जीवाणं भवसिद्धियाणं अभवसिद्धियाणं णोभवसिद्धियाणोअभवसिद्धियाणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया १, णोभवसिद्धियाणोअभवसिद्धिया अणंतगुणा २, भवसिद्धिया अणंतगुणा ३ । दारं २० ॥

[सुत्ताइं २७०-२७३. एगवीसइमं अत्थिकायदारं]

२७०. एतेसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय-आगासत्थिकाय-जीव-
त्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय-अद्धासमयाणं दव्वड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया
वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए
५ य एए तिननि वि तुल्ला दव्वड्डयाए सव्वत्थोवा १, जीवत्थिकाए दव्वड्डयाए अणंतगुणे
२, पोग्गलत्थिकाए दव्वड्डयाए अणंतगुणे ३, अद्धासमए दव्वड्डयाए अणंतगुणे ४ ।

२७१. एएसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय-आगासत्थिकाय-
जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय-अद्धासमयाणं पदेसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा
बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए य
१० एते णं दो वि तुल्ला पदेसड्डयाए सव्वत्थोवा १, जीवत्थिकाए पदेसड्डयाए अणंत-
गुणे २, पोग्गलत्थिकाए पदेसड्डयाए अणंतगुणे ३, अद्धासमए पदेसड्डयाए
अणंतगुणे ४, आगासत्थिकाए पदेसड्डयाए अणंतगुणे ५ ।

२७२. [१] एतस्स णं भंते ! धम्मत्थिकायस्स दव्वड्ड-पदेसड्डयाए कतरे
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे
१५ एगे धम्मत्थिकाए दव्वड्डयाए, से चेव पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणे ।

[२] एतस्स णं भंते ! अधम्मत्थिकायस्स दव्वड्ड-पदेसड्डयाए कतरे
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे
एगे अधम्मत्थिकाए दव्वड्डयाए, से चेव पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणे ।

[३] एतस्स णं भंते ! आगासत्थिकायस्स दव्वड्ड-पदेसड्डयाए कतरे
२० कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे
एगे आगासत्थिकाए दव्वड्डयाए, से चेव पदेसड्डयाए अणंतगुणे ।

[४] एतस्स णं भंते ! जीवत्थिकायस्स दव्वड्ड-पदेसड्डयाए कतरे
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे
जीवत्थिकाए दव्वड्डयाए, से चेव पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणे ।

२५ [५] एतस्स णं भंते ! पोग्गलत्थिकायस्स दव्वड्ड-पदेसड्डयाए कतरे
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे
पोग्गलत्थिकाए दव्वड्डयाए, से चेव पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणे ।

[६] अद्वासमए ण पुच्छिज्जइ पदेसाभावा ।

२७३. एतेसि णं भंते ! धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय-आगासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय-अद्वासमयाणं दव्वट्ट-पदेसट्टताए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए अधम्म-त्थिकाए आगासत्थिकाए य एते णं तिण्णि वि तुल्ला दव्वट्टयाए सव्वत्थोवा १, धम्म-त्थिकाए अधम्मत्थिकाए य एते णं दोण्णि वि तुल्ला पदेसट्टताए असंखेज्जगुणा २, जीवत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे ३, से चव पदेसट्टताए असंखेज्जगुणे ४, पोग्गलत्थिकाए दव्वट्टयाए अणंतगुणे ५, से चव पदेसट्टयाए असंखेज्जगुणे ६, अद्वासमए दव्वट्ट-पदेसट्टयाए अणंतगुणे ७, आगासत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे ८ । दारं २१ ॥

१०

[सुत्तं २७४. वावीसइमं चरिमदारं]

२७४. एतेसि णं भंते ! जीवाणं चरिमाणं अचरिमाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अचरिमा १, चरिमा अणंतगुणा २ । दारं २२ ॥

[सुत्तं २७५. तेवीसइमं जीवदारं]

१५

२७५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं पोग्गलाणं अद्वासमयाणं सव्वदव्वानं सव्वपदेसाणं सव्वपज्जवाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा १, पोग्गला अणंतगुणा २, अद्वासमया अणंतगुणा ३, सव्वदव्वा विसेसाहिया ४, सव्वपदेसा अणंतगुणा ५, सव्वपज्जवा अणंतगुणा ६ । दारं २३ ॥

२०

[सुत्ताइं २७६-३२४. चउवीसइमं खेत्तदारं]

२७६. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा जीवा उड्डुल्लोयतिरियलोए १, अहेलोय-तिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ३, तेलोक्के असंखेज्जगुणा ४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अहेलोए विसेसाहिया ६ ।

२७७. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया तेलोक्के १, अहेलोकतिरियलोए असंखेज्जगुणा २, अहेलोए असंखेज्जगुणा ३ ।

२५

२७८. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया उड्डुल्लोयतिरियलोए १, अहेल्लोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ३, तेलोक्के असंखेज्जगुणा ४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अधेल्लोए विसेसाहिया ६ ।

२७९. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ तिरिक्खजोणिणीओ उड्डुलोए १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ २, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ ३, अधेल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ ४, अधेल्लोए संखेज्जगुणाओ ५, तिरियलोए संखेज्जगुणाओ ६ ।

२८०. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा तेलोक्के १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा २, अधेल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अधेल्लोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए संखेज्जगुणा ६ ।

२८१. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ तेलोक्के १, उड्डुल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ २, अधेल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणाओ ४, अधेल्लोए संखेज्जगुणाओ ५, तिरियलोए संखेज्जगुणाओ ६ ।

२८२. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा उड्डुलोए १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा २, तेलोक्के संखेज्जगुणा ३, अधेल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ४, अधेल्लोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए संखेज्जगुणा ६ ।

२८३. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ देवीओ उड्डुलोए १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ २, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ ३, अधेल्लोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ ४, अधेल्लोए संखेज्जगुणाओ ५ तिरियलोए संखेज्जगुणाओ ६ ।

२८४. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा भवणवासी देवा उड्डुलोए १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा २, तेलोक्के संखेज्जगुणा ३, अधेल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा ४, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ५, अधेल्लोए असंखेज्जगुणा ६ ।

२८५. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ उड्डुलोए १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ २, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ ३, अधेल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ ४, तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ ५, अधेल्लोए असंखेज्जगुणाओ ६ ।

२८६. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उड्डुलोए १, उड्डुल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा २, तेलोक्के संखेज्जगुणा ३, अधेल्लोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा ४, अहेल्लोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए संखेज्जगुणा ६ ।

२८७. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवाओ वाणमंतरीओ देवीओ उड्डुलोए १, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ २, तेलोक्के संखिज्जगुणाओ ३, अधोलोय-तिरियलोए असंखिज्जगुणाओ ४, अधोलोए संखिज्जगुणाओ ५, तिरियलोए संखिज्जगुणाओ ६ ।

२८८. खित्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा जोइसिया देवा उड्डुलोए १, उड्डुलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा २, तेलोक्के संखेज्जगुणा ३, अधोलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा ४, अधोलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ । ५

२८९. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवाओ जोइसिणीओ देवीओ उड्डुलोए १, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणाओ २, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ ३ अधोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ ४ अधोलोए संखेज्जगुणाओ ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ ६ । १०

२९०. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा वेमाणिया देवा [ग्रन्थाग्रम् २०००] उड्डुलोयतिरियलोए १, तेलोक्के संखेज्जगुणा २, अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, अधोलोए संखेज्जगुणा ४, तिरियलोए संखेज्जगुणा ५, उड्डुलोए असंखे-ज्जगुणा ६ । १५

२९१. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवाओ वेमाणिणीओ देवीओ उड्डुलोय-तिरियलोए १, तेलोक्के संखेज्जगुणाओ २, अधोलोयतिरियलोए संखेज्जगुणाओ ३, अधोलोए संखिज्जगुणाओ ४, तिरियलोए संखेज्जगुणाओ ५, उड्डुलोए असंखेज्ज-गुणाओ ६ ।

२९२. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उड्डुलोयतिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ३, तेलोक्के असं-खेज्जगुणा ४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६ । २०

२९३. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा एगिंदिया जीवा अपज्जत्तगा उड्डुलोय-तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ३, तेलोक्के असंखेज्जगुणा ४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६ । २५

२९४. खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा एगिंदिया जीवा पज्जत्तगा उड्डुलोय-तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ३, तेलोक्के असंखेज्जगुणा ४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६ ।

लोए संखेज्जगुणा २, अहेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अघेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ ।

३२३. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तया तेलोक्के १, उड्डुलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा २, अघेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अघेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ । ५

३२४. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के १, उड्डुलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा २, अघेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अघेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ । दारं २४ ॥

[सुत्तं ३२५. पंचवीसइमं बंधदारं]

३२५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं अवंधगाणं १०
पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं सुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सातावेदगाणं
असातावेदगाणं इंदियउवउत्ताणं नोइंदियउवउत्ताणं सागारोवउत्ताणं अणागारोव-
उत्ताणं य कतरे कतरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !
सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स बंधगा १, अपज्जत्तया संखेज्जगुणा २, सुत्ता
संखेज्जगुणा ३, समोहता संखेज्जगुणा ४, सातावेदगा संखेज्जगुणा ५, इंदिओव- १५
उत्ता संखेज्जगुणा ६, अणागारोवउत्ता संखेज्जगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेज्ज-
गुणा ८, नोइंदियउवउत्ता विसेसाहिया ९, अस्सातावेदगा विसेसाहिया १०,
असमोहता विसेसाहिया ११, जागरा विसेसाहिया १२, पज्जत्तया विसेसाहिया
१३, आउयस्स कम्मस्स अवंधगा विसेसाहिया १४ । दारं २५ ॥

[सुत्ताई ३२६-३३३. छव्वीसइमं पोग्गलदारं]

२०

३२६. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पोग्गला तेलोक्के १, उड्डुलोयतिरियलोए
अणंतगुणा २, अघेलोयतिरियलोए विसेसाहिया ३, तिरियलोए असंखेज्जगुणा
४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अघेलोए विसेसाहिया ६ ।

३२७. दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पोग्गला उड्डुदिसाए १, अघेदिसाए
विसेसाहिया २, उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा २५
३, दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला विसेसाधिया ४,
पुरत्थिमेणं असंखेज्जगुणा ५, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ६, दाहिणेणं विसेसाहिया
७, उत्तरेणं विसेसाहिया ८ ।

लोए संखेज्जगुणा २, अहेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अधेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ ।

३२३. खैत्ताणुवाएणं सच्चत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तया तेलोक्के १, उड्डुलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अधेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ ।

३२४. खैत्ताणुवाएणं सच्चत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के १, उड्डुलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डुलोए संखेज्जगुणा ४, अधेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ । दारं २४ ॥

[सुत्तं ३२५. पंचवीसइमं बंधदारं]

३२५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं अबंधगाणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं सुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सातावेदगाणं असातावेदगाणं इंदियउवउत्ताणं नोइंदियउवउत्ताणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स बंधगा १, अपज्जत्तया संखेज्जगुणा २, सुत्ता संखेज्जगुणा ३, समोहता संखेज्जगुणा ४, सातावेदगा संखेज्जगुणा ५, इंदिओवउत्ता संखेज्जगुणा ६, अणागारोवउत्ता संखेज्जगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा ८, नोइंदियउवउत्ता विसेसाहिया ९, अस्सातावेदगा विसेसाहिया १०, असमोहता विसेसाहिया ११, जागरा विसेसाहिया १२, पज्जत्तया विसेसाहिया १३, आउयस्स कम्मस्स अबंधगा विसेसाहिया १४ । दारं २५ ॥

[सुत्ताइं ३२६-३३३. छव्वीसइमं पोग्गलदारं]

३२६. खैत्ताणुवाएणं सच्चत्थोवा पोग्गला तेलोक्के १, उड्डुलोयतिरियलोए अणंतगुणा २, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया ३, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ४, उड्डुलोए असंखेज्जगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ ।

३२७. दिसाणुवाएणं सच्चत्थोवा पोग्गला उड्डुदिसाए १, अधेदिसाए विसेसाहिया २, उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा ३, दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला विसेसाधिया ४, पुरत्थिमेणं असंखेज्जगुणा ५, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ६, दाहिणेणं विसेसाहिया ७, उत्तेरेणं विसेसाहिया ८ ।

लोए संखेज्जगुणा २, अहेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डलोए संखेज्जगुणा ४, अधेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ ।

३२३. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया अपज्जत्तया तेलोक्के १, उड्डलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डलोए संखेज्जगुणा ४, अधेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ ।

३२४. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तया तेलोक्के १, उड्डलोयतिरियलोए असंखेज्जगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेज्जगुणा ३, उड्डलोए संखेज्जगुणा ४, अधेलोए संखेज्जगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ६ । दारं २४ ॥

[सुत्तं ३२५. पंचवीसइमं बंधदारं]

३२५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं अवंधगाणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं सुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सातावेदगाणं असातावेदगाणं इंद्रियउवउत्ताणं नोइंद्रियउवउत्ताणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बह्हुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स बंधगा १, अपज्जत्तया संखेज्जगुणा २, सुत्ता संखेज्जगुणा ३, समोहता संखेज्जगुणा ४, सातावेदगा संखेज्जगुणा ५, इंद्रिओवउत्ता संखेज्जगुणा ६, अणागारोवउत्ता संखेज्जगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेज्जगुणा ८, नोइंद्रियउवउत्ता विसेसाहिया ९, अस्सातावेदगा विसेसाहिया १०, असमोहता विसेसाहिया ११, जागरा विसेसाहिया १२, पज्जत्तया विसेसाहिया १३, आउयस्स कम्मस्स अवंधगा विसेसाहिया १४ । दारं २५ ॥

[सुत्ताई ३२६-३३३. छव्वीसइमं पोग्गलद्वारं]

३२६. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पोग्गला तेलोक्के १, उड्डलोयतिरियलोए अणंतगुणा २, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया ३, तिरियलोए असंखेज्जगुणा ४, उड्डलोए असंखेज्जगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ ।

३२७. दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पोग्गला उड्डदिसाए १, अधेदिसाए विसेसाहिया २, उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा ३, दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेणं य दो वि तुल्ला विसेसाधिया ४, पुरत्थिमेणं असंखेज्जगुणा ५, पच्चत्थिमेणं विसेसाहिया ६, दाहिणेणं विसेसाहिया ७, उत्तरेणं विसेसाहिया ८ ।

३२८. खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाइं दव्वाइं तेलोक्के १, उड्डुलोयतिरियलोए अणंतगुणाइं २, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहियाइं ३, उड्डुलोए असंखेज्जगुणाइं ४, अधेलोए अणंतगुणाइं ५, तिरियलोए संखेज्जगुणाइं ६ ।

३२९. दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवाइं दव्वाइं अधेदिसाए १, उड्डुदिसाए अणंतगुणाइं २, उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य दो वि तुल्लाइं असंखेज्जगुणाइं ३, दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेण य दो वि तुल्लाइं विसेसाहियाइं ४, पुरत्थिमेणं असंखेज्जगुणाइं ५, पच्चत्थिमेणं विसेसाहियाइं ६, दाहिणेणं विसेसाहियाइं ७, उत्तरेणं विसेसाहियाइं ८ ।

३३०. एतेसि णं भंते! परमाणुपोग्गलाणं संखेज्जपदेसियाणं असंखेज्जपदेसियाणं अणंतपदेसियाण य खंधाणं दव्वड्डयाए पदेसड्डयाए दव्वड्डपदेसड्डताए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सव्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा दव्वड्डयाए १, परमाणुपोग्गला दव्वड्डताए अणंतगुणा २, संखेज्जपदेसिया खंधा दव्वड्डयाए संखेज्जगुणा ३, असंखेज्जपदेसिया खंधा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा ४; पदेसड्डयाए—सव्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा पएसड्डयाए १, परमाणुपोग्गला अपदेसड्डयाए अणंतगुणा २, संखेज्जपदेसिया खंधा पदेसड्डयाए संखेज्जगुणा ३, असंखेज्जपदेसिया खंधा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा ४; दव्वड्डपदेसड्डयाए—सव्वत्थोवा अणंतपदेसिया खंधा दव्वड्डयाए १, ते चेव पदेसड्डयाए अणंतगुणा २, परमाणुपोग्गला दव्वड्डअपदेसड्डयाए अणंतगुणा ३, संखेज्जपदेसिया खंधा दव्वड्डयाए संखेज्जगुणा ४, ते चेव पदेसड्डयाए संखेज्जगुणा ५, असंखेज्जपदेसिया खंधा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा ६, ते चेव पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा ७ ।

३३१. एतेसि णं भंते! एगपदेसोगाढाणं संखेज्जपएसोगाढाणं असंखेज्जपएसोगाढाण य पोग्गलाणं दव्वड्डयाए पदेसड्डयाए दव्वड्डपदेसड्डताए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सव्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोग्गला दव्वड्डयाए १, संखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्वड्डयाए संखेज्जगुणा २, असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा ३; पएसड्डयाए—सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला पएसड्डयाए १, संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पदेसड्डयाए संखेज्जगुणा २, असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा ३; दव्वड्डपएसड्डयाए—सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला दव्वड्ड-

पएसड्डयाए १, संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला दच्चड्डयाए संखेज्जगुणा २, ते चेव पएसड्डयाए संखेज्जगुणा ३, असंखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दच्चड्डयाए असंखेज्जगुणा ४, ते चेव पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा ५ ।

३३२. एतेसि णं भंते ! एगसमयठितीयाणं संखेज्जसमयठितीयाणं असंखेज्जसमयठितीयाणं य पोग्गलाणं दच्चड्डयाए पदेसड्डयाए दच्चड्डपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा एगसमयठितीया पोग्गला दच्चड्डयाए १, संखेज्जसमयठितीया पोग्गला दच्चड्डयाए संखेज्जगुणा २, असंखेज्जसमयठितीया पोग्गला दच्चड्डयाए असंखेज्जगुणा ३; पदेसड्डयाए—सव्वत्थोवा एगसमयठितीया पोग्गला अपदेसड्डयाए १, संखेज्जसमयठितीया पोग्गला पदेसड्डयाए संखेज्जगुणा २, असंखेज्जसमयठितीया पोग्गला पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा ३; दच्चड्डपदेसड्डयाए—सव्वत्थोवा एगसमयठितीया पोग्गला दच्चड्डपदेसड्डयाए १, संखेज्जसमयठितीया पोग्गला दच्चड्डयाए संखेज्जगुणा २, ते चेव पदेसड्डयाए संखेज्जगुणा ३, असंखेज्जसमयठितीया पोग्गला दच्चड्डयाए असंखेज्जगुणा ४, ते चेव पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा ५ ।

३३३. एतेसि णं भंते ! एगगुणकालगाणं संखेज्जगुणकालगाणं असंखेज्जगुणकालगाणं अणंतगुणकालगाणं य पोग्गलाणं दच्चड्डयाए पदेसड्डयाए दच्चड्डपदेसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! जहा परमाणुपोग्गला (सु. ३३०) तहा भाणितव्वा । एवं संखेज्जगुणकालयाणं वि । एवं सेसा वि वण्ण-गंध-रसा भाणितव्वा । फासाणं कक्खड्ड-मउय-नारुय-लहुयाणं जधा एगपदेसोगाढाणं (सु. ३३१) भणितं तहा भाणितव्वं । अवसेसा फासा जधा वण्णा भणित्ता तधा भाणितव्वा । दारं २६ ॥

[सुत्तं ३३४. सत्तावीसइमं महादंडयदारं]

३३४. अह भंते ! सव्वजीवप्पवहुं महादंडयं वत्तइस्सामि—सव्वत्थोवा गम्भवक्कंतिया मणुस्सा १, मणुस्सीओ संखेज्जगुणाओ २, चादरतेउक्काइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ३, अणुत्तरोववाइया देवा असंखेज्जगुणा ४, उवरिमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगुणा ५, मज्झिमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगुणा ६, हेड्डिमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगुणा ७, अच्चुते कप्पे देवा संखेज्जगुणा ८, आरणे कप्पे देवा

- संखेजगुणा ९, पाणए कप्पे देवा संखेजगुणा १०, आणए कप्पे देवा संखेजगुणा ११, अधेसत्तमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १२, छट्ठीए तमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १३, सहस्सारे कप्पे देवा असंखेजगुणा १४, महासुक्के कप्पे देवा असंखेजगुणा १५, पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १६, लंतए कप्पे देवा असंखेजगुणा १७, चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १८, वंभलोए कप्पे देवा असंखेजगुणा १९, तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा २०, माहिंदे कप्पे देवा असंखेजगुणा २१, सणं-कुमारे कप्पे देवा असंखेजगुणा २२, दौच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा २३, सम्मुच्छिमणुस्सा असंखेजगुणा २४, ईसाणे कप्पे देवा असंखेजगुणा २५, ईसाणे कप्पे देवीओ संखेजगुणाओ २६, सोहम्मे कप्पे देवा संखेजगुणा २७, सोहम्मे कप्पे देवीओ संखेजगुणाओ २८, भवणवासी देवा असंखेजगुणा २९, भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३०, इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा ३१, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा असंखेजगुणा ३२, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३३, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३४, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३५, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३६, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३७, वाणमंतरा देवा संखेजगुणा ३८, वाणमंतरीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३९, जोइसिया देवा संखेजगुणा ४०, जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ४१, खहयरपंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४२, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४३, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४४, चउरिंदिया पज्जत्तया संखेजगुणा ४५, पंचेंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४६, वेइंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४७, तेइंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४८, पंचिंदिया अपज्जत्तया असंखेजगुणा ४९, चउरिंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया

अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ६०, वादरपुढविकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा
 ६१, वादरआउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ६२, वादरवाउकाइया
 अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ६३, सुहुमतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा
 ६४, सुहुमपुढविकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया ६५, सुहुमआउकाइया
 अपञ्जत्तगा विसेसाहिया ६६, सुहुमवाउकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया ६७, ५
 सुहुमतउकाइया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा ६८, सुहुमपुढविकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया
 ६९, सुहुमआउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया ७०, सुहुमवाउकाइया पञ्जत्तया
 विसेसाहिया ७१, सुहुमणिगोदा अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ७२, सुहुमणिगोदा
 पञ्जत्तया संखेज्जगुणा ७३, अभवासिद्धिया अणंतगुणा ७४, परिवडितसम्मत्ता
 अणंतगुणा ७५, सिद्धा अणंतगुणा ७६, वादरवणस्सतिकाइया पञ्जत्तगा अणंत- १०
 गुणा ७७, वादरपञ्जत्तया विसेसाहिया ७८, वादरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया
 असंखेज्जगुणा ७९, वादरअपञ्जत्तगा विसेसाहिया ८०, वादरा विसेसाहिया
 ८१, सुहुमवणस्सतिकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ८२, सुहुमा अपञ्जत्तया
 विसेसाहिया ८३, सुहुमवणस्सइकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा ८४, सुहुम-
 पञ्जत्तया विसेसाहिया ८५, सुहुमा विसेसाहिया ८६, भवसिद्धिया विसेसाहिया १५
 ८७, निगोदजीवा विसेसाहिया ८८, वणप्फतिजीवा विसेसाहिया ८९, एर्गिदियाँ
 विसेसाहिया ९०, तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया ९१, मिच्छदिट्ठी विसेसाहिया
 ९२, अविरता विसेसाहिया ९३, सकसाई विसेसाहिया ९४, छउमत्था
 विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ९६, संसारत्था विसेसाहिया ९७,
 सच्चजीवा विसेसाहिया ९८ । दारं २७ ॥ २०

॥ पणवणाए भगवईए तइयं बहुवत्तव्वयपयं समत्तं ॥

- संखेजगुणा ९, पाणए कप्ये देवा संखेजगुणा १०, आणए कप्ये देवा संखेजगुणा ११, अधेसत्तमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १२, छट्टीए तमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १३, सहस्सारे कप्ये देवा असंखेजगुणा १४, महासुक्ये कप्ये देवा असंखेजगुणा १५, पंचमाए धूमप्पमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १६, लंतए कप्ये देवा असंखेजगुणा १७, चउत्थीए पंकप्पमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा १८, बंभलोए कप्ये देवा असंखेजगुणा १९, तच्चाए वालयप्पमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा २०, माहिंदे कप्ये देवा असंखेजगुणा २१, सणं-कुमारे कप्ये देवा असंखेजगुणा २२, दोच्चाए सक्करप्पमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा २३, सम्मुच्छिममणुस्सा असंखेजगुणा २४, ईसाणे कप्ये देवा असंखेजगुणा २५, ईसाणे कप्ये देवीओ संखेजगुणाओ २६, सोहम्मे कप्ये देवा संखेजगुणा २७, सोहम्मे कप्ये देवीओ संखेजगुणाओ २८, भवणवासी देवा असंखेजगुणा २९, भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३०, इमीसे रतणप्पमाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा ३१, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा असंखेजगुणा ३२, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३३, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३४, थलयरपंचेंदियतिरिक्ख-जोणिणीओ संखेजगुणाओ ३५, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३६, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ ३७, वाणमंतरा देवा संखेजगुणा ३८, वाणमंतरीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३९, जोइसिया देवा संखेजगुणा ४०, जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ४१, खहयरपंचेंदिय-तिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४२, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४३, जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेजगुणा ४४, चउरिंदिया पज्जत्तया संखेजगुणा ४५, पंचेंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४६, वेइंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४७, तेइंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया ४८, पंचेंदिया अपज्जत्तया असंखेजगुणा ४९, चउरिंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया ५०, तेइंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया ५१, वेइंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया ५२, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ५३, वादरणिगोदा पज्जत्तया असंखेजगुणा ५४, वादरपुढविकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ५५, वादरआउकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ५६, वादरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेजगुणा ५७, वादरतेउकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा ५८, पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा ५९, वादरणिगोदा

अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ६०, वादरपुढविकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा
 ६१, वादरआउकाइया अपञ्जत्तगा असंखेज्जगुणा ६२, वादरवाउकाइया
 अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ६३, सुहुमतेउकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा
 ६४, सुहुमपुढविकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया ६५, सुहुमआउकाइया
 अपञ्जत्तगा विसेसाहिया ६६, सुहुमवाउकाइया अपञ्जत्तगा विसेसाहिया ६७, ५
 सुहुमतउकाइया पञ्जत्तगा संखेज्जगुणा ६८, सुहुमपुढविकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया
 ६९, सुहुमआउकाइया पञ्जत्तया विसेसाहिया ७०, सुहुमवाउकाइया पञ्जत्तया
 विसेसाहिया ७१, सुहुमणिगोदा अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ७२, सुहुमणिगोदा
 पञ्जत्तया संखेज्जगुणा ७३, अभवसिद्धिया अणंतगुणा ७४, परिवडितसम्मत्ता
 अणंतगुणा ७५, सिद्धा अणंतगुणा ७६, वादरवणस्सतिकाइया पञ्जत्तगा अणंत- १०
 गुणा ७७, वादरपञ्जत्तया विसेसाहिया ७८, वादरवणस्सइकाइया अपञ्जत्तया
 असंखेज्जगुणा ७९, वादरअपञ्जत्तगा विसेसाहिया ८०, वादरा विसेसाहिया
 ८१, सुहुमवणस्सतिकाइया अपञ्जत्तया असंखेज्जगुणा ८२, सुहुमा अपञ्जत्तया
 विसेसाहिया ८३, सुहुमवणस्सइकाइया पञ्जत्तया संखेज्जगुणा ८४, सुहुम-
 पञ्जत्तया विसेसाहिया ८५, सुहुमा विसेसाहिया ८६, भवसिद्धिया विसेसाहिया १५
 ८७, निगोदजीवा विसेसाहिया ८८, वणप्फतिजीवा विसेसाहिया ८९, एगिंदियाँ
 विसेसाहिया ९०, तिखिखजोणिया विसेसाहिया ९१, मिच्छदिट्ठी विसेसाहिया
 ९२, अविरता विसेसाहिया ९३, सकसाई विसेसाहिया ९४, छउमत्था
 विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ९६, संसारत्था विसेसाहिया ९७,
 सव्वजीवा विसेसाहिया ९८ । दारं २७ ॥ २०

॥ पण्णवणाए भगवईए तइयं बहुवत्तव्वयपयं समत्तं ॥

४. चउत्थं ठिइपयं

[सुत्ताइं ३३५-३४२. नेरइयठिइपण्णवणा]

३३५. [१] नेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

५ [२] अपज्जत्तयनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयणेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१० ३३६. [१] रयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सागरोवमं ।

[२] अपज्जत्तयरयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयरयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३३७. [१] सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एमं सागरोवमं, उक्कोसेणं तिण्णि सागरोवमाइं ।

२० [२] अपज्जत्तयसक्करप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयसक्करप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तिण्णि सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

२५ ३३८. [१] वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं तिण्णि सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयवालुयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयवालुयप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती

पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं तिण्णि सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३३९. [१] पंक्कप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयपंक्कप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती ५ पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयपंक्कप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४०. [१] धूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती १० पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयधूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयधूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरो- १५ वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४१. [१] तमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चावीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयतमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । २०

[३] पज्जत्तयतमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चावीसं सागरो- वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४२. [१] अधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं चावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं । २५

[२] अपज्जत्तयअधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयअधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती

पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४३-३४४. देव-देवीठिइपणवणा]

३४३. [१] देवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!

५ जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं १० अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४४. [१] देवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तगदेवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयदेवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४५-३५३. भवणवासिठिइपणवणा]

३४५. [१] भवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं ।

[२] अपज्जत्तयभवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयभवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं । २५

३४६. [१] भवणवासिणीणं भंते! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं ।

[२] अपञ्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

५

३४७. [१] असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं ।

[२] अपञ्जत्तयअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तयअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

१०

३४८. [१] असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं ।

[२] अपञ्जत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५

[३] पञ्जत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४९. [१] णागकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं ।

२०

[२] अपञ्जत्तयाणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तयाणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

२५

३५०. [१] नागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं ।

पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४३-३४४. देव-देवीठिइपणवणा]

५ ३४३. [१] देवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१० [३] पज्जत्तयदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४४. [१] देवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयदेवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयदेवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४५-३५३. भवणवासिठिइपणवणा]

२० ३४५. [१] भवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता?
गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं ।

[२] अपज्जत्तयभवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती
पणत्ता? गोयमा! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२५ [३] पज्जत्तयभवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता?
गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगं
सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३४६. [१] भवणवासिणीणं भंते! देवीणं केवतियं कालं ठिती
पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओ-
वमाइं ।

[२] अपञ्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४७. [१] असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं ।

[२] अपञ्जत्तयअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तयअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३४८. [१] असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं ।

[२] अपञ्जत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४९. [१] णागकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं ।

[२] अपञ्जत्तयाणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पञ्जत्तयाणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५०. [१] नागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं ।

पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४३-३४४. देव-देवीढिइपणवणा]

५ ३४३. [१] देवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं
१० अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३४४. [१] देवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयदेवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयदेवीणं भंते! केवतियं कालं ठिती पणत्ता? गोयमा!
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३४५-३५३. भवणवासिढिइपणवणा]

२० ३४५. [१] भवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता?
गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं ।

[२] अपज्जत्तयभवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती
पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयभवणवासीणं भंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता?
गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगं
२५ सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३४६. [१] भवणवासिणीणं भंते! देवीणं केवतियं कालं ठिती
पणत्ता? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाइं पलिओ-
वमाइं ।

[२] अपज्जत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

३५६. [१] वादरपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, ५
उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयवादरपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयवादरपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं । १०

३५७. [१] आउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं । १५

३५८. सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य जहा सुहुमपुढविकाइयाणं (सु. ३५५) तहा भाणितव्वं ।

३५९. [१] वादरआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतो-मुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं । २०

[२] अपज्जत्तयवादरआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

३६०. [१] तेउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं । २५

[२] अपज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[२] अपज्जत्तियाणं णागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं णागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३५१. [१] सुवण्णकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं ।

[२] अपज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१० [३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५२. [१] सुवण्णकुमारीणं भंते ! देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं ।

[२] अपज्जत्तियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

३५३. एवं एएणं अभिलावेणं ओहिय-अपज्जत्त-पज्जत्तसुत्तत्तयं देवाण य देवीण य गेयव्वं जाव थणियकुमाराणं जहा णागकुमाराणं (सु. ३४९) ।

२० [सुत्ताइं ३५४-३६८. एगिंदियठिइपणवणा]

३५४. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२५ [३] पज्जत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५५. [१] सुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[२] अपज्जत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

३५६. [१] वादरपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, ५
उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयवादरपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयवादरपुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, १०
उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५७. [१] आउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, १५
उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३५८. सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य जहा
सुहुमपुढविकाइयाणं (सु. ३५५) तहा भाणितव्वं ।

३५९. [१] वादरआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतो-
मुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयवादरआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त
वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६०. [१] तेउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं । २५

[२] अपज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६१. सुहुमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

५ ३६२. [१] वादरतेउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं ।

[२] अपज्जत्तयवादरतेउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६३. [१] वाउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६४. [१] सुहुमवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[२] अपज्जत्तयसुहुमवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

३६५. [१] वादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६६. [१] वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तवणप्फटिकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

३६७. सुहुमवणप्फइकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्ताणं पज्जत्ताण य ५
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

३६८. [१] वादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तवादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

१०

[३] पज्जत्तवादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

[सुत्तं ३६९. वेइंदियठिइपण्णवणा]

३६९. [१] वेइंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस संवच्छराइं ।

१५

[२] अपज्जत्तवेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तवेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस संवच्छराइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

[सुत्तं ३७०. तेइंदियठिइपण्णवणा]

२०

३७०. [१] तेइंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं एगूणवण्णं रातिंदियाइं ।

[२] अपज्जत्ततेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्ततेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं एगूणवण्णं रातिंदियाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

२५

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६१. सुहुमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाणं य जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

५ ३६२. [१] वादरतेउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं ।

[२] अपज्जत्तयवादरतेउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

१० [३] पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६३. [१] वाउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६४. [१] सुहुमवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

२० [२] अपज्जत्तयसुहुमवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

३६५. [१] वादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं ।

२५ [२] अपज्जत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६६. [१] वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं ।

[२] अपजत्तवणप्फटिकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्तवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६७. सुहुमवणप्फइकाइयाणं ओहियाणं अपजत्ताणं पजत्ताण य ५
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

३६८. [१] वादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं ।

[२] अपजत्तवादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] पजत्तवादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्तं ३६९. वेइंदियठिइपणवणा]

३६९. [१] वेइंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चारस संवच्छराइं ।

१५

[२] अपजत्तवेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्तवेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चारस संवच्छराइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्तं ३७०. तेइंदियठिइपणवणा]

२०

३७०. [१] तेइंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगूणवण्णं रातिंदियाइं ।

[२] अपजत्ततेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्ततेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं एगूणवण्णं रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

२५

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६१. सुहुमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपज्जत्तयाणं पज्जत्तयाण य जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

५ ३६२. [१] वादरतेउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं ।

[२] अपज्जत्तयवादरतेउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१० [३] पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६३. [१] वाउकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६४. [१] सुहुमवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२० [२] अपज्जत्तयसुहुमवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

३६५. [१] वादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साइं ।

२५ [२] अपज्जत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३६६. [१] वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं ।

३७५. [१] जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं
ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं ५
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७६. [१] सम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७७. [१] गम्भवक्कंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । १५
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७८. [१] चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

२०

[२] अपज्जत्तयचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३७९. [१] सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । २५
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीइं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[सुत्तं ३७१. चउरिंदियठिइपणवणा]

३७१. [१] चउरिंदियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

[२] अपज्जत्तयचउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
५ वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयचउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तूणा ।

[सुत्ताइं ३७२-३८९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियठिइपणवणा]

३७२. [१] पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती
१० पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३७३. [१] सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
१५ जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
२० जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७४. [१] गन्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयगन्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगन्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
२५ जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३७५. [१] जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं
ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं ५
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७६. [१] सम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १०

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७७. [१] गम्भवक्कंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । १५
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३७८. [१] चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं । २०

[२] अपज्जत्तयचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३७९. [१] सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । २५
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीइं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तगसम्मच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीइं वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

३८०. [१] गम्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

५ [२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

१० ३८१. [१] उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं अंते ! केवतियं
कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तगउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोसुहुत्तूणा ।

१५ ३८२. [१] सम्मुच्छिमसामण्णपुच्छ कायच्चा । १ गोयमा ! जहन्नेणं
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवण्णं वाससहस्साइं । -

[२] सम्मुच्छिमअपज्जत्तगउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२० [३] पज्जत्तगसम्मच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवण्णं वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

३८३. [१] गम्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं
पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तगगम्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं
पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२५ [३] पज्जत्तगगम्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोसुहुत्तूणा ।

१. °याणं पुच्छ । गोयमा ! ध० ॥ २. - - एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठः म० आदर्शं
एव वर्तते ॥

३८४. [१] भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी ।

[२] अपज्जत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! ५
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८५. [१] सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गायमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १०

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वातालीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८६. [१] गम्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी ।

[२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८७. [१] खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागो । २०

[२] अपज्जत्तयखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागो अंतोमुहुत्तूणो । २५

३८८. [१] सम्मुच्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावत्तरिं वाससहस्साइं ।

[३] पज्जत्तगसम्मच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीइं वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

३८०. [१] गम्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

५ [२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

१० ३८१. [१] उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केव्रतियं
कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तगउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोसुहुत्तूणा ।

१५ ३८२. [१] सम्मुच्छिमसामण्णपुच्छ कायव्वा । १ गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवण्णं वाससहस्साइं । -

[२] सम्मुच्छिमअपज्जत्तगउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२० [३] पज्जत्तगसम्मच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवण्णं वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

३८३. [१] गम्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं
पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तगगम्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं
पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२५ [३] पज्जत्तगगम्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोसुहुत्तूणा ।

१. ०थाणं पुच्छ । गोयमा ! ध० ॥ २. १ - १ एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठः म० आदेशे
एव वर्तते ॥

३८४. [१] भुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८५. [१] सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गायमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वातालीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८६. [१] गम्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८७. [१] खहयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागो ।

[२] अपज्जत्तयखहयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयखहयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागो अंतोमुहुत्तूणो ।

३८८. [१] सम्मुच्छिमखहयरपंचेंद्रियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावत्तरिं वाससहस्साइं ।

[३] पज्जत्तगसम्मच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीइं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८०. [१] गन्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

५ [२] अपज्जत्तयगन्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगन्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१० ३८१. [१] उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतियं
कालं ठिती पण्णात्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तयउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तगउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

१५ ३८२. [१] सम्मुच्छिमसामण्णपुच्छा कायव्वा । १ गोयमा ! जहन्नेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवण्णं वाससहस्साइं । -

[२] सम्मुच्छिमअपज्जत्तगउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२० [३] पज्जत्तगसम्मच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ।
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवण्णं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८३. [१] गन्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं
पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।

[२] अपज्जत्तगगन्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं
पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२५ [३] पज्जत्तगगन्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु-
च्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८४. [१] भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी ।

[२] अपज्जत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८५. [१] सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गायमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साइं ।

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वातालीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३८६. [१] गन्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी ।

[२] अपज्जत्तयगन्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५

[३] पज्जत्तयगन्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुच्चकोडी अंतोमुहुत्तूणा ।

३८७. [१] खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जभागो ।

२०

[२] अपज्जत्तयखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जभागो अंतोमुहुत्तूणो ।

३८८. [१] सम्मुच्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्च । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावत्तरिं वाससहस्साइं ।

२५

[२] अपज्जत्तयसम्मुच्छिमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयसम्मुच्छिमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चावत्तरिं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

५ ३८९. [१] गम्भवक्कंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जिभागो ।

[२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जिभागो अंतोमुहुत्तूणो ।

[सुत्ताइं ३९०-३९२. मणुस्साठिइपणवणा]

३९०. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तगमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३९१. सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२० ३९२. [१] गम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयगम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयगम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३९३-३९४. वाणमंतरठिइपणवणा]

३९३. [१] मंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ?

गोयमा !

उक्कोसेणं

पलिओवमं ।

[२] अपज्जत्तयवाणमंतराणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयाणं वाणमंतराणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं ।

३९४. [१] वाणमंतरीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? ५
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं ।

[२] अपज्जत्तियाणं भंते ! वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं भंते ! वाणमंतरीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं । १०

[सुत्ताइं ३९५-४०६. जोइसियठिइपणवणा]

३९५. [१] जोइसियाणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमइभागो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्स-
मम्भहियं ।

[२] अपज्जत्तयजोइसियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण १५
वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तयजोइसियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमइभागो
अंतोसुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्समम्भहियं अंतोसुहुत्तूणं ।

३९६. [१] जोइसिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमइभागो, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासवास- २०
सहस्समम्भहियं ।

[२] अपज्जत्तियाणं जोइसिणीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं जोइसिणीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओव-
मइभागो अंतोसुहुत्तूणो, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं अम्भहियं २५
अंतोसुहुत्तूणं ।

[२] अपजत्तयसम्मुच्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्तयसम्मुच्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चावत्तरिं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

५ ३८९. [१] गम्भवक्कंतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जतिभागो ।

[२] अपजत्तयगम्भवक्कंतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्तयगम्भवक्कंतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जिभागो अंतोमुहुत्तूणो ।

[सुत्ताइं ३९०-३९२. मणुस्सटिइपणवणा]

३९०. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

१५ [२] अपजत्तगमणुस्साणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्तयमणुस्साणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

३९१. सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

२० ३९२. [१] गम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ।

[२] अपजत्तयगम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] पजत्तयगम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

[सुत्ताइं ३९३-३९४. वाणमंतराठिइपणवणा]

३९३. [१] वाणमंतराणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलिओवमं ।

४०१. [१] गहविमाणे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
पलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं ।

[२] गहविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] गहविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग- ५
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं ।

४०२. [१] गहविमाणे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं ।

[२] गहविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं गहविमाणे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं ।

४०३. [१] णक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं ।

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि १५
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] णक्खत्तविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं ।

४०४. [१] नक्खत्तविमाणे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगं चउभागपलिओवमं ।

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] नक्खत्तविमाणे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेगं चउभागपलिओवमं
अंतोसुहुत्तूणं ।

४०५. [१] ताराविमाणे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अद्दभाग-
पलिओवमं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं ।

[२] ताराविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

१०

१५

२०

२५

३९७. [१] चंदविमाणे णं भंते ! देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्समब्भहियं ।

[२] चंदविमाणे णं भंते ! अपज्जत्तयदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

५ [३] चंदविमाणे णं पज्जत्तयाणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससतसहस्समब्भहियं अंतोसुहुत्तूणं ।

३९८. [१] चंदविमाणे णं भंते ! देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिमब्भहियं ।

१० [२] चंदविमाणे णं भंते ! अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] चंदविमाणे णं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं अब्भहियं अंतोसुहुत्तूणं ।

१५ ३९९. [१] सूरविमाणे णं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्समब्भहियं ।

[२] सूरविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२० [३] सूरविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्समब्भहियं अंतोसुहुत्तूणं ।

४००. [१] सूरविमाणे देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचहिं वाससतेहिमब्भहियं ।

[२] सूरविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२५ [३] सूरविमाणे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचहिं वाससतेहिं अब्भहियं अंतोसुहुत्तूणं ।

४०१. [१] गहविमाणे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
पलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं ।

[२] गहविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] गहविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग- ५
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

४०२. [१] गहविमाणे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं ।

[२] गहविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] पज्जत्तियाणं गहविमाणे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

४०३. [१] णक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं ।

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि १५
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] णक्खत्तविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग-
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं अद्दपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ।

४०४. [१] नक्खत्तविमाणे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगं चउभागपलिओवमं ।

२०

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] नक्खत्तविमाणे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेगं चउभागपलिओवमं
अंतोमुहुत्तूणं ।

२५

४०५. [१] ताराविमाणे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अद्दभाग-
पलिओवमं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं ।

[२] ताराविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ताराविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्टभाग-
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं ।

४०६. [१] ताराविमाणे देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगं अट्टभागपलिओवमं ।

५ [२] ताराविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] ताराविमाणे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
अट्टभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेगं अट्टभागपलिओवमं
अंतोसुहुत्तूणं ।

१० [सुत्ताइं ४०७-४३७. वेमाणियदेवठिइपण्णवणा]

४०७. [१] वेमाणियाणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयवेमाणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोसुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयाणं वेमाणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं
अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४०८. [१] वेमाणिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं ।

२० [२] अपज्जत्तियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४०९. [१] सोहम्मे णं भंते ! कप्पे देवाणं केवतियं कालं ठिती
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं ।

२५ [२] सोहम्मे कप्पे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] सोहम्मे कप्पे पज्जत्तयाणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४१०. [१] सोहम्मे कप्पे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं [ग्रन्थाग्रम् २५००] ।

[३] सोहम्मे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं । ५

४११. [१] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १०

[३] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं ।

४१२. [१] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । १५

[३] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं ।

४१३. [१] ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं । २०

[२] ईसाणे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाइं ।

४१४. [१] ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं । २५

[२] ईसाणे कप्पे देवीणं अपज्जत्तियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ताराविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्टभाग-
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं ।

४०६. [१] ताराविमाणे देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगं अट्टभागपलिओवमं ।

९ [२] ताराविमाणे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] ताराविमाणे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
अट्टभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेगं अट्टभागपलिओवमं
अंतोसुहुत्तूणं ।

१० [सुत्ताइं ४०७-४३७. वेमाणियदेवठिइपणवणा]

४०७. [१] वेमाणियाणं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] अपज्जत्तयवेमाणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोसुहुत्तं ।

१५ [३] पज्जत्तयाणं वेमाणियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं
अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४०८. [१] वेमाणिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कालं ठिती पणत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

२० [२] अपज्जत्तियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पज्जत्तियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४०९. [१] सोहम्मे णं भंते ! कप्पे देवाणं केवतियं कालं ठिती
पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं ।

२५ [२] सोहम्मे कप्पे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] सोहम्मे कप्पे पज्जत्तयाणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं
पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४१०. [१] सोहम्मे कप्पे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं [ग्रन्थाग्रम् २५००] ।

[३] सोहम्मे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तुणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४११. [१] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१२. [१] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं ।

[२] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१३. [१] ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं ।

[२] ईसाणे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१४. [१] ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

[२] ईसाणे कप्पे देवीणं अपज्जत्तियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१५. [१] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं णव पलिओवमाइं।

५ [२] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

[३] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

१० ४१६. [१] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं।

[२] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

१५ [३] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पज्जत्तियाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१७. [१] सणंकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं।

२० [२] सणंकुमारे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

[३] सणंकुमारे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१८. [१] माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त साहियाइं सागरोवमाइं।

२५ [२] माहिंदे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

[३] माहिंदे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१९. [१] बंमलोए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं ।

[२] बंमलोए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] बंमलोए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं ५
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२०. [१] लंतए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाइं ।

[२] लंतए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] लंतए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चोदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२१. [१] महासुक्के देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] महासुक्क अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि १५
अंतोमुहुत्तं ।

[३] महासुक्के पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोव-
माइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२२. [१] सहस्सारे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं ।

२०

[२] सहस्सारे अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं ।

[३] सहस्सारे पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरो-
वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२३. [१] आणए देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारस २५
सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकूणवीसं सागरोवमाइं ।

[२] आणए अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१५. [१] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं णव पलिओवमाइं ।

५ [२] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१० ४१६. [१] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं ।

[२] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पज्जत्तियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१७. [१] सणकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं ।

२० [२] सणकुमारे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सणकुमारे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१८. [१] माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त साहियाइं सागरोवमाइं ।

२५ [२] माहिंदे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] माहिंदे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१९. [१] वंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं ।

[२] वंभलोए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] वंभलोए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं ५
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२०. [१] लंतए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाइं ।

[२] लंतए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] लंतए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चोदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२१. [१] महासुक्के देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] महासुक्क अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि १५
अंतोमुहुत्तं ।

[३] महासुक्के पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोव-
माइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२२. [१] सहस्सारे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं ।

२०

[२] सहस्सारे अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं ।

[३] सहस्सारे पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरो-
वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२३. [१] आणए देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारस २५
सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकूणवीसं सागरोवमाइं ।

[२] आणए अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१५. [१] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं णव पलिओवमाइं।

५ [२] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

[३] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

१० ४१६. [१] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं।

[२] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

१५ [३] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पज्जत्तियाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१७. [१] सणंकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं।

२० [२] सणंकुमारे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

[३] सणंकुमारे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१८. [१] माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त साहियाइं सागरोवमाइं।

२५ [२] माहिंदे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं।

[३] माहिंदे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं।

४१९. [१] वंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं ।

[२] वंभलोए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] वंभलोए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं ५
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२०. [१] लंतए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाइं ।

[२] लंतए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] लंतए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चोदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२१. [१] महासुक्के देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] महासुक्क अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५

[३] महासुक्के पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२२. [१] सहस्सारे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं ।

२०

[२] सहस्सारे अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सहस्सारे पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२३. [१] आणए देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकूणवीसं सागरोवमाइं ।

२५

[२] आणए अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१५. [१] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं णव पलिओवमाइं ।

५ [२] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१० ४१६. [१] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं ।

[२] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पज्जत्तियाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१७. [१] सणंकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं ।

२० [२] सणंकुमारे कप्पे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सणंकुमारे कप्पे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१८. [१] माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्त साहियाइं सागरोवमाइं ।

२५ [२] माहिंदे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] माहिंदे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगाइं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सातिरेगाइं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४१९. [१] बंमलोए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं ।

[२] बंमलोए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] बंमलोए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं ५
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२०. [१] लंतए कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाइं ।

[२] लंतए अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१०

[३] लंतए पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चोदस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२१. [१] महासुक्के देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं ।

[२] महासुक्क अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि १५
अंतोमुहुत्तं ।

[३] महासुक्के पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदस सागरोव-
माइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२२. [१] सहस्सारे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं ।

२०

[२] सहस्सारे अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तं ।

[३] सहस्सारे पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरो-
वमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४२३. [१] आणए देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारस २५
सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकूणवीसं सागरोवमाइं ।

[२] आणए अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] आणए पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारस सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४२४. [१] पाणए कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं ।

५ [२] पाणए अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] पाणए पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

१० ४२५. [१] आरणे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं ।

[२] आरणे अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] आरणे पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

१५ ४२६. [१] अच्चुए कप्पे देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइं ।

[२] अच्चुए अपज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२० [३] अच्चुते पज्जत्ताणं देवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एक्कवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४२७. [१] हेट्ठिमहेट्ठिमगेवेज्जदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाइं ।

[२] हेट्ठिमहेट्ठिमअपज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

२५ [३] हेट्ठिमहेट्ठिमपज्जत्तदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४२८. [१] हेट्ठिममज्झिमगेवेज्जदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउवीसं सागरोवमाइं ।

[२] हेडिममज्झिमअपज्जत्तयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को-
सेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] हेडिममज्झिमगेवेज्जदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
तेवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं चउवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४२९. [१] हेडिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं ५
चउवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं पणुवीसं सागरोवमाइं ।

[२] हेडिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] हेडिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
चउवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पणुवीसं सागरोवमाइं १०
अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४३०. [१] मज्झिमहेडिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
पणुवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं छवीसं सागरोवमाइं ।

[२] मज्झिमहेडिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । १५

[३] मज्झिमहेडिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं पणुवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं छवीसं सागरोवमाइं
अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४३१. [१] मज्झिममज्झिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
छवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं । २०

[२] मज्झिममज्झिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] मज्झिममज्झिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
छवीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं
अंतोसुहुत्तूणाइं । २५

४३२. [१] मज्झिमउवरिमगेवेज्जाणं देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
सत्तावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं ।

[२] मज्झिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] मञ्जिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३३. [१] उवरिमहेड्ढिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिमहेड्ढिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिमहेड्ढिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइं, अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३४. [१] उवरिममञ्जिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिममञ्जिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिममञ्जिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३५. [१] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३६. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिएसु णं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ढिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] विजय-त्रेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३७. [१] सँव्वट्टसिद्धगदेवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिती पणत्ता ।

[२] सँव्वट्टसिद्धगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सँव्वट्टसिद्धगदेवाणं पज्जत्ताणं [भंते !] केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ठिती पणत्ता ।

॥ पणवणाए भगवईए चउत्थं टिइपयं समत्तं ॥

[३] मञ्जिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३३. [१] उवरिमहेट्टिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
५ अट्टावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिमहेट्टिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिमहेट्टिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं, अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं
१० अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३४. [१] उवरिममञ्जिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिममञ्जिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिममञ्जिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।
१५

४३५. [१] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।
२०

[३] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३६. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिएसु णं भंते ! देवाणं केवतियं
२५ कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

[२] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] विजय-त्रेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३७. [१] सँव्वड्डसिद्धगदेवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिती पणत्ता ।

[२] सँव्वड्डसिद्धगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] सँव्वड्डसिद्धगदेवाणं पज्जत्ताणं [भंते !] केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ठिती पणत्ता ।

॥ पणवणाए भगवईए चउत्थं ठिइपयं समत्तं ॥

[३] मज्झिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

५ ४३३. [१] उवरिमहेट्ठिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिमहेट्ठिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिमहेट्ठिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसं सागरोवमाइं, अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं १० अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३४. [१] उवरिममज्झिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइं ।

[२] उवरिममज्झिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

१५ [३] उवरिममज्झिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

४३५. [१] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं ।

२० [२] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

२५ ४३६. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिएसु णं भंते ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेतीसं सागरोवमाइं ।

[२] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।

[३] विजय-त्रेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ।

४३७. [१] सँव्वड्डसिद्धगदेवाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिती पणत्ता ।

५

[२] सँव्वड्डसिद्धगदेवाणं अपज्जत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

[३] सँव्वड्डसिद्धगदेवाणं पज्जत्ताणं [भंते !] केवतियं कालं ठिती पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाइं ठिती पणत्ता ।

१०

॥ पणवणाए भगवईए चउत्थं डिइपयं समत्तं ॥

५. पंचमं विसेसपयं

[सुत्तं ४३८. पञ्चभेयपरूवणं]

४३८. कतिविहा णं भंते ! पञ्चवा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पञ्चवा पण्णत्ता । तं जहा—जीवपञ्चवा य अजीवपञ्चवा य ।

५ [सुत्ताइं ४३९-४९९. जीवपञ्चवा]

४३९. जीवपञ्चवा णं भंते ! किं संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! णो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवपञ्चवा नो संखेज्जा नो असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! असंखेज्जा नेरइया, असंखेज्जा असुरा, असंखेज्जा णागा, असंखेज्जा सुवण्णा, असंखेज्जा विज्जुकुमारा, असंखेज्जा १० अग्गिकुमारा, असंखेज्जा दीवकुमारा, असंखेज्जा उदहिकुमारा, असंखेज्जा दिसाकुमारा, असंखेज्जा वाउकुमारा, असंखेज्जा थणियकुमारा, असंखेज्जा पुढविकाइया, असंखेज्जा आउकाइया, असंखेज्जा तेउकाइया, असंखेज्जा वाउ-काइया, अणंता वणप्फइकाइया, असंखेज्जा वेइंदिया, असंखेज्जा तेइंदिया, असंखेज्जा चउरिंदिया, असंखेज्जा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया, असंखेज्जा मणुस्सा, १५ असंखेज्जा वाणमंतरा, असंखेज्जा जोइसिया, असंखेज्जा वेमाणिया, अणंता सिद्धा, से एणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति ते णं णो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।

[सुत्तं ४४०. नेरइयाणं पञ्चवा]

४४०. नेरइयाणं भंते ! केवतिया पञ्चवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञ्चवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति नेरइयाणं अणंता पञ्चवा २० पण्णत्ता ? गोयमा ! नेरइए नेरइयस्स द्व्वइयाए तुल्ले, पदेसइताए तुल्ले; ओगाहणइताए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जति-भागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भहिए असंखेज्जभागव्भहिए वा संखेज्जभागव्भहिए वा संखेज्जगुणमव्भहिए वा असंखेज्जगुणमव्भहिए वा; ठिईए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जइ हीणे २५ असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे

वा, अह अब्भहिए असंखेज्जइभागमब्भहिए वा संखेज्जइभागमब्भहिए वा संखे-
 ज्जइगुणम्भहिए वा असंखेज्जइगुणम्भहिए वा; कालवण्णपज्जवेहिं सिय हीणे सिय
 तुल्ले सिय मब्भहिए—जदि हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जइभागहीणे वा
 संखेज्जइभागहीणे वा संखिज्जइगुणहीणे वा असंखिज्जइगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे
 वा, अह अब्भतिए अणंतभागमब्भइए वा असंखेज्जतिभागमब्भहिए वा ५
 संखेज्जतिभागमब्भइए वा संखेज्जगुणम्भहिए वा असंखेज्जगुणम्भहिए वा
 अणंतगुणम्भहिए वा; णीलवण्णपज्जवेहिं लोहियवण्णपज्जवेहिं हांलिद्ववण्णपज्जवेहिं
 सुक्खिल्लवण्णपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिए; सुब्भिगंधपज्जवेहिं दुब्भिगंधपज्जवेहिं य
 छट्ठाणवडिए; तित्तरसपज्जवेहिं कड्डयरसपज्जवेहिं कसायरसपज्जवेहिं अंघिलरसपज्जवेहिं
 महुररसपज्जवेहिं य छट्ठाण वडिए; कक्खडफासपज्जवेहिं मउयफासपज्जवेहिं गरुय- १०
 फासपज्जवेहिं लहुयफासपज्जवेहिं सीयफासपज्जवेहिं उसिणफासपज्जवेहिं निद्धफास-
 पज्जवेहिं लुक्खफासपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिए; आभिणिचोहियणाणपज्जवेहिं
 सुयणाणपज्जवेहिं ओहिणाणपज्जवेहिं मतिअण्णाणपज्जवेहिं सुयअण्णाणपज्जवेहिं
 विभंगणाणपज्जवेहिं चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं
 य छट्ठाणवडित्ते, से^१ एण्णट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति नेरइयाणं नो संखेज्जा, नो १५
 असंखेज्जा, अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[सुत्ताइं ४४१-४४२. भवणवासीणं पज्जवा]

४४१. असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता
 पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा
 पण्णत्ता ? गोयमा ! असुरकुमारे असुरकुमारस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, २०
 ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिए, ठितीए चउट्ठाणवडिए, कालवण्णपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए,
 एवं णीलवण्णपज्जवेहिं लोहियवण्णपज्जवेहिं हालिद्ववण्णपज्जवेहिं सुक्खिल्लवण्णपज्जवेहिं,
 सुब्भिगंधपज्जवेहिं दुब्भिगंधपज्जवेहिं, तित्तरसपज्जवेहिं कड्डयरसपज्जवेहिं कसायरस-
 पज्जवेहिं अंघिलरसपज्जवेहिं महुररसपज्जवेहिं, कक्खडफासपज्जवेहिं मउयफासपज्जवेहिं
 गरुयफासपज्जवेहिं लहुयफासपज्जवेहिं सीतफासपज्जवेहिं उसिणफासपज्जवेहिं २५
 निद्धफासपज्जवेहिं लुक्खफासपज्जवेहिं, आभिणिचोहियणाणपज्जवेहिं सुतणाणपज्जवेहिं
 ओहिणाणपज्जवेहिं, मतिअण्णाणपज्जवेहिं सुयअण्णाणपज्जवेहिं विभंगणाणपज्जवेहिं,

१. पीयवण्णं पु२ ॥ २. सुक्खिल्लवण्णं पु२ ॥ ३. से एण्णट्ठेणं पु२ ॥

अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं ओहिदंसणपज्जेवेहिं य छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

४४२. एवं जहा नेरइया जहा असुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

५

[सुत्ताइं ४४३-४४७. एगिंदियाणं पज्जवा]

४४३. पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! पुढविकाइए पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भइए—जदि हीणे असंखेज-
१० तिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भहिए असंखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जतिभागअब्भइए वा संखेज्जगुण-
अब्भहिए वा असंखेज्जगुणअब्भहिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भइए—
जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा, अह
अब्भतिए असंखेज्जभागअब्भतिए वा संखेज्जभागअब्भतिए वा संखेज्जगुणअब्भतिए
१५ वा; वण्णेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं, मतिअण्णाणपज्जेवेहिं सुयअण्णाणपज्जेवेहिं
अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं छट्ठाणवडिते ।

४४४. आउकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति आउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! आउकाइए आउकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले,
२० ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मति-
अण्णाण-सुतअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

४४५. तेउक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति तेउक्काइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा !
तेउक्काइए तेउक्काइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए
२५ चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुय-
अण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

४४६. वाउक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! वाउकाइयाणं अणंता पज्जवा

पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति वाउक्काइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! वाउक्काइए वाउक्काइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडित्ते, ठितीए तिट्टाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडित्ते ।

४४७. वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति वणप्फइकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! वणप्फइकाइए वणप्फइकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडित्ते, ठितीए तिट्टाणवडिए, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडित्ते, से तेण्डेणं गोयमा ! एवं बुच्चति वणस्सतिकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[सुत्ताई ४४८-४५०. विगलिंदियाणं पज्जवा]

४४८. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! वेइंदिए वेइंदियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह मब्भहिए असंखेज्जभागमब्भहिए वा संखेज्जभागमब्भइए वा संखेज्जगुणमब्भइए वा असंखेज्जगुणमब्भइए वा; ठितीए तिट्टाणवडित्ते; वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिवोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुत-अण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडित्ते ।

४४९. एवं तेइंदिया वि ।

४५०. एवं चउरिंदिया वि । णवरं दो दंसणा—चक्खुदंसणं अचक्खु-दंसणं च ।

[सुत्तं ४५१. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा]

४५१. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा जहा नेरइयाणं तहा भाणित्त्वा ।

[सुत्तं ४५२. मणुस्साणं पज्जवा]

४५२. मणुस्साणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! मणुस्से मणुस्सस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए

चक्खुदंसणपज्जेवेहिं अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं ओहिदंसणपज्जेवेहिं य छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पणत्ता ।

४४२. एवं जहा नेरइया जहा असुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

५

[सुत्ताइं ४४३-४४७. एगिंदियाणं पज्जवा]

४४३. पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! पुढविकाइए पुढविकाइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले; ओगाहणइयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अंभइए-जदि हीणे असंखेज्ज-
१० तिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अंभहिए असंखेज्जतिभागअंभतिए वा संखेज्जतिभागअंभइए वा संखेज्जगुण-
अंभहिए वा असंखेज्जगुणअंभहिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अंभइए-
जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा, अह
अंभतिए असंखेज्जभागअंभतिए वा संखेज्जभागअंभतिए वा संखेज्जगुणअंभतिए
१५ वा; वण्णेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं, मतिअण्णाणपज्जेवेहिं सुयअण्णाणपज्जेवेहिं
अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं छट्ठाणवडिते ।

४४४. आउकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति आउकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! आउकाइए आउकाइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले,
२० ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मति-
अण्णाण-सुतअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

४४५. तेउक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति तेउक्काइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा !
तेउक्काइए तेउक्काइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए
२५ चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुय-
अण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जेवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

४४६. वाउक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! वाउक्काइयाणं अणंता पज्जवा

पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति वाउक्काइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! वाउक्काइए वाउक्काइयस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए तिट्ठाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडित्ते ।

४४७. वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति वणप्फइकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! वणप्फइकाइए वणप्फइकाइयस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए तिट्ठाणवडिए, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडित्ते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति वणस्सत्तिकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[सुत्ताई ४४८-४५०. विगलिंदियाणं पज्जवा]

४४८. वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! वेइंदिए वेइंदियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अन्भहिए-जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह मन्भहिए असंखेज्जभागमन्भहिए वा संखेज्जभागमन्भइए वा संखेज्जगुणमन्भइए वा असंखेज्जगुणमन्भइए वा; ठितीए तिट्ठाणवडित्ते; वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिबोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुत-अण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडित्ते ।

४४९. एवं तेइंदिया वि ।

४५०. एवं चउरिंदिया वि । णवरं दो दंसणा-चक्खुदंसणं अचक्खु-दंसणं च ।

[सुत्तं ४५१. पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं पज्जवा]

४५१. पंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं पज्जवा जहा नेरइयाणं तहा भाणितव्वा ।

[सुत्तं ४५२. मणुस्साणं पज्जवा]

४५२. मणुस्साणं भंते ! केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! मणुस्से मणुस्सस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पपसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए

चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिवोहियणाण-
सुतणाण-ओहिणाण-मणपज्जवणाणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले,
तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

[सुत्तं ४५३. वाणमंतराणं पज्जवा]

५ ४५३. वाणमंतरा ओगाहणट्टयाए ठितीए य चउट्टाणवडिया, वण्णादीहिं
छट्टाणवडिता ।

[सुत्तं ४५४. जोइसिय-त्रेमाणियाणं पज्जवा]

४५४. जोइसिय-त्रेमाणिया वि एवं चेव । णवरं ठितीए तिट्टाणवडिता ।

[सुत्ताइं ४५५-४६३. ओगाहणाइसु नेरइयाणं पज्जवा]

१० ४५५. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति
जहण्णोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
नरइए जहण्णोगाहणगस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसड्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए
तुल्ले, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं
१५ अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा !
अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! उक्कोसोगाहणए णेरइए उक्कोसोगाहणगस्स
नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पदेसड्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तुल्ले; ठितीए सिय हीणे
२० सिय तुल्ले सिय अब्भहिए-जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा,
अह अब्भहिए असंखेज्जभागअब्भइए वा संखेज्जभागअब्भइए वा; वण्ण-गंध-रस-
फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[३] अँजहण्णुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्ण-
त्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति अँजहण्णु-
२५ क्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अँजहण्णुक्कोसोगाहणए
णेरइए अँजहण्णुक्कोसोगाहणगस्स णेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पदेसड्टयाए तुल्ले;

ओगाहणइयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भतिए असंखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जगुणअब्भतिए वा असंखेज्जगुणअब्भतिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भतिए—जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भइए असंखेज्जतिभागअब्भइए वा संखेज्जतिभागअब्भहिए वा संखेज्जगुणअब्भइए वा असंखेज्जगुणअब्भहिए वा; वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति अजहण्णुकुसोसागाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

४५६. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णट्ठितीयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णट्ठितीए नेरइए जहण्णट्ठितीयस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसट्ठितीए वि ।

[३] अजहण्णुकुसोसट्ठितीए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडिते ।

४५७. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकाल नेरइए जहण्णगुणकालस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुकुसोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं कालवण्णपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिवोहियणाण-
सुतणाण-ओहिणाण-मणपज्जवणाणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले,
तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

[सुत्तं ४५३. वाणमंतराणं पज्जवा]

५ ४५३. वाणमंतरा ओगाहणइयाए ठितीए य चउट्टाणवडिया, वण्णादीहिं
छट्टाणवडिता ।

[सुत्तं ४५४. जोइसिय-त्रेमाणियाणं पज्जवा]

४५४. जोइसिय-त्रेमाणिया वि एवं चेव । णवरं ठितीए तिट्टाणवडिता ।

[सुत्ताइं ४५५-४६३. ओगाहणाइसु नेरइयाणं पज्जवा]

१० ४५५. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति
जहण्णोमाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
नरइए जहण्णोगाहणगस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए
तुल्ले, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं
१५ अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा !
अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! उक्कोसोगाहणए णेरइए उक्कोसोगाहणगस्स
नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए तुल्ले; ठितीए सिय हीणे
२० सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा,
अह अब्भहिए असंखेज्जभागअब्भइए वा संखेज्जभागअब्भइए वा; वण्ण-गंध-रस-
फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[३] अँजहण्णुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्ण-
त्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति अँजहण्णु-
२५ क्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अँजहण्णुक्कोसोगाहणए
णेरइए अँजहण्णुक्कोसोगाहणगस्स णेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले;

ओगाहणइयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भतिए असंखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जगुणअब्भतिए वा असंखेज्जगुणअब्भतिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भतिए—जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भइए असंखेज्जतिभागअब्भइए वा संखेज्जतिभागअब्भहिए वा संखेज्जगुणअब्भइए वा असंखेज्जगुणअब्भहिए वा; वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडित्ते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति अजहण्णुकुसोसागाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

४५६. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णट्ठितीयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णट्ठितीए नेरइए जहण्णट्ठितीयस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्ठाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसट्ठितीए वि ।

[३] अजहण्णुकुसोसट्ठितीए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडित्ते ।

४५७. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्ठाणवडित्ते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमगुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं कालवण्णपज्जवेहिं छट्ठाणवडित्ते ।

चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-आभिणिबोहियणाण-
सुतणाण-ओहिणाण-मणपज्जवणाणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले,
तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

[सुत्तं ४५३. वाणमंतराणं पज्जवा]

५ ४५३. वाणमंतरा ओगाहणट्टयाए ठितीए य चउट्टाणवडिया, वण्णादीहिं
छट्टाणवडिता ।

[सुत्तं ४५४. जोइसिय-वेमाणियाणं पज्जवा]

४५४. जोइसिय-वेमाणिया वि एवं चेव । णवरं ठितीए तिट्टाणवडिता ।

[सुत्ताइं ४५५-४६३. ओगाहणाइसु नेरइयाणं पज्जवा]

१० ४५५. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति
जहण्णोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
नेरइए जहण्णोगाहणगस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए
तुल्ले, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं
१५ अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा !
अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं
अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! उक्कोसोगाहणए णेरइए उक्कोसोगाहणगस्स
नेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पदेसट्टयाए तुल्ले, ओगाहणट्टयाए तुल्ले; ठितीए सिय हीणे
२० सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा,
अह अब्भहिए असंखेज्जभागअब्भइए वा संखेज्जभागअब्भइए वा; वण्ण-गंध-रस-
फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[३] अजहण्णुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्ण-
त्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति अजहण्णु-
२५ क्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अजहण्णुक्कोसोगाहणए
णेरइए अजहण्णुक्कोसोगाहणगस्स णेरइयस्स दव्वट्टयाए तुल्ले, पदेसट्टयाए तुल्ले;

ओगाहणइयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भतिए असंखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जतिभागअब्भतिए वा संखेज्जगुणअब्भतिए वा असंखेज्जगुणअब्भतिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भतिए—जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भइए असंखेज्जतिभागअब्भइए वा संखेज्जतिभागअब्भहिए वा संखेज्जगुणअब्भइए वा असंखेज्जगुणअब्भहिए वा; वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं पाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति अजहण्णुकुसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

४५६. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जहण्णट्ठितीयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णट्ठितीए नेरइए जहण्णट्ठितीयस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं पाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसट्ठितीए वि ।

[३] अजहण्णुकुसोसट्ठितीए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवडिते ।

४५७. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं पाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं य छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं कालवण्णपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

४५८. एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणित्त्वा ।

४५९. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं णेरइयाणं अणंता पज्जवा
 ५ पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी णेरइए जहण्णाभिणि-
 वोहियणाणिस्स नेरइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइत्ताए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडित्ते, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुतणाण-ओधिणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडित्ते, तिहिं
 १० दंसणेहिं छट्ठाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि एवं चेव । नवरं आभिणि-
 वोहियणाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडित्ते ।

४६०. एवं सुतणाणी ओधिणाणी वि । णवरं जस्स णाणा तस्स
 १५ अण्णाणा णत्थि ।

४६१. जहा नाणा तहा अण्णाणा वि भाणित्त्वा । नवरं जस्स अण्णाणा तस्स नाणा न भवंति ।

४६२. [१] जहण्णचक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्ण-
 २० चक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णचक्खुदंसणी णं नेरइए जहण्णचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइत्ताए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं छट्ठाणवडित्ते, चक्खुदंसणपज्जवेहिं तुल्ले, अचक्खु-
 दंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडित्ते ।

२५ [२] एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसचक्खुदंसणी वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडित्ते ।

४६३. एवं अचक्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि ।

[सुत्ताइं ४६४-४६५. ओगाहणाए भवणवासीणं पज्जवा]

४६४. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असुरकुमाराणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगाणं असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए असुरकुमारे जहण्णोगाहणगस्स असुरकुमारस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए चउट्टाणवड्डिते, वन्नादीहिं छट्टाणवड्डिते, आभिणि-
चोहियणाण-सुतणाण-ओहिणाणपज्जवेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहि य छट्टाणवड्डिते ।

५

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । एवं अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि । नवरं उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठितीए चउट्टाणवड्डिते ।

१०

४६५. एवं जाव थणियकुमारा ।

[सुत्ताइं ४६६-४७२. ओगाहणाइसु एविदियाणं पज्जवा]

४६६. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णो-
गाहणए पुढविकाइए जहण्णोगाहणगस्स पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए तिट्टाणवड्डिते, वण्ण-गंध-रस-फास-पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवड्डिते ।

१५

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे चउट्टाणवड्डिते ।

२०

४६७. [१] जहण्णट्ठितीयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केण्डेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णट्ठितीयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णठितीए पुढविकाइए जहण्ण-ठितीयस्स पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणट्टाए चउट्टाणवड्डिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-
अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवड्डिते ।

२५

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

४५८. एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा दो गंधा पंच रसा अह्ण फासा भाणितच्चा ।

४५९. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं णेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी णेरइए जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुतणाण-ओधिणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि एवं चेव । नवरं आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४६०. एवं सुतणाणी ओधिणाणी वि । णवरं जस्स णाणा तस्स अण्णाणा णत्थि ।

४६१. जहा नाणा तहा अण्णाणा वि भाणितच्चा । नवरं जस्स अण्णाणा तस्स नाणा न भवंति ।

४६२. [१] जहण्णचक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णचक्खुदंसणी णं नेरइए जहण्णचक्खुदंसणीस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं छट्ठाणवडिते, चक्खुदंसणपज्जवेहिं तुल्ले, अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसचक्खुदंसणी वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४६३. एवं अचक्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि ।

[सुत्ताइं ४६४-४६५. ओगाहणाए भवणवासीणं पज्जवा]

४६४. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असुरकुमाराणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगाणं असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए असुरकुमारे जहण्णोगाहणगस्स असुरकुमारस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवड्डिते, वज्जादीहिं छट्ठाणवड्डिते, आभिणि-चोहियणाण-सुतणाण-ओहिणाणपज्जवेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहि य छट्ठाणवड्डिते ।

५

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । एवं अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि । नवरं उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठितीए चउट्ठाणवड्डिते ।

१०

४६५. एवं जाव थणियकुमारा ।

[सुत्ताइं ४६६-४७२. ओगाहणाइसु एगिदियाणं पज्जवा]

४६६. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णो-गाहणए पुढविकाइए जहण्णोगाहणगस्स पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए तिट्ठाणवड्डिते, वण्ण-गंध-रस-फास-पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवड्डिते ।

१५

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे चउट्ठाणवड्डिते ।

२०

४६७. [१] जहण्णड्ढितीयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णड्ढितीयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णठितीए पुढविकाइए जहण्ण-ठितीयस्स पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवड्डिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवड्डिते ।

२५

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

४५८. एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा भाणितच्चा ।

४५९. [१] जहण्णाभिणिचोहियणाणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिचोहियणाणीणं णेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णाभिणिचोहियणाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिचोहियणाणी णेरइए जहण्णाभिणिचोहियणाणिस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइताए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडित्ते, आभिणिचोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुतणाण-ओधिणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडित्ते, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसाभिणिचोहियणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिचोहियणाणी वि एवं चेव । नवरं आभिणिचोहियणाणपज्जवेहिं सट्ठाणे छट्ठाणवडित्ते ।

४६०. एवं सुतणाणी ओधिणाणी वि । णवरं जस्स णाणा तस्स अण्णाणा गत्थि ।

४६१. जहा नाणा तहा अण्णाणा वि भाणितच्चा । नवरं जस्स अण्णाणा तस्स नाणा न भवंति ।

४६२. [१] जहण्णचक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णचक्खुदंसणी णं नेरइए जहण्णचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडित्ते, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं छट्ठाणवडित्ते, चक्खुदंसणपज्जवेहिं तुल्ले, अचक्खुदंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसचक्खुदंसणी वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडित्ते ।

४६३. एवं अचक्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि ।

वेइंदियस्स दच्चइयाए तुल्ले, पएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए तुल्ले, ठितीए तिङ्गाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । णवरं णाणा णत्थि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणए । णवरं सट्ठाणे ५
ओगाहणाए चउट्ठाणवडिते ।

४७४. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णठितीयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णठितीए वेइंदिए जहण्णठितीयस्स वेइंदियस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, १०
ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । णवरं दो णाणा अब्भइया ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए जहा उक्कोसठितीए । णवरं ठितीए तिङ्गाणवडिते । १५

४७५. [१] जहण्णगुणकालयाणं वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णगुणकालयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए वेइंदिए जहण्णगुणकालयस्स वेइंदियस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, २०
ठितीए तिङ्गाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४७६. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितच्चा । २५

४७७. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! वेइंदियाणं केवत्तिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं

[३] अजहणमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे तिट्ठाणवडिते ।

४६८. [१] जहणगुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ ।

गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहणगुणकाल-
याणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणगुणकालए
पुढविकाइए जहणगुणकालगस्स पुढविकाइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए
तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं
तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, दोहिं अण्णाणेहिं
अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१० [३] अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे
छट्ठाणवडिते ।

४६९. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितव्वा ।

४७०. [१] जहणमतिअण्णाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ ।

गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहणमति-
अण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणमतिअण्णाणी
पुढविकाइए जहणमतिअण्णाणिस्स पुढविकाइयस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए
तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-
पज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, मतिअण्णाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयअण्णाणपज्जवेहिं अचक्खु-
दंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

२० [२] एवं उक्कोसमतिअण्णाणी वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसमइअण्णाणी वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे
छट्ठाणवडिते ।

४७१. एवं सुयअण्णाणी वि । अचक्खुदंसणी वि एवं चेव ।

४७२. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

२५ [सुत्ताइं ४७३-४८०. ओगाहणाइसु विगार्लिंदियाणं पज्जवा]

४७३. [१] जहणोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता
पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहणोगाहणगाणं वेइंदियाणं
अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहणोगाहणए वेइंदिए जहणोगाहणगस्स

वेइंदियस्स दव्वइयाए तुल्ले, पएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए तुल्ले, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । णवरं णाणा णत्थि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणए । णवरं सट्ठाणे ओगाहणाए चउट्ठाणवडिते । ५

४७४. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं चुच्चति जहण्णठितीयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णठितीए वेइंदिए जहण्णठितीयस्स वेइंदियस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते । १०

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । णवरं दो णाणा अब्भइया ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए जहा उक्कोसठितीए । णवरं ठितीए तिट्ठाणवडिते । १५

४७५. [१] जहण्णगुणकालयाणं वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं चुच्चति जहण्णगुणकालयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए वेइंदिए जहण्णगुणकालयस्स वेइंदियस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते । २०

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४७६. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितव्वा । २५

४७७. [१] जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं भंते ! वेइंदियाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे तिट्ठाणवडिते ।

४६८. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पुढविकाइए जहण्णगुणकालगस्स पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१० [३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४६९. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितव्वा ।

४७०. [१] जहण्णमतिअण्णाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णमतिअण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णमतिअण्णाणी पुढविकाइए जहण्णमतिअण्णाणिसस पुढविकाइयस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-पज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, मतिअण्णाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयअण्णाणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

२० [२] एवं उक्कोसमतिअण्णाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसमइअण्णाणी वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४७१. एवं सुयअण्णाणी वि । अचक्खुदंसणी वि एवं चेव ।

४७२. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

२५ [सुत्ताइं ४७३-४८०. ओगाहणाइसु विगालिंदियाणं पज्जवा]

४७३. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए वेइंदिए जहण्णोगाहणगस्स

वेइंदियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए तिड्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छड्डाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि । णवरं णाणा णत्थि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणए । णवरं सट्टाणे ५
ओगाहणाए चउड्डाणवडिते ।

४७४. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णठितीयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णठितीए वेइंदिए जहण्णठितीयस्स वेइंदियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउड्डाणवडिते, १०
ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छड्डाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । णवरं दो णाणा अब्भइया ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए जहा उक्कोसठितीए । णवरं ठितीए तिड्डाणवडिते । १५

४७५. [१] जहण्णगुणकालयाणं वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णगुणकालयाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए वेइंदिए जहण्णगुणकालयस्स वेइंदियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउड्डाणवडिते, २०
ठितीए तिड्डाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छड्डाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्टाणे छड्डाणवडिते ।

४७६. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितत्त्वा । २५

४७७. [१] जहण्णाभिणिचोहियणाणीणं भंते ! वेइंदियाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे तिट्ठाणवडिते ।

४६८. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पुढविकाइए जहण्णगुणकालगस्स पुढविकाइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१० [३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४६९. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितव्वा ।

४७०. [१] जहण्णमतिअण्णाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णमतिअण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णमतिअण्णाणीणं पुढविकाइए जहण्णमतिअण्णाणिसस पुढविकाइयस्स दव्वइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-पज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, मतिअण्णाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयअण्णाणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

२० [२] एवं उक्कोसमतिअण्णाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसमइअण्णाणी वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

४७१. एवं सुयअण्णाणी वि । अचक्खुदंसणी वि एवं चेव ।

४७२. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

२५ [सुत्ताइं ४७३-४८०. ओगाहणाइसु विगळिंदियाणं पज्जवा]

४७३. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णोगाहणगाणं वेइंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए वेइंदिए जहण्णोगाहणगस्स

पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडित्ते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडित्ते ।

[२] उक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं दो नाणा दो अच्चाणा दो दंसणा ।

५

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडित्ते, तिण्णि णाणा, तिण्णि अण्णाणा, तिण्णि दंसणा ।

४८३. [१] जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णगुणकालगस्स पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडित्ते, ठितीए चउट्टाणवडित्ते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडित्ते ।

१०

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१५

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्टाणे छट्टाणवडित्ते ।

४८४. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अड्ड फासा ।

४८५. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णाभिणिवोहियणाणिसस पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडित्ते, ठितीए चउट्टाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्टाणवडित्ते, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयणाण-पज्जवेहिं छट्टाणवडित्ते, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्टाणवडित्ते ।

२०

२५

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि । णवरं ठितीए तिट्टाणवडित्ते, तिण्णि णाणा, तिण्णि दंसणा, सट्टाणे तुल्ले, सेसेसु छट्टाणवडित्ते ।

[३] अजहण्णुक्कोसाभिणिवोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिवोहियणाणी । णवरं ठितीए चउट्टाणवडित्ते, सट्टाणे छट्टाणवडित्ते ।

बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी वेइंदिए जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स वेइंदियस्स दच्चइयाए तुल्ले, पएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, आभिणिवोहियणाण-पज्जवेहिं तुल्ले, सुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिते ।

५ [२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

४७८. एवं सुतणाणी वि, सुतअण्णाणी वि, मतिअण्णाणी वि, अचक्खु-दंसणी वि । णवरं जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा १० णत्थि । जत्थ दंसणं तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

४७९. एवं तेइंदियाण वि ।

४८०. चउरिंदियाण वि एवं चेव । णवरं चक्खुदंसणं अंभतियं ।

[सुत्ताइं ४८१-४८८. ओगाहणाइसु पंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पज्जवा]

४८१. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं १५ केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगाणं पंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए पंचेंदियतिरिक्खजोगिए जहण्णोगाहणयस्स पंचेंदिय-तिरिक्खजोगियस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए तुल्ले, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं २० दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[३] जहां उक्कोसोगाहणए तहा अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि । णवरं ओगाहणइयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए ।

४८२. [१] जहण्णाठितीयाणं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं केवतिया २५ पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाठितीए पंचेंदियतिरिक्खजोगिए जहण्णाठितीयस्स

पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउड्डाणवडित्ते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छड्डाणवडित्ते ।

[२] उक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं दो नाणा दो अच्चाणा दो दंसणा ।

५

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउड्डाणवडित्ते, तिण्णि णाणा, तिण्णि अण्णाणा, तिण्णि दंसणा ।

४८३. [१] जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णगुणकालगस्स पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउड्डाणवडित्ते, ठितीए चउड्डाणवडित्ते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छड्डाणवडित्ते ।

१०

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१५

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छड्डाणवडित्ते ।

४८४. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा ।

४८५. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउड्डाणवडित्ते, ठितीए चउड्डाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छड्डाणवडित्ते, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयणाणपज्जवेहिं छड्डाणवडित्ते, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छड्डाणवडित्ते ।

२०

२५

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि । णवरं ठितीए तिड्डाणवडित्ते, तिण्णि णाणा, तिण्णि दंसणा, सट्ठाणे तुल्ले, सेसेसु छड्डाणवडित्ते ।

[३] अजहण्णुक्कोसाभिणिवोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिवोहियणाणी । णवरं ठितीए चउड्डाणवडित्ते, सट्ठाणे छड्डाणवडित्ते ।

वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी वेइंदिए जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स वेइंदियस्स दच्चइयाए तुल्ले, एएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, आभिणिवोहियणाण-पज्जवेहिं तुल्ले, सुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, अचक्खुदंसणपज्जवेहिं छट्टाणवडिते ।

५ [२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

४७८. एवं सुतणाणी वि, सुतअण्णाणी वि, मतिअण्णाणी वि, अचक्खु-दंसणी वि । णवरं जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा १० णत्थि । जत्थ दंसणं तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

४७९. एवं तेइंदियाण वि ।

४८०. चउरिंदियाण वि एवं चेव । णवरं चक्खुदंसणं अंभतियं ।

[सुत्ताइं ४८१-४८८. ओगाहणाइसु पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा]

४८१. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं १५ केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णोगाहणगाणं पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णोगाहणयस्स पंचेदिय-तिरिक्खजोणियस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए तुल्ले, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं २० दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[३] जहा उक्कोसोगाहणए तहा अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि । णवरं ओगाहणइयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए ।

४८२. [१] जहण्णाठितीयाणं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं केवतिया २५ पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाठितीए पंचेदियतिरिक्खजोणिए जहण्णाठितीयस्स

पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं दो नाणा दो अच्चाणा दो दंसणा ।

५

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडिते, तिण्णि णाणा, तिण्णि अण्णाणा, तिण्णि दंसणा ।

४८३. [१] जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णगुणकालगस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

१०

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१५

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

४८४. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा ।

४८५. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णाभिणिवोहियणाणिसस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुयणाणपज्जवेहिं छट्टाणवडिते, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहिं य छट्टाणवडिते ।

२०

२५

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि । णवरं ठितीए तिट्टाणवडिते, तिण्णि णाणा, तिण्णि दंसणा, सट्टाणे तुल्ले, सेसेसु छट्टाणवडिते ।

[३] अजहण्णुक्कोसाभिणिवोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिवोहियणाणी । णवरं ठितीए चउट्टाणवडिते, सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

४८६. एवं सुतणाणी वि ।

४८७. [१] जहण्णोहिणाणीणं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोहिणाणी पंचेंदियतिरिक्खजोणिए जहण्णोहिणाणिस्स पंचेंदियतिरिक्ख-
५ जोणियस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पदेसड्डयाते तुल्ले, ओगाहणड्डयाते चउट्टाणवडिते, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं आभिणिबोहियणाण-सुतणाणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते, ओहिणाणपज्जवेहिं तुल्ले, अण्णाणा णत्थि, चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि ।

१० [३] अजहण्णक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

४८८. जहा आभिणिबोहियणाणी तहा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी य । जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि । चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि
१५ अण्णाणा वि अत्थि त्ति भाणितव्वं ।

[सुत्ताइं ४८९-४९८. ओगाहणाइसु मणुस्साणं पज्जवा]

४८९. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ जहण्णोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
२० मणुस्से जहण्णोगाहणगास्स मणुस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए तिट्टाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं तिहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते-जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे, अह अब्भहिए असंखेज्जतिभाग-
२५ मब्भहिते; दो णाणा दो अण्णाणा दो दंसणा ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडिते, ठितीए चउट्टाणवडिते, आइल्लेहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिते,

केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते,
केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

४९०. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ?
गोयमा ! जहण्णठितीए मणुस्से जहण्णठितीयस्स मणुसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, ५
पदेसट्ठयाए तुल्ले, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्ण-गंध-रस-फास-
पज्जवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । नवरं दो णाणा, दो अण्णाणा, दो दंसणा ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते
ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए, आदिल्लेहिं चउनाणेहिं छट्ठाणवडिते, केवलनाण- १०
पज्जवेहिं तुल्ले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

४९१. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ?
गोयमा ! जहण्णगुणकालए मणुस्से जहण्णगुणकालगस्स मणुसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले,
पदेसट्ठयाए तुल्ले, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, १५
कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, चउहिं
णाणेहिं छट्ठाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं
छट्ठाणवडिते, केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते । २०

४९२. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणितव्वा ।

४९३. [१] जहण्णाभिणिचोहियणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया
पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं
वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिचोहियणाणी मणुस्से जहण्णाभिणिचोहियणाणिसस
मणुसस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पदेसट्ठयाए तुल्ले, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिते, २५
ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, आभिणिचोहिय-
णाणपज्जवेहिं तुल्ले, सुतणाणपज्जवेहिं तुल्ले, दोहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसाभिणिचोहियणाणी वि । नवरं आभिणिचोहियणाण-
पज्जवेहिं तुल्ले, ठितीए तिट्ठाणवडिते, तिहिं णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिचोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिचोहियणाणी ।
णवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते, सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५ ४९४. एवं सुतणाणी वि ।

४९५. [१] जहण्णोहिणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ?
गोयमा ! जहण्णोहिणाणी मणुस्से जहण्णोहिणाणिस्स मणूसस्स दच्चइयाए तुल्ले,
पएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठिईए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-
१० रस-फासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं छट्ठाणवडिए, ओहिणाणपज्जवेहिं तुल्ले, मणपज्ज-
वणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए ।

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए ।

४९६. जहा ओहिणाणी तहा मणपज्जवणाणी वि भाणितत्त्वे । नवरं
१५ ओगाहणइयाए तिट्ठाणवडिए । जहा आभिणिचोहियणाणी तहा मतिअण्णाणी
सुतअण्णाणी य भाणितत्त्वे । जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि भाणियत्त्वे ।
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिचोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा
ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा
णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

२० ४९७. केवलणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ?
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ केवलणाणीणं
मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! केवलणाणी मणुस्से केवलणाणिस्स
मणूसस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते,
ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं
२५ केवलदंसणपज्जवेहिं य तुल्ले ।

४९८. एवं केवलदंसणी वि मणुस्से भाणियत्त्वे ।

[सुत्तं ४९९. ओगाहणाइसु वाणमंतराईणं पञ्जवा]

४९९. [१] वाणमंतरा जहा असुरकुमारा ।

[२] एवं जोइसिया वेमाणिया । नवरं सद्वाणे ठितीए तिद्वाणवडिते भाणितव्वे । से तं जीवपञ्जवा ।

[सुत्ताइं ५००-५५८. अजीवपञ्जवा]

५

५००. अजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-रूविअजीवपञ्जवा य अरूविअजीवपञ्जवा य ।

५०१. अरूविअजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३ अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६ आगासत्थिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९ अद्दासमाए १० । १०

५०२. रूविअजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउ-विहा पण्णत्ता । तं जहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधपदेसा ३ परमाणुपोग्गले ४ ।

५०३. ते णं भंते ! किं संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ? गोयमा ! अणंता परमाणुपोग्गला, अणंता दुपदेसिया खंधा जाव अणंता दसपदेसिया खंधा, अणंता संखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता असंखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता अणंतपदेसिया खंधा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति-ते णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । १५

५०४. परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवतिया पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति परमाणु-पोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स द्व्वड्डयाते तुल्ले, पदेसड्डयाते तुल्ले, ओगाहणड्डयाते तुल्ले; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते-जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिगुणहीणे वा असंखेज्जतिगुणहीणे वा, अह अब्भतिए असंखेज्जतिभाग-अब्भहिए वा संखेज्जतिभागमब्भहिए वा संखेज्जगुणअब्भहिए वा असंखेज्जगुण-अब्भहिते वा; कालवण्णपज्जेवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए-जति हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा २५

२०

[२] एवं उक्कोसाभिणिवोहियणाणी वि । नवरं आभिणिवोहियणाण-
पज्जवेहिं तुल्ले, ठितीए तिट्ठाणवडिते, तिहिं णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिवोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिवोहियणाणी ।
णवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते, सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५ ४९४. एवं सुतणाणी वि ।

४९५. [१] जहण्णोहिणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ?
गोयमा ! जहण्णोहिणाणी मणुस्से जहण्णोहिणाणिस्स मणूसस्स दव्वड्डयाए तुल्ले,
१० पएसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठिईए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-
रस-फासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं छट्ठाणवडिए, ओहिणाणपज्जवेहिं तुल्ले, मणपज्ज-
वणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए ।

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए ।

४९६. जहा ओहिणाणी तहा मणपज्जवणाणी वि भाणितव्वे । नवरं
१५ ओगाहणड्डयाए तिट्ठाणवडिए । जहा आभिणिवोहियणाणी तहा मतिअण्णाणी
सुतअण्णाणी य भाणितव्वे । जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि भाणियव्वे ।
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिवोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा
ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा
णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

४९७. केवलणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ?
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चि केवलणाणीणं
मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! केवलणाणी मणुस्से केवलणाणिस्स
मणूसस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते,
ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं
२५ केवलदंसणपज्जवेहिं य तुल्ले ।

४९८. एवं केवलदंसणी वि मणुस्से भाणियव्वे ।

[सुत्तं ४९९. ओगाहणाइसु वाणमंतराईणं पञ्जवा]

४९९. [१] वाणमंतरा जहा असुरकुमारा ।

[२] एवं जोइसिया वेमाणिया । नवरं सट्ठणे ठितीए तिट्ठणवडित्ते भाणितत्त्वे । से तं जीवपञ्जवा ।

[सुत्ताइं ५००-५५८. अजीवपञ्जवा]

५००. अजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—रूविअजीवपञ्जवा य अरूविअजीवपञ्जवा य ।

५०१. अरूविअजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा—धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३ अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६ आगासत्थिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९ अद्दासमए १० ।

५०२. रूविअजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउ-विहा पण्णत्ता । तं जहा—खंधा १ खंधदेसा २ खंधपदेसा ३ परमाणुपोग्गले ४ ।

५०३. ते णं भंते ! किं संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ? गोयमा ! अणंता परमाणुपोग्गला, अणंता दुपदेसिया खंधा जाव अणंता दसपदेसिया खंधा, अणंता संखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता असंखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता अणंतपदेसिया खंधा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति—ते णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।

५०४. परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवतिया पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति परमाणु-पोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पदेसड्डयाते तुल्ले, ओगाहणड्डयाते तुल्ले; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते—जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिगुणहीणे वा असंखेज्जतिगुणहीणे वा, अह अब्भतिए असंखेज्जतिभाग-अब्भहिए वा संखेज्जतिभागमब्भहिए वा संखेज्जगुणअब्भहिए वा असंखेज्जगुण-अब्भहिते वा; कालवण्णपञ्जवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए—जति हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा

[२] एवं उक्कोसाभिणिचोहियणाणी वि । नवरं आभिणिचोहियणाण-
पज्जवेहिं तुल्ले, ठितीए तिट्ठाणवडिते, तिहिं णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिचोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिचोहियणाणी ।
णवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते, सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५ ४९४. एवं सुतणाणी वि ।

४९५. [१] जहण्णोहिणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ?
गोयमा ! जहण्णोहिणाणी मणुस्से जहण्णोहिणाणिस्स मणुस्सस्स दच्चइयाए तुल्ले,
पएसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते, ठिईए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-
१० रस-फासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं छट्ठाणवडिए, ओहिणाणपज्जवेहिं तुल्ले, मणपज्ज-
वणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए ।

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए ।

४९६. जहा ओहिणाणी तहा मणपज्जवणाणी वि भाणितच्चे । नवरं
१५ ओगाहणइयाए तिट्ठाणवडिए । जहा आभिणिचोहियणाणी तहा मतिअण्णाणी
सुतअण्णाणी य भाणितच्चे । जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि भाणियच्चे ।
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिचोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा
ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा
णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

२० ४९७. केवलणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ?
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ केवलणाणीणं
मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! केवलणाणी मणुस्से केवलणाणिस्स
मणुस्सस्स दच्चइयाए तुल्ले, पदेसइयाए तुल्ले, ओगाहणइयाए चउट्ठाणवडिते,
ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं
२५ केवलदंसणपज्जवेहि य तुल्ले ।

४९८. एवं केवलदंसणी वि मणुस्से भाणियच्चे ।

[सुत्तं ४९९. ओगाहणाइसु वाणमंतराईणं पञ्जवा]

४९९. [१] वाणमंतरा जहा असुरकुमारा ।

[२] एवं जोइसिया वेमाणिया । नवरं सद्वाणे ठितीए तिड्डाणवडित्ते भाणितव्वे । से त्तं जीवपञ्जवा ।

[सुत्ताइं ५००-५५८. अजीवपञ्जवा]

५

५००. अजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-रूविअजीवपञ्जवा य अरूविअजीवपञ्जवा य ।

५०१. अरूविअजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसे २ धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३ अधम्मत्थिकाए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसे ५ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा ६ आगासत्थिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९ अद्धासमाए १० ।

१०

५०२. रूविअजीवपञ्जवा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउ-विहा पण्णत्ता । तं जहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधपदेसा ३ परमाणुपोग्गले ४ ।

५०३. ते णं भंते ! किं संखेज्जा असंखेज्जा अणंता ? गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ? गोयमा ! अणंता परमाणुपोग्गला, अणंता दुपदेसिया खंधा जाव अणंता दसपदेसिया खंधा, अणंता संखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता असंखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता अणंतपदेसिया खंधा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति-ते णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ।

१५

२०

५०४. परमाणुपोग्गलाणं भंते ! केवतिया पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति परमाणु-पोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पदेसड्डयाते तुल्ले, ओगाहणड्डयाते तुल्ले; ठितीए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते-जति हीणे असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जतिगुणहीणे वा असंखेज्जतिगुणहीणे वा, अह अब्भतिए असंखेज्जतिभाग-अब्भहिए वा संखेज्जतिभागमब्भहिए वा संखेज्जगुणअब्भहिए वा असंखेज्जगुण-अब्भहिते वा; कालवण्णपञ्जवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिए-जति हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जतिभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा

२५

[२] एवं उक्कोसाभिणिचोहियणाणी वि । नवरं आभिणिचोहियणाण-
पज्जवेहिं तुल्ले, ठितीए तिट्ठाणवडिते, तिहिं णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिचोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिचोहियणाणी ।
णवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते, सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५ ४९४. एवं सुतणाणी वि ।

४९५. [१] जहण्णोहिणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ?
गोयमा ! जहण्णोहिणाणी मणुस्से जहण्णोहिणाणिस्स मणुस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले,
पएसट्ठयाए तुल्ले, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिते, ठिईए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-
१० रस-फासपज्जवेहिं दोहिं णाणेहिं छट्ठाणवडिए, ओहिणाणपज्जवेहिं तुल्ले, मणपज्ज-
वणाणपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए ।

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए ।

४९६. जहा ओहिणाणी तहा मणपज्जवणाणी वि भाणितव्वे । नवरं
१५ ओगाहणट्ठयाए तिट्ठाणवडिए । जहा आभिणिचोहियणाणी तहा मत्तिअण्णाणी
सुतअण्णाणी य भाणितव्वे । जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि भाणियव्वे ।
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिचोहियणाणी । ओहिदंसणी जहा
ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा
णत्थि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि ।

२० ४९७. केवलणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ?
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ केवलणाणीणं
मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! केवलणाणी मणुस्से केवलणाणिस्स
मणुस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पदेसट्ठयाए तुल्ले, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिते,
ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, केवलणाणपज्जवेहिं
२५ केवलदंसणपज्जवेहि य तुल्ले ।

४९८. एवं केवलदंसणी वि मणुस्से भाणियव्वे ।

५१०. अणंतपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! अणंतपएसिए खंधे अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

५११. एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । ५
से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगपएसोगाढ पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाते तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५१२. एवं दुपएसोगाढे वि जाव दसपएसोगाढे ।

५१३. संखेज्जपएसोगाढाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं १०
भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! संखेज्जपएसोगाढे पोग्गले संखेज्जपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए दुट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५१४. असंखेज्जपएसोगाढाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! असंखेज्जपएसोगाढे पोग्गले असंखेज्जपएसो- १५
गाढस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-अट्ठफासेहिं छट्ठाणवडिते ।

५१५. एगसमयठितीयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगसमयठितीए पोग्गले एगसमय- २०
ठितीयस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाते चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्णादि-अट्ठफासेहिं छट्ठाणवडिते ।

५१६. एवं जाव दससमयठिईए ।

५१७. संखेज्जसमयठितीयाणं एवं चेव । नवरं ठितीए दुट्ठाणवडिते ।

५१८. असंखेज्जसमयठितीयाणं एवं चेव । नवरं ठिईए चउट्ठाणवडिते ।

५१९. एगगुणकालगाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा । से केणट्ठेणं २५
भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगगुणकालए पोग्गले [ग्रन्थाग्रम् ३०००] एगगुणकालगस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहण-
ड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, अट्ठहिं फासेहिं छट्ठाणवडिते ।

असंखेज्जगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अह अब्भहिए अणंतभागमब्भहिते वा असंखेज्जतिभागमब्भहिए वा संखेज्जतिभागमब्भहिते वा संखेज्जगुणमब्भहिए वा असंखेज्जगुणमब्भहिए वा अणंतगुणमब्भहिए वा; एवं अवसेसवण्ण-गंध-रस-फास-पज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, फासा णं सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खेहिं छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

५०५. दुपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! दुपदेसिए दुपदेसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अब्भहिते पदेसमब्भहिते; ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादीहिं उवरिल्लेहिं चउहिं फासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५०६. एवं तिपएसिए वि । नवरं ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते-जति हीणे पएसहीणे वा दुपएसहीणे वा, अह अब्भहिते पएसमब्भहिते वा दुपएसमब्भहिते वा ।

५०७. एवं जाव दसपएसिए । नवरं ओगाहणाए पएसपरिवुड्डी कायव्वा जाव दसपएसिए णवपएसहीणे ति ।

५०८. संखेज्जपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! संखेज्जपएसिए खंधे संखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले; पदेसड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय मब्भहिते-जति हीणे संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा, अह अब्भइए एवं चेव; ओगाहणड्डयाए वि दुट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

५०९. असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! असंखेज्जपएसिए खंधे असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

१. वा । नीलवण्णपज्जवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भइए-जदि हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अहऽअब्भइए अणंतभागमब्भइए वा असंखेज्जभागमब्भइए वा संखेज्जभागमब्भइए वा संखेज्जगुणमब्भइए वा असंखेज्जगुणमब्भइए वा अणंतगुणमब्भइए वा, एवं अवसेस° घ०॥
२. °ए । नवरं णव° सु०॥

५१०. अणंतपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! अणंतपएसिए खंधे अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

५११. एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता । ५
से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगपएसोगाढ पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाते तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५१२. एवं दुपएसोगाढे वि जाव दसपएसोगाढे ।

५१३. संखेज्जपएसोगाढाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्टेणं १०
भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! संखेज्जपएसोगाढे पोग्गले संखेज्जपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए दुट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५१४. असंखेज्जपएसोगाढाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा । से १५
केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! असंखेज्जपएसोगाढे पोग्गले असंखेज्जपएसो-
गाढस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए
चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-अड्डफासेहिं छट्ठाणवडिते ।

५१५. एगसमयठितीयाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता ।
से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगसमयठितीए पोग्गले एगसमय- २०
ठितीयस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाते
चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्णादि-अड्डफासेहिं छट्ठाणवडिते ।

५१६. एवं जाव दससमयठिईए ।

५१७. संखेज्जसमयठितीयाणं एवं चेव । नवरं ठितीए दुट्ठाणवडिते ।

५१८. असंखेज्जसमयठितीयाणं एवं चेव । नवरं ठिईए चउट्ठाणवडिते ।

५१९. एगगुणकालाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पञ्जवा । से केणट्टेणं २५
भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगगुणकालए पोग्गले [ग्रन्थाग्रम् ३०००]
एगगुणकालाणस्स पोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहण-
ड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, कालवण्णपञ्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं
वण्ण-गंध-रस-फासपञ्जवेहिं छट्ठाणवडिते, अड्डहिं फासेहिं छट्ठाणवडिते ।

असंखेज्जगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अह अन्महिए अणंतभागमन्महिते वा असंखेज्जतिभागमन्महिए वा संखेज्जतिभागमन्महिते वा संखेज्जगुणमन्महिए वा असंखेज्जगुणमन्महिए वा अणंतगुणमन्महिए वा; एवं अवसेसवण्ण-गंध-रस-फास-पज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, फासा णं सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खेहिं छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति परमाणुपोग्गलणं अणंता पज्जवा पणत्ता ।

५०५. दुपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा पणत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! दुपदेसिए दुपदेसियस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पदेसट्ठयाए तुल्ले; ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अन्महिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अन्महिते पदेसमन्महिते; ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादीहिं उवरिल्लेहिं चउहिं फासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५०६. एवं तिपएसिए वि । नवरं ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अन्महिते-जति हीणे पएसहीणे वा दुपएसहीणे वा, अह अन्महिते पएसमन्महिते वा दुपएसमन्महिते वा ।

५०७. एवं जाव दसपएसिए । नवरं ओगाहणाए पएसपरिवुड्डी कायच्चा जाव दसपएसिए णवपएसहीणे त्ति ।

५०८. संखेज्जपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! संखेज्जपएसिए खंधे संखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले; पदेसट्ठयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय मन्महिते-जति हीणे संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा, अह अन्मइए एवं चेव; ओगाहणट्ठयाए वि दुट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासपज्जवेहि य छट्ठाणवडिते ।

५०९. असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! असंखेज्जपएसिए खंधे असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वट्ठयाए तुल्ले, पएसट्ठयाए चउट्ठाणवडिते, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

१. वा । नीलवण्णपज्जवेहिं सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अन्मइए-जट्ठि हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अहउन्मइए अणंतभागमन्मइए वा असंखेज्जभागमन्मइए वा संखेज्जभागमन्मइए वा संखेज्जगुणमन्मइए वा असंखेज्जगुणमन्मइए वा अणंतगुणमन्महितिए वा, एवं अवसेस^१ ध०॥

२. ^०ए । नवरं णव^० मु०॥

५२८. एवं जाव दसपएसिए णेयव्वं । णवरमजहण्णुक्कोसोगाहणए पदेस-
परिवुड्डी कातव्वा, जाव दसपएसियस्स सत्त पएसा परिवड्डीज्जति ।

५२९. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा !
अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणगे संखेज्जपएसिए
जहण्णोगाहणगस्स संखेज्जपएसियस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पएसड्डयाते दुट्ठाणवडित्ते, ५
ओगाहणड्डयाते तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडिए, वण्णादि-चउफासपज्जवेहि य
छट्ठाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे दुट्ठाणवडित्ते ।

५३०. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ । १०
गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
असंखेज्जपएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए
तुल्ले, पएसड्डयाते चउट्ठाणवडित्ते, ओगाहणड्डयाते तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते,
वण्णादि-उवरिल्लफासेहि य छट्ठाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे चउट्ठाण-
वडित्ते । १५

५३१. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए अणंत-
पएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, २०
पदेसड्डयाए छट्ठाणवडित्ते, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्णादि-
उवरिल्लचउफासेहिं छट्ठाणवडिए ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए वि तुल्ले ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छ । गोयमा !
अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे २५
अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपदेसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए
छट्ठाणवडित्ते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिए, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्णादि-
अड्डफासेहिं छट्ठाणवडित्ते ।

५२०. एवं जाव दसगुणकालए ।

५२१. संखेज्जगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सद्धाने दुट्ठाणवडिते ।

५२२. एवं असंखेज्जगुणकालए वि । णवरं सद्धाने चउट्ठाणवडिते ।

५२३. एवं अणंतगुणकालए वि । नवरं सद्धाने छट्ठाणवडिते ।

५ ५२४. एवं जहा कालवण्णस्स वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि वण्ण-गंध-रस-फासाणं वत्तव्वया भाणितव्वा जाव अणंतगुणलुक्खे ।

५२५. [१] जहण्णोगाहणयाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए दुपएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स दुपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले, १० ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, सेसवण्ण-गंध-रसपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, सीय-उसिणं-णिद्ध-लुक्खफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, से तेणट्ठेणं गोतमा ! एवं वुच्चति जहण्णोगाहणयाणं दुपएसियाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव ।

१५ [३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणओ नत्थि ।

५२६. [१] जहण्णोगाहणयाणं भंते ! तिपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता पज्जवा । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहा दुपएसिते जहण्णोगाहणते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव ।

२० [३] एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि ।

५२७. [१] जहण्णोगाहणयाणं भंते ! चउपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहा जहण्णोगाहणए दुपएसिते तहा जहण्णोगाहणए चउपएसिते ।

[२] एवं जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा उक्कोसोगाहणए चउप्प-एसिए वि ।

२५ [३] एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि चउप्पएसिते । णवरं ओगाहण-ड्डयाते सिय हीणे सिय तुल्ले सिय मब्भइए-जति हीणे पएसहीणे, अहड्ढभइते पएसम्भतिए ।

५२८. एवं जाव दसपएसिए णेयव्वं । णवरमजहण्णुक्कोसोगाहणए पदेस-
परिवुड्डी कातव्वा, जाव दसपएसियस्स सत्त पएसा परिवुड्डीज्जंति ।

५२९. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा !
अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणगे संखेज्जपएसिए
जहण्णोगाहणगस्स संखेज्जपएसियस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पएसड्डयाते दुट्ठाणवड्डिते, ५
ओगाहणड्डयाते तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवड्डिए, वण्णादि-चउफासपज्जेवेहि य
छट्ठाणवड्डिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं सट्ठाणे दुट्ठाणवड्डिते ।

५३०. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ । १०
गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए
असंखेज्जपएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स असंखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए
तुल्ले, पएसड्डयाते चउट्ठाणवड्डिते, ओगाहणड्डयाते तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवड्डिते,
वण्णादि-उवरिल्लफासेहि य छट्ठाणवड्डिते ।

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे चउट्ठाण-
वड्डिते ।

५३१. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छ ।
गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए अणंत-
पएसिए खंधे जहण्णोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, २०
पदेसड्डयाए छट्ठाणवड्डिते, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवड्डिते, वण्णादि-
उवरिल्लचउफासेहिं छट्ठाणवड्डिए ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए वि तुल्ले ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छ । गोयमा !
अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे २५
अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगस्स अणंतपदेसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए
छट्ठाणवड्डिते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवड्डिए, ठितीए चउट्ठाणवड्डिते, वण्णादि-
अट्ठाफासेहिं छट्ठाणवड्डिते ।

५३२. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केण्डेणं ? गोयमा ! जहण्णठितीए परमाणुपोग्गले जहण्णठितीयस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए तुल्ले, वण्णादि-दुफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

५ [२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते ।

५३३. [१] जहण्णठितीयाणं दुपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केण्डेणं भंते !? गोयमा ! जहण्णठितीए दुपएसिते जहण्णठितीयस्स दुपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय १० अच्चहिण-जति हीणे पदेसहीणे, अह अच्चतिण पदेसच्चतिते; ठितीए तुल्ले, वण्णादि-चउप्फासेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते ।

५३४. एवं जाव दसपदेसिते । नवरं पदेसपरिवुड्डी कातव्वा । ओगाहण- १५ ड्डयाए तिसु वि गमएसु जाव दसपएसिए णव पएसो वडिञ्जति ।

५३५. [१] जहण्णाट्ठितीयाणं भंते ! संखेज्जपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केण्डेणं ? गोयमा ! जहण्णाट्ठितीए संखेज्जपदेसिए खंधे जहण्णठितीयस्स संखेज्जपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए दुट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए दुट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्णादि-चउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

२० [२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसट्ठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते ।

५३६. [१] जहण्णठितीयाणं असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केण्डेणं ? गोयमा ! जहण्णठितीए असंखेज्जपएसिए जहण्णठितीयस्स असंखेज्जपदेसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाते चउट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाते २५ चउट्ठाणवडिते, ठितीए तुल्ले, वण्णादि-उवरिल्लचउप्फासेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्ठाणवडिते ।

५३७. [१] जहण्णठितीयाणं अणंतपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्टेणं ? गोयमा ! जहण्णठितीए अणंतपएसिए जहण्णठितीयस्स अणंतपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए छट्टाणवडित्ते, ओगाहणड्डयाए चउट्टाणवडित्ते, ठितीए तुल्ले, वण्णादि-अड्डफासेहि य छट्टाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउट्टाणवडित्ते ।

५३८. [१] जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्टेणं ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए परमाणुपोग्गले जहण्णगुणकालगस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले, ओगाहणड्डयाए तुल्ले, ठितीए चउट्टाणवडित्ते, कालवण्णपज्जेवेहिं तुल्ले, अवसेसा वण्णा गत्थि, १० गंध-रस-फासपज्जेवेहि य छट्टाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] एवमजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि । णवरं सट्टाणे छट्टाणवडित्ते ।

५३९. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! दुपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्टेणं ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए दुपएसिए जहण्णगुणकालगस्स १५ दुपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भतित्ते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अब्भतिए पएसमब्भतिए; ठितीए चउट्टाणवडित्ते, कालवण्णपज्जेवेहिं तुल्ले, अवसेसवण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्टाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे छट्टाणवडित्ते ।

५४०. एवं जाव दसपएसित्ते । णवरं पएसपरिवड्डी, ओगाहणा तहेव ।

५४१. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! संखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्टेणं ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए संखेज्जपएसिए २५ जहण्णगुणकालगस्स संखेज्जपएसियस्स दव्वड्डयाते तुल्ले, पएसड्डयाते दुट्टाणवडित्ते, ओगाहणड्डयाए दुट्टाणवडित्ते, ठितीए चउट्टाणवडित्ते, कालवण्णपज्जेवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्टाणवडित्ते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५४२. [१] जहणगुणकालयाणं भंते ! असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ ।
 ५ गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहणगुणकालए असंखेज्जपएसिए जहण-
 गुणकालगस्स असंखेज्जपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए चउट्ठाणवडिते,
 ठितीए चउट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिए, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले,
 अवसेसेहिं वण्णादि-उवरिल्लचउफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

१० [३] अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५४३. [१] जहणगुणकालयाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छ । गोयमा !
 अणंता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहणगुणकालए अणंतपएसिए
 जहणगुणकालयस्स अणंतपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए छट्ठाणवडिते,
 १५ ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले,
 अवसेसेहिं वण्णादि-अड्डफासेहि य छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५४४. एवं नील-लोहित-हालिद्द-सुक्किल्ल-सुन्धिगंध-दुन्धिगंध-तित्त-कड्डय-
 २० कसाय-अंघिल-महुररसपज्जवेहि य वत्तव्वया भाणियव्वा । नवरं परमाणुपोग्गलस्स
 सुन्धिगंधस्स दुन्धिगंधो न भण्णाति, दुन्धिगंधस्स सुन्धिगंधो न भण्णाति,
 तित्तस्स अवसेसा ण भण्णाति । एवं कड्डयादीण वि । सेसं तं चेव ।

५४५. [१] जहणगुणकक्खडाणं अणंतपएसियाणं पुच्छ । गोयमा !
 अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहणगुणकक्खडे अणंतपएसिए जहणगुणक-
 २५ कक्खडस्स अणंतपदेसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगा-
 हणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रसेहिं छट्ठाणवडिते,
 कक्खडफासपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणकक्खडे वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकक्खडे वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडित्ते ।

५४६. एवं मउय-गरुय-लहुए वि भाणितव्वे ।

५४७. [१] जहण्णगुणसीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते परमाणुपोग्गले जहण्णगुणसीतस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वड्याए तुल्ले, पदेसड्याए तुल्ले, ओगाहण्ड्याए तुल्ले, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्ण-गंध-रसेहिं छट्ठाणवडित्ते, सीतफासपज्जवेहि य तुल्ले, उसिणफासो न भण्णति, णिद्ध-लुक्खफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडित्ते ।

१०

[२] एवं उक्कोसगुणसीते वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडित्ते ।

५४८. [१] जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते दुपएसिए जहण्णगुणसीयस्स दुपएसियस्स दव्वड्याए तुल्ले, पएसड्याए तुल्ले; ओगाहण्ड्याए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय अब्भहिते—जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसमब्भतिए; ठिईए चउट्ठाणवडिए, वण्ण-गंध-रसपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए, सीतफासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिण-निद्ध-लुक्खफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिए ।

१५

[२] एवं उक्कोसगुणसीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए ।

२०

५४९. एवं जाव दसपएसिए । नवरं ओगाहण्ड्याए पदेसपरिवड्डी कायव्वा जाव दसपएसियस्स णव पएसो वडिञ्जति ।

५५०. [१] जहण्णगुणसीयाणं संखेज्जपएसियाणं भंते ! पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते संखेज्जपएसिए जहण्णगुणसीयस्स संखेज्जपएसियस्स दव्वड्याए तुल्ले, पएसड्याए दुट्ठाणवडिए, ओगाहण्ड्याए दुट्ठाणवडित्ते, ठितीए चउट्ठाणवडित्ते, वण्णाईहिं छट्ठाणवडिए, सीतफासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिण-निद्ध-लुक्खेहिं छट्ठाणवडिए ।

२५

[२] एवं उक्कोसगुणसीए वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए ।

५५१. [१] जहणगुणसीताणं असंखेज्जपएसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहणगुणसीते असंखेज्जपएसिए जहणगुण-
५ सीयस्स असंखेज्जपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पएसड्डयाए चउट्ठाणवडिते,
ओगाहणड्डयाए चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादिपज्जवेहिं छट्ठाण-
वडिते, सीतफासपज्जवेहिं तुल्ले, उसिण-निद्ध-लुक्खफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणसीते वि ।

१० [३] अजहणमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे
छट्ठाणवडिते ।

५५२. [१] जहणगुणसीताणं अणंतपदेसियाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहणगुणसीते अणंतपदेसिए जहणगुण-
सीतस्स अणंतपएसियस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणड्डयाए
चउट्ठाणवडिते, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादिपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते, सीतफास-
१५ पज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसगुणसीते वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५५३. एवं उसिणे निद्धे लुक्खे जहा सीते । परमाणुपोगलस्स तहेव पडिवक्खो, सव्वेसिं न भण्णइ ति भाणित्तव्वं ।

२० ५५४. [१] जहणपदेसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! जहणपदेसिते खंधे जहणपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए तुल्ले, पदेसड्डयाए तुल्ले; ओगाहणड्डयाए सिय हीणे सिय तुल्ले सिय मन्महिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अन्मत्तिए पदेसमन्मत्तिए; ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्ण-नांध-रस-उवरिल्लचउफासपज्जवेहिं छट्ठाणवडिते ।

२५ [२] उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वड्डयाए

१. °तव्वं । साम्प्रतं सामान्यसूत्रमारभ्यते—५५४. [१] जहण° इतिरूपः पाठः सर्वास्वपि सूत्रप्रतिपु वर्तते ॥

तुल्ले, पदेसङ्क्याए तुल्ले, ओगाहणङ्क्याए चउङ्गाणवडिते, ठितीए चउङ्गाणवडिते, वण्णादि-अङ्गफासपज्जवेहि य छङ्गाणवडिते ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसपदेसियाणं भंते ! खंधाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता । से केणङ्केणं ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसपदेसिए खंधे अजहण्णमणुक्कोसपदेसियस्स खंधस्स दच्चङ्क्याए तुल्ले, पदेसङ्क्याए छङ्गाणवडिते, ५
ओगाहणङ्क्याए चउङ्गाणवडिते, ठितीए चउङ्गाणवडिते, वण्णादि-अङ्गफासपज्जवेहि य छङ्गाणवडिते ।

५५५. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणङ्केणं ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए पोग्गले जहण्णोगाहणगस्स पोग्गलस्स दच्चङ्क्याए तुल्ले, पदेसङ्क्याए छङ्गाणवडिते, ओगाहणङ्क्याए तुल्ले, ठितीए १०
चउङ्गाणवडिते, वण्णादि-उवरिल्लिफासेहि य छङ्गाणवडिते ।

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए तुल्ले ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणङ्केणं ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए पोग्गले अजहण्णमणुक्को- १५
सोगाहणगस्स पोग्गलस्स दच्चङ्क्याए तुल्ले, पदेसङ्क्याए छङ्गाणवडिते, ओगाहणङ्क्याए चउङ्गाणवडिते, ठितीए चउङ्गाणवडिते, वण्णादि-अङ्गफासपज्जवेहिं छङ्गाणवडिते ।

५५६. [१] जहण्णठितीयाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छ । गोयमा ! अणंता । से केणङ्केणं ? गोयमा ! जहण्णठितीए पोग्गले जहण्णठितीयस्स पोग्गलस्स दच्चङ्क्याए तुल्ले, पदेसङ्क्याए छङ्गाणवडिते, ओगाहणङ्क्याए चउङ्गाणवडिते, ठितीए २०
तुल्ले, वण्णादि-अङ्गफासपज्जवेहि य छङ्गाणवडिते ।

[२] एवं उक्कोसठितीए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए एवं चेव । नवरं ठितीए वि चतुङ्गाणवडिते ।

५५७. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पोग्गलाणं केवतिया पज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता । से केणङ्केणं ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पोग्गले २५
जहण्णगुणकालयस्स पोग्गलस्स दच्चङ्क्याए तुल्ले, पदेसङ्क्याए छङ्गाणवडिते, ओगाहणङ्क्याए चउङ्गाणवडिते, ठितीए चउङ्गाणवडिते, कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहि य छङ्गाणवडिते, से एणङ्केणं गोयमा !
अणंतां बुवति जहण्णगुणकालयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ।

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिते ।

५५८. एवं जहा कालवण्णपज्जवाणं वत्तव्वया भणिता तहा सेसाण वि
वण्ण-गंध-रस-फांसपज्जवाणं वत्तव्वया भाणितव्वा, जाव अजहण्णमणुक्कोसलुक्खे
५ सट्ठाणे छट्ठाणवडिते । से तं रूविअजीवपज्जवा । से तं अजीवपज्जवा ।

॥ पणवणाए भगवईए पंचमं विसेसपयं समत्तं ॥

६. छट्टं वक्तृतिपयं

[५५९. अट्टदारपरूवणं]

५५९. चारस १ चउवीसाइं २ सअंतरं ३ एगसमय ४ कत्तो य ५ ।
उव्वट्टण ६ परभवियाउयं ७ च अट्टेव आगरिसा ८ ॥ १८२ ॥

[सुत्ताइं ५६०-५६८. पढमं चारसदारं]

५

५६०. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६१. तिरियगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६२. मणुयगती णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? १०
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६३. देवगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६४. सिद्धगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहितौ सिज्झणयाए
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

१५

५६५. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उव्वट्टणयाए
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६६. तिरियगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उव्वट्टणयाए
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६७. मणुयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्टणाए २०
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६८. देवगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता । दारं १ ॥

१. चारस य चउवीसा सअं^० जे० ध० खं० प्र० वी० हा० पु२.सं० ॥ २. ०त्ता उववाएणं
पण्णत्ता ? सं० ॥

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि ।

[३] अजहणमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते ।

५५८. एवं जहा कालवण्णपज्जवाणं वत्तच्चया भणित्ता तहा सेसाण वि
वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवाणं वत्तच्चया भाणितत्त्वा, जाव अजहणमणुक्कोसलुक्खे
५ सट्टाणे छट्टाणवडिते । से तं रूविअजीवपज्जवा । से तं अजीवपज्जवा ।

॥ पणवणाए भगवईए पंचमं विसेसपयं समत्तं ॥

६. छट्टं वक्रंतिपयं

[५५९. अट्टदारपरूवणं]

५५९. चारस १ चउवीसाइं २ सअंतरं ३ एगसमय ४ कतो य ५ ।
उव्वट्टण ६ परभवियाउयं ७ च अट्टेव आगरिसा ८ ॥ १८२ ॥

[सुत्ताइं ५६०-५६८. पढमं चारसदारं]

५

५६०. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६१. तिरियगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६२. मणुयगती णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? १०
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६३. देवगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६४. सिद्धगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहितौ सिज्झणयाए
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

१५

५६५. निरयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उव्वट्टणयाए
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६६. तिरियगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उव्वट्टणयाए
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६७. मणुयगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्टणाए २०
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता ।

५६८. देवगती णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस मुहुत्ता । दारं १ ॥

१. चारस य चउवीसा सअं^० जे० ध० खं० प्र० वी० हा० पुरसं० ॥ २. ^०त्ता उववाएणं
पण्णत्ता ? खं० ॥

[सुत्ताइं ५६९-६०८. विइयं चउव्वीसाइंदारं]

५६९. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५७०. सक्करप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं सत्त रातिंदियाणि ।

५७१. वालुयप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धमासं ।

५७२. पंक्कप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं मासं ।

५७३. धूमप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो मासा ।

५७४. तमापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चत्तारि मासा ।

५७५. अधेसत्तमापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

५७६. असुरकुमारा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५७७. पागकुमारा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५७८. एवं सुवण्णकुमाराणं विज्जुकुमाराणं अग्गिकुमाराणं दीवकुमाराणं उदहिकुमाराणं दिसाकुमाराणं वाउकुमाराणं थणियकुमाराणं य पत्तेयं पत्तेयं जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५७९. पुढविकाइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! अणुसमयमविरहियं उववाएणं पण्णत्ता ।

५८०. एवं आउकाइयाणं वि तेउकाइयाणं वि वाउकाइयाणं वि वण्णफ्फइकाइयाणं वि अणुसमयं अविरहिया उववाएणं पण्णत्ता ।

५८१. वेइंदिया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं ।

५८२. एवं तेइंदिय-चउरिंदिया ।

५८३. सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ! गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तां ।

५८४. गम्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस सुहुत्ता । ५

५८५. सम्मुच्छिममणुस्सा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५८६. गम्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस सुहुत्ता । १०

५८७. वाणमंतराणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५८८. जोइसियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५८९. सोहम्मकप्पे देवा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता । १५

५९०. ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता ।

५९१. सणकुमारदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं नव रातिंदियाइं वीसा य सुहुत्ता । २०

५९२. माहिंददेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चारस राइंदियाइं दस सुहुत्ता ।

५९३. वंभलोए देवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धतेवीसं रातिंदियाइं ।

५९४. लंतगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पणतालीसं रातिंदियाइं । २५

१. चउरिंदिय-सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाण य जहण्णेणं एगं खं० घ० म० ॥ २. ५८७ वंतराणं पुच्छा जे० ध० खं० प्र० ॥ ३. °कुमारे दे° पुर ॥ ४. पणयालीसं पुर ॥

५९५. महासुकुदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असीतिं रातिंदियाइं ।

५९६. सहस्सारदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं रातिंदियसतं ।

५ ५९७. आणयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा मासा ।

५९८. पाणयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा मासा ।

५९९. आरणदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं १० संखेज्जा वासा ।

६००. अञ्जुयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा वासा ।

६०१. हेड्डिमगेवेज्जाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससताइं ।

१५ ६०२. मज्झिमगेवेज्जाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

६०३. उवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससतसहस्साइं ।

२० ६०४. विजय-वेजयंत-जयंताऽपराजियदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

६०५. सव्वट्ठसिद्धगदेवा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उववाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स संखेज्जभागं ।

६०६. सिद्धा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया सिज्जणयाए पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

२५ ६०७. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्ठणाए पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउच्चीसं मुहुत्ता ।

६०८. एवं सिद्धवज्जा उच्चट्टणा वि भाणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइय
ति । नवरं जोइसिय-वेमाणिएसु चयणं ति अहिलावो कायव्वो । दारं २ ॥

[सुत्ताइं ६०९-६२५. तइयं सअंतरंदारं]

६०९. नेरइया णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं उववज्जंति ?
गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति । ५

६१०. तिरिक्खज्जोणिया णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं
उववज्जंति ? गायमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ।

६११. मणुस्सा णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं उववज्जंति ?
गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ।

६१२. देवा णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं उववज्जंति ? १०
गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ।

६१३. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं
उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ।

६१४. एवं जाव अहेसत्तमाए संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि
उववज्जंति । १५

६१५. असुरकुमारा णं भंते ! देवा किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं
उववज्जंति ? गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ।

६१६. एवं जाव थणियकुमारा संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि
उववज्जंति ।

६१७. पुढविकाइया णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं उववज्जंति ? २०
गोयमा ! नो संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ।

६१८. एवं जाव वणस्सइकाइया नो संतरं उववज्जंति, निरंतरं उववज्जंति ।

६१९. वेइंदिया णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं उववज्जंति ?
गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति ।

६२०. एवं जाव पंचेदियतिरिक्खज्जोणिया ।

६२१. मणुस्सा णं भंते ! किं संतरं उववज्जंति ? निरंतरं उववज्जंति ?
गोयमा ! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववज्जंति । २५

५९५. महासुक्कदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असीतिं रातिंदियाइं ।

५९६. सहस्सरदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं रातिंदियसतं ।

५ ५९७. आणयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा मासा ।

५९८. पाणयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा मासा ।

१० ५९९. आरणदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा वासा ।

६००. अन्नुयदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जा वासा ।

६०१. हेड्डिमगेवेज्जाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससताइं ।

१५ ६०२. मज्झिमगेवेज्जाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्ताइं ।

६०३. उवरिमगेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससतसहस्ताइं ।

२० ६०४. विजय-वेजयंत-जयंताऽपराजियदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं ।

६०५. सच्चट्टसिद्धगदेवा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिता उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स संखेज्जइभागं ।

६०६. सिद्धा णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया सिज्जणयाए पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ।

२५ ६०७. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवतियं कालं विरहिया उव्वट्टणाए पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउच्चीसं सुहुत्ता ।

६३४. एवं तेइंदिया चउरिंदिया सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया गम्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सम्मुच्छिममणूस-वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मि-साण-सणकुमार-माहिंद-ब्रंभलोय-लंतर्ग-सुक्क-सहस्सारकप्पदेवा, एते जहा नेरइया ।

६३५. गम्भवक्कंतियमणूस-आणय-पाणय-आरण-अच्चुय-गेवेज्जग-अणुत्तरो-ववाइया य एते जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । ५

६३६. सिद्धा णं भंते ! एगसमएणं केवतिया सिज्जंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं अट्टसतं ।

६३७. नेरइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उव्वट्ठंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उव्वट्ठंति । १०

६३८. एवं जहा उववाओ भणितो तथा उव्वट्ठणा वि सिद्धवज्जा भाणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइया । णवरं जोइसिय-वेमाणियाणं चयणेणं अभिलावो कातव्वो । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं ६३९-६६५. पंचमं कत्तोदारं]

६३९. [१] नेरइया णं भंते ! कत्तोहितो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? मणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइया नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो देवेहिंतो उववज्जंति । १५

[२] जदि तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? तेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो एगिंदिय० नो वेइंदिय० नो तेइंदिय० नो चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति । २०

[३] जति पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! जलयरपंचेंदियति- २५

६२२. एवं वाणमंतरा जोइसिया सोहम्म-ईसाण-सणकुमार-माहिंद-
बंमलय-लंतग-महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-ऽनुय-हेट्टिमगेवेज्जग-मज्झिम-
गेवेज्जग-उवरिमगेवेज्जग-विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजित-सवट्टसिद्धदेवा य संतरं पि
उववज्जंति निरंतरं पि उववज्जंति ।

५ ६२३. सिद्धा णं भंते ! किं संतरं सिज्जंति ? निरंतरं सिज्जंति ? गोयमा !
संतरं पि सिज्जंति, निरंतरं पि सिज्जंति ।

६२४. नेरइया णं भंते ! किं संतरं उव्वट्ठंति ? निरंतरं उव्वट्ठंति ?
गोयमा ! संतरं पि उव्वट्ठंति, निरंतरं पि उव्वट्ठंति ।

६२५. एवं जहा उववाओ भणितो तहा उव्वट्ठणा वि सिद्धवज्जा
१० भाणितव्वा जाव वेमाणिता । नवरं जोइसिय-वेमाणिएसु चयणं ति अभिलावो
कातव्वो । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं ६२६-६३८. चउत्थं एगसमयदारं]

६२६. नेरइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? गोयमा !
जहण्णेणं एगो वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा
१५ उववज्जंति ।

६२७. एवं जाव अहेसत्तमाए ।

६२८. असुरकुमारा णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा ।

६२९. एवं णागकुमारा जाव थणियकुमारा वि भाणियव्वा ।

२० ६३०. पुढविकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? गोयमा !
अणुसमयं अविरहियं असंखेज्जा उववज्जंति ।

६३१. एवं जाव वाउकाइया ।

६३२. वणप्फतिकाइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
गोयमा ! सट्ठाणुववायं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया अणंता उववज्जंति, परट्ठाणु-
२५ ववायं पडुच्च अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उववज्जंति ।

६३३. वेइंदिया णं भंते ! केवतिया एगसमएणं उववज्जंति ? गोयमा !
जहण्णेणं एगो वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा ।

६३४. एवं तेइंदिया चउरिंदिया सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया गम्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सम्मुच्छिममणूसा वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मी-साण-सणकुमार-माहिंद-त्रंभलोय-लंतर्ग-सुक्क-सहस्सारकप्पदेवा, एते जहा नेरइया ।

६३५. गम्भवक्कंतियमणूस-आणय-पाणय-आरण-अच्चुय-नेवेज्जा-अणुत्तरो-ववाइया य एते जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति । ५

६३६. सिद्धा णं भंते ! एगसमएणं केवतिया सिज्जंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं अडुसतं ।

६३७. नेरइया णं भंते ! एगसमएणं केवतिया उव्वट्ठंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उव्वट्ठंति । १०

६३८. एवं जहा उववाओ भणितो तहा उव्वट्ठणा वि सिद्धवज्जा भाणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइया । णवरं जोइसिय-वेमाणियाणं चयणेणं अभिलावो कातव्वो । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं ६३९-६६५. पंचमं कत्तोदारं]

६३९. [१] नेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? मणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइया नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो देवेहिंतो उववज्जंति । १५

[२] जदि तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? तेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो एगिंदिय० नो वेइंदिय० नो तेइंदिय० नो चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति । २०

[३] जति पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? खलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! जलयरपंचिंदियति- २५

हितो उववज्जति ? असंखेज्जवासाउयगम्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! संखेज्जवासाउएहितो उववज्जति, नो
असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ।

[११] जति संखेज्जवासाउयगम्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जति किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगम्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचें- ५
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगम्भवक्कतियचउ-
प्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! पज्जत्तएहितो
उववज्जति, नो अपज्जत्तयसंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ।

[१२] जति परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं
उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? भुयपरिसप्पथलयर- १०
पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जति ।

[१३] जदि उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति
किं सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ?
गम्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा !
सम्मुच्छिमेहितो वि उववज्जति, गम्भवक्कतिएहितो वि उववज्जति । १५

[१४] जति सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो
उववज्जति किं पज्जत्तगेहितो उववज्जति ? अपज्जत्तगेहितो उववज्जति ? गोयमा !
पज्जत्तगसम्मुच्छिमेहितो उववज्जति, नो अपज्जत्तगसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचें-
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ।

[१५] जति गम्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो २०
उववज्जति किं पज्जत्तएहितो ? अपज्जत्तएहितो ? गोयमा ! पज्जत्तगगम्भवक्कतिएहितो
उववज्जति, नो अपज्जत्तगगम्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो
उववज्जति ।

[१६] जति भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति
किं सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? २५
गम्भवक्कतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा !
दोहितो वि उववज्जति ।

[१७] जति सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो
उववज्जति किं पज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो

रिक्खजोणिएहितो वि उववज्जति, थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो वि उववज्जति, खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो वि उववज्जति ।

[४] जइ जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं सम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गन्भवक्कतियजलयरपंचेदिय-
५ तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! सम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणि-
एहितो वि उववज्जति, गन्भवक्कतियजलयरपंचेदिएहितो वि उववज्जति ।

[५] जति सम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं पज्जत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? अपज्जत्तयसम्मु-
१० च्छिमजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! पज्जत्तयसम्मुच्छिम-
जलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति, नो अपज्जत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचे-
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ।

[६] जति गन्भवक्कतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं पज्जत्तगगन्भवक्कतियजलयरपंचेदिएहितो उववज्जति ? अपज्जत्तयगन्भवक्कतियजलयर-
१५ पंचेदियेहितो उववज्जति ? गोयमा ! पज्जत्तयगन्भवक्कतियजलयरपंचेदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जति, नो अपज्जत्तगगन्भवक्कतियजलयरपंचेदियतिरिक्खजोणि-
एहितो उववज्जति ।

[७] जइ थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं चउप्पय-
थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो
२० वि उववज्जति, परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो वि उववज्जति ।

[८] जादि चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं सम्मुच्छिमेहितो उववज्जति ? गन्भवक्कतिएहितो उववज्जति ? गोयमा !
सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो वि उववज्जति, गन्भवक्कतिय-
चउप्पएहितो वि उववज्जति ।

[९] जइ सम्मुच्छिमचउप्पएहितो उववज्जति किं पज्जत्तगसम्मुच्छिमच-
उप्पयथलयरपंचेदिएहितो उववज्जति ? अपज्जत्तगसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदिए-
हितो उववज्जति ? गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जति, नो अपज्जत्तगसम्मुच्छिम-
चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ।

[१०] जति गन्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिएहितो
३० उववज्जति किं संखेज्जवासाउगगन्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिए-

हितो उववज्जति ? असंखेज्जवासाउयगन्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! संखेज्जवासाउएहितो उववज्जति, नो
असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ।

[११] जति संखेज्जवासाउयगन्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जति किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचें- ५
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कतियचउ-
प्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! पज्जत्तएहितो
उववज्जति, नो अपज्जत्तयसंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ।

[१२] जति परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति किं
उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? भुयपरिसप्पथलयर- १०
पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जति ।

[१३] जदि उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति
किं सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ?
गन्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा !
सम्मुच्छिमोहितो वि उववज्जति, गन्भवक्कतिएहितो वि उववज्जति । १५

[१४] जति सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो
उववज्जति किं पज्जत्तगोहितो उववज्जति ? अपज्जत्तगोहितो उववज्जति ? गोयमा !
पज्जत्तगसम्मुच्छिमोहितो उववज्जति, नो अपज्जत्तगसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचें-
दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ।

[१५] जति गन्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो २०
उववज्जति किं पज्जत्तएहितो ? अपज्जत्तएहितो ? गोयमा ! पज्जत्तगगन्भवक्कतिएहितो
उववज्जति, नो अपज्जत्तगगन्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो
उववज्जति ।

[१६] जति भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति
किं सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? २५
गन्भवक्कतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? गोयमा !
दोहितो वि उववज्जति ।

[१७] जति सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो
उववज्जति किं पज्जत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहितो

किं पञ्चतगेहितो उववज्जति ? अपञ्चतगेहितो उववज्जति ? गोयमा ! पञ्चत्तएहितो उववज्जति, नो अपञ्चत्तएहितो उववज्जति ।

६४०. एवं जहा ओहिया उववाइया तहा रयणप्पभापुढविनेरइया वि उववाएयव्वा ।

६४१. सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छ । गोयमा ! एते वि जहा ५
ओहिया तहेवोववाएयव्वा । नवरं सम्मुच्छिमेहितो पडिसेहो कातव्वो ।

६४२. वालुयप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहितो उववज्जति ? गोयमा !
जहा सक्करप्पभापुढविनेरइया । नवरं भुयपरिसप्पेहितो वि पडिसेहो कातव्वो ।

६४३. पंकप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहा वालुयप्पभा-
पुढविनेरइया । नवरं खहयरोहितो वि पडिसेहो कातव्वो । १०

६४४. धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहा पंकप्पभापुढवि-
नेरइया । नवरं चउप्पएहितो वि पडिसेहो कातव्वो ।

६४५. [१] तमापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहितो उववज्जति ?
गोयमा ! जहा धूमप्पभापुढविनेरइया ! नवरं थंलयरोहितो वि पडिसेहो कातव्वो ।

[२] इमेणं अभिलावेणं-जति पंचिंदियतिरिक्खज्जोणिएहितो उववज्जति १५
किं जलयरपंचेदिएहितो उववज्जति ? थलयरपंचेदिएहितो उववज्जति ? खहयर-
पंचिंदिएहितो उववज्जति ? गोयमा ! जलयरपंचेदिएहितो उववज्जति, नो
थलयरोहितो नो खहयरोहितो उववज्जति ।

[३] जति मणुस्सेहितो उववज्जति किं कम्मभूमएहितो अकम्मभूमएहितो
अंतरदीवएहितो ? गोयमा ! कम्मभूमएहितो उववज्जति, नो अकम्मभूमएहितो २०
उववज्जति, नो अंतरदीवएहितो ।

[४] जति कम्मभूमएहितो उववज्जति किं संखेज्जवासाउएहितो असंखेज्ज-
वासाउएहितो उववज्जति ? गोयमा ! संखेज्जवासाउएहितो उववज्जति, नो
असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जति ।

[५] जति संखेज्जवासाउएहितो उववज्जति किं पञ्चत्तएहितो उववज्जति ? २५
अपञ्चत्तएहितो उववज्जति ? गोयमा ! पञ्चत्तएहितो उववज्जति, नो अपञ्चत्तएहितो ।

[६] जति पञ्चत्तयसंखेज्जवासाउयकम्मभूमएहितो उववज्जति किं इत्थीहितो

उववज्जंति ? पुरिसेहिंतो उववज्जंति ? नपुंसएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !
इत्थीहिंतो वि उववज्जंति, पुरिसेहिंतो वि उववज्जंति, नपुंसएहिंतो वि उववज्जंति ।

६४६. अधेसत्तमापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !
एवं चेव । नवरं इत्थीहिंतो [वि] पडिसेधो कातव्वो ।

५ ६४७. अस्सण्णी खलु पढमं, दोच्चं च सिरीसिवा, तइय पक्खी ।
सीहा जंति चउत्थिं, उरगा पुण पंचमी पुढविं ॥ १८३ ॥
छट्ठिं च इत्थियाओ, मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढविं ।
एसो परसुववाओ बोधव्वो नरयपुढवीणं ॥ १८४ ॥

६४८. असुरकुमारा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो
१० नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुएहिंतो उववज्जंति,
नो देवेहिंतो उववज्जंति । एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ तेहिंतो असुरकुमाराण
वि भाणितव्वो । नवरं असंखेज्जवासाउय-अकम्मभूमग-अंतरदीवगमणुस्स-
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति । सेसं तं चेव ।

६४९. एवं जाव थणियकुमारा ।

१५ ६५०. [१] पुढविकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? किं
नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति,
तिरिक्खजोणिएहिंतो मणुयजोणिएहिंतो देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

[२] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए-
हिंतो उववज्जंति ? जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिय-
२० तिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[३] जति एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं पुढविकाइएहिंतो
जाव वणप्फइकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पुढविकाइएहिंतो वि जाव वण-
प्फइकाइएहिंतो वि उववज्जंति ।

[४] जति पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं सुहुमपुढविकाइएहिंतो
२५ उववज्जंति ? चादरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[५] जति सुहुमपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तसुहुमपुढविकाइ-
एहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो
वि उववज्जंति ।

[६] जति बादरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तएहिंतो अपज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[७] एवं जाव वणप्फतिकाइया चउक्कएणं भेदेणं उववाएयव्वा ।

[८] जति बेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तयवेइंदिएहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तयवेइंदिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति । ५

[९] एवं तेइंदिय-चउरिंदिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[१०] जति पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं जलयरपंचेदियेहिंतो उववज्जंति ? एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ भणितो तेहिंतो एतेसिं पि भाणितव्वो । नवरं पज्जत्तग-अपज्जत्तगेहिंतो वि उववज्जंति, सेसं तं चव ।

[११] जति मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? १०
भव्वक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[१२] जति गव्वक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं कम्मभूमगगव्वक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? अकम्मभूमगगव्वक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? सेसं जहा नेरइयाणं (सु. ६३९ [४-२६]) । नवरं अपज्जत्तएहिंतो वि उववज्जंति ।

[१३] जति देवेहिंतो उववज्जंति किं भवणवासि-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो ? गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति जाव वेमाणिय-देवेहिंतो वि उववज्जंति । १५

[१४] जति भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति किं असुरकुमारदेवेहिंतो जाव थणियकुमारदेवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि जाव थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववज्जंति । २०

[१५] जति वाणमंतरेहिंतो उववज्जंति किं पिसाएहिंतो जाव गंधव्वेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पिसाएहिंतो वि जाव गंधव्वेहिंतो वि उववज्जंति ।

[१६] जइ जोइसियदेवेहिंतो उववज्जंति किं चंदविमाणेहिंतो जाव ताराविमाणेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववज्जंति । २५

[१७] जति वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ? कप्पातीतगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! कप्पोवगवेमाणि-यदेवेहिंतो उववज्जंति, नो कप्पातीयवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ।

उववज्जंति ? पुरिसेहिंतो उववज्जंति ? नपुंसएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !
इत्थीहिंतो वि उववज्जंति, पुरिसेहिंतो वि उववज्जंति, नपुंसएहिंतो वि उववज्जंति ।

६४६. अधेसत्तमापुढविनेरइया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? गोयमा !
एवं चेव । नवरं इत्थीहिंतो [वि] पडिसेधो कातव्वो ।

५ ६४७. अस्सण्णी खलु पढमं, दोच्चं च सिरीसिवा, तइय पक्खी ।
सीहा जंति चउत्थिं, उरगा पुण पंचमी पुढविं ॥ १८३ ॥
छट्ठिं च इत्थियाओ, मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढविं ।
एसो परसुववाओ बोधव्वो नरयपुढवीणं ॥ १८४ ॥

६४८. असुरकुमारा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो
१० नेरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुएहिंतो उववज्जंति,
नो देवेहिंतो उववज्जंति । एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ तेहिंतो असुरकुमाराण
वि भाणितव्वो । नवरं असंखेज्जवासाउय-अकम्मभूमग-अंतरदीवगमणुस्स-
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति । सेसं तं चेव ।

६४९. एवं जाव थणियकुमारा ।

१५ ६५०. [१] पुढविकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? किं
नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति,
तिरिक्खजोणिएहिंतो मणुयजोणिएहिंतो देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

[२] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए-
हिंतो उववज्जंति ? जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिय-
२० तिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[३] जति एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं पुढविकाइएहिंतो
जाव वणप्फइकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! पुढविकाइएहिंतो वि जाव वण-
प्फइकाइएहिंतो वि उववज्जंति ।

[४] जति पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं सुहुमपुढविकाइएहिंतो
२५ उववज्जंति ? चादरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[५] जति सुहुमपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तसुहुमपुढविकाइ-
एहिंतो उववज्जंति ? अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो
वि उववज्जंति ।

[६] जति बादरपुढविकाइएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तएहिंतो अपज्जत्त-
एहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[७] एवं जाव वणप्फतिकाइया चउक्कएणं भेदेणं उववाएयव्वा ।

[८] जति वेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं पज्जत्तयवेइंदिएहिंतो
उववज्जंति ? अपज्जत्तयवेइंदिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति । ५

[९] एवं तेइंदिय-चउरिंदिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[१०] जति पंचेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं जलयरपंचेदिये-
हिंतो उववज्जंति ? एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ भणितो तेहिंतो एतेसिं पि
भाणितव्वो । नवरं पज्जत्तग-अपज्जत्तगेहिंतो वि उववज्जंति, सेसं तं चेव ।

[११] जति मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सम्मुच्छिमणूसेहिंतो उववज्जंति ? १०
भन्भवक्कंतियमणूसेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति ।

[१२] जति गन्भवक्कंतियमणूसेहिंतो उववज्जंति किं कम्मभूमगगन्भव-
क्कंतियमणूसेहिंतो उववज्जंति ? अकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसेहिंतो उववज्जंति ?
सेसं जहा नेरइयाणं (सु. ६३९ [४-२६]) । नवरं अपज्जत्तएहिंतो वि उववज्जंति ।

[१३] जति देवेहिंतो उववज्जंति किं भवणवासि-त्राणमंतर-जोइसिय- १५
वेमाणिएहिंतो ? गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति जाव वेमाणिय-
देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

[१४] जति भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति किं असुरकुमारदेवेहिंतो जाव
थणियकुमारदेवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि जाव
थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववज्जंति । २०

[१५] जति वाणमंतरेहिंतो उववज्जंति किं पिसाएहिंतो जाव गंधव्वेहिंतो
उववज्जंति ? गोयमा ! पिसाएहिंतो वि जाव गंधव्वेहिंतो वि उववज्जंति ।

[१६] जइ जोइसियदेवेहिंतो उववज्जंति किं चंदविमाणेहिंतो जाव
ताराविमाणेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि जाव
ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववज्जंति । २५

[१७] जति वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति किं कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो
उववज्जंति ? कप्पातीतगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! कप्पोवगवेमाणि-
यदेवेहिंतो उववज्जंति, नो कप्पातीयवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ।

[१८] जति कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववजंति किं सोहम्मैहितो जाव अञ्चुएहितो उववजंति ? गोयमा ! सोहम्मैसाणेहितो उववजंति, नो सणकुमार जाव अञ्चुएहितो उववजंति ।

६५१. एवं आउक्काइया वि ।

६५२. एवं तेउ-वाऊ वि । नवरं देववजेहितो उववजंति ।

६५३. वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया ।

६५४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया एते जहा तेउ-वाऊ देववजेहितो भाणितव्वा ।

६५५. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतोहितो उववजंति ? किं नेरइएहितो उववजंति ? जाव देवेहितो उववजंति ? गोयमा ! नेरइएहितो वि तिरिक्खजोणिएहितो वि सणूसेहितो वि देवेहितो वि उववजंति ।

[२] जति नेरइएहितो उववजंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहितो उववजंति ? जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववजंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढ-विनेरइएहितो वि जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो वि उववजंति ।

६५६. [३] जति तिरिक्खजोणिएहितो उववजंति किं एगिंदिएहितो उववजंति ? जाव पंचेंदिएहितो उववजंति ? गोयमा ! एगिंदिएहितो वि जाव पंचेंदिएहितो वि उववजंति ।

[४] जति एगिंदिएहितो उववजंति किं पुढविकाइएहितो उववजंति ? एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणितो तहेव एएसिं पि भाणितव्वो । नवरं देवेहितो जाव सहस्सरकप्पोवगवेमाणियदेवेहितो वि उववजंति, नो आणयकप्पो-वगवेमाणियदेवेहितो जाव अञ्चुएहितो वि उववजंति ।

६५६. [१] मणुस्सा णं भंते ! कतोहितो उववजंति ? किं नेरइएहितो जाव देवेहितो उववजंति ? गोयमा ! नेरइएहितो वि उववजंति जाव देवेहितो वि उववजंति ।

६५७. [२] जति नेरइएहितो उववजंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहितो जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववजंति ? गोयमा ! रतणप्पभापुढविनेरइएहितो वि जाव तमापुढविनेरइएहितो वि उववजंति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववजंति ।

[३] जति तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति किं एग्गिदियतिरिक्खजोणिए-
हितो उववज्जंति ? एवं जेहितो पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भाणितो तेहितो
मणुस्साण वि णिरवसेसो भाणितव्वो । नवरं अधेसत्तमापुढविनेरइय-तेउ-त्राउका-
इएहितो ण उववज्जंति । सव्वदेवेहितो वि उववजावेयव्वा जाव कप्पातीतगवेमा-
णिय-सव्वइसिद्धदेवेहितो वि उववजावेयव्वा ।

५

६५७. वाणमंतरदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ? किं नेरइएहितो
जाव देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! जेहितो असुरकुमारां ।

६५८. जोइसियदेवा णं भंते ! कतोहितो उववज्जंति ? गोयमा ! एवं चेव ।
नवरं सम्मुच्छिमअसंखेज्जवासाउयखहयरं-अंतरदीवमणुस्सवज्जेहितो उववजावेयव्वा ।

६५९. एवं चेव वेमाणिया वि सोहम्मीसाणगा भाणितव्वा ।

१०

६६०. एवं सणंकुमारगा वि । णवरं असंखेज्जवासाउयअकम्मभूमगवज्जे-
हितो उववज्जंति ।

६६१. एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणितव्वा ।

६६२. [१] आणयदेवा णं भंते ! कतोहितो उववज्जंति ? किं नेरइएहितो
जाव देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, नो तिरिक्खजो-
णिएहितो उववज्जंति, मणुस्सेहितो उववज्जंति, नो देवेहितो ।

१५

[२] जति मणुस्सेहितो उववज्जंति किं सम्मुच्छिममणुस्सेहितो गन्भवक्कं-
तियमणुस्सेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! गन्भवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, नो
सम्मुच्छिममणुस्सेहितो ।

[३] जति गन्भवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं कम्मभूमगेहितो
उववज्जंति ? अकम्मभूमगेहितो उववज्जंति ? अंतरदीवगेहितो उववज्जंति ? गोयमा !
कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, नो अकम्मभूमगेहितो उववज्जंति,
नो अंतरदीवगेहितो ।

२०

[४] जइ कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं संखेज्जवासा-
उयेहितो उववज्जंति ? असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! संखेज्जवासा-
उएहितो, नो असंखेज्जवासाउएहितो उववज्जंति ।

२५

१. ०१। तेहितो वाणमंतरा उववजावेयव्वा प्र० मु० ॥ २. ०वज्जंति ? किं नेरइएहितो ?
किं तिरिक्खजोणिएहितो ? किं मणुस्सेहितो ? किं देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! पुरसं० ॥

३. ०पंचेदियतिरिक्खजोणिवज्जेहितो अंतरदीव० पुरसं० ॥ ४. एवं वेमा० खं० म० पुर॥

[१८] जति कप्पोवगवेमाणियदेवेहितो उववज्जंति किं सोहम्मेहितो जाव अञ्चुएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! सोहम्मीसाणेहितो उववज्जंति, नो सणंकुमार जाव अञ्चुएहितो उववज्जंति ।

६५१. एवं आउक्काइया वि ।

६५२. एवं तेउ-वाऊ वि । नवरं देववज्जेहितो उववज्जंति ।

६५३. वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया ।

६५४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया एते जहा तेउ-वाऊ देववज्जेहितो भाणितव्वा ।

६५५. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतोहितो उववज्जंति ? किं नेरइएहितो उववज्जंति ? जाव देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहितो वि तिरिक्खजोणिएहितो वि मणूसेहितो वि देवेहितो वि उववज्जंति ।

[२] जति नेरइएहितो उववज्जंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहितो उववज्जंति ? जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढ-विनेरइएहितो वि जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो वि उववज्जंति ।

६५६. [३] जति तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति किं एगिंदिएहितो उववज्जंति ? जाव पंचेंदिएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिएहितो वि जाव पंचेंदिएहितो वि उववज्जंति ।

[४] जति एगिंदिएहितो उववज्जंति किं पुढविकाइएहितो उववज्जंति ? एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणितो तहेव एएसिं पि भाणितव्वो । नवरं देवेहितो जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियं देवेहितो वि उववज्जंति, नो आणयकप्पो-वगवेमाणियदेवेहितो जाव अञ्चुएहितो वि उववज्जंति ।

६५६. [१] मणुस्सा णं भंते ! कतोहितो उववज्जंति ? किं नेरइएहितो जाव देवेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहितो वि उववज्जंति जाव देवेहितो वि उववज्जंति ।

६५७. [२] जति नेरइएहितो उववज्जंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहितो जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! रतणप्पभापुढविनेरइएहितो वि जाव तमापुढविनेरइएहितो वि उववज्जंति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहितो उववज्जंति ।

[३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए-
हिंतो उववज्जंति? एवं जेहिंतो पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भाणितो तेहिंतो
मणुस्साण वि णिरवसेसो भाणितव्वो । नवरं अघेसत्तमापुढविनेरइय-तेउ-त्राउका-
इएहिंतो ण उववज्जंति । सव्वदेवेहिंतो वि उववजावेयव्वा जाव कप्पातीतगवेमा-
णिय-सव्वड्ढसिद्धदेवेहिंतो वि उववजावेयव्वा ।

५

६५७. वाणमंतरदेवा णं भंते! कओहिंतो उववज्जंति? किं नेरइएहिंतो
जाव देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! जेहिंतो असुरकुमारं ।

६५८. जोइसियदेवा णं भंते! कतोहिंतो उववज्जंति? गोयमा! एवं चेव ।
नवरं सम्मुच्छिमअसंखेज्जवासाउयखहयरं अंतरदीवमणुस्सवज्जेहिंतो उववजावेयव्वा ।

६५९. एं चव वेमाणिया वि सोहम्मीसाणगा भाणितव्वा ।

१०

६६०. एवं सणकुमारगा वि । णवरं असंखेज्जवासाउयअकम्मभूमगवज्जे-
हिंतो उववज्जंति ।

६६१. एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणितव्वा ।

६६२. [१] आणयदेवा णं भंते! कतोहिंतो उववज्जंति? किं नेरइएहिंतो
जाव देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, नो तिरिक्खजो-
णिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो देवेहिंतो ।

१५

[२] जति मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सम्मुच्छिमणुस्सेहिंतो गन्भवक्कं-
तियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! गन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो
सम्मुच्छिमणुस्सेहिंतो ।

[३] जति गन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं कम्मभूमगेहिंतो
उववज्जंति? अकम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति? अंतरदीवगेहिंतो उववज्जंति? गोयमा!
कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो अकम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति,
नो अंतरदीवगेहिंतो ।

२०

[४] जइ कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं संखेज्जवासा-
उयेहिंतो उववज्जंति? असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति? गोयमा! संखेज्जवासा-
उएहिंतो, नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति ।

२५

१. °रा तेहिंतो वाणमंतरा उववजावेयव्वा प्र० सु० ॥ २. °वज्जंति? किं नेरइएहिंतो?
किं तिरिक्खजोणिएहिंतो? किं मणुस्सेहिंतो? किं देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! पुरसं० ॥
३. °पंचेंदियतिरिक्खजोणिवज्जेहिंतो अंतरदीव° पुरसं० ॥ ४. एवं वेमा° खं० म० पुर० ॥
१२

[१८] जति कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववजंति किं सोहम्महिंतो जाव अञ्चुएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! सोहम्मिमाणेहिंतो उववजंति, नो सणंकुमार जाव अञ्चुएहिंतो उववजंति ।

६५१. एवं आउक्काइया वि ।

६५२. एवं तेउ-त्राऊ वि । नवरं देववज्जेहिंतो उववजंति ।

६५३. वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया ।

६५४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया एते जहा तेउ-त्राऊ देववज्जेहिंतो भाणितव्वा ।

६५५. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतोहिंतो उववजंति ? किं नेरइएहिंतो उववजंति ? जाव देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि तिरिक्खजोणिएहिंतो वि सणूसेहिंतो वि देवेहिंतो वि उववजंति ।

[२] जति नेरइएहिंतो उववजंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो उववजंति ? जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववजंति ।

१५ [३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं एगिंदिएहिंतो उववजंति ? जाव पंचेंदिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! एगिंदिएहिंतो वि जाव पंचेंदिएहिंतो वि उववजंति ।

[४] जति एगिंदिएहिंतो उववजंति किं पुढविकाइएहिंतो उववजंति ? एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणितो तहेव एएसिं पि भाणितव्वो । नवरं देवेहिंतो जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो वि उववजंति, नो आणयकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो जाव अञ्चुएहिंतो वि उववजंति ।

६५६. [१] मणुस्सा णं भंते ! कतोहिंतो उववजंति ? किं नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि उववजंति जाव देवेहिंतो वि उववजंति ।

२५ [२] जति नेरइएहिंतो उववजंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! रतणप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववजंति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववजंति ।

[३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिए-
हिंतो उववज्जंति? एवं जेहिंतो पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भाणितो तेहिंतो
मणुस्साण वि णिरवसेसो भाणितव्वो । नवरं अधेसत्तमापुढविनेरइय-तेउ-त्राउका-
इएहिंतो ण उववज्जंति । सव्वदेवेहिंतो वि उववज्जावेयव्वा जाव कप्पातीतगवेमा-
णिय-सव्वइसिद्धदेवेहिंतो वि उववज्जावेयव्वा ।

५

६५७. वाणमंतरदेवा णं भंते! कओहिंतो उववज्जंति? किं नेरइएहिंतो
जाव देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! जेहिंतो असुरकुमारं ।

६५८. जोइसियदेवा णं भंते! कतोहिंतो उववज्जंति? गोयमा! एवं चेव ।
नवरं सम्मुच्छिमअसंखेज्जासाउयखहयरं अंतरदीवमणुस्सवज्जेहिंतो उववज्जावेयव्वा ।

६५९. एवं चेव वेमाणिया वि सोहम्मीसाणगा भाणितव्वा ।

१०

६६०. एवं सणंकुमारगा वि । णवरं असंखेज्जासाउयअकम्मभूमगवज्जे-
हिंतो उववज्जंति ।

६६१. एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणितव्वा ।

६६२. [१] आणयदेवा णं भंते! कतोहिंतो उववज्जंति? किं नेरइएहिंतो
जाव देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, नो तिरिक्खजो-
णिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो देवेहिंतो ।

१५

[२] जति मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो गन्भवक्कं-
तियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! गन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो
सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो ।

[३] जति गन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं कम्मभूमगेहिंतो
उववज्जंति? अकम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति? अंतरदीवगेहिंतो उववज्जंति? गोयमा!
कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो अकम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति,
नो अंतरदीवगेहिंतो ।

२०

[४] जइ कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं संखेज्जासा-
उयेहिंतो उववज्जंति? असंखेज्जासाउएहिंतो उववज्जंति? गोयमा! संखेज्जासा-
उएहिंतो, नो असंखेज्जासाउएहिंतो उववज्जंति ।

२५

१. ०१ तेहिंतो वाणमंतरा उववज्जावेयव्वा प्र० मु० ॥ २. ०ज्जंति? किं नेरइएहिंतो?
किं तिरिक्खजोणिएहिंतो? किं मणुस्सेहिंतो? किं देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! पुरसं० ॥
३. ०पंचेंदियतिरिक्खजोणिवज्जेहिंतो अंतरदीव० पुरसं० ॥ ४. एवं वेमा० खं० म० पुर० ॥
१२

[१८] जति कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति किं सोहम्महिंतो जाव अञ्जुएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! सोहम्मीसाणेहिंतो उववज्जंति, नो सणकुमार जाव अञ्जुएहिंतो उववज्जंति ।

६५१. एवं आउक्काइया वि ।

६५२. एवं तेउ-वाऊ वि । नवरं देववजेहिंतो उववज्जंति ।

६५३. वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया ।

६५४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया एते जहा तेउ-वाऊ देववजेहिंतो भाणितव्वा ।

६५५. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि तिरिक्खजोणिएहिंतो वि मणूसेहिंतो वि देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

[२] जति नेरइएहिंतो उववज्जंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववज्जंति ।

१५ [३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदिएहिंतो उववज्जंति ? जाव पंचेंदिएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! एगिंदिएहिंतो वि जाव पंचेंदिएहिंतो वि उववज्जंति ।

[४] जति एगिंदिएहिंतो उववज्जंति किं पुढविकाइएहिंतो उववज्जंति ? एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणितो तहेव एएसिं पि भाणितव्वो । नवरं देवेहिंतो जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति, नो आणयकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो जाव अञ्जुएहिंतो वि उववज्जंति ।

६५६. [१] मणुस्सा णं भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि उववज्जंति जाव देवेहिंतो वि उववज्जंति ।

२५ [२] जति नेरइएहिंतो उववज्जंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! रतणप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि जाव तमापुढविनेरइएहिंतो वि उववज्जंति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववज्जंति ।

[३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति? एवं जेहिंतो पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भाणितो तेहिंतो मणुस्साण वि णिरवसेसो भाणितव्वो । नवरं अघेसत्तमापुढविनेरइय-तेउ-त्राउका-इएहिंतो ण उववज्जंति । सव्वदेवेहिंतो वि उववजावेयव्वा जाव कप्पातीतगवेमाणिय-सव्वइसिद्धदेवेहिंतो वि उववजावेयव्वा ।

६५७. वाणमंतरदेवा णं भंते! कओहिंतो उववज्जंति? किं नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! जेहिंतो असुरकुमारां ।

६५८. जोइसियदेवा णं भंते! कतोहिंतो उववज्जंति? गोयमा! एवं चेव । नवरं सम्मुच्छिमअसंखेज्जवासाउयखहयर^१अंतरदीवमणुस्सवजेहिंतो उववजावेयव्वा ।

६५९. एवं चेव वेमाणिया वि सोहम्भीसाणगा भाणितव्वा ।

६६०. एवं सणकुमारगा वि । णवरं असंखेज्जवासाउयअकम्मभूमगवजेहिंतो उववज्जंति ।

६६१. एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणितव्वा ।

६६२. [१] आणयदेवा णं भंते! कतोहिंतो उववज्जंति? किं नेरइएहिंतो जाव देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, नो तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो देवेहिंतो ।

[२] जति मणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो गम्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! गम्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो ।

[३] जति गम्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं कम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति? अकम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति? अंतरदीवगेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! कम्मभूमगगम्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो अकम्मभूमगेहिंतो उववज्जंति, नो अंतरदीवगेहिंतो ।

[४] जइ कम्मभूमगगम्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्जंति किं संखेज्जवासाउयेहिंतो उववज्जंति? असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति? गोयमा! संखेज्जवासाउएहिंतो, नो असंखेज्जवासाउएहिंतो उववज्जंति ।

१. ^१रा तेहिंतो वाणमंतरा उववजावेयव्वा प्र० मु० ॥ २. ^२वज्जंति? किं नेरइएहिंतो? किं तिरिक्खजोणिएहिंतो? किं मणुस्सेहिंतो? किं देवेहिंतो उववज्जंति? गोयमा! पुरसं० ॥

३. ^३पंचेदियतिरिक्खजोणिवजेहिंतो अंतरदीव^० पुरसं० ॥ ४. एवं वेमा^० खं० म० पुर॥

[५] जति संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं पज्जत्तएहितो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, णो अपज्जत्तएहितो ।

[६] जति पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं सम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगेहितो उववज्जंति ? मिच्छद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयेहितो उववज्जंति ? सम्मामिच्छद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! सम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो वि उववज्जंति, मिच्छद्दिट्ठिपज्जत्तगेहितो वि उववज्जंति, णो सम्मामिच्छद्दिट्ठिपज्जत्तगेहितो उववज्जंति ।

[७] जति सम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं संजतसम्मद्दिट्ठीहितो ? असंजतसम्मद्दिट्ठिपज्जत्तएहितो ? संजयासंजयसम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! तीहितो वि उववज्जंति ।

६६३. एवं जाव अञ्जुओ कप्पो ।

६६४. एवं गेवेज्जगदेवा वि । णवरं असंजत-संजतासंजतेहितो वि एते पाडिसेहेयच्चा ।

६६५. [१] एवं जहेव गेवेज्जगदेवा तहेव अणुत्तरोववाइया वि । णवरं इमं णाणत्तं-संजया चैव ।

[२] जति संजतसम्मद्दिट्ठिपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कंतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं पमत्तसंजतसम्मद्दिट्ठिपज्जत्तएहितो अपमत्तसंजतेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! अपमत्तसंजएहितो उववज्जंति, नो पमत्तसंजएहितो उववज्जंति ।

[३] जति अपमत्तसंजएहितो उववज्जंति किं इट्ठिपत्तअपमत्तसंजतेहितो उववज्जंति ? अणिट्ठिपत्तअपमत्तसंजतेहितो उववज्जंति ? गोयमा ! दोहितो वि उववज्जंति । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं ६६६ - ६७६. छट्ठं उव्वट्ठणादारं]

६६६. [१] नेरइया णं भंते ! अणंतरं उव्वट्ठित्ता कहिं गच्छंति ? कहिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति ?

मणुस्सेसु उव्वज्जंति ? देवेषु उव्वज्जंति ? गोयमा ! णो नेरइएसु उव्वज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति, मणुस्सेसु उव्वज्जंति, नो देवेषु उव्वज्जंति ।

[२] जति तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति किं एगिंदिय जाव पंचेदिय-तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! नो एगिंदिएसु जाव नो चउरिंदिएसु उव्वज्जंति, पंचिंदिएसु उव्वज्जंति ।

[३] एवं जेहिंतो उव्वाओ भणितो तेसु उव्वट्टणा वि भाणितच्चा । णवरं सम्मुच्छिमेसु ण उव्वज्जंति ।

६६७. एवं सव्वपुढवीसुं भाणितत्वं । नवरं अहेसत्तमाओ मणुस्सेसु ण उव्वज्जंति ।

६६८. [१] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता क्किं गच्छंति ? क्किं उव्वज्जंति ? किं नेरइएसु उव्वज्जंति ? जाव देवेषु उव्वज्जंति ? गोयमा ! णो नेरइएसु उव्वज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति, मणुस्सेसु उव्वज्जंति, नो देवेषु उव्वज्जंति ।

[२] जइ तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति किं एगिंदिएसु जाव पंचेदिय-तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! एगिंदियतिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति, नो वेइंदिएसु [ग्रन्थाग्रम् ३५००] जाव नो चउरिंदिएसु उव्वज्जंति, पंचेदियतिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ।

[३] जति एगिंदिएसु उव्वज्जंति किं पुढविकाइयएगिंदिएसु जाव वणस्सइकाइयएगिंदिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! पुढविकाइयएगिंदिएसु वि आउकाइयएगिंदिएसु वि उव्वज्जंति, नो तेउकाइएसु नो वाउकाइएसु उव्वज्जंति, वणस्सइकाइएसु उव्वज्जंति ।

[४] जति पुढविकाइएसु उव्वज्जंति किं सुहुमपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? वादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! वादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति, नो सुहुमपुढविकाइएसु ।

[५] जइ वादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति किं पज्जत्तगवादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? अपज्जत्तयवायरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएसु उव्वज्जंति, नो अपज्जत्तएसु ।

[६] एवं आउ-वणस्सतीसु वि भाणितत्वं ।

[५] जति संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं पज्जत्तएहितो अपज्जत्तएहितो उववज्जंति? गोयमा! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति, णो अपज्जत्तएहितो ।

[६] जति पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं सम्मदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगोहितो उववज्जंति? मिच्छदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयेहितो उववज्जंति? सम्मामिच्छदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति? गोयमा! सम्मदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो वि उववज्जंति, मिच्छदिट्ठिपज्जत्तगेहितो वि उववज्जंति, णो सम्मामिच्छदिट्ठिपज्जत्तगेहितो उववज्जंति ।

[७] जति सम्मदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं संजतसम्मदिट्ठीहितो? असंजतसम्मदिट्ठिपज्जत्तएहितो? संजयासंजयसम्मदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जेहितो उववज्जंति? गोयमा! तीहितो वि उववज्जंति ।

६६३. एवं जाव अञ्चुओ कप्पो ।

६६४. एवं गेवेज्जगदेवा वि । णवरं असंजत-संजतासंजतेहितो वि एते पडिसेहेयव्वा ।

६६५. [१] एवं जहेव गेवेज्जगदेवा तहेव अणुत्तरोववाइया वि । णवरं इमं णाणत्तं-संजया चेव ।

[२] जति संजतसम्मदिट्ठिपज्जत्तसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणुस्सेहितो उववज्जंति किं पमत्तसंजतसम्मदिट्ठिपज्जत्तएहितो अपमत्तसंजतेहितो उववज्जंति? गोयमा! अपमत्तसंजएहितो उववज्जंति, नो पमत्तसंजएहितो उववज्जंति ।

[३] जति अपमत्तसंजएहितो उववज्जंति किं इड्ढिपत्तअपमत्तसंजतेहितो उववज्जंति? अणिड्ढिपत्तअपमत्तसंजतेहितो उववज्जंति? गोयमा! दोहितो वि उववज्जंति । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं ६६६ - ६७६. छट्टं उव्वड्डणादारं]

६६६. [१] नेरइया णं भंते! अणंतरं उव्वड्डित्ता कहिं गच्छंति? कहिं उववज्जंति? किं नेरइएसु उववज्जंति? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति?

मणुस्सेसु उव्वज्जंति ? देवेषु उव्वज्जंति ? गोयमा ! णो नेरइएसु उव्वज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति, मणुस्सेसु उव्वज्जंति, नो देवेषु उव्वज्जंति ।

[२] जति तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति किं एगिंदिय जाव पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! नो एगिंदिएसु जाव नो चउरिंदिएसु उव्वज्जंति, पंचिंदिएसु उव्वज्जंति ।

[३] एवं जेहिंतो उव्वाओ भणितो तेसु उव्वट्टणा वि भाणितव्वा । णवरं सम्मुच्छिमेसु ण उव्वज्जंति ।

६६७. एवं सव्वपुढवीसुं भाणितव्वं । नवरं अहेसत्तमाओ मणुस्सेसु ण उव्वज्जंति ।

६६८. [१] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छंति ? कहिं उव्वज्जंति ? किं नेरइएसु उव्वज्जंति ? जाव देवेषु उव्वज्जंति ? गोयमा ! णो नेरइएसु उव्वज्जंति, तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति, मणुस्सेसु उव्वज्जंति, नो देवेषु उव्वज्जंति ।

[२] जइ तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति किं एगिंदिएसु जाव पंचेंदिय-तिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! एगिंदियतिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति, नो वेइंदिएसु [अन्थाग्रम् ३५००] जाव नो चउरिंदिएसु उव्वज्जंति, पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उव्वज्जंति ।

[३] जति एगिंदिएसु उव्वज्जंति किं पुढविकाइयएगिंदिएसु जाव वणस्सइकाइयएगिंदिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! पुढविकाइयएगिंदिएसु वि आउकाइयएगिंदिएसु वि उव्वज्जंति, नो तेउकाइएसु नो वाउकाइएसु उव्वज्जंति, वणस्सइकाइएसु उव्वज्जंति ।

[४] जति पुढविकाइएसु उव्वज्जंति किं सुहुमपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? वादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! वादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति, नो सुहुमपुढविकाइएसु ।

[५] जइ वादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति किं पज्जत्तगवादरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? अपज्जत्तयवायरपुढविकाइएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! पज्जत्तएसु उव्वज्जंति, नो अपज्जत्तएसु ।

[६] एवं आउ-वणस्सतीसु वि भाणितव्वं ।

[७] पंचेंदियतिरिक्खजोगिय-मणूसेसु य जहा नेरइयाणं उव्वट्टणा सम्मुच्छिमवज्जा तहा भाणितव्वा ।

[८] एवं जाव थणियकुमारा ।

६६९. [१] पुढविकाइया णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छंति ?
५ कहिं उव्वज्जंति ? किं नेरइएसु जाव देवेसु ? गोयमा ! नो नेरइएसु उव्वज्जंति
तिरिक्खजोगिय-मणूसेसु उव्वज्जंति, नो देवेसु ।

[२] एवं जहा एतेसिं चैव उव्वाओ तहा उव्वट्टणा वि भाणितव्वा ।

६७०. एवं आउ-त्रणस्सइ-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया वि ।

६७१. एवं तेऊ वाऊ वि । णवरं मणुस्सवज्जेसु उव्वज्जंति ।

१० ६७२. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोगिया णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टिता कहिं
गच्छंति कहिं उव्वज्जंति ? किं नेरइएसु जाव देवेसु ? गोयमा ! नेरइएसु
उव्वज्जंति जाव देवेसु उव्वज्जंति ।

[२] जदि णेरइएसु उव्वज्जंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएसु उव्वज्जंति
जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएसु वि
१५ उव्वज्जंति जाव अधेसत्तमापुढविनेरइएसु वि उव्वज्जंति ।

[३] जइ तिरिक्खजोगिएसु उव्वज्जंति किं एगिंदिएसु जाव पंचेंदिएसु ?
गोयमा ! एगिंदिएसु वि उव्वज्जंति जाव पंचेंदिएसु वि उव्वज्जंति ।

[४] एवं जहा एतेसिं चैव उव्वाओ उव्वट्टणा वि तहेव भाणितव्वा ।
नवरं असंखेज्जासाउएसु वि एते उव्वज्जंति ।

२० [५] जति मणुस्सेसु उव्वज्जंति किं सम्मुच्छिममणुस्सेसु उव्वज्जंति
गम्भवक्कतियमणूसेसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! दोसु वि उव्वज्जंति ।

[६] एवं जहा उव्वाओ तहेव उव्वट्टणा वि भाणितव्वा । नवरं अकम्म-
भूमग-अंतरदीवग-असंखेज्जासाउएसु वि एते उव्वज्जंति त्ति भाणितव्वं ।

[७] जति देवेसु उव्वज्जंति किं भवणवतीसु उव्वज्जंति ? जाव किं
२५ वेमाणिएसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! सव्वेसु चैव उव्वज्जंति ।

[८] जति भवणवतीसु उव्वज्जंति किं असुरकुमारेसु उव्वज्जंति ? जाव
थणियकुमारेसु उव्वज्जंति ? गोयमा ! सव्वेसु चैव उव्वज्जंति ।

[९] एवं वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसुं निरंतरं उववज्जंति जाव सहस्सारो कप्पो त्ति ।

६७३. [१] मणुस्सा णं भंते ! अणंतरं उव्वट्टित्ता कर्हिं गच्छंति ? कर्हिं उववज्जंति ? किं नेरइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववज्जंति ? गोयमा ! नेरइएसु वि उववज्जंति जाव देवेसु वि उववज्जंति ।

[२] एवं निरंतरं सव्वेसु ठाणेषु पुच्छ । गोयमा ! सव्वेसु ठाणेषु उववज्जंति, ण कर्हिंचि पडिसेहो कायव्वो जाव सव्वट्ठगसिद्धदेवेसु वि उववज्जंति, अत्येगतिया सिज्जंति बुद्धंति मुच्चंति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ।

६७४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया सोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा । नवरं जोइसियाणं वेमाणियाण य चयंतीति अभिलावो कातव्वो ।

६७५. सणकुमारदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! जहा असुरकुमारा । नवरं एगिंदिएसु ण उववज्जंति । एवं जाव सहस्सारगदेवा ।

६७६. आणयं जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेव । णवरं णो तिरिक्खजोणिएसु उववज्जंति, मणूसेसु पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगम्भ-वक्कंतियमणूसेसु उववज्जंति । दारं ६ ॥

[सुत्ताइं ६७७-६८३. सत्तमं परभवियाउयंदारं]

६७७. नेरइया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरिंति ? गोयमा ! णियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति ।

६७८. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

६७९. पुढविकाइया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति ? गोयमा ! पुढविकाइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा - सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य । तत्थ णं जे ते निरुवक्कमाउया ते णियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति । तत्थ णं जे ते सोवक्कमाउया ते सिय तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति, सिय तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति, सिय तिभाग-तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेति ।

१ °सु वि नि° खं०॥ २ आणय-पाणय जाव खं०॥ ३ वंधंति इति मलयगिरिटीकानुसारी पाठः, नोपलब्धोऽसावादशेषु ॥

६८०. आउ-तेउ-वाउ-वणप्फइकाइयाणं वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाण वि एवं चेव ।

६८१. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभविया-
उयं पकरेंति ? गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पन्नत्ता । तं जहा - संखेज्ज-
५ वासाउया य असंखेज्जवासाउया य । तत्थ णं जे ते असंखेज्जवासाउया ते नियमा
छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तत्थ णं जे ते संखेज्जवासाउया ते
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा - सोवक्कमाउया य निरुवक्कमाउया य । तत्थ णं जे ते
निरुवक्कमाउया ते णियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तत्थ णं
जे ते सोवक्कमाउया ते णं सिय तिभागे परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागे
१० य परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं
पकरेंति ।

६८२. एवं मणूसा वि ।

६८३. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । दारं ७ ॥

[सुत्ताइं ६८४-६९२. अट्ठमं आगरिसदारं]

१५ ६८४. कतिविधे णं भंते ! आउयबंधे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विधे
आउयबंधे पण्णत्ते । तं जहा-जातिणामणिहत्ताउए १ गइनामनिहत्ताउए २ ठिती-
नामनिहत्ताउए ३ ओगाहणाणामणिहत्ताउए ४ पदेसणामणिहत्ताउए ५ अणुभा-
वणामणिहत्ताउए ६ ।

२० ६८५. नेरइयाणं भंते ! कतिविधे आउयबंधे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विधे
आउयबंधे पण्णत्ते । तं जहा-जातिनामनिहत्ताउए १ गतिणामनिहत्ताउए २
ठितीणामणिहत्ताउए ३ ओगाहणानामनिहत्ताउए ४ पदेसणामनिहत्ताउए
५ अणुभावणामनिहत्ताउए ६ ।

६८६. एवं जाव वेमाणियाणं ।

२५ ६८७. जीवा णं भंते ! जातिणामणिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पकरेंति ?
गोयमा ! जहण्णेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं अट्ठहिं ।

६८८. नेरइया णं भंते ! जाइनामनिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसेहिं पकरेंति ?
गोयमा ! जहण्णेणं एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं अट्ठहिं ।

६८९. एवं जाव वेमाणिया ।

६९०. एवं गतिणामणिहत्ताउए वि ठितीणामनिहत्ताउए वि ओगाहणा-
णामनिहत्ताउए वि पदेसणामनिहत्ताउए वि अणुभावणामनिहत्ताउए वि ।

६९१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं जातिनामनिहत्ताउयं जहण्णेणं एक्केण
वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं अट्ठहिं आगरिसेहिं पकरेमाणं कतरे कतरेहितो
अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा ५
जातिणामणिहत्ताउयं अट्ठहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा, सत्तहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा
संखेज्जगुणा, छहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेज्जगुणा, एवं पंचहिं संखेज्जगुणा,
चउहिं संखेज्जगुणा, तिहिं संखेज्जगुणा, दोहिं संखेज्जगुणा, एगेणं आगरिसेणं
पगरेमाणा संखेज्जगुणा ।

६९२. एवं एतेणं अभिलवेणं जाव अणुभावनिहत्ताउयं । एवं एते १०
छ प्पि य अप्पाबहुदंडगा जीवादीया भाणियव्वा । दारं ८ ॥

॥ पणवणाए भगवईए छट्ठं वक्कंतिपयं समत्तं ॥

७. सत्तमं उस्सासपयं

[सुत्तं ६९३. नेरइयाणं उस्सासविरहकालो]

६९३. नेरइया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! सततं संतयामेव आणमंति वा पाणमंति वा
५ वा ऊससंति वा नीससंति वा ।

[सुत्ताइं ६९४-६९६. भवणवासीणं उस्सासविरहकालो]

६९४. असुरकुमारा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं सातिरेगस्स पक्खस्स वा आणमंति वा जाव नीससंति वा ।

१० ६९५. णागकुमारा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स ।

६९६. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

[६९७-६९८. एग्गिदियाईणं उस्सासविरहकालो]

१५ ६९७. पुढविकाइया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! वेमायाए आणमंति वा जाव नीससंति वा ।

६९८. एवं जाव मणूसा ।

[सुत्तं ६९९. वाणमंतराणं उस्सासविरहकालो]

६९९. वाणमंतरा जहा णागकुमारा ।

२० [सुत्तं ७००. जोइसियाणं उस्सासविरहकालो]

७००. जोइसिया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि मुहुत्त-पुहुत्तस्स जाव नीससंति वा ।

[सुत्ताइं ७०१-७२४. वेमाणियाणं उस्सासविरहकालो]

२५ ७०१. वेमाणिया णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति

वा ? गोयमा ! जहण्णेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०२. सोहम्मगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं दोण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०३. ईसाणगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगस्स मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं सातिरेगाणं दोण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०४. सणकुमारदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं दोण्हं पक्खाणं जाव णीससंति वा, उक्कोसेणं सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०५. माहिंदगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगाणं दोण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं सातिरेगाणं सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०६. बंभलोगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं दसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०७. लंतगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं दसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं चोदसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०८. महासुक्कदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं चोदसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं सत्तरसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७०९. सहस्सारगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं अट्टारसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१०. आणयदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा !

जहण्णेणं अट्टारसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं एक्कूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७११. पाण्यदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं वीसाए पक्खाणं ५ जाव नीससंति वा ।

७१२. आरणदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं एगवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१३. अनुयदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्कवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१४. हेड्डिमहिड्डिमगेविज्जगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं तेवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१५. हेड्डिममज्झिमगेवेज्जगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं चउवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१६. हेड्डिमउवरिमगेवेज्जगा णं देवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं चउवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं पणुवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१७. मज्झिमहेड्डिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं पणुवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं छव्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१८. मज्झिममज्झिमगेवेज्जगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७१९. मज्झिमउवरिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव

नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा,
उक्कोसेणं अट्ठावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२०. उवरिमहेट्ठिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा,
उक्कोसेणं एगूणतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । ५

७२१. उवरिममज्झिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा,
उक्कोसेणं तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२२. उवरिमउवरिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं केवतिकालस्स जाव
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, १०
उक्कोसेणं एक्कतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२३. विजय-वेज्जयंत-जयंताऽपराजितविमाणेसु णं भंते ! देवा
केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्कतीसाए पक्खाणं जाव
नीससंति वा, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

७२४. सच्चद्वसिद्धगदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? १५
गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ।

॥ पण्णवणाए भगवईए सत्तमं उस्सासपयं समत्तं ॥

८. अट्टमं सण्णापयं

[सुत्तं ७२५. सण्णाभेयपरूवणं]

७२५. कति णं भंते ! सण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दस सण्णाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—आहारसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ परिग्गहसण्णा ४ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ लोभसण्णा ८ लोगसण्णा ९ ओघसण्णा १० ।

[सुत्ताइं ७२६—७२९. नेरइयाईणं सण्णाओ]

७२६. नेरइयाणं भंते ! कति सण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दस सण्णाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—आहारसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ परिग्गहसण्णा ४ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ लोभसण्णा ८ लोगसण्णा ९ ओघसण्णा १० ।

७२७. असुरकुमाराणं भंते ! कति सण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दस सण्णाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—आहारसण्णा जाव ओघसण्णा ।

७२८. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

७२९. एवं पुढविकाइयाणं वेमाणियावसाणाणं णेयव्वं ।

[सुत्ताइं ७३०--७३१. नेरइयाणं सण्णावियारो]

७३०. नेरइया णं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता भयसण्णोवउत्ता मेहुणसण्णोवउत्ता परिग्गहसण्णोवउत्ता ? गोयमा ! ओसण्णकारणं पडुच्च भयसण्णोवउत्ता, संतइभावं पडुच्च आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि ।

७३१. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं आहारसण्णोवउत्ताणं भयसण्णोवउत्ताणं मेहुणसण्णोवउत्ताणं परिग्गहसण्णोवउत्ताणं य कंतरे कंतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वथोवा नेरइया मेहुणसण्णोवउत्ता, आहारसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा, परिग्गहसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा, भयसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा ।

[सुत्ताइं ७३२-७३३. तिरिक्खजोणियाणं सण्णावियारो]

७३२. तिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गह-
सण्णोवउत्ता ? गोयमा ! ओसँणकारणं पडुच्च आहारसण्णोवउत्ता, संतइभावं
पडुच्च आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि ।

७३३. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव ५
परिग्गहसण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया परिग्गहसण्णोवउत्ता, मेहुणसण्णो-
वउत्ता संखेज्जगुणा, भयसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा, आहारसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा ।

[सुत्ताइं ७३४-७३५. मणुस्साणं सण्णावियारो]

७३४. मणुस्सा णं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोव- १०
उत्ता ? गोयमा ! ओसँणकारणं पडुच्च मेहुणसण्णोवउत्ता, संततिभावं पडुच्च
आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि ।

७३५. एतेसि णं भंते ! मणुस्साणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव परिग्गह-
सण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा मणूसा भयसण्णोवउत्ता, आहारसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा, १५
परिग्गहसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा, मेहुणसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा ।

[सुत्ताइं ७३६-७३७. देवाणं सण्णावियारो]

७३६. देवा णं भंते ! किं आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता ?
गोयमा ! उस्सण्णकारणं पडुच्च परिग्गहसण्णोवउत्ता, संततिभावं पडुच्च आहार-
सण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि । २०

७३७. एतेसि णं भंते ! देवाणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव परिग्गहस-
ण्णोवउत्ताण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा देवा आहारसण्णोवउत्ता, भयसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा,
मेहुणसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा, परिग्गहसण्णोवउत्ता संखेज्जगुणा ।

॥ पण्णवणाए भगवईए अट्टमं सण्णापयं समत्तं ॥

२५

९. णवमं जोणीपयं

[सुत्ताइं ७३८-७५३. नेरइयाइसु सीयाइजोणीओ]

७३८. कतिविहा णं भंते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता ? तं जहा-सीता जोणी १ उसिणा जोणी २ सीतोसिणा जोणी ३ ।

५ ७३९. नेरइयाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, नो सीतोसिणा जोणी ।

७४०. असुरकुमाराणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता, नो उसिणा, सीतोसिणा जोणी ।

७४१. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

१० ७४२. युढविकाइयाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी ।

७४३. एवं आउ-वाउ-वणस्सति-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं वि पतेयं भाणियव्वं ।

७४४. तेउक्काइयाणं नो सीता, उसिणा, नो सीतोसिणा ।

१५ ७४५. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी ।

७४६. सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं एवं चेव ।

२० ७४७. गम्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ।

७४८. मणुस्साणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी ।

७४९. सम्मुच्छिममणुस्साणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! तिविहा वि जोणी ।

२५ ७५०. गम्भवक्कंतियमणुस्साणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ।

७५१. वाणमंतरदेवाणं भंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ।

७५२. जोइसिय-त्रेमाणियाण वि एवं चेव ।

७५३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सीतजोणियाणं उसिणजोणियाणं सीतोसिणजोणियाणं अजोणियाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सीतोसिणजोणिया, उसिण-जोणिया असंखेज्जगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सीतजोणिया अणंतगुणा । १ ॥

[सुत्ताइं ७५४-७६३. नेरइयाइसु सच्चित्ताइजोणीओ]

७५४. कतिविहा णं भंते ! जोणी पणत्ता ? गोयमा ! तेविहा जोणी पणत्ता । तं जहा-सच्चित्ता १ अचित्ता २ मीसिया ३ ।

१०

७५५. नेरइयाणं भंते ! किं सच्चित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? गोयमा ! नो सच्चित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, णो मीसिया जोणी ।

७५६. असुरकुमाराणं भंते ! किं सच्चित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? गोयमा ! नो सच्चित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी ।

७५७. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

१५

७५८. पुढविकाइयाणं भंते ! किं सच्चित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? गोयमा ! सच्चित्ता वि जोणी, अचित्ता वि जोणी, मीसिया वि जोणी ।

७५९. एवं जाव चउरिंदियाणं ।

७६०. सम्मुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं सम्मुच्छिमणुस्साण य एवं चेव ।

२०

७६१. गम्भवक्कंतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं गम्भवक्कंतियमणुस्साण य नो सच्चित्ता, नो अचित्ता, मीसिया जोणी ।

७६२. वाणमंतर-जोइसिय-त्रेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ।

७६३. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सच्चित्तजोणीणं अचित्तजोणीणं मीसजोणीणं अजोणीण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मीसजोणिया, अचित्तजोणिया असंखेज्जगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सच्चित्तजोणिया अणंतगुणा । २ ॥

२५

[सुत्ताइं ७६४-७७२. नेरइयाइसु संबुडाइजोणीओ]

७६४. कतिविहा णं भंते ! जोणी पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी

पणत्ता । तं जहा-संबुडा जोणी १ वियडा जोणी २ संबुडवियडा जोणी ३ ।

७६५. नेरइयाणं भंते ! किं संबुडा जोणी वियडा जोणी संबुडवियडा जोणी ? गोयमा ! संबुडा जोणी, नो वियडा जोणी, नो संबुडवियडा जोणी ।

७६६. एवं जाव वणस्सइकाइयाणं ।

५ ७६७. चेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! नो संबुडा जोणी, वियडा जोणी, णो संबुडवियडा जोणी ।

७६८. एवं जाव चउरिंदियाणं ।

७६९. सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं सम्मुच्छिममणुस्साण य एवं चेव ।

१० ७७०. गम्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गम्भवक्कंतियमणुस्साण य नो संबुडा जोणी, नो वियडा जोणी, संबुडवियडा जोणी ।

७७१. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ।

७७२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं संबुडजोणियाणं वियडजोणियाणं संबुडवियडजोणियाणं अजोणियाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा संबुडवियडजोणिया, वियडजोणिया असंखेज्जगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, संबुडजोणिया अणंतगुणा । ३ ॥

[सुत्तं ७७३. मणुस्सेसु तिविहा जोणी]

७७३. [१] कतिविहा णं भंते ! जोणी पणत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पणत्ता । तं जहा-कुम्मुण्णया १ संखावत्ता २ वंसीपत्ता ३ ।

२० [२] कुम्मुण्णया णं जोणी उत्तमपुरिसमाऊणं । कुम्मुण्णयाए णं जोणीए उत्तमपुरिसा गम्भे वक्कमंति । तं जहा-अरहंता चक्कवट्ठी वलदेवा वासुदेवा ।

[३] संखावत्ता णं जोणी इत्थिरयणस्स । संखावत्ताए णं जोणीए वहवे जीवा य पोग्गला य वक्कमंति विउक्कमंति चयंति उवचयंति, नो चेव णं निप्फजंति ।

२५ [४] वंसीपत्ता णं जोणी पिहुजणस्स । वंसीपत्ताए णं जोणीए पिहुजणे गम्भे वक्कमंति । ४ ॥

॥ पणवणाए भगवईए णवमं जोणीपयं समत्तं ॥

१० दसमं चरिमपयं

[सुत्ताइं ७७४-७७६. लोगालोगाणं चरिमाचरिमविभागो]

७७४. कति णं भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अट्ट पुढवीओ पण्णत्ताओ । तं जहा-रयणप्पभा १ सक्करप्पभा २ वालुयप्पभा ३ पंकप्पभा ४ धूमप्पभा ५ तमप्पभा ६ तमतमप्पभा ७ ईसीपब्भारा ८ ।

५

७७५. इमा णं भंते ! रयणप्पभा पुढवी किं चरिमा अचरिमा चरिमाइं अचरिमाइं चरिमंतपदेसा अचरिमंतपदेसा ? गोयमा ! इमा णं रंतणप्पभा पुढवी नो चरिमा नो अचरिमा नो चरिमाइं नो अचरिमाइं नो चरिमंतपदेसा नो अचरिमंतपदेसा, णियमा अचरिमं च चरिमाणि य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपएसा य ।

७७६. एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी । सोहम्मादी जाव अणुत्तरविमाणा एवं चेव । ईसीपब्भारा वि एवं चेव । लोगे वि एवं चेव । एवं अलोगे वि ।

१०

[सुत्ताइं ७७७-७८०. चरिमाचरिमपयाणं अप्पवहुत्तं]

७७७. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए दव्वट्टयाए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेज्जगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं । पदेसट्टयाए सव्वत्थोवा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपएसा असंखेज्जगुणा, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया । दव्वट्टपदेसट्टयाए सव्वत्थोवा इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए दव्वट्टयाए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेज्जगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं, चरिमंतपएसा असंखेज्जगुणा, अचरिमंतपएसा असंखेज्जगुणा, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ।

१५

२०

७७८. एवं जाव अहेसत्तमा । सोहम्मस्स जाव लोगस्स य एवं चेव ।

७७९. अलोगस्स णं भंते ! अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य दव्वट्टयाए पदेसट्टयाए दव्वट्टपदेसट्टयाए कतरे कतरेहिंतो

२५

- अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे अलोगस्स दव्वट्टयाए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेज्जगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं । पदेसट्टयाए सव्वत्थोवा अलोगस्स चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ।
- ५ दव्वट्टपदेसट्टयाए सव्वत्थोवे अलोगस्स दव्वट्टयाए एगे अचरिमे, चरिमाइं असंखेज्जगुणाइं, अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाइं, चरिमंतपदेसा असंखेज्जगुणा, अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ।

७८०. लोगालोगस्स णं भंते ! अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपए-
- १० साण य अचरिमंतपएसाण य दव्वट्टयाए पदेसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे लोगालोगस्स दव्वट्टयाए एगमेगे अचरिमे, लोगस्स चरिमाइं असंखेज्जगुणाइं, अलोगस्स चरिमाइं विसेसाधियाइं, लोगस्स य अलोगस्स य अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाधियाइं । पदेसट्टयाए सव्वत्थोवा लोगस्स चरिमंतपदेसा, अलोगस्स चरिमंतपदेसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरिमंतपदेसा असंखेज्जगुणा, अलोगस्स अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, लोगस्स य अलोगस्स य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया । दव्वट्टपदेसट्टयाए सव्वत्थोवे लोगालोगस्स दव्वट्टयाए एगमेगे अचरिमे, लोगस्स चरिमाइं असंखेज्जगुणाइं, अलोगस्स चरिमाइं विसेसाहियाइं, लोगस्स य अलोगस्स य अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसा-
- २० हियाइं, लोगस्स चरिमंतपएसा असंखेज्जगुणा, अलोगस्स चरिमंतपएसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरिमंतपएसा असंखेज्जगुणा, अलोगस्स अचरिमंतपएसा अणंतगुणा, लोगस्स य अलोगस्स य चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया, सव्वदव्वा विसेसाहिया, सव्वपएसा अणंतगुणा, सव्वपज्जवा अणंतगुणा ।

[सुत्ताइं ७८१-७९०. परमाणुपोग्गलाईणं चरिमाचरिमाइविभागो]

- २५ ७८१. परमाणुपोग्गले णं भंते ! किं चरिमे ? अचरिमे २ अवत्तव्वए ३ ? चरिमाइं ४ अचरिमाइं ५ अवत्तव्वयाइं ६ ? उदाहु चरिमे य अचरिमे य ७ उदाहु चरिमे य अचरिमाइं च ८ उदाहु चरिमाइं च अचरिमे य ९ उदाहु चरिमाइं च अचरिमाइं च १० ? पढमा चउभंगी, उदाहु चरिमे य अवत्तव्वए य ११ उदाहु चरिमे य अवत्तव्वयाइं च १२ उदाहु चरिमाइं च अवत्तव्वए य

१३ उदाहु चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १४ ? बीया चउभंगी, उदाहु
 अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ उदाहु अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ उदाहु अ-
 चरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ उदाहु अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १८ ?
 तइया चउभंगी, उदाहु चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ उदाहु चरिमे य
 अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० उदाहु चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य ५
 २१ उदाहु चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ उदाहु चरिमाइं च
 अचरिमे य अवत्तव्वए य २३ उदाहु चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च
 २४ उदाहु चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २५ उदाहु चरिमाइं च
 अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २६ ? एवं एते छव्वीसं भंगा, गोयमा ! परमा-
 णुपोग्गले नो चरिमे १ नो अचरिमे २ नियमा अवत्तव्वए [] ३, सेसा २३ १०
 भंगा पडिसेहेयव्वा ।

७८२. दुपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छ । गोयमा ! दुपएसिए खंधे सिय
 चरिमे [] १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए [] ३, सेसा २३ भंगा
 पडिसेहेयव्वा ।

७८३. तिपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छ । गोयमा ! तिपएसिए खंधे १५
 सिय चरिमे [] १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए [] ३ नो चरिमाइं ४
 णो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, नो चरिमे य अचरिमे य ७ नो चरिमे य
 अचरिमाइं ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य [] ९ नो चरिमाइं च अचरि-
 माइं च १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य [] ११, सेसा १५ भंगा
 पडिसेहेयव्वा ।

२०

७८४. चउपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छ । गोयमा ! चउपएसिए णं
 खंधे सिय चरिमे [] १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए [] ३ नो
 चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, नो चरिमे य अचरिमे
 य ७ नो चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य []
 ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च [] १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए २५
 य [] ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च [] १२ नो चरिमाइं च
 अवत्तव्वए य १३ नो चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १४, नो अचरिमे य
 अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च
 अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १८, नो चरिमे य

अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ २३, सेसा ३ भंगा पडिसेहेयव्वा ।

५ ७८५. पंचपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छ । गोयमा ! पंचपएसिए णं खंधे सिय चरिमे $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ३ णो चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ७ नो चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ११, सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १२ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वए य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १३ नो चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १४, णो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १८, नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ २३ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ २५ नो चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २६ ।

२० ७८६. छप्पएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छ । गोयमा ! छप्पएसिए णं खंधे सिय चरिमे $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ३ नो चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$ १२ सिय चरिमाइं च

अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १३ सिय चरिमाइं च अवत्त्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १४,

नो अचरिमे य अवत्त्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्त्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च अवत्त्वए य १७ णो अचरिमाइं च अवत्त्वयाइं च १८, सिय चरिमे य अचरिमे य अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्त्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्त्वए य ५

२१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्त्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २३ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्त्वयाइं च

$\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$

२५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्त्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २६ ।

७८७. सत्तपएसिए णं भंते! खंधे पुच्छा । गोयमा! सत्तपदेसिए णं १०

खंधे सिय चरिमे $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १ नो अचरिमे २ सिय अवत्त्वए $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ३ नो चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्त्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य

$\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ८ सिय चरिमाइं च

अचरिमे य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १०, सिय चरिमे य

अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ११ सिय चरिमे य अवत्त्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १२ सिय १५

चरिमाइं च अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १३ सिय चरिमाइं च अवत्त्वयाइं च

$\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १४, नो अचरिमे य अवत्त्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्त्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च अवत्त्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्त्वयाइं च

१८, सिय चरिमे अचरिमे य अवत्त्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १९ सिय चरिमे य

अचरिमे य अवत्त्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २० सिय चरिमे य अचरिमाइं च २०

अचरिमे य अवत्त्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २० सिय चरिमे य अचरिमाइं च २०

अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २३, सेसा ३ भंगा पडिसेहेयव्वा ।

५

७८५. पंचपणसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! पंचपणसिए णं खंधे सिय चरिमे $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ३ णो चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ७ नो चरिमे य अचरिमाइं च ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ११, सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १२ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १३ नो चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १४, णो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च १८, नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २३ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ २५ नो चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २६ ।

१५

७८६. छप्पणसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! छप्पणसिए णं खंधे २० सिय चरिमे $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ३ नो चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ १२ सिय चरिमाइं च

अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १३ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १४,

नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं

च १८, सिय चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १९ नो चरिमे य

अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च २० नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य ५

२१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ २३ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च

$\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$

२५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ २६ ।

७८७. सत्तपएसिए णं भंते! खंधे पुच्छ। गोयमा! सत्तपदेसिए णं १०

खंधे सिय चरिमे $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ ३ नो

चरिमाइं ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य

$\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ ८ सिय चरिमाइं च

अचरिमे य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १०, सिय चरिमे य

अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १२ सिय १५






चरिमाइं च अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १३ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च

















$\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १४, नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं

च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च

१८, सिय चरिमे अचरिमे य अवत्तव्वए य $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ १९ सिय चरिमे य

अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च $\begin{array}{|c|c|} \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \text{०} & \text{०} \\ \hline \end{array}$ २० सिय चरिमे य अचरिमाइं च २०

अवत्तव्वए य  २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च २२
 सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य  २३ सिय चरिमाइं च
 अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च  २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च
 अवत्तव्वए य  २५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च
 ५  २६ ।

७८८. अट्टपदेसिए णं भंते ! खंधे पुच्छ । गोयमा ! अट्टपदेसिए खंधे
 सिय चरिमे  १ णो अचरिम २ सिय अवत्तव्वए  ३ नो चरिमाइं
 ४ नो अचरिमाइं ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य
 ७ सिय चरिमे य अचरिमाइं च  ८ सिय चरिमाइं च अचरिमे य
 १०  ९ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च  १०, सिय चरिमे य
 अवत्तव्वए य  ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च  १२ सिय
 चरिमाइं च अवत्तव्वए य  १३ सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च
 १४, नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं
 च १६ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च
 १५ १८, सिय चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य  १९ सिय चरिमे य अचरिमे य
 अवत्तव्वयाइं च  २० सिय चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य
 २१ सिय चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च  २२
 २२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अवत्तव्वए य  २३ सिय चरिमाइं च
 अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च  २४ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्वए

य

•	•	•	•
•	•	•	•

 २५ सिय चरिमाइं च अचरिमाइं च अवत्तव्याइं च

•	•	•	•
•	•	•	•

 २६ ।

१. चरम-अचरम-अवत्तव्यपदानां एकवचन-बहुवचनाभ्यां असंयोगि-द्विकसंयोगि-त्रिकसंयोगिनः षड्विंशतिर्भङ्गकाः ।

असंयोगिनः षड् भङ्गकाः—

एकवचनेन त्रयो भङ्गाः	बहुवचनेन त्रयो भङ्गाः
१ चरमः	४ चरमौ
२ अचरमः	५ अचरमौ
३ अवत्तव्यः	६ अवत्तव्यौ

द्विकसंयोगिनस्त्रिसृष्टिश्चतुर्भङ्गीभिर्द्वादश भङ्गकाः—

प्रथमा चतुर्भङ्गी	द्वितीया चतुर्भङ्गी	तृतीया चतुर्भङ्गी	
७ चरमश्च अचरमश्च	११ चरमश्च अवत्तव्यश्च	१५ अचरमश्च अवत्तव्यश्च	
८ चरमश्च अचरमौ च	१२ चरमश्च अवत्तव्यौ च	१६ अचरमश्च अवत्तव्यौ च	
९ चरमौ च अचरमश्च	१३ चरमौ च अवत्तव्यश्च	१७ अचरमौ च अवत्तव्यश्च	
१० चरमौ च अचरमौ च	१४ चरमौ च अवत्तव्यौ च	१८ अचरमौ च अवत्तव्यौ च	१५

त्रिकसंयोगिनोऽष्टौ भङ्गकाः—

१९ चरमश्च अचरमश्च अवत्तव्यश्च	२३ चरमौ च अचरमश्च अवत्तव्यश्च
२० चरमश्च अचरमश्च अवत्तव्यौ च	२४ चरमौ च अचरमश्च अवत्तव्यौ च
२१ चरमश्च अचरमौ च अवत्तव्यश्च	२५ चरमौ च अचरमौ च अवत्तव्यश्च
२२ चरमश्च अचरमौ च अवत्तव्यौ च	२६ चरमौ च अचरमौ च अवत्तव्यौ च

१. परमाणुपुद्गले केवलं तृतीयः 'अवत्तव्यः' इत्याख्यस्तृतीय एव भङ्गको घटते

•

 । अन्ये षड्विंशतिर्भङ्गा न घटन्ते ।

२. द्विप्रादेशिके स्कन्धे १ चरमः इति ३ अवत्तव्यः इति च द्वौ भङ्गौ घटते ।
 १ चरमः

•	•
---	---

 । ३ अवत्तव्यः

•	•
---	---

 । शेषाश्चतुर्विंशतिर्भङ्गा न घटन्ते ।

३. त्रिप्रादेशिके स्कन्धे चरमादयश्चत्वारो भङ्गाः सम्भवन्ति । १ चरमः

•	•	•
---	---	---

 । २५
 ३ अवत्तव्यः

•	•
---	---

 । ९ चरमौ च अचरमश्च

•	•	•
---	---	---

 । ११ चरमश्च अवत्तव्यश्च

•	•
---	---

 । शेषा द्वाविंशतिर्भङ्गा अत्र स्कन्धे नोत्पद्यन्ते ।

४. चतुप्रादेशिके स्कन्धे चरमादयः सप्तैव भङ्गाः समुत्पद्यन्ते । १ चरमश्च

•	•	•	•
---	---	---	---

 । ३ अवत्तव्यश्च

•	•
---	---

 । ९ चरमौ च अचरमश्च

•	•	•	•
---	---	---	---

 । १० चरमौ च

अचरमौ च $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ११ चरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १२ चरमश्च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २३ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । शेषा एकोनविंशतिर्भङ्गा अत्र स्कन्धे नोपपद्यन्ते ।

५. पञ्चप्रादेशिके स्कन्धे चरमादय एकादश भङ्गा उपपद्यन्ते । १ चरमः

५. $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ३ अवक्तव्यः $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ७ चरमश्च अचरमश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ९ चरमौ च अचरमश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १० चरमौ च अचरमौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ११ चरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १२ चरमश्च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १३ चरमौ च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २३ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २४ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २५ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ।
१० शेषा पञ्चदश भङ्गा नात्र घटन्ते ।

६. षट्प्रादेशिके स्कन्धे चरमादयः पञ्चदश भङ्गा उपपद्यन्ते । १ चरमः

$\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ३ अवक्तव्यः $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ७ चरमश्च अचरमश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ८ चरमश्च अचरमौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ९ चरमौ च अचरमश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १० चरमौ च अचरमौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ११ चरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १२ चरमश्च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १३ चरमौ च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १४ चरमौ च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । १५ चरमश्च अचरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २३ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २४ चरमौ च अचरमश्च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २५ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । २६ चरमौ च अचरमौ च अवक्तव्यौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । शेषा एकादश भङ्गा निषिद्धा ज्ञातव्याः ।

२०

७. सप्तप्रादेशिके स्कन्धे सप्तदश भङ्गा घटन्ते । १ चरमः $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ३ अवक्तव्यः

$\begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ७ चरमश्च अचरमश्च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ । ८ चरमश्च अचरमौ च $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \end{array}$ ।

७८९. संखेज्जपएसिए असंखेज्जपएसिए अणंतपएसिए खंधे जहेव अड्डप-
देसिए तहेव पत्तेयं भाणितव्वं ।

७९०. परमाणुम्मि य ततिओ पढमो ततिओ य होति दुपदेसे ।

पढमो ततिओ नवमो एक्कारसमो य तिपदेसे ॥ १८५ ॥

५

पढमो ततिओ नवमो दसमो एक्कारसो य चारसमो ।

भंगा चउप्पदेसे तेवीसइमो य चोद्धव्वो ॥ १८६ ॥

पढमो ततिओ सत्तम नव दस एक्कार बार तेरसमो ।

तेवीस चउव्वीसो पणुवीसइमो य पंचमए ॥ १८७ ॥

वि चउत्थ पंच छट्ठं पणरस सोलं च सत्तरऽड्डारं ।

१०

वीसेक्कवीस वावीसगं च वज्जेज्ज छट्ठम्मि ॥ १८८ ॥

वि चउत्थ पंच छट्ठं पण्णर सोलं च सत्तरऽड्डारं ।

वावीसइमविहूणा सत्तपदेसम्मि खंधम्मि ॥ १८९ ॥

वि चउत्थ पंच छट्ठं पण्णर सोलं च सत्तरऽड्डारं ।

एते वज्जिय भंगा सेसा सेसेसु खंधेसु ॥ १९० ॥

१५

[सुत्ताइं ७९१-८०६. संठाणाविवक्खाए चरिमाइविभागाइ]

७९१. कति णं भंते ! संठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच संठाणा
पण्णत्ता । तं जहा-परिमंडले १ वट्टे २ तंसे ३ चउरंसे ४ आयते ५ ।

७९२. परिमंडला णं भंते ! संठाणा किं संखेजा असंखेजा अणंता ?
गोयमा ! णो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता । एवं जाव आयता ।

२०

७९३. परिमंडले णं भंते ! संठाणे किं संखेज्जपएसिए असंखेज्जपएसिए
अणंतपएसिए ? गोयमा ! सिय संखेज्जपएसिए सिय असंखेज्जपदेसिए सिय
अणंतपदेसिए । एवं जाव आयते ।

७९४. परिमंडले णं भंते ! संठाणे संखेज्जपदेसिए किं संखेज्जपदेसोगाढे
असंखेज्जपएसोगाढे अणंतपएसोगाढे ? गोयमा ! संखेज्जपएसोगाढे, नो असंखेज्ज-
पएसोगाढे नो अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयते ।

२५

७९५. परिमंडले णं भंते ! संठाणे असंखेज्जपदेसिए किं संखेज्जपदेसोगाढे

असंखेज्जपदेसोगाढे अणंतपएसोगाढे ? गोयमा ! सिय संखेज्जपएसोगाढे सिय असंखेज्जपदेसोगाढे, णो अणंतपदेसोगाढे । एवं जाव आयते ।

७९६. परिमंडले णं भंते ! संठाणे अणंतपएसिए किं संखेज्जपएसोगाढे असंखेज्जपएसोगाढे अणंतपएसोगाढे ? गोयमा ! सिय संखेज्जपएसोगाढे सिय असंखेज्जपएसोगाढे, नो अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयते । ५

७९७. परिमंडले णं भंते ! संठाणे संखेज्जपदेसिए संखेज्जपएसोगाढे किं चरिमे अचरिमे चरिमाइं अचरिमाइं चरिमंतपदेसा अचरिमंतपदेसा ? गोयमा ! परिमंडले णं संठाणे संखेज्जपदेसिए संखेज्जपदेसोगाढे ना चरिमे नो अचरिमे नो चरिमाइं नो अचरिमाइं नो चरिमंतपदेसा नो अचरिमंतपदेसा, नियमा अचरिमं च चरिमाणि य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य । एवं जाव आयते । १०

७९८. परिमंडले णं भंते ! संठाणे असंखेज्जपएसिए संखेज्जपदेसोगाढे किं चरिमे० पुच्छा । गोयमा ! असंखेज्जपएसिए संखेज्जपएसोगाढे जहा संखेज्जपएसिए (सु. ७९७) । एवं जाव आयते ।

७९९. परिमंडले णं भंते ! संठाणे असंखेज्जपदेसिते असंखेज्जपएसोगाढे किं चरिमे० पुच्छा । गोयमा ! असंखेज्जपदेसिए असंखेज्जपदेसोगाढे नो चरिमे १५ जहा संखेज्जपदेसोगाढे (सु. ७९८) । एवं जाव आयते ।

८००. परिमंडले णं भंते ! संठाणे अणंतपएसिए संखेज्जपएसोगाढे किं चरिमे० पुच्छा । गोयमा ! तहेव (सु. ७९७) जाव आयते ।

८०१. अणंतपदेसिए असंखेज्जपदेसोगाढे जहा संखेज्जपदेसोगाढे (सु. ८००) । एवं जाव आयते । २०

८०२. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स संखेज्जपएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपदेसाण य अचरिमंतपदेसाण य दव्वड्डयाए पदेसड्डयाए दव्वड्डपदेसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अंप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेज्जपदेसियस्स संखेज्जपदेसोगाढस्स दव्वड्डयाए एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेज्जगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि २५ विसैसाहियाइं ३ । पदेसड्डयाए सव्वत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स संखेज्जपदे-

१. 'अप्पा वा ४' इत्यनेन 'अप्पा वा बहुया वा तुह्वा वा विसैसाहिया वा' इत्यवचोद्धव्यम्, एवमन्यत्रापि ॥

सियस्स संखेज्जपदेसोगाढस्स चरिमंतपदेसा १ अचरिमंतपदेसा संखेज्जगुणा २
 चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ३ । दव्वड्डपदेसड्डयाए
 सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेज्जपदेसियस्स संखेज्जपदेसोगाढस्स दव्वड्डयाए
 एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेज्जगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि
 ५ विसेसाहियाइं ३ चरिमंतपदेसा संखेज्जगुणा ४ अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा ५
 चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ६ । एवं वड्ड-तंस-
 चउरंस-आयएसु वि जोएअव्वं ।

८०३. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स असंखेज्जपएसियस्स संखेज्जपए-
 सोगाढस्स अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य
 १० दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा !
 सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज्जपएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स दव्वड्डयाए
 एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेज्जगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि
 विसेसाहियाइं ३ । पदेसड्डयाए सव्वत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज्ज-
 पएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स चरिमंतपएसा १ अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा २
 १५ चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ३ । दव्वड्डपएसड्डयाए
 सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज्जपएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स दव्वड्ड-
 याए एगे अचरिमे १ चरिमाइं संखेज्जगुणाइं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि
 विसेसाहियाइं ३ चरिमंतपएसा संखेज्जगुणा ४ अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा ५
 चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ६ । एवं जाव आयते ।

८०४. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स असंखेज्जपदेसियस्स असंखेज्ज-
 पएसोगाढस्स अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य
 २० दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा !
 जहा रयणप्पभाए अप्पावहुयं (सु. ७७७) तहेव णिरवसेसं भाणियव्वं । एवं
 जाव आयते ।

८०५. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स संखेज्जपए-
 सोगाढस्स अचरिमस्स य ४ दव्वड्डयाए ३ कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?

१. 'अचरिमस्स य ४' इत्यनेन 'अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपए-
 साण य' इत्यवबोधव्यम् ॥ २. 'दव्वड्डयाए ३' इत्यनेन 'दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएस-
 ड्डयाए' इत्यवबोधव्यम् ॥

गोयमा ! जहा संखेज्जपएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स (सु. ८०२) । णवरं संकमे अणंतगुणा । एवं जाव आयते ।

८०६. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स असंखेज्जपएसोगाढस्स अचरिमस्स य ४ जहा रयणप्पभाए (सु. ७७७) । णवरं संकमे अणंतगुणा । एवं जाव आयते ।

[सुत्ताइं ८०७-८०९. गतिचरिमाचरिमाइं]

८०७. जीवे णं भंते ! गतिचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

८०८. [१] णेरतिए णं भंते ! गतिचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए ।

८०९. [१] णेरतिया णं भंते ! गतिचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ? गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१०-८११. ठितिचरिमाचरिमाइं]

८१०. [१] णेरइए णं भंते ! ठितीचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए ।

८११. [१] णेरतिया णं भंते ! ठितीचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ? गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१२-८१३. भवचरिमाचरिमाइं]

८१२. [१] णेरइए णं भंते ! भवचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८१३. [१] णेरइया णं भंते ! भवचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१४-८१५. भासाचरिमाचरिमाइं]

५ ८१४. [१] णेरइए णं भंते ! भासाचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८१५. [१] णेरतिया णं भंते ! भासाचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

१० [२] एवं एगिंदियवज्जा निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१६-८१७. आणापाणुचरिमाचरिमाइं]

८१६. [१] णेरइए णं भंते ! आणापाणुचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए ।

१५ ८१७. [१] णेरइया णं भंते ! आणापाणुचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१८-८१९. आहारचरिमाचरिमाइं]

२० ८१८. [१] णेरइए णं भंते ! आहारचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८१९. [१] णेरइया णं भंते ! आहारचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

२५ [सुत्ताइं ८२०-८२१. भावचरिमाचरिमाइं]

८२०. [१] णेरइए णं भंते ! भावचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२१. [१] णेरइया णं भंते ! भावचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२२-८२३. वण्णचरिमाचरिमाई]

५

८२२. [१] णेरइए णं भंते ! वण्णचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२३. [१] णेरइया णं भंते ! वण्णचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

१०

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२४-८२५. गंधचरिमाचरिमाई]

८२४. [१] णेरइए णं भंते ! गंधचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

१५

८२५. [१] णेरइया णं भंते ! गंधचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२६-८२७. रसचरिमाचरिमाई]

८२६. [१] णेरइए णं भंते ! रसचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

२०

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२७. [१] नेरइया णं भंते ! रसचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

२५

८१३. [१] णेरइया णं भंते ! भवचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१४-८१५. भासाचरिमाचरिमाइं]

५ ८१४. [१] णेरइए णं भंते ! भासाचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८१५. [१] णेरतिया णं भंते ! भासाचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

१० [२] एवं एगिंदियवजा निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१६-८१७. आणापाणुचरिमाचरिमाइं]

८१६. [१] णेरइए णं भंते ! आणापाणुचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए ।

१५ ८१७. [१] णेरइया णं भंते ! आणापाणुचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८१८-८१९. आहारचरिमाचरिमाइं]

२० ८१८. [१] णेरइए णं भंते ! आहारचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८१९. [१] णेरइया णं भंते ! आहारचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

२५ [सुत्ताइं ८२०-८२१. भावचरिमाचरिमाइं]

८२०. [१] णेरइए णं भंते ! भावचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२१. [१] णेरइया णं भंते ! भावचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२२-८२३. वण्णचरिमाचरिमाइं]

५

८२२. [१] णेरइए णं भंते ! वण्णचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२३. [१] णेरइया णं भंते ! वण्णचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

१०

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२४-८२५. गंधचरिमाचरिमाइं]

८२४. [१] णेरइए णं भंते ! गंधचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

१५

८२५. [१] णेरइया णं भंते ! गंधचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२६-८२७. रसचरिमाचरिमाइं]

८२६. [१] णेरइए णं भंते ! रसचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ? २०
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

८२७. [१] णेरइया णं भंते ! रसचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ८२८-८२९, फासचरिमाचरिमाइं]

८२८. [१] णेरइए णं भंते ! फासचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

५ ८२९. [१] णेरइया णं भंते ! फासचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । संगहणिगाहा—

गति ठिति भवे य भासा आणापाणुचरिमे य बोधंवे ।

आहार भावचरिमे वण्ण रसे गंध फासे य ॥ १९१ ॥

११. एकारसमं भासापयं

[सुत्ताइं ८३०-८३१. ओहारिणीभासापरूवणं]

८३०. से णूणं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा ? चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? अह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णामीति ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ।

५

१०

१५

८३१. ओहारिणी णं भंते ! भासा किं सच्चा मोसा सच्चा मोसा असच्चा मोसा ? गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चा मोसा, सिय असच्चा मोसा । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा सिय मोसा सिय सच्चा मोसा सिय असच्चा मोसा ? गोयमा ! आराहणी सच्चा १ विराहणी मोसा २ आराहणविराहणी सच्चा मोसा ३ जा णेव आराहणी णेव विराहणी णेव आराहणविराहणी असच्चा मोसा णाम सा चउत्थी भासा ४ से एतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ— ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा सिय मोसा सिय सच्चा मोसा सिय असच्चा मोसा ।

[सुत्ताइं ८३२-८३८. पण्णवणीभासापरूवणं]

८३२. अह भंते ! गाओ मिया पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! गाओ मिआ पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३३. अह भंते ! जा य इत्थिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

२०

८३४. अह भंते ! जा य इत्थिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

२५

[सुत्ताइं ८२८-८२९. फासचरिमाचरिमाइं]

८२८. [१] णेरइए णं भंते ! फासचरिमेणं किं चरिमे अचरिमे ?
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ।

५ ८२९. [१] णेरइया णं भंते ! फासचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ?
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि ।

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । संगहणिगाहा—

गति ठिति भवे य भासा आणापाणुचरिमे य बोधंवे ।

आहार भावचरिमे वण्ण रसे गंध फासे य ॥ १९१ ॥

११. एकारसमं भासापयं

[सुत्ताइं ८३०-८३१. ओहारिणीभासापरूवणं]

८३०. से णूं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा ? चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? अह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णामीति ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ।

८३१. ओहारिणी णं भंते ! भासा किं सच्चा मोसा सच्चा मोसा असच्चा मोसा ? गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चा मोसा, सिय असच्चा मोसा । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा सिय मोसा सिय सच्चा मोसा सिय असच्चा मोसा ? गोयमा ! आराहणी सच्चा १ विराहणी मोसा २ आराहणविराहणी सच्चा मोसा ३ जा णेव आराहणी णेव विराहणी णेव आराहणविराहणी असच्चा मोसा णाम सा चउत्थी भासा ४ से एतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ— ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा सिय मोसा सिय सच्चा मोसा सिय असच्चा मोसा ।

[सुत्ताइं ८३२-८३८. पण्णवणीभासापरूवणं]

८३२. अह भंते ! गाओ भिया पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! गाओ भिआ पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३३. अह भंते ! जा य इत्थिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३४. अह भंते ! जा य इत्थिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८३५. अह भंते ! जा य इत्थीपणवणी जा य पुमपणवणी जा य णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिपणवणी जा य पुमपणवणी जा य णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

५ ८३६. अह भंते ! जा जायीति इत्थिवयू जाईइ पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिवयू जातीति पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा, न एसा भासा मोसा ।

१० ८३७. अह भंते ! जाईति इत्थिआणमणी जाईति पुमआणमणी जाईति णपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिआणमणी जातीति पुमआणमणी जातीति णपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

१५ ८३८. अह भंते ! जातीति इत्थिपणवणी जातीति पुमपणवणी जातीति णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिपणवणी जातीति पुमपणवणी जातीति णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

[सुत्ताइं ८३९-८४८. मंदकुमाराइभासासन्नापरूवणं]

२० ८३९. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ वुंयमाणे अहमेसे वुंयामि अहमेसे वुयामीति ? गोयमा ! णो इण्डे समडे, णऽणत्थ सण्णिणो ।

८४०. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति आहारमाहारे-माणे अहमेसे आहारमाहारेमि अहमेसे आहारमाहारेमि त्ति ? गोयमा ! णो इण्डे समडे, णऽणत्थ सण्णिणो ।

२५ ८४१. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे अम्मा-पियरो २ ? गोयमा ! णो इण्डे समडे, णऽणत्थ सण्णिणो ।

१. वुत्तमाणे जे० ॥ २. अहमेसावु यामि अहमेस वुयामी० न० प्र० पु१ पु३ । अहमेस वुयामि अहमेसा वुयामि पुरसं० ॥ ३. वुयामीति ? गो० पु१ पु३ सु० ॥ ४. 'हारेमि त्ति ? गो० पु१ पु२ पु३ सु० ॥

८४२. अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे अतिराउले अयं मे अतिराउले त्ति? गोयमा! णो इण्डे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४३. अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे भट्टिदारए अयं मे भट्टिदारए त्ति? गोयमा! णो इण्डे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो । ५

८४४. अह भंते! उट्टे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति बुयमाणे अहमेसे बुयामि अहमेसे बुयामि? गोयमा! णो इण्डे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४५. अह भंते! उट्टे जाव एलए जाणति आहारेमाणे अहमेसे आहारेमि अहमेसे आहारेमि त्ति? गोयमा! णो इण्डे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४६. अह भंते! उट्टे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति अयं मे अस्मा-पियरो २ त्ति? गोयमा! णो इण्डे समडे, णऽण्णत्थ सण्णिणो । १०

८४७. अह भंते! उट्टे जाव एलए जाणति अयं मे अतिराउले २? गोयमा! जाव णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४८. अह भंते! उट्टे जाव एलए जाणति अयं मे भट्टिदारए २? गोयमा! जाव णऽण्णत्थ सण्णिणो । १५

[सुत्ताइं ८४९-८५७. एगवयणाइभासापरूवणं]

८४९. अह भंते! मणुस्से महिसे आसे हत्थी सीहे वग्घे वगे दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणए कोलसुणए कोक्कतिए ससए चित्तए चिल्लए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सव्वा सा एगवयू? हंता गोयमा! मणुस्से जाव चिल्लए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सव्वा सा एगवयू । २०

८५०. अह भंते! मणुस्सा जाव चिल्लगा जे यावऽण्णे तहप्पगारा सव्वा सा बहुवयू? हंता गोयमा! मणुस्सा जाव चिल्लगा सव्वा सा बहुवयू ।

८५१. अह भंते! मणुस्सी महिसी वलवा हत्थिणिया सीही वग्घी वग्घी दीविया अच्छी तरच्छी परस्सरी सियाली विराली सुणिया कोलसुणिया कोक्कतिया

१. बुयामि? गो० पु१ पु२ पु३ सु० ॥ २. जाणति आहारं आ० सु० ॥ ३. गो०! जाव णऽण्णत्थ जे० पु१ पु३ ॥ ४. वग्घे गवे वगे म० । वग्घे विगे दी० पु१ पु२ पु३ ॥ ५. णए ससए कोक्कतिए चित्तए पु२सं०, एतत्पाठानुसारेण मलयवृत्तिः ॥ ६. विगी पु२ ॥ ७. स्सरी रासमी सि० म० पु२ ॥

८३५. अह भंते ! जा य इत्थीपणवणी जा य पुमपणवणी जा य णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिपणवणी जा य पुमपणवणी जा य णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

५ ८३६. अह भंते ! जा जायीति इत्थिवयू जाईइ पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिवयू जातीति पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा, न एसा भासा मोसा ।

१० ८३७. अह भंते ! जाईति इत्थिआणमणी जाईति पुमआणमणी जाईति णपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिआणमणी जातीति पुमआणमणी जातीति णपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

१५ ८३८. अह भंते ! जातीति इत्थिपणवणी जातीति पुमपणवणी जातीति णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जातीति इत्थिपणवणी जातीति पुमपणवणी जातीति णपुंसगपणवणी पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

[सुत्ताइं ८३९-८४८. मंदकुमाराइभासासन्नापरूवणं]

२० ८३९. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ बुयमाणे अहमेसे बुयामि अहमेसे बुयामीति ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, णऽणत्थ सण्णिणो ।

८४०. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति आहारमाहारेमाणे अहमेसे आहारमाहारेमि अहमेसे आहारमाहारेमि ति ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, णऽणत्थ सण्णिणो ।

२५ ८४१. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे अम्मा-पियरो २ ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, णऽणत्थ सण्णिणो ।

१. बुतमाणे जे० ॥ २. अहमेसालु यामि अहमेस बुयामी० म० प्र० पु१ पु३ । अहमेस बुयामि अहमेसा बुयामि पु२सं० ॥ ३. बुयामीति ? गो० पु१ पु३ सु० ॥ ४. 'हारेमि ति ? गो० पु१ पु३ सु० ॥

८४२. अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे अतिराउले अयं मे अतिराउले त्ति? गोयमा! णो इण्ठे सम्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४३. अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अयं मे भट्टिदारए अयं मे भट्टिदारए त्ति? गोयमा! णो इण्ठे सम्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो । ५

८४४. अह भंते! उट्टे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति बुयमाणे अहमेसे बुयामि अहमेसे बुयामि? गोयमा! णो इण्ठे सम्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४५. अह भंते! उट्टे जाव एलए जाणति आहारेमाणे अहमेसे आहारेमि अहमेसे आहारेमि त्ति? गोयमा! णो इण्ठे सम्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४६. अह भंते! उट्टे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति अयं मे अम्मा-पियरो २ त्ति? गोयमा! णो इण्ठे सम्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो । १०

८४७. अह भंते! उट्टे जाव एलए जाणति अयं मे अतिराउले २? गोयमा! जाव णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

८४८. अह भंते! उट्टे जाव एलए जाणति अयं मे भट्टिदारए २? गोयमा! जाव णऽण्णत्थ सण्णिणो । १५

[सुत्ताइं ८४९-८५७. एगवयणाइभासापरूवणं]

८४९. अह भंते! मणुस्से महिसे आसे हत्थी सीहे वंग्घे वगे दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणए कोलसुणए कोक्कतिए ससए चित्तए चिल्लए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा एगवयू? हंता गोयमा! मणुस्से जाव चिल्लए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा एगवयू । २०

८५०. अह भंते! मणुस्सा जाव चिल्लगा जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा बहुवयू? हंता गोयमा! मणुस्सा जाव चिल्लगा सच्चा सा बहुवयू ।

८५१. अह भंते! मणुस्सी महिसी वलवा हत्थिणिया सीही वग्घी वग्गी दीविया अच्छी तरच्छी परस्सरी सियाली विराली सुणिया कोलसुणिया कोक्कतिया

१. बुयामि? गो^० पु१ पु२ पु३ सु० ॥ २. जाणति आहारं आ^० सु० ॥ ३. गो०! जाव णऽण्णत्थ जे० पु१ पु३ ॥ ४. वग्घे गवे वगे म० । वग्घे विगे दी^० पु१ पु२ पु३ ॥ ५. ^०णए ससए कोक्कतिए चित्तए पु२सं०, एतत्पाठानुसारेण मलयवृत्तिः ॥ ६. विगी पु२ ॥ ७. ^०स्सरी रासमी त्ति^० म० पु२ ॥

ससिया चित्तिया चिल्ललियाँ जा यावऽण्णा तहप्पगारा सच्चा सा इत्थिवयू? हंता गोयमा! मणुस्सी जाव चिल्ललियाँ जा यावऽण्णा तहप्पगारा सच्चा सा इत्थिवयू।

८५२. अह भंते मणुस्से! जाव चिल्ललए जे यावऽन्ने तहप्पगारा सच्चा सा पुमवयू? हंता गोयमा! मणुस्से महिसे आसे हत्थी सीहे वग्घे वगो दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणए कोलसुणए कोकंतिए ससए चित्तए चिल्ललए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा पुमवयू।

८५३. अह भंते! कंसं कंसोयं परिमंडलं सेलं थूमं जालं थालं तारं रूवं अच्छि पवं कुंडं पउमं दुद्धं दहियं णवणीयं आसणं सयणं भवणं विमाणं छत्तं चामरं भिंगारं अंगणं निरंगणं आभरणं रयणं जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चं तं १० णपुंसगवयू? हंता गोयमा! कंसं जाव रयणं जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चं तं णपुंसगवयू।

८५४. अह भंते! पुढवीति इत्थीवयू आउ त्ति पुमवयू धण्णे त्ति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा? ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा! पुढवि त्ति इत्थिवयू, आउ त्ति पुमवयू, धण्णे त्ति णपुंसगवयू, पणवणी णं एसा भासा, १५ ण एसा भासा मोसा।

८५५. अह भंते! पुढवीति इत्थीआणमणी आउ त्ति पुमआणमणी धण्णे त्ति नपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा? ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा! पुढवीति इत्थीआणमणी, आउ त्ति पुमआणमणी, धण्णे त्ति णपुंसगाणमणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा।

८५६. अह भंते! पुढवीति इत्थीपणवणी आउ त्ति पुमपणवणी धण्णे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा [अन्थाग्रम् ४०००] भासा? ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा! पुढवीति इत्थीपणवणी आउ त्ति पुमपणवणी धण्णे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा।

१. °या जे यावन्ने तह° पु२ पु३ सु० ॥ २. °या जे यावऽण्णे तह° पु२ पु३ सु० ॥
३. मणुस्सो जाव चिल्ललो जे० ध० ॥ ४. मणुस्सो महिसो भासो हत्थी सीहो वग्घो वगो दीवियो अच्छो तरच्छो परस्सरो सियालो विरालो सुणो कोलसुणो कोकंतिओ ससतो चित्तओ चिल्ललो जे या° जे० ध० ॥ ५. महिसे जाव चिल्ल° सु० ॥ ६. विगो पु२ ॥ ७. दहिं णं पु१ पु२ पु३ सु० ॥ ८. पुढवि त्ति इ° पु२ सु० ॥ ९-१०. धणे न्ति जे० ध० । धणि त्ति पु२ पु३ ॥ ११. °सा [अं ४०००] । इच्चेवं पु१ पु२ पु३ ॥

८५७. इच्चेवं भंते ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

[सुत्ताइं ८५८-८५९. भासासरूवं]

५

८५८. भासा णं भंते ! किमादीया किंपहवा किंसंठिया किंपज्जवसिया ? गोयमा ! भासा णं जीवादीया सरीरपहवा वज्जसंठिया लोगंतपज्जवसिया पण्णत्ता ।

८५९. भासा कओ य पँहवति ? कतिहिं च समएहिं भासती भासं ? ।

भासा कतिप्पगारा ? कति वा भासा अणुमयाओ ? ॥ १९२ ॥

सरीरपँहवा भासा, दोहि य समएहिं भासती भासं ।

१०

भासा चउप्पगारा, दोण्णि य भासा अणुमयाओ ॥ १९३ ॥

[सुत्ताइं ८६०-८६६. पज्जत्तियाइभासाभेयपरूवणं]

८६०. कतिविहा णं भंते ! भासा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा भासा पण्णत्ता । तं जहा-पज्जत्तिया य अपज्जत्तिया य ।

८६१. पज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सच्चा य मोसा य ।

१५

८६२. सच्चा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-जणवयसच्चा १ सँम्मत्तसच्चा २ ठवणासच्चा ३ णामसच्चा ४ रूवसच्चा ५ पडुच्चसच्चा ६ ववहारसच्चा ७ भावसच्चा ८ जोगसच्चा ९ ओवम्मसच्चा १० ।

२०

जणवय १ सँम्मत्त २ ठवणा ३ णामे ४ रूवे ५ पडुच्चसच्चे ६ य ।

ववहार ७ भाव ८ जोगे ९ दसमे ओवम्मसच्चे १० य ॥ १९४ ॥

८६३. मोसा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-कोहणिससिया १ माणणिससिया २ मायाणिससिया ३

१. किंपवहा पुर सु० ॥ २. °पवहा म० ॥ ३. पवहति ध० ॥ ४. °प्पवहा ध० ॥

५. सम्मुदिसच्चा जे० प्र० ॥ ६. सम्मुदि २ ठ° जे० प्र० । सम्मुत्ति २ ठ° पुर पु३ । सम्मत्ति २ ठ° पुरसं० ॥

ससिया चित्तिया चिल्लियाँ जा यावऽण्णा तहप्पगारा सच्चा सा इत्थिवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्सी जाव चिल्लियाँ जा यावऽण्णा तहप्पगारा सच्चा सा इत्थिवयू ।

८५२. अह भंते मणुस्से ! जाव चिल्लए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा पुमवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्से महिसे आसे हत्थी सीहे वग्घे वग्गे दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणए कोलसुणए कोकंतिए ससए चित्तए चिल्लए जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा पुमवयू ।

८५३. अह भंते ! कंसं कंसोयं परिमंडलं सेलं थूमं जालं थालं तारं रूवं अञ्छि पव्वं कुंडं पउमं दुद्धं दहियं णवणीयं आसणं सयणं भवणं विमाणं छत्तं चामरं भिंगारं अंगणं निरंगणं आभरणं रयणं जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चं तं णपुंसगवयू ? हंता गोयमा ! कंसं जाव रयणं जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चं तं णपुंसगवयू ।

८५४. अह भंते ! पुढवीति इत्थिवयू आउ त्ति पुमवयू धण्णे त्ति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवि त्ति इत्थिवयू, आउ त्ति पुमवयू, धण्णे त्ति णपुंसगवयू, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८५५. अह भंते ! पुढवीति इत्थीआणमणी आउ त्ति पुमआणमणी धण्णे त्ति णपुंसगाणमणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवीति इत्थीआणमणी, आउ त्ति पुमआणमणी, धण्णे त्ति णपुंसगाणमणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८५६. अह भंते ! पुढवीति इत्थिपणवणी आउ त्ति पुमपणवणी धण्णे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा [ग्रन्थाग्रम् ४०००] भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवीति इत्थिपणवणी आउ त्ति पुमपणवणी धण्णे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

१. °या जे यावऽण्णे तह° पुर पुरे मु० ॥ २. °या जे यावऽण्णे तह° पुर पुरे मु० ॥
३. मणुस्सो जाव चिल्ललो जे० ध० ॥ ४. मणुस्सो महिसो आसो हत्थी सीहो वग्घो वग्गे दीवियो अच्छो तरच्छो परस्सरो सियालो विरालो सुणो कोलसुणो कोकंतिओ ससतो चित्तो चिल्लणो जे या° जे० ध० ॥ ५. महिसे जाव चिल्ल° मु० ॥ ६. विगे पुर॥ ७. दहियं णं पु१ पुर पुरे मु० ॥ ८. पुढवि त्ति इ° पुर मु० ॥ ९-१०. धणे त्ति जे० ध० । धणि त्ति पुर पुरे ॥ ११. °सा [ग्रं ४०००] । इच्चं पु१ पुर पुरे ॥

८५७. इच्चेवं भंते ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

[सुत्ताइं ८५८-८५९. भासासरूवं]

५

८५८. भासा णं भंते ! किमादीया किंपहवा किंसंठिया किंपज्जवसिया ? गोयमा ! भासा णं जीवादीया सरीरपहवा वज्जसंठिया लोगंतपज्जवसिया पण्णत्ता ।

८५९. भासा कओ य पँहवति ? कतिहिं च समएहिं भासती भासं ? ।

भासा कतिप्पगारा ? कति वा भासा अणुमयाओ ? ॥ १९२ ॥

सरीरपहवा भासा, दोहि य समएहिं भासती भासं ।

१०

भासा चउप्पगारा, दोणि य भासा अणुमयाओ ॥ १९३ ॥

[सुत्ताइं ८६०-८६६. पज्जत्तियाइभासाभेयपरूवणं]

८६०. कतिविहा णं भंते ! भासा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा भासा पण्णत्ता । तं जहा-पज्जत्तिया य अपज्जत्तिया य ।

८६१. पज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सच्चा य मोसा य ।

१५

८६२. सच्चा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-जणवयसच्चा १ सँम्मत्सच्चा २ ठवणासच्चा ३ णामसच्चा ४ रूवसच्चा ५ पडुच्चसच्चा ६ ववहारसच्चा ७ भावसच्चा ८ जोगसच्चा ९ ओवम्मसच्चा १० ।

२०

जणवय १ सँम्मत् २ ठवणा ३ णामे ४ रूवे ५ पडुच्चसच्चे ६ य ।

ववहार ७ भाव ८ जोगे ९ दसमे ओवम्मसच्चे १० य ॥ १९४ ॥

८६३. मोसा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-कोहणिस्सिया १ माणणिस्सिया २ मायाणिस्सिया ३

१. किंपवहा पुर मु० ॥ २. ०पवहा म० ॥ ३. पवहति ध० ॥ ४. ०पवहा ध० ॥
५. सम्मुदिसच्चा जे० प्र० ॥ ६. सम्मुदि २ ठ० जे० प्र० । सम्मुत्ति २ ठ० पुर पु३ ।
सम्मत्ति २ ठ० पुरसं० ॥

लोभणिससिया ४ पेजणिससिया ५ दोसणिससिया ६ हासणिससिया ७ भयणि-
ससिया ८ अक्खाइयाणिससिया ९ उवघायणिससिया १० ।

कोहे १ माणे २ माया ३ लोभे ४ पेजे ५ तहेव दोसे ६ य ।

हास ७ भए ८ अक्खाइय ९ उवघाइयणिससिया १० दसमा ॥१९५॥

५ ८६४. अपज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पणत्ता ? गोयमा !
दुविहा पणत्ता । तं जहा-सच्चामोसा य असच्चामोसा य ।

१० ८६५. सच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जत्तिया कतिविहा पणत्ता ?
गोयमा ! दसविहा पणत्ता । तं जहा-उप्पणमिससिया १ विगयमिससिया २
उप्पणविगयमिससिया ३ जीवमिससिया ४ अजीवमिससिया ५ जीवाजीवमिससिया ६
अणंतमिससिया ७ परित्तमिससिया ८ अद्धामिससिया ९ अद्धामिससिया १० ।

८६६. असच्चामोसा णं भंते ! भासा अप्पज्जत्तिया कतिविहा पणत्ता ?
गोयमा ! दुवालसविहा पणत्ता । तं जहा-

आमंतणि १ याऽऽणमणी २ जायणि ३ तह पुच्छणी ४ य पणवणी ५ ।

पक्खखाणी भासा ६ भासा इच्छाणुलोमा ७ य ॥ १९६ ॥

१५ अणभिग्गहिया भासा ८ भासा य अभिग्गहम्मि वोधव्वा ९ ।

संसयकरणी भासा १० वोयड ११ अव्वोयडा १२ चेव ॥ १९७ ॥

[सुत्ताइं ८६७-८६९. भासगाभासगपरूवणं]

२० ८६७. जीवा णं भंते ! किं भासगा अभासगा ? गोयमा ! जीवा भासगा
वि अभासगा वि । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जीवा भासगा वि अभासगा वि ?
गोयमा ! जीवा दुविहा पणत्ता, तं जहा-संसारसमावण्णगा य असंसारसमावण्णगा
य । तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अभासगा । तत्थ णं
जे ते संसारसमावण्णगा ते णं दुविहा पणत्ता, तं जहा-सेलेसिपडिवण्णगा य असेले-
सिपडिवण्णगा य । तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते णं अभासगा । तत्थ णं
जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते दुविहा पणत्ता, तं जहा-एग्गिंदिया य अणेग्गिंदिया
२५ य । तत्थ णं जे ते एग्गिंदिया ते णं अभासगा । तत्थ णं जे ते अणेग्गिंदिया ते
दुविहा पणत्ता, तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तया य । तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा

ते णं अभासगा । तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते णं भासगा । से एतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जीवा भासगा वि अभासगा वि ।

८६८. नेरइया णं भंते ! किं भासगा अभासगा ? गोयमा ! नेरइया भासगा वि अभासगा वि । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति नेरइया भासगा वि अभासगा वि ? गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य, तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं अभासगा, तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते णं भासगा, से एणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ णेरइया भासगा वि अभासगा वि ।

८६९. एवं एगिंदियवज्जाणं गिरंतरं भाणियव्वं ।

[सुत्ताइं ८७०—८७६. सच्चाइभासज्जायपरूवणं]

८७०. कंति णं भंते ! भासज्जाता पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि भासज्जाता पण्णत्ता । तं जहा—सच्चमेगं भासज्जातं ? वितियं मोसं २ ततियं सच्चामोसं ३ चउत्थं असच्चामोसं ४ ।

८७१. जीवा णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति ? मोसं भासं भासंति ? सच्चामोसं भासं भासंति ? असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! जीवा सच्चं पि भासं भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सच्चामोसं पि भासं भासंति, असच्चामोसं पि भासं भासंति ।

८७२. णेरइया णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति जाव किं असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! णेरइया णं सच्चं पि भासं भासंति जाव असच्चामोसं पि भासं भासंति ।

८७३. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा ।

८७४. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया य णो सच्चं णो मोसं णो सच्चामोसं भासं भासंति, असच्चामोसं भासं भासंति ।

८७५. पंचेदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति ? जाव (सु. ८७१) किं असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! पंचेदियतिरिक्खजोणिया णो सच्चं भासं भासंति, णो मोसं भासं भासंति, णो सच्चामोसं भासं भासंति, एवं असच्चामोसं भासं भासंति, णडण्णत्थ सिक्खापुव्वगं उत्तरगुणलद्धिं वा पडुच्च सच्चं

पि भासं भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सच्चासोसं पि भासं भासंति, असच्चासोसं पि भासं भासंति ।

८७६. मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा (सु. ८७१) तहा भाणियव्वा ।

५ [सुत्ताइं ८७७-८९५. भासादव्वगहणाइपरूवणं]

८७७. [१] जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! ठियाइं गेण्हति, णो अठियाइं गेण्हति ।

[२] जाइं भंते ! ठियाइं गेण्हति ताइं किं दव्वओ गेण्हति ? खेत्तओ गेण्हति ? कालओ गेण्हति ? भावओ गेण्हति ? गोयमा ! दव्वओ वि गेण्हति, खेत्तओ वि गेण्हति, कालओ वि गेण्हति, भावओ वि गेण्हति ।

[३] जाइं दव्वओ गेण्हति ताइं किं एगपएसियाइं गिण्हति दुपएसियाइं गेण्हति जाव अणंतपएसियाइं गेण्हति ? गोयमा ! णो एगपएसियाइं गेण्हति जाव णो असंखेज्जपएसियाइं गेण्हति, अणंतपएसियाइं गेण्हति ।

[४] जाइं खेत्तओ गेण्हति ताइं किं एगपएसोगाढाइं गेण्हति दुपएसोगाढाइं गेण्हति जाव असंखेज्जपएसोगाढाइं गेण्हति ? गोयमा ! णो एगपएसोगाढाइं गेण्हति जाव णो संखेज्जपएसोगाढाइं गेण्हति, असंखेज्जपएसोगाढाइं गेण्हति ।

[५] जाइं कालओ गेण्हति ताइं किं एगसमयठितीयाइं गेण्हति दुसमयठितीयाइं गेण्हति जाव असंखेज्जसमयठितीयाइं गेण्हति ? गोयमा ! एगसमयठितीयाइं पि गेण्हति, दुसमयठितीयाइं पि गेण्हति, जाव असंखेज्जसमयठितीयाइं पि गेण्हति ।

[६] जाइं भावओ गेण्हति ताइं किं वण्णमंताइं गेण्हति गंधमंताइं गेण्हति रसमंताइं गेण्हति फासमंताइं गेण्हति ? गोयमा ! वण्णमंताइं पि गेण्हति जाव फासमंताइं पि गेण्हति ।

[७] जाइं भावओ वण्णमंताइं गेण्हति ताइं किं एगवण्णाइं गेण्हति जाव पंचवण्णाइं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च एगवण्णाइं पि गेण्हति जाव पंचवण्णाइं पि गेण्हति, सव्वग्गहणं पडुच्च णियमा पंचवण्णाइं गेण्हति, तं जहा-कालाइं नीलाइं लेहियाइं हालिदाइं सुक्किलाइं ।

[८] जाइं वण्णओ कालाइं गेण्हति ताइं किं एगगुणकालाइं गेण्हति

जाव अणंतगुणकालाईं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणकालाईं पि गेण्हति जाव अणंतगुणकालाईं पि गेण्हति । एवं जाव सुक्किलाईं पि ।

[९] जाईं भावओ गंधमंताईं गेण्हति ताईं किं एगगंधाईं गेण्हति दुगंधाईं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च एगगंधाईं पि गेण्हति दुगंधाईं पि गेण्हति, सव्वग्गहणं पडुच्च नियमा दुगंधाईं गेण्हति ।

[१०] जाईं गंधओ सुब्भिगंधाईं गेण्हति ताईं किं एगगुणसुब्भिगंधाईं गेण्हति जाव अणंतगुणसुब्भिगंधाईं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणसुब्भिगंधाईं पि गेण्हति जाव अणंतगुणसुब्भिगंधाईं पि गेण्हति । एवं दुब्भिगंधाईं पि गेण्हति ।

[११] जाईं भावतो रसमंताईं गेण्हति ताईं किं एगरसाईं गेण्हति ? जाव किं पंचरसाईं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च एगरसाईं पि गेण्हति जाव पंचरसाईं पि गेण्हति, सव्वग्गहणं पडुच्च णियमा पंचरसाईं गेण्हति ।

[१२] जाईं रसतो तित्तरसाईं गेण्हति ताईं किं एगगुणतित्तरसाईं गेण्हति जाव अणंतगुणतित्तरसाईं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणतित्तरसाईं पि गेण्हति जाव अणंतगुणतित्तरसाईं पि गेण्हति । एवं जाव मैहुरो रसो ।

[१३] जाईं भावतो फासमंताईं गेण्हति ताईं किं एगफासाईं गेण्हति, जाव अट्टफासाईं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदव्वाइं पडुच्च णो एगफासाईं गिण्हति, दुफासाईं गिण्हति जाव चउफासाईं पि गेण्हति, णो पंचफासाईं गेण्हति जाव णो अट्टफासाईं पि गेण्हति । सव्वग्गहणं पडुच्च णियमा चउफासाईं गेण्हति । तं जहा-सीयफासाईं गेण्हति, उसिणफासाईं गेण्हति, णिद्धफासाईं गेण्हति, लुक्ख-फासाईं गेण्हति ।

[१४] जाईं फासओ सीयाईं गेण्हति ताईं किं एगगुणसीयाईं गेण्हति जाव अणंतगुणसीयाईं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणसीयाईं पि गेण्हति जाव अणंत-गुणसीयाईं पि गेण्हति । एवं उसिण-णिद्ध-लुक्खाईं जाव अणंतगुणाईं पि गिण्हति ।

[१५] जाईं भंते ! जाव अणंतगुणलुक्खाईं गेण्हति ताईं किं पुट्टाईं गेण्हति अपुट्टाईं गेण्हति ? गोयमा ! पुट्टाईं गेण्हति, णो अपुट्टाईं गेण्हति ।

[१६] जाईं भंते ! पुट्टाईं गेण्हति ताईं किं ओगाढाईं गेण्हति अणोगाढाईं गिण्हति ? गोयमा ! ओगाढाईं गेण्हति, णो अणोगाढाईं गेण्हति ।

[१७] जाइं भंते ! ओगाढाइं गेण्हति ताइं किं अणंतरोगाढाइं गेण्हति, परंपरोगाढाइं गेण्हति ? गोयमा ! अणंतरोगाढाइं गेण्हति, णो परंपरोगाढाइं गेण्हति ।

[१८] जाइं भंते ! अणंतरोगाढाइं गेण्हति ताइं किं अणूइं गेण्हति ? वादराइं गेण्हति ? गोयमा ! अणूइं पि गेण्हइ वादराइं पि गेण्हति ।

५ [१९] जाइं भंते ! अणूइं पि गेण्हति वायराइं पि गेण्हति ताइं किं उडुं गेण्हति ? अहे गेण्हति ? तिरियं गेण्हति ? गोयमा ! उडुं पि गिण्हति, अहे वि गिण्हति, तिरियं पि गेण्हति ।

१० [२०] जाइं भंते ! उडुं पि गेण्हति अहे वि गेण्हति तिरियं पि गेण्हति ताइं किं आदिं गेण्हति ? मज्जे गेण्हति ? पज्जवसाणे गेण्हति ? गोयमा ! आइं पि गेण्हति, मज्जे वि गेण्हति, पज्जवसाणे वि गेण्हति ।

[२१] जाइं भंते ! आइं पि गेण्हति मज्जे वि गेण्हति पज्जवसाणे वि गेण्हति ताइं किं सविसए गेण्हति ? अविसए गेण्हति ? गोयमा ! सविसए गेण्हति, णो अविसए गेण्हति ।

१५ [२२] जाइं भंते ! सविसए गेण्हति ताइं किं आणुपुब्बि गेण्हति ? अणाणुपुब्बि गेण्हति ? गोयमा ! आणुपुब्बि गेण्हति, णो अणाणुपुब्बि गेण्हति ।

[२३] जाइं भंते ! आणुपुब्बि गेण्हति ताइं किं तिदिसिं गेण्हति जाव छदिसिं गेण्हति ? गोयमा ! णियमा छदिसिं गेण्हति ।

पुट्टोगाढ अणंतर अणू य तह वायरे य उडुमहे ।

आदि विसयाऽऽणुपुब्बि णियमा तह छदिसिं चव ॥ १९८ ॥

२० ८७८. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं संतरं गेण्हति ? निरंतरं गेण्हति ? गोयमा ! संतरं पि गेण्हति निरंतरं पि गेण्हति । संतरं गिण्हमाणे जहण्णेणं एणं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जसमए अंतरं कट्टु गेण्हति । निरंतरं गिण्हमाणे जहण्णेणं दो समए, उक्कोसेणं असंखेज्जसमए अणुसमयं अविरहियं निरंतरं गेण्हति ।

२५ ८७९. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गहियाइं णिसिरति ताइं किं संतरं णिसिरति ? णिरंतरं णिसिरति ? गोयमा ! संतरं णिसिरति, णो णिरंतरं णिसिरति । संतरं णिसिरमाणे एगेणं समएणं गेण्हइ एगेणं समएणं णिसिरति,

○	नि	नि	नि	नि	नि	नि	नि
त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	○

एणं गहण-णिसिरणोवाएणं जहण्णेणं दुसमइयं उक्कोसेणं असंखेज्जसमइयं अंतोमुहुत्तियं गहण-णिसिरणोवायं(णिसिरणं) करेति ।

[सुत्ताइं ८८०-८८७, भासाद्व्वभेयणपरूवणं]

८८०. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गहियाइं णिसिरति ताइ किं भिण्णाइं णिसिरति ? अभिण्णाइं णिसिरति ? गोयमा ! भिण्णाइं पि णिसिरति, अभिच्चाइं पि णिसिरति । जाइं भिण्णाइं णिसिरति ताइं अणंतगुणपरिवड्डीएँ परिवड्ढुमाणाइं परिवड्ढुमाणाइं लोयंतं फुसंति । जाइं अभिण्णाइं णिसिरति ताइं असंखेज्जाओ ओगाहणवग्गणाओ गंता भेयमावज्जंति, संखेज्जाइं जौयणाइं गंता विद्धंसमागच्छंति ।

८८१. तेसिं णं भंते ! दव्वाणं कतिविहे भेए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे भेये पण्णत्ते । तं जहा-खंडाभेए १ पतराभेए २ चुण्णियाभेए ३ अणुतडियाभेए ४ उँक्कारियाभेए ५ ।

८८२. से किं तं खंडाभेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तउखंडाण वा तंचखंडाण वा सीसगखंडाण वा रययखंडाण वा जायरूवखंडाण वा खंडएण भेदे भवति । से तं खंडाभेदे ।

८८३. से किं तं पयराभेदे ? २ जण्णं वंसाण वा वेत्ताण वा णलाण वा कँदलित्थंमाण वा अब्भपडलाण वा पयरएणं भेए भवति । से तं पयराभेदे ।

८८४. से किं तं चुण्णियाभेए ? २ जण्णं तिलचुण्णाण वा मुग्ग-चुण्णाण वा मासचुण्णाण वा पिप्पलिचुण्णाण वा मिरियचुण्णाण वा सिंगवेर-चुण्णाण वा चुण्णियाए भेदे भवति । से तं चुण्णियाभेदे ।

८८५. से किं तं अणुतडियाभेदे ? २ जण्णं अगडाण वा तँलागाण वा दहाण वा णदीण वा वावीण वा पुक्खरिणीण वा दीहियाण वा गुंजालियाण वा सराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतडियाए भेदे भवति । से तं अणुतडियाभेदे ।

८८६. से किं तं उँक्कारियाभेदे ? २ जण्णं मूसगाण वा मँगूसाण वा तिलसिंगाण वा मुग्गसिंगाण वा माससिंगाण वा एरंडचीयाण वा फुँडित्ता उँक्कारियाए भेदे भवति । से तं उँक्कारियाभेदे ।

१. °ए णं परि° म० पु१ पु३ ॥ २. एतेसि णं प्र० पु२ ॥ ३. उँक्कारिया° जे० ध० म० ॥ ४. कदलीयंभाग म० पु१ पु२ पु३ ॥ ५. तडागाण मु० ॥ ६, १०-११. उँक्कारि° पु२ मु० विना ॥ ७. मूसगाण प्र० । मूसगाण मु० । मूसयाण पु२ ॥ ८. मँडूसाण म० प्र० पु१ पु२ सं० पु३ ॥ ९. फुडिया पु२ । फुडिता मु० ॥

[१७] जाइं भंते ! ओगाढाइं गेण्हति ताइं किं अणंतरोगाढाइं गेण्हति, परंपरोगाढाइं गेण्हति ? गोयमा ! अणंतरोगाढाइं गेण्हति, णो परंपरोगाढाइं गेण्हति ।

[१८] जाइं भंते ! अणंतरोगाढाइं गेण्हति ताइं किं अणूइं गेण्हति ? वादराइं गेण्हति ? गोयमा ! अणूइं पि गेण्हइ वादराइं पि गेण्हति ।

५ [१९] जाइं भंते ! अणूइं पि गेण्हति वायराइं पि गेण्हति ताइं किं उडुं गेण्हति ? अहे गेण्हति ? तिरियं गेण्हति ? गोयमा ! उडुं पि गिण्हति, अहे वि गिण्हति, तिरियं पि गेण्हति ।

[२०] जाइं भंते ! उडुं पि गेण्हति अहे वि गेण्हति तिरियं पि गेण्हति ताइं किं आदिं गेण्हति ? मज्जे गेण्हति ? पज्जवसाणे गेण्हति ? गोयमा ! आइं पि गेण्हति, मज्जे वि गेण्हति, पज्जवसाणे वि गेण्हति ।

[२१] जाइं भंते ! आइं पि गेण्हति मज्जे वि गेण्हति पज्जवसाणे वि गेण्हति ताइं किं सविसए गेण्हति ? अविसए गेण्हति ? गोयमा ! सविसए गेण्हति, णो अविसए गेण्हति ।

१५ [२२] जाइं भंते ! सविसए गेण्हति ताइं किं आणुपुब्बिं गेण्हति ? अणाणुपुब्बिं गेण्हति ? गोयमा ! आणुपुब्बिं गेण्हति, णो अणाणुपुब्बिं गेण्हति ।

[२३] जाइं भंते ! आणुपुब्बिं गेण्हति ताइं किं तिदिसिं गेण्हति जाव छदिसिं गेण्हति ? गोयमा ! णियमा छदिसिं गेण्हति ।

पुडोगाढ अणंतर अणू य तह वायरे य उडुमहे ।

आदि विसयाऽऽणुपुब्बिं णियमा तह छदिसिं चव ॥ १९८ ॥

२० ८७८. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं संतरं गेण्हति ? निरंतरं गेण्हति ? गोयमा ! संतरं पि गेण्हति निरंतरं पि गेण्हति । संतरं गिण्हमाणे जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जसमए अंतरं कट्टु गेण्हति । निरंतरं गिण्हमाणे जहण्णेणं दो समए, उक्कोसेणं असंखेज्जसमए अणुसमयं अविरहियं निरंतरं गेण्हति ।

२५ ८७९. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गहियाइं णिसिरति ताइं किं संतरं णिसिरति ? निरंतरं णिसिरति ? गोयमा ! संतरं णिसिरति, णो निरंतरं णिसिरति । संतरं णिसिरमाणे एगेणं समएणं गेण्हइ एगेणं समएणं णिसिरति,

○	नि	नि	नि	नि	नि	नि	नि
अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	○

एएणं गहण-णिसिरणोवाएणं जहण्णेणं दुसमइयं उक्कोसेणं असंखेज्जसमइयं अंतोसुहुत्तियं गहण-णिसिरणोवायं(णिसिरणं) करेति ।

[सुत्ताइं ८८०-८८७. भासाद्वयभेयणपरूवणं]

८८०. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गहियाइं णिसिरति ताइ किं भिण्णाइं णिसिरति ? अभिण्णाइं णिसिरति ? गोयमा ! भिण्णाइं पि णिसिरति, अभिन्नाइं पि णिसिरति । जाइं भिण्णाइं णिसिरति ताइं अणंतगुणपरिवड्डीएँ परिवड्ढुमाणाइं परिवड्ढुमाणाइं लोयंतं फुसंति । जाइं अभिण्णाइं णिसिरति ताइं असंखेज्जाओ ओगाहणवग्गणाओ गंता भेयमावज्जंति, संखेज्जाइं जोयणाइं गंता विद्धंसमागच्छंति ।

८८१. तेसिं णं भंते ! दव्वाणं कतिविहे भेए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे भेये पण्णत्ते । तं जहा-खंडाभेए १ पतराभेए २ चुण्णियाभेए ३ अणुतडियाभेए ४ उक्करियाभेए ५ ।

८८२. से किं तं खंडाभेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तउखंडाण वा तंबखंडाण वा सीसगखंडाण वा रययखंडाण वा जायरूवखंडाण वा खंडाण भेदे भवति । से तं खंडाभेदे ।

८८३. से किं तं पयरभेदे ? २ जण्णं वंसाण वा वेत्ताण वा णलाण वा कंदलित्थंभाण वा अब्भपडलाण वा पयरएणं भेए भवति । से तं पयरभेदे ।

८८४. से किं तं चुण्णियाभेए ? २ जण्णं तिलचुण्णाण वा मुग्ग-चुण्णाण वा मासचुण्णाण वा पिप्पल्लिचुण्णाण वा मिरियचुण्णाण वा सिंगवेर-चुण्णाण वा चुण्णियाए भेदे भवति । से तं चुण्णियाभेदे ।

८८५. से किं तं अणुतडियाभेदे ? २ जण्णं अगडाण वा तैलागाण वा दहाण वा णदीण वा वावीण वा पुक्खरिणीण वा दीहियाण वा गुंजालियाण वा सराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतडियाए भेदे भवति । से तं अणुतडियाभेदे ।

८८६. से किं तं उक्करियाभेदे ? २ जण्णं मूसगाण वा मँगूसाण वा तिलसिंगाण वा मुग्गसिंगाण वा माससिंगाण वा एरंडवीयाण वा फुडित्ता उक्करियाए भेदे भवति । से तं उक्करियाभेए ।

१. °ए णं परि° म० पु१ पु३ ॥ २. एतेसिं णं प्र० पु२ ॥ ३. उक्करिया° जे० ध० म० ॥ ४. कंदलीयंभाण म० पु१ पु२ पु३ ॥ ५. तडागाण सु० ॥ ६, १०-११. उक्करि° पु२ सु० विन्ता ॥ ७. मूसगाण प्र० । मूसगाण सु० । मूसयाण पु२ ॥ ८. मंडूसाण म० प्र० पु१ पु२ सं० पु३ ॥ ९. फुडिया पु२ । फुडिता सु० ॥

८८७. एएसि णं भंते ! दव्वाणं खंडाभेएणं पयराभेएणं चुण्णियाभेएणं अणुतडियाभेदेणं उक्करियाभेदेणं य भिज्जमाणाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवाइं दव्वाइं उक्करियाभेएणं भिज्जमाणाइं, अणुतडियाभेदेणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं, चुण्णियाभेएणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं, पयराभेएणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं, खंडाभेएणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं ।

८८८. [१] णेरइए णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अड्डियाइं गेण्हति ? गोयमा ! एवं चेव जहा जीवे वत्तव्वया भणिया (सु. ८७७) तहा णेरइयस्सावि जाव अप्पावहुयं ।

[२] एवं एगिंदियवज्जो दंडओ जाव वेमाणिया ।

१० ८८९. जीवा णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अड्डियाइं गेण्हति ? गोयमा ! एवं चेव पुहुत्तेण वि णेयव्वं जाव वेमाणिया ।

१५ ८९०. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं सच्चभासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अड्डियाइं गेण्हति ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) तहा एसो वि । नवरं विगलेंदिया ण पुच्छिज्जंति । एवं मोसभासाए वि सच्चामोसभासाए वि ।

२० ८९१. असच्चामोसभासाए वि एवं चेव । नवरं असच्चामोसभासाए विगलेंदिया वि पुच्छिज्जंति इमेणं अभिलावेणं-विगलिंदिए णं भंते ! जाइं दव्वाइं असच्चामोसभासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अड्डियाइं गेण्हति ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) । एवं एते एगत्तपुहुत्तेणं दस दंडगा भाणियव्वा ।

२५ ८९२. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं सच्चभासत्ताए गेण्हति ताइं किं सच्चभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? असच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! सच्चभासत्ताए णिसिरति, णो मोसभासत्ताए णिसिरति, णो सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असच्चामोसभासत्ताए णिसिरति । एवं एगिंदिय-विगलिंदियवज्जो दंडओ जाव वेमाणिए । एवं पुहुत्तेण वि ।

८९३. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं मोसभासत्ताए गेण्हति ताइं किं

सञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? असञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! णो सञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति, मोसभासत्ताए णिसिरति, णो सञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ।

८९४. एवं सञ्चामोसभासत्ताए वि ।

५

८९५. असञ्चामोसभासत्ताए वि एवं चेव । णवरं असञ्चामोसभासत्ताए विगल्लिंदिया तहेव पुच्छिज्जंति । जाए चेव गेण्हति ताए चेव णिसिरति । एवं एते एगत्त-पुहत्तिया अट्ट दंडगा भाणियच्चा ।

[सुत्ताइं ८९६-९००. सोलसविहवयणपरूवणाइ]

८९६. कतिविहे णं भंते ! वयणे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलसविहे वयणे पण्णत्ते । तं जहा-एगवयणे १ दुवयणे २ बहुवयणे ३ इत्थिवयणे ४ पुमवयणे ५ णपुंसगवयणे ६ अज्झत्थवयणे ७ उवणीयवयणे ८ अवणीयवयणे ९ उवणीयावणीयवयणे १० अवणीयउवणीयवयणे ११ तीतवयणे १२ पडुप्पन्नवयणे १३ अणागयवयणे १४ पच्चक्खवयणे १५ परोक्खवयणे १६ ।

१०

८९७. इच्चेयं भंते ! एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इच्चेयं एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

१५

८९८. कैति ण भंते ! भासज्जाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि भासज्जाया पण्णत्ता । तं जहा-सच्चमेगं भासज्जायं ? बितियं मोसं भासज्जायं २ ततियं सञ्चामोसं भासज्जायं ३ चउत्थं असञ्चामोसं भासज्जायं ४ ।

२०

८९९. इच्चेयाइं भंते ! चत्तारि भासज्जायाइं भासमाणे किं आराहए विराहए ? गोयमा ! इच्चेयाइं चत्तारि भासज्जायाइं आउत्तं भासमाणे आराहए, णो विराहए । तेण परं अस्संजयाऽविरयाऽपडिहयाऽपच्चक्खायपावकम्मे सच्चं वा भासं भासंतो मोसं वा सञ्चामोसं वा असञ्चामोसं वा भासं भासमाणे णो आराहए, विराहए ।

२५

१. ८७० तमपुत्रसमानमेतत् सूत्रं सम्बन्धयोजनार्थमुपन्यस्तमित्यतो न पुनरुक्तदोषावहम्, सर्वेष्वपि सूत्रादेशंप्रपलभ्यते चापि ॥

२. भासंतो इति पाठः पुरप्रती शोधकप्रक्षिप्त उपलभ्यते ॥

८८७. एएसि णं भंते ! दव्वाणं खंडाभेएणं पयराभेएणं चुणियाभेएणं अणुतडियाभेदेणं उक्करियाभेदेणं य भिज्जमाणाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवाइं दव्वाइं उक्करियाभेएणं भिज्जमाणाइं, अणुतडियाभेदेणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं, चुणियाभेएणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं, पयराभेएणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं, खंडाभेएणं भिज्जमाणाइं अणंतगुणाइं ।

८८८. [१] णेरइए णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! एवं चेव जहा जीवे वत्तव्वया भणिया (सु. ८७७) तहा णेरइयस्सावि जाव अप्पावहुयं ।

[२] एवं एगिंदियवज्जो दंडओ जाव वेमाणिया ।

१० ८८९. जीवा णं भंते ! जाइं दव्वाइं भासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! एवं चेव पुहुत्तेण वि णेयव्वं जाव वेमाणिया ।

८९०. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं सच्चभासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) तहा एसो वि । नवरं विगल्लिंदिया ण पुच्छिज्जंति । एवं मोसभासाए वि सच्चामोसभासाए वि ।

८९१. असच्चामोसभासाए वि एवं चेव । नवरं असच्चामोसभासाए विगल्लिंदिया वि पुच्छिज्जंति इमेणं अभिलवेणं—विगल्लिंदिए णं भंते ! जाइं दव्वाइं असच्चामोसभासत्ताए गेण्हति ताइं किं ठियाइं गेण्हति ? अठियाइं गेण्हति ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) । एवं एते एगत्तपुहुत्तेणं दस दंडगा भाणियव्वा ।

८९२. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं सच्चभासत्ताए गेण्हति ताइं किं सच्चभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? असच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! सच्चभासत्ताए णिसिरति, णो मोसभासत्ताए णिसिरति, णो सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असच्चामोसभासत्ताए णिसिरति । एवं एगिंदिय-विगल्लिंदियवज्जो दंडओ जाव वेमाणिए । एवं पुहुत्तेण वि ।

८९३. जीवे णं भंते ! जाइं दव्वाइं मोसभासत्ताए गेण्हति ताइं किं

सञ्चभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? असञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! णो सञ्चभासत्ताए णिसिरति, मोसभासत्ताए णिसिरति, णो सञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असञ्चामोसभासत्ताए णिसिरति ।

८९४. एवं सञ्चामोसभासत्ताए वि ।

८९५. असञ्चामोसभासत्ताए वि एवं चेव । णवरं असञ्चामोसभासत्ताए विगळिंदिया तहेव पुच्छिजंति । जाए चेव गेण्हति ताए चेव णिसिरति । एवं एते एगत्त-पुहत्तिया अट्ट दंडगा भाणियव्वा ।

[सुत्ताइं ८९६-९००. सोलसविहवयणपरूवणाइ]

८९६. कतिविहे णं भंते ! वयणे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलसविहे वयणे पण्णत्ते । तं जहा—एगवयणे १ दुवयणे २ बहुवयणे ३ इत्थिवयणे ४ पुमवयणे ५ णपुंसगवयणे ६ अज्झत्थवयणे ७ उवणीयवयणे ८ अवणीयवयणे ९ उवणीयावणीयवयणे १० अवणीयउवणीयवयणे ११ तीतवयणे १२ पडुप्पन्नवयणे १३ अणागवयणे १४ पच्चक्खवयणे १५ परोक्खवयणे १६ ।

८९७. इच्चैयं भंते ! एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इच्चैयं एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

८९८. कैति ण भंते ! भासज्जाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि भासज्जाया पण्णत्ता । तं जहा—सच्चमेगं भासज्जायं ? वितियं मोसं भासज्जायं २ ततियं सञ्चामोसं भासज्जायं ३ चउत्थं असञ्चामोसं भासज्जायं ४ ।

८९९. इच्चैयाइं भंते ! चत्तारि भासज्जायाइं भासमाणे किं आराहए विराहए ? गोयमा ! इच्चैयाइं चत्तारि भासज्जायाइं आउत्तं भासमाणे आराहए, णो विराहए । तेण परं अस्संजयाऽविरयाऽपडिहयाऽपच्चक्खायपावकम्मे सच्चं वा भासं भासंतो मोसं वा सञ्चामोसं वा असञ्चामोसं वा भासं भासमाणे णो आराहए, विराहए ।

१. ८७० तमसूत्रसमानमेतत् सूत्रं सम्बन्धयोजनार्थमुपन्यरतमित्यतो न पुनरुक्तदोषाद्वद्म. सर्वेष्वपि सूत्रादेशोऽप्युपलभ्यते चापि ॥

२. भासंतो इति पाठः पुरप्रती शोधकप्रक्षिप्त उपलभ्यते ॥

९००. एतेसि णं भंते ! जीवाणं सच्चभासगाणं मोसभासगाणं सच्चामोस-
भासगाणं असच्चामोसभासगाणं अभासगाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सच्चभासगा, सच्चामोसभासगा असंखेज्जगुणा, मोसभासगा
असंखेज्जगुणा, असच्चामोसभासगा असंखेज्जगुणा, अभासगा अणंतगुणा ।

५

॥ पणवणाए भगवईए एक्कारसमं भासापर्यं समत्तं ॥



१२. बारसमं सरीरपयं

[सुत्तं ९०१. सरीरभेयपरूवणा]

९०१. कति णं भंते ! सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता । तं जहा—ओरालिए १ वेउव्विए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ ।

[सुत्ताइं ९०२—९०९. चउवीसदंडएसु सरीरपरूवणा]

९०२. णेरइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीरया पण्णत्ता । तं जहा—वेउव्विए तेयए कम्मए ।

९०३. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं ।

९०४. पुढविक्काइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीरया पण्णत्ता । तं जहा—ओरालिए तेयए कम्मए ।

९०५. एवं वाउक्काइयवज्जं जाव चउरिंदियाणं ।

९०६. वाउक्काइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि सरीरया पण्णत्ता । तं जहा—ओरालिए वेउव्विए तेयए कम्मए ।

९०७. एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण वि ।

९०८. मणूसमाणं भंते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरया पण्णत्ता । तं जहा—ओरालिए वेउव्विए आहारए तेयए कम्मए ।

९०९. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णारगाणं [सु. ९०२] ।

[सुत्तं ९१०. ओहेण बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९१०. [१] केवतिया णं भंते ! ओरालियसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—बद्धेल्लया यं मुक्केल्लया य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जगा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ अभेवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा सिद्धाणं अणंतभागो ।

[२] केवतिया णं भंते ! वेउव्वियसरीरया पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता । तं जहा-वद्धेल्लया य मुक्केल्लया य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेज्जाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्जतिभागो । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तहेव वेउव्वियस्स वि भाणियच्चा ।

[३] केवतिया णं भंते ! आहारगसरीरया पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता । तं जहा-वद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्लगा ते णं सिय अत्थि सिय णत्थि । जति अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तहा भाणियच्चा ।

[४] केवइया णं भंते ! तेयगसरीरया पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता । तं जहा-वद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्लगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ सिद्धेहिंतो अणंतगुणा सव्वजीवाणंतभागूणा । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ सव्वजीवेहिंतो अणंतगुणा, जीववग्गस्स अणंतभागो ।

[५] एवं कम्मगसरीरा वि भाणियच्चा ।

[सुत्तं ९११. णेरइयाणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

२० ९११. [१] णेरइयाणं भंते ! केवइया ओरालियसरीरा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता । तं जहा-वद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्लगा ते णं णत्थि । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं अणंता जहा ओरालियमुक्केल्लगा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियच्चा ।

[२] णेरइयाणं भंते ! केवइया वेउव्वियसरीरा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा पणत्ता । तं जहा-वद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्लया ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेज्जाओ सेढीओ पतरस्स असंखेज्जतिभागो, तासि णं सेढीणं विवखं-

मसूई अंगुलपढमवग्गमूलं वीयवग्गमूलपडुप्पणं, अहवणं अंगुलवितियवग्गमूल-
घणप्पमाणमेत्ताओ सेदीओ । तत्थ णं जे ते मुक्केलगा ते णं जहा ओरालियस्स
मुक्केलगा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियच्चा ।

[३] गेरइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेलगा य मुक्केलगा य । एवं जहा ओरालिया ५
वद्धेलगा य मुक्केलगा य भणिया (सु. ९१० [१]) तहेव आहारगा वि
भाणियच्चा ।

[४] तेया-कम्मगाइं जहा एतेसिं चैव वेउव्वियाइं ।

[सुत्ताइं ९१२-९१३. भवणवासीणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९१२. [१] असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? १०
गोयमा ! जहा गेरइयाणं ओरालिया भणिया (सु. ९११ [१]) तहेव एतेसिं पि
भाणियच्चा ।

[२] असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेलगा य मुक्केलगा य । तत्थ णं जे ते वद्धेलगा
ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ १५
असंखेज्जाओ सेदीओ पतरस्स असंखेज्जतिभागो, तासि णं सेदीणं विक्खंमसूई
अंगुलपढमवग्गमूलस्स संखेज्जतिभागो । तत्थ णं जे ते मुक्केलया ते णं जहा
ओरालियस्स मुक्केलगा तहा भाणियच्चा (सु. ९१० [१]) ।

[३] आहारयसरीरा जहा एतेसि णं चैव ओरालिया तहेव दुविहा
भाणियच्चा । २०

[४] तेया-कम्मसरीरा दुविहां वि जहा एतेसि णं चैव वेउव्विया ।

९१३. एवं जाव थणियकुमारा ।

[सुत्ताइं ९१४-९१७. एगिंदियाणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९१४. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ?
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेलया य मुक्केलया य । तत्थ णं जे ते २५

१. वितियव° पुर ॥ २. आहारगसरीरा वि पुरत्तं ॥ ३. °यातिं दावियाइं । ९१२. [१]अ° म० ॥
४. ओरालियसरीरा भ° पुर ॥ ५-६. एतेसिं चैव म० प्र० पुर ॥

[२] केवतिया णं भंते ! वेउव्वियसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लया य मुक्केल्लया य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेज्जाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्जतिभागो । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तहेव वेउव्वियस्स वि भाणियच्चा ।

[३] केवतिया णं भंते ! आहारगसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं सिय अत्थि सिय णत्थि । जति अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तहा भाणियच्चा ।

[४] केवइया णं भंते ! तेयगसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ सिद्धेहिंतो अणंतगुणा सव्वजीवाणंतभागूणा । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ सव्वजीवेहिंतो अणंतगुणा, जीववग्गस्स अणंतभागो ।

[५] एवं कम्मगसरीरा वि भाणियच्चा ।

[सुत्तं ९११. णेरइयाणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९११. [१] णेरइयाणं भंते ! केवइया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं णत्थि । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं अणंता जहा ओरालियमुक्केल्लगा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियच्चा ।

[२] णेरइयाणं भंते ! केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेल्लया ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेज्जाओ सेढीओ पतरस्स असंखेज्जतिभागो, तासि णं सेढीणं विक्खं-

भसई अंगुलपढमवग्गमूलं वीर्यवग्गमूलपडुप्पणं, अहवणं अंगुलचितियवग्गमूल-
घणप्पमाणभेत्ताओ सेढीओ । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लागा ते णं जहा ओरालियस्स
मुक्केल्लागा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियच्चा ।

[३] गेरइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्लागा य मुक्केल्लागा य । एवं जहा ओरालिया ५
वद्धेल्लागा य मुक्केल्लागा य भणिया (सु. ९१० [१]) तहेव आहारगा वि
भाणियच्चा ।

[४] तेया-कम्मगाइं जहा एतेसिं चैव वेउच्चियाइं ।

[सुत्ताइं ९१२-९१३. भवणवासीणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९१२. [१] असुरकुमारणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? १०
गोयमा ! जहा गेरइयाणं ओरालिया भणिया (सु. ९११ [१]) तहेव एतेसिं पि
भाणियच्चा ।

[२] असुरकुमारणं भंते ! केवतिया वेउच्चियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्लागा य मुक्केल्लागा य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्लागा
ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ १५
असंखेज्जाओ सेढीओ पतरस्स असंखेज्जतिभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसई
अंगुलपढमवग्गमूलस्स संखेज्जतिभागो । तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं जहा
ओरालियस्स मुक्केल्लागा तहा भाणियच्चा (सु. ९१० [१]) ।

[३] आहारयसरीरा जहा एतेसिं णं चैव ओरालिया तहेव दुविहा
भाणियच्चा । २०

[४] तेया-कम्मसरीरा दुविहां वि जहा एतेसिं णं चैव वेउच्चिया ।

९१३. एवं जाव थणियकुमारा ।

[सुत्ताइं ९१४-९१७. एगिंदियाणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९१४. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरगा पण्णत्ता ?
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्लया य मुक्केल्लया य । तत्थ णं जे ते २५

१. चित्तियव° पुर ॥ २. आहारगसरीरा वि पुरसं० ॥ ३. °याहिं दावियाइं । ९१२. [१]व° म० ॥
४. ओरालियसरीरा भ° पुर ॥ --६. एतेसिं चैव म० प्र० पुर ॥

वद्धेल्ला ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालतो, खेतओ असंखेजा लोगा । तत्थ णं जे ते मुक्केल्ला ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ अणंता लोगा, अभवसिद्धिएहितो अणंतगुणा, सिद्धाणं अणंतमारो ।

५ [२] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया वेउव्वियसरीरया पण्णत्ता ! गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्ला य मुक्केल्ला य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्ला ते णं णत्थि । तत्थ णं जे ते मुक्केल्ला ते णं जहा एतेसिं चेव ओरालिया भणिया तहेव भाणियच्चा ।

[३] एवं आहारयसरीरा वि ।

१० [४] तेया-कम्मगा जहा एतेसिं चेव ओरालिया ।

९१५. एवं आउक्काइया तेउक्काइया वि ।

९१६. [१] वाउक्काइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ! गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्ला य मुक्केल्ला य । दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं ओरालिया (सु. ९१४ [१]) ।

१५ [२] वेउव्वियाणं पुच्छ । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्ला य मुक्केल्ला य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्ला ते णं असंखेजा, समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा पलिओवमस्स असंखेज्जतिभागमेत्तेणं कालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहिया सिया । मुक्केल्लया जहा पुढविकाइयाणं (सु. ९१४ [२]) ।

[३] आहारय-तेया-कम्मा जहा पुढविकाइयाणं (सु. ९१४ [३-४])

२० तहा भाणियच्चा ।

९१७. वणप्फइकाइयाणं जहा पुढविकाइयाणं । णवरं तेया-कम्मगा जहा ओहिया तेया-कम्मगा (सु. ९१० [४-५]) ।

[सुत्ताइं ९१८-९१९. विगलंदिद्याणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

२५ ९१८. [१] वेइंदियाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ! गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्ला य मुक्केल्ला य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्ला ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ असंखेजाओ सेदीओ पयरस्स असंखेज्जतिभागो, तासिं णं सेदीणं विक्खं-भमुई असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ असंखेजाइं सेदिवग्गमूलाइं । वेइंदियाणं

ओरालियसरीरोहिं वद्धेल्लगेहिं पयरं अवहीरति असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं कालओ, खेतओ अंगुलपयरस्स आवलियाए य असंखेज्जतिभागपलिभागेणं । तत्थ णं जे ते मुक्केल्ला ते जहा ओहिया ओरालिया मुक्केल्ला (सु. ९१० [१]) ।

[२] वेउव्विया आहारगा य वद्धेल्ला णत्थि, मुक्केल्ला जहा ओहिया ओरालिया मुक्केल्ला (सु. ९१० [१]) ।

[३] तेया-कम्मगा जहा एतेसिं चेव ओहिया ओरालिया ।

९१९. एवं जाव चउरिदिया ।

[सुत्तं ९२०. पंचेदियतिरिक्खणां वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२०. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं एवं चेव । नवरं वेउव्वियसरीरएसु इमो विसेसो-पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतिया वेउव्वियसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्ला य मुक्केल्ला य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्ला ते णं असंखेज्जा जहा असुरकुमारणं (सु. ९१२ [२]) । णवरं तासि णं सेदीणं विक्खंभसूई अंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जतिभागो । मुक्केल्ला तहेव ।

[सुत्तं ९२१. मणुस्साणं वद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२१. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-वद्धेल्ला य मुक्केल्ला य । तत्थ णं जे ते वद्धेल्ला ते णं सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा, जहण्णपए संखेज्जा संखेज्जाओ कोडा-कोडीओ तिजमलपयस्स उवरिं चउजमलपयस्स हेड्ढा, अहवणं छट्ठो वग्गो पंचमवग्गपडुप्पण्णो, अहवणं छण्णउईछेयणगादाई रासी; उक्कोसपदे असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ रूवपक्खित्तेहिं मणुस्सेहिं सेदी अवहीरति, तीसे सेदीए काल-खेत्तेहिं अवहारो मग्गिज्जइ-असंखेज्जाहिं उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीहिं कालओ, खेतओ अंगुलपढमवग्गमूलं ततियवग्गमूलपडु-प्पण्णं । तत्थ णं जे ते मुक्केल्ला ते जहा ओरालिया ओहिया मुक्केल्ला (सु. ९१० [१]) ।

[२] वेउव्वियाणं भंते ! पुच्छ। गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं

१-२. ओरालियसुं म० प्र० पुर० ॥ ३. हिटं पुर० ॥ ४. १ए आकासखेत्तेहिं पुर० विना । नवरं सेदीणं स्थाने पुर०प्रतौ सेदीहिं इत्युपलभ्यते ॥

जहा-बद्धेद्यगा य मुक्केद्यगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेद्यगा ते णं संखेज्जा, समए
समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा संखेजेणं कालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहिया
सिया । तत्थ णं जे ते मुक्केद्यगा ते णं जहा ओरालिया ओहिया (सु. ९१०
[१]) ।

- ५ [३] आहारगसरीरा जहा ओहिया (सु. ९१० [३]) ।
[४] तेथा-कम्मया जहा एत्तेसिं चेव ओरालिया ।

[सुत्तं ९२२. वाणमंतराणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२२. वाणमंतराणं जहा णेरइयाणं ओरालिया आहारगा य । वेउव्विय-
सरीरगा जहा णेरइयाणं, णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई संखेज्जोयणसय-
१० वग्गपलिभागो पयरस्स । मुक्केलया जहा ओहिया ओरालिया (सु. ९१० [१]) ।
तेथा-कम्मया जहा एत्तेसिं चेव वेउव्विया ।

[सुत्तं ९२३. जोहिसियाणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२३. जोतिसियाणं एवं चेव । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई वे-
उपपण्णंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स ।

१९ [सुत्तं ९२४. वेमाणियाणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२४. वेमाणियाणं एवं चेव । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुल-
वितियवग्गमूलं ततियवग्गमूलपडुप्पणं, अहवणं अंगुलततियवग्गमूलघणपमाण-
भेत्ताओ सेढीओ । सेसं तं चेव ।

१३. तेरसमं परिणामपयं

[सुत्तं ९२५. परिणामभेयपरूत्रणा]

९२५. कतिविहे णं भंते ! परिणामे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे परिणामे पण्णत्ते । तं जहा-जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य ।

[सुत्ताइं ९२६-९४६. जीवपरिणामपरूत्रणा]

५

९२६. जीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दसविहे पण्णत्ते । तं जहा-गतिपरिणामे १ इंदियपरिणामे २ कसायपरिणामे ३ लेसापरिणामे ४ जोगपरिणामे ५ उवओगपरिणामे ६ णाणपरिणामे ७ दंसणपरिणामे ८ चरित्तपरिणामे ९ वेदपरिणामे १० ।

९२७. गतिपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउविहे पण्णत्ते । तं जहा-णिरयगतिपरिणामे १ तिरियगतिपरिणामे २ मणुयगतिपरिणामे ३ देवगतिपरिणामे ४ । १०

९२८. इंदियपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियपरिणामे १ चक्खिंदियपरिणामे २ घाणिंदियपरिणामे ३ जिब्भिंदियपरिणामे ४ फासिंदियपरिणामे ५ । १५

९२९. कसायपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा-कोहकसायपरिणामे १ माणकसायपरिणामे २ मायाकसायपरिणामे ३ लोभकसायपरिणामे ४ ।

९३०. लेस्सापरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विहे पण्णत्ते । तं जहा-कण्हलेस्सापरिणामे १ णीललेस्सापरिणामे २ काउलेस्सापरिणामे ३ तेउलेस्सापरिणामे ४ पम्हलेस्सापरिणामे ५ सुक्कलेस्सापरिणामे ६ । २०

९३१. जोगपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-मणजोगपरिणामे १ वैइजोगपरिणामे २ कायजोगपरिणामे ३ ।

९३२. उवओगपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सागारोवओगपरिणामे य अणागारोवओगपरिणामे य । २५

जहा-बद्धेलगा य मुक्केलगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेलगा ते णं संखेज्जा, समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा संखेज्जेणं कालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहिया सिया । तत्थ णं जे ते मुक्केलगा ते णं जहा ओरालिया ओहिया (सु. ९१० [१]) ।

- ५ [३] आहारगसरीरा जहा ओहिया (सु. ९१० [३]) ।
[४] तेया-कम्मया जहा एतेसिं चेव ओरालिया ।

[सुत्तं ९२२. वाणमंतराणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

१० ९२२. वाणमंतराणं जहा णेरइयाणं ओरालिया आहारगा य । वेउव्विय-सरीरगा जहा णेरइयाणं, णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई संखेज्जोयणसय-वग्गपलिभागो पयरस्स । मुक्केलया जहा ओहिया ओरालिया (सु. ९१० [१]) । तेया-कम्मया जहा एएसिं चेव वेउव्विया ।

[सुत्तं ९२३. जोइसियाणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२३. जोतिसियाणं एवं चेव । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई चे-छप्पणंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स ।

१५ [सुत्तं ९२४. वेमाणियाणं बद्ध-मुक्कसरीरपरूवणा]

९२४. वेमाणियाणं एवं चेव । णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुल-वितियवग्गमूलं ततियवग्गमूलपडुप्पणं, अहवणं अंगुलततियवग्गमूलघणपमाण-मेत्ताओ सेढीओ । सेसं तं चेव ।

॥ पणवणाए भगवईए वारसमं सरीरपयं समत्तं ॥

१. 'या । आहारगसरीरा जहा असुरकुमारणं । तेया^० मुद्रिते, अयं पाठभेदः केवलं पुरप्रतौ लेखकलिखित आसीत् किन्तु शोधकेन परावृत्त्य आहारगसरीरा जहा नेरइयाणं इति कृत्वा पुनः एतदुपरि “जहा असुरकुमारणं” इति टिप्पणी लिखिता वर्तते ॥

१३. तेरसमं परिणामपयं

[सुत्तं ९२५. परिणामभेयपरूवणा]

९२५. कतिविहे णं भंते ! परिणामे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे परिणामे पण्णत्ते । तं जहा—जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य ।

[सुत्ताइं ९२६—९४६. जीवपरिणामपरूवणा]

५

९२६. जीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दसविहे पण्णत्ते । तं जहा—गतिपरिणामे १ इंदियपरिणामे २ कसायपरिणामे ३ लेसापरिणामे ४ जोगपरिणामे ५ उवओगपरिणामे ६ णाणपरिणामे ७ दंसणपरिणामे ८ चरित्तपरिणामे ९ वेदपरिणामे १० ।

९२७. गतिपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउविहे पण्णत्ते । तं जहा—णिरयगतिपरिणामे १ तिरियगतिपरिणामे २ मणुयगतिपरिणामे ३ देवगतिपरिणामे ४ ।

१०

९२८. इंदियपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—सोइंदियपरिणामे १ चक्खिदियपरिणामे २ घाणिंदियपरिणामे ३ जिब्बिदियपरिणामे ४ फासिंदियपरिणामे ५ ।

१५

९२९. कसायपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउच्चिहे पण्णत्ते । तं जहा—कोहकसायपरिणामे १ माणकसायपरिणामे २ मायाकसायपरिणामे ३ लोभकसायपरिणामे ४ ।

९३०. लेस्सापरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! छच्चिहे पण्णत्ते । तं जहा—ऋहलेस्सापरिणामे १ णीललेस्सापरिणामे २ काउलेस्सापरिणामे ३ तेउलेस्सापरिणामे ४ पम्हलेस्सापरिणामे ५ सुक्कलेस्सापरिणामे ६ ।

२०

९३१. जोगपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते । तं जहा—मणजोगपरिणामे १ वैइजोगपरिणामे २ कायजोगपरिणामे ३ ।

९३२. उवओगपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सागारोवओगपरिणामे य अणागारोवओगपरिणामे य ।

२५

९३३. णाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पणत्ते । तं जहा—आभिणिवोहियनाणपरिणामे १ सुयणाणपरिणामे २ ओहिणाणपरिणामे ३ मणपज्जवणाणपरिणामे ४ केवलणाणपरिणामे ५ ।

९३४. अण्णाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा !
५ तिविहे पणत्ते । तं जहा—मतिअण्णाणपरिणामे १ सुयअण्णाणपरिणामे २ विभंगणाणपरिणामे ३ ।

९३५. दंसणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! तिविहे पणत्ते । तं जहा—सम्मदंसणपरिणामे १ मिच्छादंसणपरिणामे २ सम्मामिच्छादंसणपरिणामे ३ ।

१० ९३६. चरित्तपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पणत्ते । तं जहा—सामाइयचरित्तपरिणामे १ छेदोवट्ठावणियचरित्तपरिणामे २ परिहारविसुद्धियचरित्तपरिणामे ३ सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे ४ अहक्खायचरित्तपरिणामे ५ ।

१५ ९३७. वेयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! तिविहे पणत्ते । तं जहा—इत्थिवेयपरिणामे १ पुरिसवेयपरिणामे २ णपुंसगवेयपरिणामे ३ ।

[सुत्तं ९३८. नेरइयाणं परिणामा]

९३८. णेरइया गतिपरिणामेणं णिरयगतिया, इंदियपरिणामेणं पंचिंदिया, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव लोभकसाई वि, लेस्सापरिणामेणं कणहलेस्सा
२० वि णीललेस्सा वि काउलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं मणजोगी वि वंड्जोगी वि कायजोगी वि, उवओगपरिणामेणं सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि, णाणपरिणामेणं आभिणिवोहियणाणी वि सुयणाणी वि ओहिणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि विभंगणाणी वि, दंसणपरिणामेणं सम्मदिट्ठी वि मिच्छदिट्ठी वि सम्मामिच्छदिट्ठी वि, चरित्तपरिणामेणं णो चरिती
२५ णो चरित्ताचरिती अचरिती, वेदपरिणामेणं णो इत्थिवेयगा णो पुरिसवेयगा णपुंसगवेयगा ।

१. वत्तजोगी थ० जे० ॥ २. ०णामेणं चक्खुदंसणी वि अक्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि, दिट्ठिपरिणामेणं सम्मदिट्ठी पु२ ॥

[सुत्तं ९३९. भवणवासीणं परिणामा]

९३९. [१] असुरकुमारा वि एवं चेव । नवरं देवगतिया, कण्हलेसा वि जाव तेउलेसा वि, वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णो णपुंसग-वेयगा । सेसं तं चेव ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

५

[सुत्तं ९४०. एगिंदियाणं परिणामा]

९४०. [१] पुढविकाइया गतिपरिणामेणं तिरियगतिया, इंदियपरिणामेणं एगिंदिया, सेसं जहा गेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं कायजोगी, णाणपरिणामो णत्थि, अण्णाणपरिणामेणं मति-अण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि, दंसणपरिणामेणं मिच्छद्विडी । सेसं तं चेव ।

१०

[२] एवं आउ-वणप्फइकाइया वि ।

[३] तेऊ वाऊ एवं चेव । णवरं लेस्सापरिणामेणं जहा गेरइया (सु. ९३८) ।

[सुत्तं ९४१. विगलिंदियाणं परिणामा]

९४१. [१] वेइंदिया गतिपरिणामेणं तिरियगतिया, इंदियपरिणामेणं वेइंदिया, सेसं जहा गेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं जोगपरिणामेणं वइयोगी वि काययोगी वि, णाणपरिणामेणं आभिणिवोहियणाणी वि सुयणाणी वि, अण्णाण-परिणामेणं मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि णो विभंगणाणी, दंसणपरिणामेणं सम्मद्विडी वि मिच्छद्विडी वि णो सम्माभिच्छद्विडी । सेसं तं चेव ।

१५

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं इंदियपरिवुडी कायव्वा ।

२०

[सुत्तं ९४२. पंचिंदियतिरियाणं परिणामा]

९४२. पंचिंदियतिरिक्खजोणिया गतिपरिणामेणं तिरियगतीया । सेसं जहा गेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं लेस्सापरिणामेणं जाव सुक्कलेस्सा वि, चरित्त-परिणामेणं णो चरिती अचरिती वि चरित्ताचरिती वि, वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णपुंसगवेयगा वि ।

२५

९३३. णाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—आभिणिचोहियणाणपरिणामे १ सुयणाणपरिणामे २ ओहिणाणपरिणामे ३ मणपज्जवणाणपरिणामे ४ केवलणाणपरिणामे ५ ।

९३४. अण्णाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! ५ तिविहे पण्णत्ते । तं जहा—मतिअण्णाणपरिणामे १ सुयअण्णाणपरिणामे २ विभंगणाणपरिणामे ३ ।

९३५. दंसणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते । तं जहा—सम्मदंसणपरिणामे १ मिच्छदंसणपरिणामे २ सम्मामिच्छदंसणपरिणामे ३ ।

१० ९३६. चरित्तपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—सामाइयचरित्तपरिणामे १ छेदोवट्ठावणियचरित्तपरिणामे २ परिहारविसुद्धियचरित्तपरिणामे ३ सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे ४ अहक्खायचरित्तपरिणामे ५ ।

९३७. वेयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! १५ तिविहे पण्णत्ते । तं जहा—इत्थिवेयपरिणामे १ पुरिसवेयपरिणामे २ णपुंसगवेयपरिणामे ३ ।

[सुत्तं ९३८. नेरइयाणं परिणामा]

९३८. णेरइया गतिपरिणामेणं णिरयगतिया, इंदियपरिणामेणं पंचिंदिया, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव लोभकसाई वि, लेस्सापरिणामेणं कण्हलेस्सा २० वि णीललेस्सा वि काउलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं मणजोगी वि वईजोगी वि कायजोगी वि, उवओगपरिणामेणं सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि, णाणपरिणामेणं आभिणिचोहियणाणी वि सुयणाणी वि ओहिणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि विभंगणाणी वि, दंसणपरिणामेणं सम्मद्विड्डी वि मिच्छद्विड्डी वि सम्मामिच्छद्विड्डी वि, चरित्तपरिणामेणं णो चरित्ती २५ णो चरित्ताचरित्ती अचरित्ती, वेदपरिणामेणं णो इत्थिवेयगा णो पुरिसवेयगा णपुंसगवेयगा ।

१. वतजोगी ध० जे० ॥ २. ०णामेणं चक्खुदंसणी वि अचक्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि, द्विट्ठिपरिणामेणं सम्मद्विड्डी पु२ ॥

[सुत्तं ९३९. भवणवासीणं परिणामा]

९३९. [१] असुरकुमारा वि एवं चेव । नवरं देवगतिया, कण्हलेसा वि जाव तेउलेसा वि, वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णो णपुंसगवेयगा । सेसं तं चेव ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

५

[सुत्तं ९४०. एगिंदियाणं परिणामा]

९४०. [१] पुढविकाइया गतिपरिणामेणं तिरियगतिया, इंदियपरिणामेणं एगिंदिया, सेसं जहा गेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं कायजोगी, णाणपरिणामो णत्थि, अण्णाणपरिणामेणं मत्तिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि, दंसणपरिणामेणं मिच्छद्विड्डी । सेसं तं चेव ।

१०

[२] एवं आउ-वणप्फइकाइया वि ।

[३] तेऊ वाऊ एवं चेव । णवरं लेस्सापरिणामेणं जहा गेरइया (सु. ९३८) ।

[सुत्तं ९४१. विगलिंदियाणं परिणामा]

९४१. [१] वेइंदिया गतिपरिणामेणं तिरियंगतिया, इंदियपरिणामेणं वेइंदिया, सेसं जहा गेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं जोगपरिणामेणं वइयोगी वि काययोगी वि, णाणपरिणामेणं आभिणिवोहियणाणी वि सुयणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं मत्तिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि णो विभंगणाणी, दंसणपरिणामेणं सम्मद्विड्डी वि मिच्छद्विड्डी वि णो सम्मामिच्छद्विड्डी । सेसं तं चेव ।

१५

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं इंदियपरिवुड्डी कायच्चा ।

२०

[सुत्तं ९४२. पंचिंदियतिरियाणं परिणामा]

९४२. पंचेदियतिरिक्खजोगिया गतिपरिणामेणं तिरियगतीया । सेसं जहा गेरइयाणं (सु. ९३८) । णवरं लेस्सापरिणामेणं जाव सुक्कलेस्सा वि, चरित्तपरिणामेणं णो चरिती अचरिती वि चरित्ताचरिती वि, वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णपुंसगवेयगा वि ।

२५

[सुत्तं ९४३. मणुस्साणं परिणामा]

९४३. मणुस्सा गतिपरिणामेणं मणुयगतिया, इंदियपरिणामेणं पंचेदिया अणिदिया वि, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव अकसाई वि, लेस्सापरिणामेणं कणहलेस्सा वि जाव अलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं मणजोगी वि जाव अजोगी वि,
 ५ उवओगपरिणामेणं जहा णेरइया (सु. ९३८), णाणपरिणामेणं आभिणिवोहियणाणी वि जाव केवलणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं तिण्णि वि अण्णाणा, दंसणपरिणामेणं तिन्नि वि दंसणा, चरित्तपरिणामेणं चरिती वि अचरिती वि चरित्ताचरिती वि, वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि नपुंसगवेयगा वि अवेयगा वि ।

[सुत्ताइं ९४४-९४६. वाणमंतराईणं परिणामा]

- १० ९४४. वाणमंतरा गतिपरिणामेणं देवगइया जहा असुरकुमारा (सु. ९३९ [१]) ।
 ९४५. एवं जोतिसिया वि । णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा ।
 ९४६. वेमाणिया वि एवं चेव । णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि । से त्तं जीवपरिणामे ।

१५

[सुत्ताइं ९४७-९५७. अजीवपरिणामा]

९४७. अजीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दसविहे पण्णत्ते । तं जहा-बंधणपरिणामे १ गतिपरिणामे २ संठाणपरिणामे ३ भेदपरिणामे ४ वण्णपरिणामे ५ गंधपरिणामे ६ रसपरिणामे ७ फासपरिणामे ८ अगरुयलहुयपरिणामे ९ सदपरिणामे १० ।
 २० ९४८. बंधणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-निद्धबंधणपरिणामे य लुक्खबंधणपरिणामे य । समणिद्धयाए बंधो ण होति, समलुक्खयाए वि ण होति । वेमायणिद्ध-लुक्खत्तणेण बंधो उ खंधाणं ॥ १९९ ॥
 २५ णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिणं लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिणं ।
 णिद्धस्स लुक्खेण उवेइ बंधो जहण्णवज्जो विसमो समो वा ॥ २०० ॥

१४९. गतिपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—फुसमाणगतिपरिणामे य अफुसमाणगतिपरिणामे य, अहवा दीहगइपरिणामे य हस्सगइपरिणामे य ।

१५०. संठाणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे । ५

१५१. भेयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—खंडाभेदपरिणामे जाव उक्करियाभेदपरिणामे ।

१५२. वण्णपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किलवण्णपरिणामे ।

१५३. गंधपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सुब्भिगंधपरिणामे य दुब्भिगंधपरिणामे य । १०

१५४. रसपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—तित्तरसपरिणामे जाव महुररसपरिणामे ।

१५५. फासपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! अड्ढविहे पण्णत्ते । तं जहा—कक्खडफासपरिणामे य जाव लुक्खफासपरिणामे य । १५

१५६. अगरुयलहुयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते ।

१५७. सहपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सुब्भिसहपरिणामे य दुब्भिसहपरिणामे य । से तं अजीवपरिणामे ।

॥ पण्णवणाए भगवईए तेरसमं परिणामपयं समत्तं ॥

२०

[सुत्तं ९४३. मणुस्साणं परिणामा]

९४३. मणुस्सा गतिपरिणामेणं मणुयगतिया, इंदियपरिणामेणं पंचेंदिया अणिंदिया वि, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव अकसाई वि, लेस्सापरिणामेणं कण्हलेस्सा वि जाव अलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं मणजोगी वि जाव अजोगी वि,
 ५ उवओगपरिणामेणं जहा णेरइया (सु. ९३८), णाणपरिणामेणं आभिणिचोहियणाणी वि जाव केवलणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं तिण्णि वि अण्णाणा, दंसणपरिणामेणं तिन्नि वि दंसणा, चरित्तपरिणामेणं चरिती वि अचरिती वि चरित्ताचरिती वि, वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि नपुंसगवेयगा वि अवेयगा वि ।

[सुत्ताइं ९४४-९४६. वाणमंतराईणं परिणामा]

- १० ९४४. वाणमंतरा गतिपरिणामेणं देवगइया जहा असुरकुमारा (सु. ९३९ [१]) ।
 ९४५. एवं जोतिसिया वि । णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा ।
 ९४६. वेमाणिया वि एवं चेव । णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि । से तं जीवपरिणामे ।

[सुत्ताइं ९४७-९५७. अजीवपरिणामा]

- १५ ९४७. अजीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दसविहे पण्णत्ते । तं जहा—बंधणपरिणामे १ गतिपरिणामे २ संठाणपरिणामे ३ भेदपरिणामे ४ वण्णपरिणामे ५ गंधपरिणामे ६ रसपरिणामे ७ फासपरिणामे ८ अगरुयलहुयपरिणामे ९ सदपरिणामे १० ।
 २० ९४८. बंधणपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—निद्धबंधणपरिणामे य लुक्खबंधणपरिणामे य । समणिद्धयाए बंधो ण होति, समलुक्खयाए वि ण होति । वेमायणिद्ध-लुक्खत्तणेण बंधो उ खंधाणं ॥ १९९ ॥
 २५ णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिएणं लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएणं ।
 २६ णिद्धस्स लुक्खेण उवेइ बंधो जहण्णवज्जो विसमो समो वा ॥ २०० ॥

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेणं मायाए लोभेणं । एए वि चत्तारि दंडया ।

१६३. [१] कतिविहे णं भंते ! कोहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे कोहे पण्णत्ते । तं जहा—आभोगणिव्वत्तिए अणाभोगणिव्वत्तिए उवसंते अणुवसंते ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि चत्तारि दंडया ।

[सुत्ताइं १६४—१७१. कसाएहिं कम्मचयोवचयादिपरूवणा]

१६४. [१] जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिसु । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१६५. [१] जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणंति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

१६६. [१] जीवा णं भंते । कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

१६७. [१] जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ उवचिणिसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ उवचिणिसु । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

१६८. [१] जीवा णं भंते ! पुच्छ । गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं उवचिणंति कोहेणं १ जाव लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरतिया जाव वेमाणिया ।

१४. चौदसमं कसायपयं

[सुत्तं ९५८. कसायभेयपरूवणा]

९५८. कति णं भंते ! कसाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता । तं जहा—कोहकसाए १ माणकसाए २ मायाकसाए ३ लोहकसाए ४ ।

५

[सुत्तं ९५९. चउवीसदंडएसु कसायपरूवणा]

९५९. णेरइयाणं भंते ! कति कसाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता । तं जहा—कोहकसाए जाव लोभकसाए । एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्तं ९६०. कसायपइड्ढापारूवणा]

१० ९६०. [१] कतिपतिड्ढिए णं भंते ! कोहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउपतिड्ढिए कोहे पण्णत्ते । तं जहा—आँयपतिड्ढिए १ परपतिड्ढिए २ तदुभयपतिड्ढिए ३ अप्पतिड्ढिए ४ ।

[२] एवं णेरइयादीणं जाव वेमाणियाणं दंडओ ।

[३] एवं माणेणं दंडओ, मायाए दंडओ, लोभेणं दंडओ ।

[सुत्तं ९६१. कसायउप्पत्तिपरूवणा]

१५

९६१. [१] कतिहि णं भंते ! ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवति । तं जहा—खेतं पडुच्च १ वत्थुं पडुच्च २ सरीरं पडुच्च ३ उवहिं पडुच्च ४ ।

[२] एवं णेरइयादीणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि । एवं एते वि चत्तारि दंडगा ।

२०

[सुत्ताइं ९६२-९६३. कसायपभेयपरूवणा]

९६२. [१] कतिविहे णं भंते ! कोहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे कोहे पण्णत्ते । तं जहा—अणंताणुवंधी कोहे १ अप्पच्चक्खाणे कोहे २ पच्चक्खाणावरणे कोहे ३ संजलणे कोहे ४ ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेणं मायाए लोभेणं । एए वि चत्तारि दंडया ।

९६३. [१] कतिविहे णं भंते ! कोहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे कोहे पण्णत्ते । तं जहा—आभोगणिव्वत्तिए अणाभोगणिव्वत्तिए उवसंते अणुवसंते ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि चत्तारि दंडया ।

[सुत्ताइं ९६४—९७१. कसाएहिं कम्मचयोवचयादिपरूवणा]

९६४. [१] जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिंसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिंसु । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

९६५. [१] जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणंति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

९६६. [१] जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

९६७. [१] जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ उवचिणिंसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ उवचिणिंसु । तं जहा—कोहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

९६८. [१] जीवा णं भंते ! पुच्छ । गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं उवचिणंति कोहेणं १ जाव लोभेणं ४ ।

[२] एवं णेरतिया जाव वेमाणिया ।

१४. चौदसमं कसायपयं

[सुत्तं ९५८. कसायभेयपरूवणा]

९५८. कति णं भंते ! कसाया पणत्ता ? गोयमा ! चत्तारि कसाया पणत्ता । तं जहा—कोहकसाए १ माणकसाए २ मायाकसाए ३ लोहकसाए ४ ।

५ [सुत्तं ९५९. चउवीसदंडएसु कसायपरूवणा]

९५९. णेरइयाणं भंते ! कति कसाया पणत्ता ? गोयमा ! चत्तारि कसाया पणत्ता । तं जहा—कोहकसाए जाव लोभकसाए । एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्तं ९६०. कसायपइड्ढापरूवणा]

१० ९६०. [१] कतिपतिड्ढिए णं भंते ! कोहे पणत्ते ? गोयमा ! चउपतिड्ढिए कोहे पणत्ते । तं जहा—आंयपतिड्ढिए १ परपतिड्ढिए २ तदुभयपतिड्ढिए ३ अप्पतिड्ढिए ४ ।

[२] एवं णेरइयादीणं जाव वेमाणियाणं दंडओ ।

[३] एवं माणेणं दंडओ, मायाए दंडओ, लोभेणं दंडओ ।

[सुत्तं ९६१. कसायउप्पत्तिपरूवणा]

१५ ९६१. [१] कतिहि णं भंते ! ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवति । तं जहा—खेतं पडुच्च १ वत्थुं पडुच्च २ सरिरं पडुच्च ३ उवहिं पडुच्च ४ ।

[२] एवं णेरइयादीणं जाव वेमाणियाणं ।

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि । एवं एते वि चत्तारि दंडगा ।

२० [सुत्ताइं ९६२—९६३. कसायपभेयपरूवणा]

९६२. [१] कतिविहे णं भंते ! कोहे पणत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे कोहे पणत्ते । तं जहा—अणंताणुवंधी कोहे १ अप्पच्चक्खाणे कोहे २ पच्चक्खाणावरणे कोहे ३ संजलणे कोहे ४ ।

१५. पनरसमं इन्दियपयं

पढमो उद्देशो

[सुक्तं ९७२. पढमुद्देशस्स अत्थाहिगारा]

९७२. संठाणं १ वाहलं २ पोहत्तं ३ कतिपएस ४ ओगादे ५ ।

अप्पावहु ६ पुङ्क ७ पविङ्क ८ विसय ९ अणगार १० आहारे ११ ५

॥ २०२ ॥

अहाय १२ असी १३ य मणी १४ उड्डुपाणे १५ तेळ १६

फाणिय १७ वसा १८ य ।

कंबल १९ थूणा २० थिग्गल २१ दीवोदहि २२ लोगडलोगे

२३-२४ य ॥ २०३ ॥ १०

१ मणी हुद्ध पाणे तेळ म० प्र० पु१ पु२ पु३ सु० । प्रत्यन्तरेषु दृश्यमानोऽयं पाठभेदो लिपिविकार-जनितः सम्भाव्यते, छन्दोभङ्गोऽप्यत्र सञ्जायते । प्राचीनासु सूत्रप्रतिषु प्राचीनासु सर्वास्वपि हरिभद्रवृत्तिप्रतिषु च गाथापाठे उड्डुपाणे इत्येव पाठ उपलभ्यते । मलयगिरिवृत्तौ यद्यपि मुद्रितादर्शं (पत्र २९३-१) “ततो मणिविषयं ततो दुग्धोपलक्षितं ततः पानकविषयं ततस्तैल-विषयं” इति वृत्तिपाठो मुद्रितो दृश्यते, किञ्चास्मदवलोकितेषु सर्वेष्वपि तालपत्रीयादिवृत्त्यादर्शेषु “ततो मणिविषयं ततस्तैलविषयं” इत्येव पाठो वर्तत इत्यतोऽत्र प्राचीनकालादेव उड्डुपाणे इत्यर्थाधिकारव्याख्यासूचको हुद्ध पाणे इत्यर्थाधिकारव्याख्यासूचको वा ग्रन्थो गलितोऽस्ति । किञ्चात्र उड्डुपाणे इति पाठो योग्यः ? हुद्ध पाणे इति वा पाठो योग्यः ? इति विचार्यते—तत्र तावद् मलयगिरिवृत्तौ मुद्रितः “ततो दुग्धोपलक्षितं ततः पानकविषयं” इति पाठस्तु केनापि विदुषा स्थानपूर्त्यर्थं प्रक्षिप्तोऽयोग्य एव, श्रीमद्भिर्मलयगिरिसूरिपादैः स्वयमेवाग्रे (पत्र ३०५-२) “एवमसि-मण्यादिविषयाण्यपि पद् सूत्राणि भावनीयानि” इति निर्देशनात्, मुद्रितवृत्तिपाठ-प्रामाण्यस्वीकरणे अस्ति १ मणि २ दुग्ध ३ पान ४ तैल ५ फाणित ६ वसा ७ इत्येवं सप्तसूत्रसंख्याभावाच्च । अत एव येन केनापि गीतार्थेन प्रक्षिप्तोऽयं पाठो भवतु तथाप्यप्रमाण-भूतोऽयं वृत्तिगतो मुद्रितः पाठ इत्यस्माभिः पूर्वापरं ग्रन्थसन्दर्भमनुसन्धायत्र उड्डुपाणे इत्येव पाठ आहतोऽस्ति । मलयगिरिवृत्तौ चेद् गलितपाठानुसन्धानं कर्तव्यं तर्हि “ततो मणिविषयं [तत उदपानविषयं] ततस्तैलविषयं” इतिरूपेणैव विधातव्यम् । यद्यप्यत्र श्रीमलयगिरिपादवृत्तिवचनादेव उड्डुपाणे इति पाठः प्रामाण्यकोटिमधिरूढ एव वर्तते तथापि उड्डुपाणपाठप्रामाण्यसविशेषनिर्णयार्थं निशीथसूत्रत्रयोदशोद्देशकगतं सूत्रकदम्बकमप्यत्र सोपयोगमिति तदत्र प्राचीनतमप्रत्यन्तरा-धारेणोद्घ्रियते—“जे भिक्खु अहाए० असीए० मणिम्म० उड्डुपाणे० तेळे० फाणिए० वसाए० अप्पाणं देहति ।” अत्र सूत्रकदम्बके श्रीमलयगिरिभिर्निर्दिष्टानि अस्ति-मणि-उड्डुपाण-तेळ-फाणिय वसारूपाणि पद् सूत्राण्येव वर्तन्त इति प्रज्ञापनासूत्रस्य प्राचीनासु प्रतिपूपलभ्यमानः “अहाय असी य मणी उड्डुपाणे तेळ फाणिय वसा य ।” इतिरूपः सूत्रपाठ एव बरीयानिति । अपि च

९६९. एवं उवचिणिस्संति ।

९७०. जीवा णं भंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ वंधिसु ?
गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । तं जहा-कोहेणं १ जाव लोभेणं ४ ।

९७१. एवं णेरइया जाव वेमाणिया वंधेंसु वंधंति चंधिस्संति, उदीरेंसु
५ उदीरंति उदीरिस्संति, वेइंसु वेएंति वेइस्संति, निज्जरेंसु निज्जरंति णिज्जरिस्संति ।
एवं एते जीवाईया वेमाणियपज्जवसाणा अट्टारस दंडगा जाव वेमाणिया णिज्जरिंसु
णिज्जरंति णिज्जरिस्संति ।

आयपइट्ठिय खेत्तं पडुच्चउणंताणुवंधि आभोगे ।

चिण उवचिण वंध उईर वेय तह निज्जरा चेव ॥ २०१ ॥

१०

॥ पणवणाए भगवतीए चोद्दसमं कसायपयं समत्तं ॥

[सुत्तं ९७५. २ बाहल्लदारं]

९७५. [१] सोइंदिए णं भंते ! केवतियं बाहल्लेणं पण्णत्ते ? गोयमा !
अंगुलस्स असंखेज्जतिभांगं बाहल्लेणं पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

[सुत्तं ९७६. ३ पोहत्तदारं]

५

९७६. [१] सोइंदिए णं भंते ! केवतियं पोहत्तेणं पण्णत्ते ? गोयमा !
अंगुलस्स असंखेज्जतिभांगं पोहत्तेणं पण्णत्ते ।

[२] एवं चक्खिंदिए वि घाणिंदिए वि ।

[३] जिब्भिंदिए णं पुच्छ । गोयमा ! अंगुलपुहत्तं पोहत्तेणं पण्णत्ते ।

[४] फासिंदिए णं पुच्छ । गोयमा ! सरिरपमाणमेत्ते पोहत्तेणं पण्णत्ते । १०

[सुत्तं ९७७. ४ कतिपएसदारं]

९७७ [१] सोइंदिए णं भंते ! कतिपएसिए पण्णत्ते ? गोयमा !
अणंतपएसिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

१५

[सुत्तं ९७८. ५ ओगाढदारं]

९७८. [१] सोइंदिए णं भंते ! कतिपएसोगाढे पण्णत्ते ? गोयमा !
असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

[सुत्ताइं ९७९-९८२. ६ अप्पावहुदारं]

२०

९७९. एसि णं भंते ! सोइंदिय-चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिब्भिंदिय-
फासिंदियाणं ओगाहणड्डयाए पएसड्डयाए ओगाहणपएसड्डयाए कतरे कतरेहित्तो
अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवे चक्खिंदिए
ओगाहणड्डयाए, सोइंदिए ओगाहणड्डयाए संखेज्जगुणे, घाणिंदिए ओगाहणड्डयाए

[सुत्तं ९७३. इंदियभेयपरूवणा]

९७३. कति णं भंते ! इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! पंच इंदिया पणत्ता । तं जहा-सोइंदिए १ चक्खिदिए २ घाणिंदिए ३ जिम्भिंदिए ४ फासिंदिए ५ ।

५

[सुत्तं ९७४. १ संठाणदारं]

९७४. [१] सोइंदिए णं भंते ! किंसंठित्ते पणत्ते ? गोयमा ! कलंबुया-पुप्फसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[२] चक्खिदिए णं भंते ! किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! मसूरचंदसंठाण-संठिए पन्नत्ते ।

१०

[३] घाणिंदिए णं पुच्छ । गोयमा ! अइमुत्तगचंदसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[४] जिम्भिंदिए णं पुच्छ । गोयमा ! खुरप्पसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[५] फासिंदिए णं पुच्छ । गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पणत्ते ।

श्रीजीवविजयगणि-श्रीधनविमलगणिभ्यां स्वस्वविरचितप्रज्ञापनासूत्रगूर्जरभाषास्तवकान्तः दुद्धपाणे इति पाठ आहतोऽस्ति । तत्रापि श्रीजीवविजयगणिना दुद्ध पाणे इति द्वारद्वयं मत्वाऽत्राधिकारे पञ्चविंशतिद्वाराणि विहितानि सन्ति, तदनुसारेण च व्याख्यातमस्ति, तथात्रेऽपि एवं असि मणिं दुद्धं पाणं तेहं फाणियं वसं इति ९९९[२]-सूत्रव्याख्याने षट्सूत्रप्रतिबन्ध एव स्वीकृतो नास्तीति न तन्मतेन सूत्राधिक्यदोष इति । श्रीधनविमलगणिभिस्तु दुद्ध पाणे इति द्वारयुगलं निर्दिश्यापि अत्रे एवं एतेणं अभिलावेणं असिं मणिं दुद्धं पाणं तेहं फाणियं वसं इति ९९९[२] सूत्रस्तवके “इम एणे आलावे छ सूत्र कहवां—दीप्तखड्ग दीप्तमणि मधु पाणी तेल सथिलगु[ल]रस र(व)सादि ” इति स्वव्याख्यानवाचको वृत्तिकृत्रिर्दिष्टः पट्सूत्रोल्लेखः कथं व्यथायि?इति त एव जानन्ति । अपि च श्रीमद्भिः पुष्पभिक्षुभिः सम्पादिते सुतागमद्वितीयभागान्तसुद्रिते प्रज्ञापनासूत्रेऽत्र स्थाने (पृ. ४१२) “अद्द य असो य मणी दुद्ध पाणिय तेहं फाणिय तथा य ।” इतिरूपं गाथापाठो मुद्रितोऽस्ति, नायं पाठः कथञ्चिदपि समुचितोऽस्ति । यद्यप्यत्र तैः श्रीमलयगिरिपादनिर्दिष्ट-“ एवमसि-मण्यादि-विपयाण्यपि पट् सूत्राणि भावनीयानि-” इति वृत्तिपाठं प्रेक्ष्य पट्सूत्रसंख्यासमीकरणार्थं अर्थात् पट्सूत्रविधानार्थं वसा य इति पाठस्थाने तथा य इति विहितमाभाति तथापि तैर्नैतदुचितं विहितमस्ति, यतस्तैः “एवं एतेणं अभिलावेणं असिं मणिं दुद्धं पाणियं तेहं फाणियं वसं” इति सप्तसूत्रभवनदोषभयात् सूत्रपाठगतं वसं इति पदं निष्कासितमस्ति (दृश्यतां सुतागमद्वितीयभाग पृष्ठ ४१७) इत्येतावदेव तावन्नास्ति किन्तु निशीथसूत्रत्रयोदशोद्देशकान्तरपि सर्वास्वपि सूत्रप्रतिपूप-लभ्यमानं वसासूत्रमपि तैर्निष्कासितमस्ति (दृश्यतां सुतागमद्वितीयभाग पृष्ठ ८९६) । अत्र च चेत् तैरुपलब्धपाठानुसारेण दुद्धपाणे इति एकपदं व्यथास्यत् तदा यथाकथञ्चिदपि समीचीनम-भविष्यत्, किन्तु प्रज्ञापनासूत्रगत-निशीथसूत्रगतवसासूत्रपदनिष्कासनं त्वतीव वाधकमिति

[सुत्तं ९७५. २ बाहल्लदारं]

९७५. [१] सोइंदिए णं भंते ! केवतियं बाहल्लेणं पण्णत्ते ? गोयमा !
अंगुलस्स असंखेज्जतिभांगं बाहल्लेणं पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

[सुत्तं ९७६. ३ पोहत्तदारं]

५

९७६. [१] सोइंदिए णं भंते ! केवतियं पोहत्तेणं पण्णत्ते ? गोयमा !
अंगुलस्स असंखेज्जतिभांगं पोहत्तेणं पण्णत्ते ।

[२] एवं चक्खिंदिए वि घाणिंदिए वि ।

[३] जिब्भिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलपुहत्तं पोहत्तेणं पण्णत्ते ।

[४] फासिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते पोहत्तेणं १०
पण्णत्ते ।

[सुत्तं ९७७. ४ कतिपएसदारं]

९७७ [१] सोइंदिए णं भंते ! कतिपएसिए पण्णत्ते ? गोयमा !
अणंतपएसिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

१५

[सुत्तं ९७८. ५ ओगाढदारं]

९७८. [१] सोइंदिए णं भंते ! कतिपएसोगाढे पण्णत्ते ? गोयमा !
असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव फासिंदिए ।

[सुत्ताइं ९७९-९८२. ६ अप्पावहुदारं]

२०

९७९. एसि णं भंते ! सोइंदिय-चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिब्भिंदिय-
फासिंदियाणं ओगाहणट्टयाए पएसट्टयाए ओगाहणपएसट्टयाए कतरे कतरेहितो
अप्पा वा चहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्चत्थोवे चक्खिंदिए
ओगाहणट्टयाए, सोइंदिए ओगाहणट्टयाए संखेज्जगुणे, घाणिंदिए ओगाहणट्टयाए

- संखेज्जगुणे, जिब्भिदिए ओगाहणइयाए असंखेज्जगुणे, फासिंदिए ओगाहणइयाए संखेज्जगुणे; पदेसइयाए—सव्वत्थोवे चक्खिदिए पदेसइयाए, सोइंदिए पदेसइयाए संखेज्जगुणे, घाणिंदिए पएसइयाए संखेज्जगुणे, जिब्भिदिए पएसइयाए असंखेज्जगुणे, फासिंदिए पएसइयाए संखेज्जगुणे; ओगाहणपएसइयाए—सव्वत्थोवे चक्खिदिए
- ५ ओगाहणइयाए, सोइंदिए ओगाहणइयाए संखेज्जगुणे, घाणिंदिए ओगाहणइयाए संखेज्जगुणे, जिब्भिदिए ओगाहणइयाए असंखेज्जगुणे, फासिंदिए ओगाहणइयाए संखेज्जगुणे, फासिंदियस्स ओगाहणइयाएहिंतो चक्खिदिए पएसइयाए अणंतगुणे, सोइंदिए पएसइयाए संखेज्जगुणे, घाणिंदिए पएसइयाए संखेज्जगुणे, जिब्भिदिए पएसइयाए असंखेज्जगुणे, फासिंदिए पएसइयाए संखेज्जगुणे ।
- १० ९८० [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिया कक्खडगरुयगुणा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता कक्खडगरुयगुणा पणत्ता ।
[२] एवं जाव फासिंदियस्स ।
९८१. [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिया मउयलहुयगुणा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता मउयलहुयगुणा पणत्ता ।
- १५ [२] एवं जाव फासिंदियस्स ।
९८२. एतेसि णं भंते ! सोइंदिय-चक्खिदि-घाणिंदिय-जिब्भिदि-फासिंदियाणं कक्खडगरुयगुणाणं मउयलहुयगुणाणं कक्खडगरुयगुण-मउयलहुयगुणाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा चक्खिदिस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा,
- २० घाणिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, जिब्भिदिस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा; मउयलहुयगुणाणं—सव्वत्थोवा फासिंदियस्स मउयलहुयगुणा, जिब्भिदिस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, घाणिंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, चक्खिदिस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा; कक्खडगरुयगुणाणं
- २५ मउयलहुयगुणाण य—सव्वत्थोवा चक्खिदिस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, घाणिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, जिब्भिदिस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुयगुणा

अणंतगुणा, जिब्बिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, घाणिंदियस्स मउ-
यलहुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, चक्खिंदियस्स
मउयलहुयगुणा अणंतगुणा ।

[सुत्ताइं ९८३-९८९. चउवीसदंडणसु संठाणाइदारछकं]

९८३. [१] णेरइयाणं भंते ! कइ इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! ५
पंचेदिया पणत्ता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

[२] णेरइयाणं भंते ! सोइंदिए किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा !
कलंबुय्यांसंठाणसंठिए पणत्ते । एवं जहेव ओहियाणं वत्तव्वया भणिया
(सु. ९७४ तः ९८२) तहेव णेरइयाणं पि जाव अप्पावहुयाणि दोण्णि वि ।
णवरं णेरइयाणं भंते ! फासिंदिए किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । १०
तं जहा-भवधारणिज्जे य उत्तरवेउव्विए य, तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे
से णं हुंडसंठाणसंठिए पणत्ते, तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए से वि तहेव ।
सेसं तं चेव ।

९८४. असुरकुमाराणं भंते ! कति इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! पंचेदिया
पणत्ता । एवं जहा ओहियाणं (सु. ९७३ तः ९८२) जाव अप्पावहुयाणि १५
दोण्णि वि । णवरं फासिंदिए दुविहे पणत्ते । तं जहा-भवधारणिज्जे य उत्तर-
वेउव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे से णं समचउरंसंठाणसंठिए पणत्ते,
तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए से णं णाणासंठाणसंठिए पणत्ते । सेसं तं चेव । एवं
जाव थणियकुमाराणं ।

९८५. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कति इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! २०
एगे फासिंदिए पणत्ते ।

[२] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा !
मसूरचंदैसंठिए पणत्ते ।

[३] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए केवतियं चाहल्लेणं पणत्ते ?
गोयमा ! अंगुलस्स असंखेज्जभागं चाहल्लेणं पणत्ते । २५

[४] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए केवतियं पोहत्तेणं पणत्ते ?
गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते पोहत्तेणं पणत्ते ।

[५] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए कतिपएसिए पणत्ते ? गोयमा !
अणंतपएसिए पणत्ते ।

[६] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदिए कतिपएसोगाढे पणत्ते ? गोयमा !
असंखेज्जपएसोगाढे पणत्ते ।

५ [७] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं फासिंदियस्स ओगाहण-पएसड्ड-
याए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !
सव्वत्थोवे पुढविकाइयाणं फासिंदिए ओगाहणड्डयाए, से चेव पएसड्डयाए
अणंतगुणे ।

[८] पुढविकाइयाणं भंते ! फासिंदियस्स केवतिया कक्खडगरुयगुणा
१० पणत्ता ? गोयमा ! अणंता । एवं मउयलहुयगुणा वि ।

[९] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुण-
मउयलहुयगुणाणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया
वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविकाइयाणं फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा, तस्स
चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा ।

१५ ९८६. एवं आउक्काइयाण वि जाव वणप्फइकाइयाणं । णवरं संठाणे
इमो विसेसो देइव्वो—आउक्काइयाणं थिबुगविंदुसंठाणसंठिए पणत्ते, तेउक्काइया-
णं सूयीकलावसंठाणसंठिए पणत्ते, वाउक्काइयाणं पडागासंठाणसंठिए पणत्ते,
वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पणत्ते ।

२० ९८७. [१] वेइंदियाणं भंते ! कति इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! दो
इंदिया पणत्ता । तं जहा—जिब्भिदिए य फासिंदिए य । दोण्हं पि इंदियाणं
संठाणं वाहल्लं पोहत्तं पदेसा ओगाहणा य जहा ओहियाणं भणिया (सु. ९७४-
९७८) तहा भाणियच्चा । णवरं फासिंदिए हुंडसंठाणसंठिए पणत्ते त्ति इमो
विसेसो ।

२५ [२] एतेसि णं भंते ! वेइंदियाणं जिब्भिदिय-फासिंदियाणं ओगाहणड्डयाए
पएसड्डयाए ओगाहणपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा !
सव्वत्थोवे वेइंदियाणं जिब्भिदिए ओगाहणड्डयाए, फासिंदिए ओगाहणड्डयाए संखे-
ज्जगुणे; पएसड्डयाए—सव्वत्थोवे वेइंदियाणं जिब्भिदिए पएसड्डयाए, फासिंदिए

१. °हणड्डयाए पएसड्डयाए ओगाहणपएसड्डयाए कतरे मुद्रिते ॥ २. °गुणाणं मउयलहुयगुणाण
कतरे मुद्रिते । ३. चत्तव्वो प्र० ॥ ४-५. °ए संठाणेणं पणत्ते घ० ॥ ६. °णट्टपएस° जे० घ० ॥

पएसड्डयाए संखेज्जगुणे; ओगाहणपएसड्डयाए—सच्चत्थोवे वेइंदियस्स जिब्भिदिए ओगाहणड्डयाए, फासिंदिए ओगाहणड्डयाए संखेज्जगुणे, फासेंदियस्स ओगाहणड्डयाएहिंतो जिब्भिदिए पएसड्डयाए अणंतगुणे, फासिंदिए पएसड्डयाए संखेज्जगुणे ।

[३] वेइंदियाणं भंते ! जिब्भिदियस्स केवइया कक्खडगस्यगुणा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता । एवं फासेंदियस्स वि । एवं मउयलहुयगुणा वि । ५

[४] एतेसि णं भंते ! वेइंदियाणं जिब्भिदिय-फासेंदियाणं कक्खड-गरुयगुणाणं मउयलहुयगुणाणं कक्खडगरुयगुण-मउयलहुयगुणाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वेइंदियाणं जिब्भिदियस्स कक्खडगरुयगुणा, फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासेंदियस्स कक्खडगरुयगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, जिब्भिदियस्स १० मउयलहुयगुणा अणंतगुणा ।

[५] एवं जाव चउरिंदिय ति । णवरं इंदियपरिवुड्डी कायच्चा । तेइंदियाणं घाणेदिए थोवे, चउरिंदियाणं चक्खिदिए थोवे । सेसं तं चेव ।

९८८. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाणं य जहा णेरइयाणं (सु. ९८३) । णवरं फासिंदिए छव्विहसंठाणसंठिए पणत्ते । तं जहा—समचउरंसे १ १५ णग्गोहपरिमंडले २ साती ३ खुज्जे ४ वामणे ५ हुंडे ६ ।

९८९. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं (सु. ९८४) ।

[सुत्तं ९९०. ७ पुट्टदारं]

९९०. [१] पुट्टाइं भंते ! सदाइं सुणेइ ? अपुट्टाइं सदाइं सुणेइ ? २० गोयमा ! पुट्टाइं सदाइं सुणेइ, नो अपुट्टाइं सदाइं सुणेइ ।

[२] पुट्टाइं भंते ! रूवाइं पासति ? अपुट्टाइं रूवाइं पासइ ? गोयमा ! णो पुट्टाइं रूवाइं पासइ, अपुट्टाइं रूवाइं पासति ।

[३] पुट्टाइं भंते ! गंधाइं अग्घाति ? अपुट्टाइं गंधाइं अग्घाति ? गोयमा ! पुट्टाइं गंधाइं अग्घाइ, णो अपुट्टाइं गंधाइं अग्घाति । २५

[४] एवं रसाणवि फासाणवि । णवरं रसाइं अस्साएइ फासाइं पडिसंवेदेति ति अभिलावो कायच्चो ।

[सुत्तं ९९१. ८ पविट्ठदारं]

९९१. [१] पविट्ठाइं भंते ! सद्दाइं सुणेइ ? अपविट्ठाइं सद्दाइं सुणेइ ? गोयमा ! पविट्ठाइं सद्दाइं सुणेति, णो अपविट्ठाइं सद्दाइं सुणेति ।

[२] एवं जहा पुट्ठाणि तहा पविट्ठाणि वि ।

५

[सुत्तं ९९२. ९ विसयदारं]

९९२. [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभांगाओ, उक्कोसेणं वारसहिं जोयणेहिंतो अच्छिण्णे पोग्गले पुट्ठे पविट्ठाइं सद्दाइं सुणेति ।

१० [२] चक्खिंदियस्स णं भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जतिभांगाओ, उक्कोसेणं सातिरेगाओ जोयणसयसहस्साओ अच्छिण्णे पोग्गले अपुट्ठे अपविट्ठाइं रूवाइं पासति ।

[३] घाणिंदियस्स पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जति-
भांगातो, उक्कोसेणं णवहिं जोयणेहिंतो अच्छिण्णे पोग्गले पुट्ठे पविट्ठाइं गंधाइं अग्घाति ।

[४] एवं जिब्भिंदियस्स वि फासिंदियस्स वि ।

१५

[सुत्ताइं ९९३-९९४. १० अणगारदारं]

९९३. अणगारस्स णं भंते ! भाविअप्पणो मारणंतियसमुग्घाएणं समो-
हयस्स जे चरिमा णिज्जरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! ?
सव्वलोगं पि य णं ते ओगाहित्ता णं चिडंति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स णं
२० भाविअप्पणो मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोग्गला सुहुमा णं
ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि य णं ते ओगाहित्ता णं चिडंति ।

९९४. छउमत्थे णं भंते ! मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं किं आणत्तं
वा णाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ पासइ ?
गोयमा ! णो इण्ठे समट्ठे । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं
२५ णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्तं वा णाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुयत्तं
वा लहुयत्तं वा जाणति पासति ? गोयमा ! देवे वि य णं अत्थेगइए जे णं तेसिं

१. ३-४. °भागो, उ° ध० म० प्र० पु२॥ २. असंखेज्जति° ध० म० प्र०, असाधुरयं पाठः ॥

५. °लाणं किंचि आणत्तं म० ॥

णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्तं वा णाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा भग्गयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणति पासति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति-छउमत्थे ण मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्तं वा णाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गस्यत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ पासति, सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो !, सव्वलोगं पि य णं ते ओगाहित्तौ चिट्ठंति ।

[सुत्ताइं ९९५-९९८. चउवीसदंडएसु ११ आहारदारं]

९९५. [१] णेरइया णं भंते ! ते णिज्जरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेंति ? उदाहु ण याणंति ण पासंति ण आहारेंति ? गोयमा ! णेरइया णं ते णिज्जरापोग्गले ण जाणंति ण पासंति, आहारेंति ।

[२] एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजेणियाँ ।

१०

९९६. मणूसा णं भंते ! ते णिज्जरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेंति ? उदाहु ण जाणंति ण पासंति ण आहारेंति ? गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति, अत्थेगइया ण जाणंति ण पासंति आहारेंति । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति ? अत्थेगइया ण याणंति ण पासंति आहारेंति ? गोयमा ! मणूसा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-सण्णिभूया य असण्णिभूया य । तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं ण जाणंति ण पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-उवउत्ता य अणुवउत्ता य । तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं ण याणंति ण पासंति आहारेंति, तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासंति आहारेंति, से एण्णट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति-अत्थेगइया ण याणंति ण पासंति आहारेंति अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति ।

१५

२०

९९७. वाणमंतर-जोइसिया जहा णेरइया (सु. ९९५ [१]) ।

९९८. वेमाणिया णं भंते ! ते णिज्जरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेंति ? गोयमा ! जहा मणूसा (सु. ९९६) । णवरं वेमाणिया दुविहा [ग्रन्थाग्रम् ४५००] पण्णत्ता । तं जहा-माइमिच्छद्विट्ठिउववण्णगा य अमाइ-सम्मद्विट्ठिउववण्णगा य । तत्थ णं जे ते माइमिच्छद्विट्ठिउववण्णगा ते णं न याणंति न पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते अमाइसम्मद्विट्ठिउववण्णगा ते दुविहा पन्नत्ता,

२५

१. पासंति, एवं सुहुमा म० प्र० पुर ॥ २. ०त्ता णं चिट्ठंति म० जे० पुर ॥ ३. ०जोणिया णं । म० पुर सु० ॥ ४. सेण्णट्टेणं जे० ध० म० ॥ ५. ०गतिया याणंति पासंति आहारेंति अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति पुर ॥ ६. ०मंतरा म० प्र० ॥

तं जहा—अणंतरोववन्नगा य परंपरोववन्नगा य । तत्थ णं जे ते अणंतरोववण्णगा
 ते णं ण याणंति ण पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते परंपरोववण्णगा ते दुविहा
 पण्णत्ता, तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं
 ण याणंति ण पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं
 ५ जहा—उवउत्ता य अणुवउत्ता य । तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं ण याणंति ण
 पासंति आहारेंति, तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासंति आहारेंति ।
 सेएण्णेणं गोयमा ! एवं बुच्चति—अत्थेगइया ण जाणंति जाव अत्थेगइया०आहारेंति ।

[सुत्तं ९९९. १२-१८ अद्याइदारसत्तगं]

१० ९९९. [१] अद्याए णं भंते ! पेहमाणे मणूसे किं अद्यायं
 पेहेति ? अत्ताणं पेहेति ? पलिभागं पेहेति ? गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति णो

१. से एत्तेणं पु२ ॥ २. अत्रास्माभिः गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इति सूत्रपाठः सर्वास्वपि प्राचीनार्वाचीनासु सूत्रप्रतिषु उपलभ्यत इति स एव मूले आहतोऽस्ति । किञ्च—श्रीमलयगिरिपादैः स्ववृत्तौ गोयमा ! अद्यायं पेहेति इति नोपदविरहित एव पाठो व्याख्यातोऽस्ति, ततश्च तथाव्याख्यादर्शनात् सम्भाव्यते तस्पाश्चवर्तिनीषु प्रतिषु एतादृगेव पाठो भावी, अत एव तद्व्याख्यानवशवर्तिभिः श्रीसागरानन्दसूरिपादैः स्वसम्पादने गोयमा ! अद्यायं पेहेति इत्येवंरूपः नोपदविरहित एव सूत्रपाठः स्वीकृतोऽस्ति, तदनुकारिणा श्रीपुष्पभिक्षुमुनिवरेणापि नोपदविरहित एव पाठ आहतोऽस्ति । किञ्च प्राचीनार्वाचीनासु प्रज्ञापनासूत्रप्रतिषु धनपतयावूमुद्रितावृत्तौ अभिधानराजेन्द्रे एतत्पाठोद्धृतौ च गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इत्येवं नोपदसहित एव पाठो दृश्यते । श्रीमद्भिर्मलयगिरिचरणैस्तावदेवं व्याख्यातमस्ति—“ भगवानाह—आदर्शं तावत् प्रेक्षत एव, तस्य स्फुटरूपस्य यथावस्थिततया तेनोपलम्भात् ” (पत्र ३०५-९) इति । यद्यप्यत्र श्रीमलयगिरिभिरुपलब्धपाठानुसारेण नोपदविरहितसूत्रव्याख्यानं विहितमस्ति तथापि यदा प्राचीनासु प्राचीनतरासु सूत्रप्रतिषु नोपदविरहि-

अत्ताणं पेहेति, पलिभागं पेहेति ।

[२] एवं एतेणं अभिलावेणं असिं मणिं उड्डुपाणं तेहं फाणियं वसं ।

[सुत्तं १०००. १९ कंबलदारं]

१०००. कंबलसाँडए णं भंते ! आवेढियपरिवेढिए समाणे जावतियं ओवासंतरं फुसित्ता णं चिद्धति विरल्लिए वि य णं समाणे तावतियं चेव ओवासंतरं ५
फुसित्ता णं चिद्धति ? हंता ! गोयमा ! कंबलसाँडए णं आवेढियपरिवेढिए समाणे जावतियं तं चेव ।

[सुत्तं १००१. २० थूणादारं]

१००१. थूणा णं भंते ! उड्डुं ऊसिया समाणी जावतियं खेतं ओगाहित्ता णं चिद्धति तिरियं पि य णं आयया समाणी तावतियं चेव खेतं १०
ओगाहित्ता णं चिद्धति ? हंता गोयमा ! थूणा णं उड्डुं ऊसिया तं चेव जाव चिद्धति ।

[सुत्तं १००२. २१ थिग्गलदारं]

१००२. आगासथिग्गले णं भंते ! किण्णा फुडे ? कइहिं वा काएहिं फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं फुडे ? किं धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे ? धम्मत्थि- १५
कायस्स पदेसेहिं फुडे ? एवं अधम्मत्थिकाएणं आगासत्थिकाएणं ? एएणं भेदेणं जाव किं पुढविकाइएणं फुडे जाव तसकाएणं फुडे ? अद्धासमएणं फुडे ? गोयमा ! धम्मत्थिकाएणं फुडे, णो धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे । एवं अधम्मत्थिकाएण वि । णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे, आगासत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे जाव वणप्फइकाइएणं फुडे । २०
तसकाएणं सिय फुडे, सिय णो फुडे । अद्धासमएणं देसे फुडे, देसे णो फुडे ।

[सुत्तं १००३. २२ दीवोदहिदारं]

१००३. [१] जंबुदीवे णं भंते ! दीवे किण्णा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं

१. मणिं दुद्धं पाणं तेहं म० प्र० पु१ पु२ पु३ सु० । म० प्रतौ दुद्धं पाणं पाटोपरि “उड्डुपाणिं इति पाठः” इति टिप्पणी लिखिता वर्तते । एतत्पाठनिर्णयविषये २३७ पृष्ठस्य टिप्पणी ब्रह्मव्या ॥ २-३. °सादे णं पु२ विन्ता ॥

तं जहा—अणंतरोववन्नगा य परंपरोववन्नगा य । तत्थ णं जे ते अणंतरोववण्णगा ते णं ण याणंति ण पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते परंपरोववण्णगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं ण याणंति ण पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—उवउत्ता य अणुवउत्ता य । तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं ण याणंति ण पासंति आहारेंति, तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासंति आहारेंति । सेएण्णं गोयमा ! एवं वुच्चति—अत्थेगइया ण जाणंति जाव अत्थेगइया० आहारेंति ।

[सुत्तं ९९९. १२-१८ अद्यायाइदारसत्तगं]

१० ९९९. [१] अद्याए णं भंते ! पेहमाणे मणूसे किं अद्यायं पेहेति ? अत्ताणं पेहेति ? पलिभागं पेहेति ? गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति णो

१. से एतेण° पु२ ॥ २. अत्रास्माभिः गोयमा ! नो अद्यायं पेहेति इति सूत्रपाठः सर्वास्वपि प्राचीनार्वाचीनासु सूत्रप्रतिषु उपलभ्यत इति स एव मूले आदतोऽस्ति । किञ्च—श्रीमलयगिरिपादैः स्ववृत्तौ गोयमा ! अद्यायं पेहति इति नोपदविरहित एव पाठो व्याख्यातोऽस्ति, ततश्च तथाव्याख्यादर्शनात् सम्भाव्यते तत्पार्श्ववर्तिनीषु प्रतिषु एतादृशेव पाठो भावी, अत एव तद्व्याख्यानवशवर्तिभिः श्रीसागरानन्दसूरिपादैः स्वसम्पादने गोयमा ! अद्यायं पेहति इत्येवंरूपः नोपदविरहित एव सूत्रपाठः स्वीकृतोऽस्ति, तदनुकारिणा श्रीगुप्पभिक्षुमुनिवरेणापि नोपदविरहित एव पाठ आदतोऽस्ति । किञ्च प्राचीनार्वाचीनासु प्रज्ञापनासूत्रप्रतिषु धनपतबाबूसुद्रितावृत्तौ अभिधानराजेन्द्रे एतत्पाठोद्धृतौ च गोयमा ! नो अद्यायं पेहति इत्येवं नोपदसहित एव पाठो दृश्यते । श्रीमद्विर्मलयगिरिचरणैस्तावदेवं व्याख्यातमस्ति—“भगवानाह—आदर्शं तावत् प्रेक्षत एव, तस्य स्फुटरूपस्य यथावस्थिततया तेनोपलम्भात्” (पत्र ३०५-१) इति । यद्यप्यत्र श्रीमलयगिरिभिरुपलब्धपाठानुसारेण नोपदविरहितसूत्रव्याख्यानं विहितमस्ति तथापि यदा प्राचीनासु प्राचीनतरासु सूत्रप्रतिषु नोपदविरहितः सूत्रपाठ एव न दृश्यते तदा एतद् विचारार्हं भवति, यत्—यः आदर्श—आदर्शमध्ये पश्यति तस्य आदर्शदर्शनक्रियया सह सम्बन्ध एव तावच्चास्ति, यत आदर्शदर्शनक्रिया किल दर्शकस्य आदर्शग्रहणे आदर्शान्तर्दर्शनात् प्रागेव जाताऽस्ति, तत आदर्शान्तर्दर्शनकाले आदर्शदर्शनक्रिया नौचित्यमन्वतीति विचार्यमाणे गोयमा ! नो अद्यायं पेहति इत्युपलभ्यमान एव सूत्रपाठः सार्थीयस्तर इत्यस्माकमाभाति । अपि च प्रज्ञापनासूत्रगूर्जरभावास्तवकर्तृभ्यां श्रीजीवविजयगणि-श्रीधनविमलगणिभ्यामपि गोयमा ! नो अद्यायं पेहति इति पाठानुसारेणैव व्याख्यातमस्ति, तत्रापि श्रीजीवविजयगणिना त्वतिस्पष्टतयाऽर्थव्याख्यानं विहितमस्ति । तथाहि—“हे गौतम ! आरीसा प्रतं न देपे, जे भणी जेहुं माहं रूप देपे तेहवें रूपे आरीसो नथी ते माटे । पोतानुं सरीर पण न देपे, जे भणी पोतानुं सरीर पोता पासं छे ते आरीसा माहं किहांथी हुइ ? ते माटे । प्रतिभाग ते पोताना शरीरनुं प्रतिविं देपे छे ।” श्रीधनविमलगणिविरचितस्तत्रकार्यस्त्वित्यम्—“गो० ! आरीसानइ नथी देपतो । सरीरने नथी देपतो । पलिभागं देहति पश्यति एतले प्रतिविं देपे छे ” । यद्यप्यत्र नोशब्दपाठास्तित्वनास्तित्वनिर्णयेऽनेकानि प्रमाणान्युद्धृतानि सन्ति तथाप्यत्रार्थं बहुश्रुतनिर्णय एव प्रमाणमिति ॥ ३. अद्यायं पे° ध० । अद्यायं पे° पु३ ॥

अत्ताणं पेहेति, पलिमागं पेहेति ।

[२] एवं एतेणं अभिलावेणं असिं मणिं उड्डुपाणं तेहं फाणियं वसं ।

[सुत्तं १०००. १९ कंबलदारं]

१०००. कंबलसौडए णं भंते ! आवेढियपरिवेढिए समाणे जावतियं ओवासंतरं फुसित्ता णं चिद्धति धिरल्लिए वि य णं समाणे तावतियं चेव ओवासंतरं फुसित्ता णं चिद्धति ? हंता ! गोयमा ! कंबलसौडए णं आवेढियपरिवेढिए समाणे जावतियं तं चेव ।

[सुत्तं १००१. २० थूणादारं]

१००१. थूणा णं भंते ! उड्डुं ऊसिया समाणी जावतियं खेतं ओगाहित्ता णं चिद्धति तिरियं पि य णं आयया समाणी तावतियं चेव खेतं ओगाहित्ता णं चिद्धति ? हंता गोयमा ! थूणा णं उड्डुं ऊसिया तं चेव जाव चिद्धति ।

[सुत्तं १००२. २१ थिग्गलदारं]

१००२. आगासथिग्गले णं भंते ! किणा फुडे ? कइहिं वा काएहिं फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं फुडे ? किं धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे ? धम्मत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे ? एवं अधम्मत्थिकाएणं आगासत्थिकाएणं ? एएणं भेदेणं जाव किं पुढविकाइएणं फुडे जाव तसकाएणं फुडे ? अद्धासमएणं फुडे ? गोयमा ! धम्मत्थिकाएणं फुडे, णो धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे । एवं अधम्मत्थिकाएण वि । णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे, आगासत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे जाव वणप्फइकाइएणं फुडे । तसकाएणं सिय फुडे, सिय णो फुडे । अद्धासमएणं देसे फुडे, देसे णो फुडे ।

[सुत्तं १००३. २२ दीवोदहिदारं]

१००३. [१] जंबुदीवे णं भंते ! दीवे किण्णा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं

१. मणिं दुद्धं पाणं तेहं म० प्र० पु१ पु२ पु३ सु० । म० प्रतौ दुद्धं पाणं पाठोपरि “उड्डुपाणिं इति पाठः” इति टिप्पणी लिखिता वर्तते । एतत्पाठनिर्णयविषये २३७ पृष्ठस्य टिप्पणी द्रष्टव्या ॥
२-३. °साडे णं पु२ विना ॥

फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं जाव आगासत्थिकाएणं फुडे ? गोयमा ! णो धम्मत्थि-
काएणं फुडे धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे धम्मत्थिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं
अधम्मत्थिकायस्स वि आगासत्थिकायस्स वि, पुढविकाइएणं फुडे जाव वणप्फइ-
काइएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे सिय णो फुडे, अद्धासमएणं फुडे ।

५ [२] एवं लवणसमुदे धायइसंडे दीवे कालोए समुदे अब्भितरपुक्खरद्धे ।
बाहिरपुक्खरद्धे एवं चेव, णवरं अद्धासमएणं णो फुडे । एवं जाव सयं-
भुरमणे समुदे । एसा परिवाडी इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वा । तं जहा—

जंबुदीवे लवणे धायइ कालोय पुक्खरे वरुणे ।

खीर घत खोत नंदि य अरुणवरे कुंडले रुयए ॥ २०४ ॥

१० आभरण-वत्थ-गंधे उप्पल-तिलए यं पुढवि-णिहि-रयणे ।

वासहर-दह-नदीओ विजया वक्खार-कप्पिंदा ॥ २०५ ॥

कुरु-मंदरं-आवासा कूडा णक्खत्त-चंद-सूरा य ।

देवे णागे जक्खे भूए य सयंभुरमणे य ॥ २०६ ॥

एवं जहा बाहिरपुक्खरद्धे भणितं तहा जाव सयंभुरमणे समुदे जाव अद्धासमएणं
१५ णो फुडे ।

[सुत्तं १००४. २३ लोगदारं]

१००४. लोगे णं भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं ? जहा
आगासत्थिगले (सु. १००२) ।

[सुत्तं १००५. २४ अलोगदारं]

२० १००५. अलोए णं भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं पुच्छ ।
गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे जाव णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थि-
कायस्स देसेणं फुडे आगासत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे, णो पुढविकाइएणं फुडे जाव
णो अद्धासमएणं फुडे, एगे अजीवदव्वदेसे अगुरुलहुए अणंतेहिं अगुरुलहुयगुणेहिं
संजुत्ते सच्चायासे अणंतभागूणे ।

२५

॥ इंदियपयस्स पढभो उदेसो समत्तो ॥

*

वीओ उद्देसो

[सुत्तं १००६. वीउद्देसस्स अत्थाहिगारा]

१००६. इंदियउवचय १ णिव्वत्तणा य २ समयया भवे असंखेज्जा ३ ।
 लद्धी ४ उवओगद्धा ५ अप्पावहुए विसेसहिया ६ ॥ २०७ ॥
 ओगाहणा ७ अवाए ८ ईहा ९ तह वंजणोग्गहे चेव १० । ५
 दव्विंदिय ११ भाविंदिय १२ तीया वद्धा पुरेक्खडिया ॥ २०८ ॥

[सुत्ताइं १००७-८. १ इंदिओवचयदारं]

१००७. कतिविहे णं भंते ! इंदिओवचए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे
 इंदिओवचए पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदिओवचए चक्खिंदिओवचए घाणिंदिओ-
 वचए जिब्भिंदिओवचए फासिंदिओवचए ।

१०

१००८. [१] णेरइयाणं भंते ! कतिविहे इंदिओवचए पण्णत्ते ?
 गोयमा ! पंचविहे इंदिओवचए पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदिओवचए जाव फासिं-
 दिओवचए ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । जस्स जइ इंदिया तस्स तइविहो चेव
 इंदिओवचयो भाणियव्वो । १ ॥

१५

[सुत्तं १००९. २ इंदियनिव्वत्तणादारं]

१००९. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियनिव्वत्तणा पण्णत्ता ? गोयमा !
 पंचविहा इंदियनिव्वत्तणा पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदियनिव्वत्तणा जाव फासिंदिय-
 निव्वत्तणा ।

[२] एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जतिंदिया अत्थि । २ ॥

२०

[सुत्तं १०१०. ३ इंदियनिव्वत्तणासमयदारं]

१०१०. [१] सोइंदियणिव्वत्तणा णं भंते ! कतिसमइया पन्नत्ता ?
 गोयमा ! असंखिज्जसमइया अंतोमुहुत्तिया पन्नत्ता । एवं जाव फासिंदियनिव्वत्तणा ।

[२] एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । ३ ॥

फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं जाव आगासत्थिकाएणं फुडे ? गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे धम्मत्थिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं अधम्मत्थिकायस्स वि आगासत्थिकायस्स वि, पुढविकाइएणं फुडे जाव वणप्फइ-काइएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे सिय णो फुडे, अद्धासमएणं फुडे ।

५ [२] एवं लवणसमुद्दे धायइसंडे दीवे कालोए समुद्दे अब्भितरपुक्खरद्धे । बाहिरपुक्खरद्धे एवं चेव, णवरं अद्धासमएणं णो फुडे । एवं जाव सयं-भुरमणे समुद्दे । एसा परिवाडी इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वा । तं जहा—

जंबुदीवे लवणे धायइ कालोय पुक्खरे वरुणे ।

खीर घत खोत नंदि य अरुणवरे कुंडले स्यए ॥ २०४ ॥

१० आभरण-वत्थ-गंधे उप्पल-तिलए यं पुढवि-णिहि-रयणे ।

वासहर-दह-नदीओ विजया वक्खार-कप्पिंदा ॥ २०५ ॥

कुरु-मंदरं-आवासा कूडा णक्खत्त-चंद-सूरा य ।

देवे णामे जक्खे भूए य सयंभुरमणे य ॥ २०६ ॥

१५ एवं जहा बाहिरपुक्खरद्धे भणितं तहा जाव सयंभुरमणे समुद्दे जाव अद्धासमएणं णो फुडे ।

[सुत्तं १००४. २३ लोगदारं]

१००४. लोणे णं भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं ? जहा आगासत्थिग्गले (सु. १००२) ।

[सुत्तं १००५. २४ अलोगदारं]

२० १००५. अलोए णं भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं पुच्छ । गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे जाव णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे आगासत्थिकायस्स पदेसेहिं फुडे, णो पुढविकाइएणं फुडे जाव णो अद्धासमएणं फुडे, एगे अजीवदव्वदेसे अगुरुलहुए अणंतेहिं अगुरुलहुयणुणेहिं संजुत्ते सव्वायासे अणंतभागूणे ।

२५

॥ इंदियपयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥

*

१. आभरण-वत्थ-गंधुप्पल-तिलए पउम-पुढवि-णिहि-रयणे । इतिहमः पाठो मलयगिरि-टीकासम्मतः ॥ २. य पउम-णिहिं जे० म० पुर ॥ ३. मंदिरं जे० प्र० ॥ ४. उद्देसगो म० प्र० ॥

घाणिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिन्भिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासेंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया । ६ ॥

[सुत्तं १०१४. ७ इंदियओगाहणादारं]

१०१४. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियओगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इंदियओगाहणा पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदियओगाहणा जाव फासेंदियओगाहणा ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जइ इंदिया अत्थि । ७ ॥

[सुत्तं १०१५. ८ इंदियावायदारं]

१०१५. [१] कतिविहे णं भंते ! इंदियअवाए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे इंदियअवाये पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियअवाए जाव फासेंदियअवाए ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जत्तिया इंदिया अत्थि । ८ ॥

[सुत्तं १०१६. ९ ईहादारं]

१०१६. [१] कतिविहा णं भंते ! ईहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा ईहा पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदियईहा जाव फासेंदियईहा ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जत्ति इंदिया । ९ ॥

[सुत्ताइं १०१७-२३. १० उग्गहदारं]

१०१७. कतिविहे णं भंते ! उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

१०१८. वंजणोग्गहे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियवंजणोग्गहे घाणिंदियवंजणोग्गहे जिन्भिंदियवंजणोग्गहे फासेंदियवंजणोग्गहे ।

१०१९. अत्थोग्गहे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विहे अत्थोग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियअत्थोग्गहे चक्खिंदियअत्थोग्गहे घाणिंदियअत्थोग्गहे जिन्भिंदियअत्थोग्गहे फासेंदियअत्थोग्गहे णोइंदियअत्थोग्गहे ।

[सुत्तं १०११. ४ इंदियलद्धिदारं]

१०११. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियलद्धी पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इंदियलद्धी पण्णत्ता । तं जहा—सोइंदियलद्धी जाव फासिंदियलद्धी ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जति इंदिया अत्थि
५ तस्स तावतिया लद्धी भाणियन्वा । ४ ॥

[सुत्तं १०१२. ५ इंदियउवओगद्धादारं]

१०१२. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियउवओगद्धा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इंदियउवओगद्धा पण्णत्ता । तं जहा—सोइंदियउवओगद्धा जाव फासिंदियउवओगद्धा ।

१० [२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जति इंदिया अत्थि । ५ ॥

[सुत्तं १०१३. ६ इंदियउवओगप्पावहुयदारं]

१०१३. एतेसि णं भंते ! सोइंदिय-चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिब्भिंदिय-फासिंदियाणं जहणियाए उवओगद्धाए उक्कोसियाए उवओगद्धाए जहणुक्कोसियाए
१५ उवओगद्धाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा चक्खिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा, सोइंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घाणिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिब्भिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया । उक्कोसियाए उवओगद्धाए सच्चत्थोवा चक्खिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा, सोइंदियस्स
२० उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घाणिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिब्भिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया । जहणुक्कोसियाए उवओगद्धाए सच्चत्थोवा चक्खिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा, सोइंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घाणिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिब्भिंदियस्स
२५ जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदियस्स जहणिया उवओगद्धा विसेसाहिया, सोइंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया,

घाणिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिन्भिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासैंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया । ६ ॥

[सुत्तं १०१४. ७ इंदियओगाहणादारं]

१०१४. [१] कतिविहा णं भंते ! इंदियओगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इंदियओगाहणा पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदियओगाहणा जाव फासैंदियओगाहणा ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जइ इंदिया अत्थि । ७ ॥

[सुत्तं १०१५. ८ इंदियावायदारं]

१०१५. [१] कतिविहे णं भंते ! इंदियअवाए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे इंदियअवाये पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियअवाए जाव फासैंदियअवाए ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जत्तिया इंदिया अत्थि । ८ ॥

[सुत्तं १०१६. ९ ईहादारं]

१०१६. [१] कतिविहा णं भंते ! ईहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा ईहा पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदियईहा जाव फासैंदियईहा ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जत्ति इंदिया । ९ ॥

[सुत्ताइं १०१७-२३. १० उग्गहदारं]

१०१७. कतिविहे णं भंते ! उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

१०१८. वंजणोग्गहे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउन्विहे पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियवंजणोग्गहे घाणिंदियवंजणोग्गहे जिन्भिंदियवंजणोग्गहे फासिंदियवंजणोग्गहे ।

१०१९. अत्थोग्गहे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! छुव्विहे अत्थोग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-सोइंदियअत्थोग्गहे चन्निखदियअत्थोग्गहे घाणिंदियअत्थोग्गहे जिन्भिंदियअत्थोग्गहे फासिंदियअत्थोग्गहे णोइंदियअत्थोग्गहे ।

१०२०. [१] णेरइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पणत्ते ? गोयमा !
दुविहे उग्गहे पणत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं ।

१०२१. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पणत्ते ?
गोयमा ! दुविहे उग्गहे पणत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] पुढविकाइयाणं भंते ! वंजणोग्गहे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा !
एगे फासिंदियवंजणोग्गहे पणत्ते ।

[३] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे अत्थोग्गहे पणत्ते ? गोयमा !
एगे फासिंदियअत्थोग्गहे पणत्ते ।

१० [४] एवं जाव वणफइकाइयाणं ।

१०२२. [१] एवं वेइंदियाणं वि । णवरं वेइंदियाणं वंजणोग्गहे दुविहे
पणत्ते, अत्थोग्गहे दुविहे पणत्ते ।

[२] एवं तेइंदिय-चउरिंदियाणं वि । णवरं इंदियपरिवुड्डी कायव्वा ।
चउरिंदियाणं वंजणोग्गहे तिविहे पणत्ते, अत्थोग्गहे चउव्विहे पणत्ते ।

१५ १०२३. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२० [१]) जाव वेमा-
णियाणं । १० ॥

[सुत्तं १०२४. पयारंतरेण इंदियभेया]

१०२४. कतिविहा णं भंते ! इंदिया पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा
पणत्ता । तं जहा-दव्विंदिया य भाविंदिया य ।

२० [सुत्ताइं १०२५-५५. ११ दव्विंदियदारं]

१०२५. कति णं भंते ! दव्विंदिया पणत्ता ? गोयमा ! अट्ट दव्वि-
दिया पणत्ता । तं जहा-दो सोया २ दो णेत्ता ४ दो घाणा ६ जीहा ७
फासे ८ ।

१०२६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति दव्विंदिया पणत्ता ? गोयमा !
अट्ट, एते चेव ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं वि ।

१०२७. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कति दर्विदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
एगे फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव वणप्फतिकाइयाणं ।

१०२८. [१] बेइंदियाणं भंते ! कति दर्विदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
दो दर्विदिया पण्णत्ता । तं जहा-फासिंदिए य जिर्भिदिए य ।

[२] तेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! चत्तारि दर्विदिया पण्णत्ता । तं
जहा-दो घाणा २ जीहा ३ फासे ४ ।

[३] चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! छ दर्विदिया पण्णत्ता । तं जहा-
दो णेत्ता २ दो घाणा ४ जीहा ५ फासे ६ ।

१०२९. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२६ [१]) जाव वेमाणियाणं । १०

१०३०. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया दर्विदिया अतीया ?
गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेल्लया ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ?
गोयमा ! अट्ट वा सोलस वा सत्तरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०३१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स केवतिया दर्विदिया
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेल्लगा ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया १५
पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा णव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियच्चं ।

१०३२. [१] एवं पुढविकाइय-आउक्काइय-वणप्फइकाइयस्स वि ।
णवरं केवतिया चद्धेल्लग ? ति पुच्छए उत्तरं एक्के फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] एवं तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि । णवरं पुरेक्खडा णव वा दस वा । २०

१०३३. [१] एवं वेइंदियाण वि । णवरं चद्धेल्लगपुच्छए दोण्णि ।

[२] एवं तेइंदियस्स वि । णवरं चद्धेल्लगा चत्तारि ।

[३] एवं चउरिंदियस्स वि । नवरं चद्धेल्लगा छ ।

१०३४. पंचेदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मीसाण-
गदेवस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०३१) । नवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ २५
अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सऽत्थि अट्ट वा नव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा
वा अणंता वा ।

१०२०. [१] णेरइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा !
दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं ।

१०२१. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ?
गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] पुढविकाइयाणं भंते ! वंजणोग्गहे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा !
एगे फासिंदियवंजणोग्गहे पण्णत्ते ।

[३] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे अत्थोग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा !
एगे फासिंदियअत्थोग्गहे पण्णत्ते ।

१० [४] एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

१०२२. [१] एवं वेइंदियाण वि । णवरं वेइंदियाणं वंजणोग्गहे दुविहे
पण्णत्ते, अत्थोग्गहे दुविहे पण्णत्ते ।

[२] एवं तेइंदिय-चउरिंदियाणं वि । णवरं इंदियपरिवुड्डी कायव्वा ।
चउरिंदियाणं वंजणोग्गहे ति विहे पण्णत्ते, अत्थोग्गहे चउव्विहे पण्णत्ते ।

१५ १०२३. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२० [१]) जाव वेमा-
णियाणं । १० ॥

[सुत्तं १०२४. पयारंतरेण इंदियभेया]

१०२४. कतिविहा णं भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा
पण्णत्ता । तं जहा-दब्बिंदिया य भाविंदिया य ।

२० [सुत्ताइं १०२५-५५. ११ दब्बिंदियदारं]

१०२५. कति णं भंते ! दब्बिंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! अड्ढ दब्बि-
दिया पण्णत्ता । तं जहा-दो सोया २ दो णेत्ता ४ दो घाणा ६ जीहा ७
फासे ८ ।

१०२६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति दब्बिंदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
अड्ढ, एते चेव ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं वि ।

१०२७. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कति दर्विदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! एगे फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव वणप्फतिकाइयाणं ।

१०२८. [१] चेइंदियाणं भंते ! कति दर्विदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दो दर्विदिया पण्णत्ता । तं जहा—फासिंदिए य जिभिंदिए य ।

[२] तेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! चत्तारि दर्विदिया पण्णत्ता । तं जहा—दो घाणा २ जीहा ३ फासे ४ ।

[३] चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! छ दर्विदिया पण्णत्ता । तं जहा—दो गेत्ता २ दो घाणा ४ जीहा ५ फासे ६ ।

१०२९. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२६ [१]) जाव वेमाणियाणं । १०

१०३०. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्लया ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा सोलस वा सत्तरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०३१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्लगा ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा णव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । १५

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियव्वं ।

१०३२. [१] एवं पुढविकाइय-आउक्काइय-वणप्फिकाइयस्स वि । णवरं केवतिया वद्धेल्लगा ? ति पुच्छए उत्तरं एक्के फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] एवं तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि । णवरं पुरेक्खडा णव वा दस वा । २०

१०३३. [१] एवं चेइंदियाण वि । णवरं वद्धेल्लगपुच्छए दोण्णि ।

[२] एवं तेइंदियस्स वि । णवरं वद्धेल्लगा चत्तारि ।

[३] एवं चउरिंदियस्स वि । नवरं वद्धेल्लगा छ ।

१०३४. पंचेदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणभंतर-जोइसिय-सोहम्मीसाण-गदेवस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०३१) । नवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा नव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । २५

१०२०. [१] णेरइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं ।

५ १०२१. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते । तं जहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य ।

[२] पुढविकाइयाणं भंते ! वंजणोग्गहे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! एगे फासिंदियवंजणोग्गहे पण्णत्ते ।

[३] पुढविकाइयाणं भंते ! कतिविहे अत्थोग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! एगे फासिंदियअत्थोग्गहे पण्णत्ते ।

१० [४] एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

१०२२. [१] एवं वेइंदियाण वि । णवरं वेइंदियाणं वंजणोग्गहे दुविहे पण्णत्ते, अत्थोग्गहे दुविहे पण्णत्ते ।

[२] एवं तेइंदिय-चउरिंदियाण वि । णवरं इंदियपरिखुड्डी कायच्चा । चउरिंदियाणं वंजणोग्गहे तिविहे पण्णत्ते, अत्थोग्गहे चउव्विहे पण्णत्ते ।

१५ १०२३. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२० [१]) जाव वेमा-णियाणं । १० ॥

[सुत्तं १०२४. पयारंतरेण इंदियभेया]

१०२४. कतिविहा णं भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-दव्विंदिया य भाविंदिया य ।

२० [सुत्ताइं १०२५-५५. ११ दव्विंदियदारं]

१०२५. कति णं भंते ! दव्विंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! अट्ट दव्वि-दिया पण्णत्ता । तं जहा-दो सोया २ दो णेत्ता ४ दो घाणा ६ जीहा ७ फासे ८ ।

२५ १०२६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति दव्विंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! अट्ट, एते चेव ।

[२] एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराण वि ।

१०२७. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! कति दक्खिदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
एगे फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव वणप्फतिकाइयाणं ।

१०२८. [१] वेइंदियाणं भंते ! कति दक्खिदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
दो दक्खिदिया पण्णत्ता । तं जहा-फासिंदिए य जिब्भिंदिए य । ५

[२] तेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! चत्तारि दक्खिदिया पण्णत्ता । तं
जहा-दो घाणा २ जीहा ३ फासे ४ ।

[३] चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! छ दक्खिदिया पण्णत्ता । तं जहा-
दो णेत्ता २ दो घाणा ४ जीहा ५ फासे ६ ।

१०२९. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२६ [१]) जाव वेमाणियाणं । १०

१०३०. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया दक्खिदिया अतीया ?
गोयमा ! अणंता । केवतिया च्छेल्लया ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ?
गोयमा ! अट्ट वा सोलस वा सत्तरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०३१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स केवतिया दक्खिदिया
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया च्छेल्लगा ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया १५
पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा णव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारणं ताव भाणियव्वं ।

१०३२. [१] एवं पुढविकाइय-आउक्काइय-वणप्फइकाइयस्स वि ।
णवरं केवतिया च्छेल्लग ? ति पुच्छाए उत्तरं एक्के फासिंदिए पण्णत्ते ।

[२] एवं तेउक्काइय-त्राउक्काइयस्स वि । णवरं पुरेक्खडा णव वा दस वा । २०

१०३३. [१] एवं वेइंदियाण वि । णवरं च्छेल्लगपुच्छाए दोण्णि ।

[२] एवं तेइंदियस्स वि । णवरं च्छेल्लगा चत्तारि ।

[३] एवं चउरिंदियस्स वि । नवरं च्छेल्लगा छ ।

१०३४. पंचेदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मीसाण-
गदेवस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०३१) । नवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ २५
अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा नव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा
वा अणंता वा ।

१०३५. सणकुमार-माहिंद-बंभ-लंतग-सुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-
अच्चय-गेवेज्जगदेवस्स य जहा नेरइयस्स (सु. १०३०) ।

१०३६. एगमेगस्स णं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स
केवतिया दव्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्ला ? गोयमा !
५ अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा
संखेज्जा वा ।

१०३७. सव्वट्टसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, वद्धेल्ला अट्ट,
पुरेक्खडा अट्ट ।

१०३८. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया दव्विदिया अतीया ?
१० गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्ला ? गोयमा ! असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ?
गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेज्जगदेवाणं । णवरं मणूसाणं वद्धेल्ला सिय संखेज्जा
सिय असंखेज्जा ।

१०३९. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पुच्छ । गोयमा !
१५ अतीता अणंता, वद्धेल्ला असंखेज्जा, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०४०. सव्वट्टसिद्धगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! अईया अणंता,
वद्धेल्ला संखेज्जा, पुरेक्खडा संखेज्जा ।

१०४१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइअत्ते केवतिया
दव्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्ला ? गोयमा ! अट्ट ।
२० केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा
सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स असुरकुमारस्से केवतिया दव्विदिया
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्ला ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस
२५ वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्से ।

[३] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स पुढविकाइयत्ते केवतिया दव्विदिया
अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया वद्धेल्ला ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि एक्को वा दो वा
तिण्णि वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव वणप्पइकाइयत्ते ।

[४] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स वेइंदियत्ते केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि दो वा चत्तारि वा छ वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं तेइंदियत्ते वि, णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ट वा वारस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । ५
एवं चउरिंदियत्ते वि नवरं पुरेक्खडा छ वा वारस वा अट्टारस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[५] पंचेदियतिरिक्खजोणियत्ते जहा असुरकुमारत्ते ।

[६] मणूसत्ते वि एवं चेव । णवरं केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । सव्वेसिं १०
मणूसवज्जाणं पुरेक्खडा मणूसत्ते कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि ति एवं ण वुच्चति ।

[७] वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मग जाव गेवेज्जगदेवत्ते अतीया अणंता; चद्धेह्लगा णत्थि; पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[८] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिय- १५
देवत्ते केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा ।

[९] सव्वइसिद्धगदेवत्ते अतीया णत्थि; चद्धेह्लगा णत्थि; पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट । २०

१०४२. एवं जहा णेरइयदंडओ णीओ तहा असुरकुमारेण वि णेयव्वो जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएणं । णवरं जस्स सट्टाणे जति चद्धेह्लगा तस्स तइ भाणियव्वा ।

१०४३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स णेरयइत्ते केवतिया दर्वेदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेह्लया ? गोयमा ! णत्थि । २५
केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१. जस्सइत्थि एको वा दो वा म० पु१ पु३ ॥ २. वा सोलस वा [वीसं वा] चउवीसा वा जे० ॥

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियत्ते । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिएसु जस्स जत्तिया पुरेक्खडा तस्स तत्तिया भाणियव्वा ।

[३] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स मणूसत्ते केवतिया दव्विंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ? कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा ।

[४] वाणमंतर-जोतिसिय जाव गेवेज्जगदेवत्ते जहा णेरइयत्ते ।

[५] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स विजय-वेजयंत-जयंताऽपराजियदेवत्ते केवइया दव्विंदिया अतीया ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा ।

[६] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते केवतिया दव्विंदिया अतीया ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट ।

१०४४. वाणमंतर-जोतिसिए जहा णेरइए (सु. १०४१) ।

१०४५. [१] सोहम्मगदेवे वि जहा णेरइए (सु. १०४१) । णवरं सोहम्मगदेवस्स विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियत्ते केवतिया दव्विंदिया ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा । सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते जहा णेरइयस्स ।

[२] एवं जाव गेवेज्जगदेवस्स सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते ताव णेयव्वं ।

१०४६. [१] एगमेगस्स णं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिय-देवस्स णेरइयत्ते केवतिया दव्विंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेह्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियत्ते ।

[३] मणूसत्ते अतीया अणंता, चद्धेह्लगा णत्थि, पुरेक्खडा अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा ।

[४] वाणमंतर-जोतिसियत्ते जहा णेरइयत्ते (सु. १०४१) ।

[५] सोहम्मगदेवत्ते अतीया अणंता । बद्धेल्लगा णत्थि । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्जा वा ।

[६] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते ।

[७] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ ५
णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! अट्ट । केवतिया
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट ।

[८] एगमेगस्स णं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स सव्व-
इसिद्धगदेवत्ते केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया
बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि १०
कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट ।

१०४७. [१] एगमेगस्स णं भंते ! सव्वइसिद्धगदेवस्स णेरइयत्ते
केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा !
णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[२] एवं मणूसवज्जं जाव गेवेज्जगदेवत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीया अणंता । १५
केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट ।

[३] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ
णत्थि, जस्सइत्थि अट्ट । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया
पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[४] एगमेगस्स णं भंते ! सव्वइसिद्धगदेवस्स सव्वइसिद्धगदेवत्ते २०
केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा !
अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

१०४८. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयत्ते केवइया दर्विदिया
अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! असंखेज्जा । केवतिया
पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] णेरइयाणं भंते ! असुरकुमारत्ते केवतिया दर्विदिया अतीया ? २५
गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ?
गोयमा ! अणंता ।

[३] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते ।

[४] णेरइयाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

५ [५] एवं सच्चसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०४९. एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं सच्चसिद्धगदेवत्ते भाणियच्चं । णवरं वणप्फतिकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते सच्चसिद्धगदेवत्ते य पुरेक्खडा अणंता; सच्चसिं मणूस-सच्चसिद्धगवजाणं सद्धणे बद्धेल्लागा असंखेज्जा, परद्धणे बद्धेल्लागा णत्थि; वणस्सतिकाइयाणं सद्धणे बद्धेल्लागा अणंता ।

१०५० [१] मणुस्साणं णेरइयत्ते अतीता अणंता, बद्धेल्लागा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते । णवरं सद्धणे अतीता अणंता, बद्धेल्लागा सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा, पुरेक्खडा अणंता ।

१५ [३] मणूसाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? संखेज्जा । केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा । एवं सच्चसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०५१. वाणमंतर-जोइसियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०४८) ।

२० १०५२. सोहम्मगदेवाणं एवं चेव । णवरं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते अतीता असंखेज्जा, बद्धेल्लागा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा । सच्चसिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, बद्धेल्लागा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५३. एवं जाव गेवेज्जगदेवाणं ।

२५ १०५४. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दब्बेदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं जाव जोइसियत्ते । णवरमेसिं मणूसत्ते अतीता अणंता; केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि; पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते । सद्वाणे अतीता असंखेज्जा । क्वतिया चद्धेल्लगा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

[४] सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, चद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५५. [१] सव्वड्डसिद्धगदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दव्वेदिया ५
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं मणूसवज्जं जाव गेवेज्जगदेवत्ते ।

[३] मणूसत्ते अतीता अणंता, चद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा संखेज्जा ।

[४] विजय-वेजयंत-जयंतापराजियदेवत्ते केवतिया दव्विंदिया अतीता ? संखेज्जा । केवतिया चद्धेल्लगा ? नत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि । १०

[५] सव्वड्डसिद्धगदेवाणं भंते ! सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते केवतिया दव्विंदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया चद्धेल्लगा ? संखेज्जा । केवइया पुरेक्खडा ? णत्थि । ११ दारं ॥

[सुत्ताइं १०५६-६७. १२ भाविंदियदारं]

१०५६. कति णं भंते ! भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया १५
पण्णत्तां । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

१०५७. णेरइयाणं भंते ! कति भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
पंच भाविंदिया पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए । एवं जस्स जति
इंदिया तस्स तैत्तिया भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं ।

१०५८. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया भाविंदिया अतीता ? २०
गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेल्लगा ? पंच । केवतिया पुरेक्खडा ? पंच वा
दस वा एक्कारस वा संखेज्जा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

१०५९. एवं असुरकुमारस्स वि । णवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्स ।

१०६०. एवं पुढविकाइय-आउकाइय-वणस्सइकाइयस्स वि, वेइंदिय- २५
तेइंदिय-चउरिंदियस्स वि । तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि एवं चेव, णवरं पुरेक्खडा
छ वा सत्त वा संखेज्जा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते ।

[४] णेरइयाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

५ [५] एवं सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०४९. एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते भाणियव्वं । णवरं वणप्फतिकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते सव्वड्ड-सिद्धगदेवत्ते य पुरेक्खडा अणंता; सव्वेसिं मणूस-सव्वड्डसिद्धगवजाणं सट्ठणे बद्धेल्लागा असंखेज्जा, परट्ठणे बद्धेल्लागा णत्थि; वणस्सतिकाइयाणं सट्ठणे बद्धेल्लागा अणंता ।

१०५० [१] मणुस्साणं णेरइयत्ते अतीता अणंता, बद्धेल्लागा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते । णवरं सट्ठणे अतीता अणंता, बद्धेल्लागा सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा, पुरेक्खडा अणंता ।

१५ [३] मणूसाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? संखेज्जा । केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा । एवं सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०५१. वाणमंतर-जोइसियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०४८) ।

२० १०५२. सोहम्मगदेवाणं एवं चेव । णवरं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते अतीता असंखेज्जा, बद्धेल्लागा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा । सव्वड्ड-सिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, बद्धेल्लागा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५३. एवं जाव गेवेज्जगदेवाणं ।

२५ १०५४. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दब्बेदिया अतीता ? गीयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं जाव जोइसियत्ते । णवरमेसिं मणूसत्ते अतीया अणंता; केवतिया बद्धेल्लागा ? णत्थि; पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव गेवेजगदेवत्ते । सट्टाणे अतीता असंखेज्जा । केवतिया चट्टेल्लगा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

[४] सच्चइसिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, चट्टेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५५. [१] सच्चइसिद्धगदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दच्चिंदिया ५
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चट्टेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं मणूसवज्जं जाव गेवेजगदेवत्ते ।

[३] मणूसत्ते अतीता अणंता, चट्टेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा संखेज्जा ।

[४] विजय-त्रेजयंत-जयंतापराजियदेवत्ते केवतिया दच्चिंदिया अतीता ? १०
संखेज्जा । केवतिया चट्टेल्लगा ? नत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[५] सच्चइसिद्धगदेवाणं भंते ! सच्चइसिद्धगदेवत्ते केवतिया दच्चिंदिया
अतीता ? णत्थि । केवतिया चट्टेल्लगा ? संखेज्जा । केवइया पुरेक्खडा ? णत्थि ।
११ दारं ॥

[सुत्ताइं १०५६-६७. १२ भाविंदियदारं]

१०५६. कति णं भंते ! भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया १५
पण्णत्तां । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

१०५७. णेरइयाणं भंते ! कति भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
पंच भाविंदिया पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए । एवं जस्स जति
इंदिया तस्स तत्तिया भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं ।

१०५८. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया भाविंदिया अतीता ? २०
गोयमा ! अणंता । केवतिया चट्टेल्लगा ? पंच । केवतिया पुरेक्खडा ? पंच वा
दस वा एक्कारस वा संखेज्जा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

१०५९. एवं असुरकुमारस्स वि । णवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्स ।

१०६०. एवं पुढविकाइयं-आउकाइय-वणस्सइकाइयस्स वि, चेइंदिय- २५
तेइंदिय-चउरिंदियस्स वि । तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि एवं चेव, णवरं पुरेक्खडा
छ वा सत्त वा संखेज्जा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं जाव गेवेजगदेवत्ते ।

[४] णेरइयाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया चद्धेळ्ळा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

५ [५] एवं सव्वइसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०४९. एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं सव्वइसिद्धगदेवत्ते भाणियच्चं । णवरं वणप्फतिकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते सव्वइ-सिद्धगदेवत्ते य पुरेक्खडा अणंता; सव्वेसिं मणूस-सव्वइसिद्धगवजाणं सट्ठाणे चद्धेळ्ळा असंखेज्जा, परट्ठाणे चद्धेळ्ळा णत्थि; वणस्सतिकाइयाणं सट्ठाणे चद्धेळ्ळा अणंता ।

१०५० [१] मणुस्साणं णेरइयत्ते अतीता अणंता, चद्धेळ्ळा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेजगदेवत्ते । णवरं सट्ठाणे अतीता अणंता, चद्धेळ्ळा सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा, पुरेक्खडा अणंता ।

१५ [३] मणूसाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? संखेज्जा । केवतिया चद्धेळ्ळा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा । एवं सव्वइसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०५१. वाणमंतर-जोइसियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०४८) ।

२० १०५२. सोहम्मगदेवाणं एवं चेव । णवरं विजय-वेजयंत-जयंत-अपरा-जियदेवत्ते अतीता असंखेज्जा, चद्धेळ्ळा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा । सव्वइ-सिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, चद्धेळ्ळा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५३. एवं जाव गेवेजगदेवाणं ।

२५ १०५४. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दब्बेदिया अतीता ? गोयसा ! अणंता । केवतिया चद्धेळ्ळा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं जाव जोइसियत्ते । णवरमेसिं मणूसत्ते अतीता अणंता; केवतिया चद्धेळ्ळा ? णत्थि; पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव गेवेज्जगदेवते । सट्ठाणे अतीता असंखेज्जा । कवातिया चट्ठेल्लगा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

[४] सव्वट्ठसिद्धगदेवते अतीता णत्थि, चट्ठेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५५. [१] सव्वट्ठसिद्धगदेवाणं भंते ! गेरइयत्ते केवतिया दव्विंदिया ५
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चट्ठेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं मणूसवज्जं जाव गेवेज्जगदेवते ।

[३] मणूसत्ते अतीता अणंता, चट्ठेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा संखेज्जा ।

[४] विजय-वेजयंत-जयंतापराजियदेवत्ते केवतिया दव्विंदिया अतीता ? १०
संखेज्जा । केवतिया चट्ठेल्लगा ? नत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[५] सव्वट्ठसिद्धगदेवाणं भंते ! सव्वट्ठसिद्धगदेवत्ते केवतिया दव्विंदिया
अतीता ? णत्थि । केवतिया चट्ठेल्लगा ? संखेज्जा । केवइया पुरेक्खडा ? णत्थि ।
११ दारं ॥

[सुत्ताइं १०५६-६७. १२ भाविंदियदारं]

१०५६. कति णं भंते ! भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया १५
पण्णत्तां । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

१०५७. गेरइयाणं भंते ! कति भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
पंच भाविंदिया पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए । एवं जस्स जति
इंदिया तस्स तैत्तिया भाणियव्वा जाव वैमाणियाणं ।

१०५८. एगमेगस्स णं भंते ! गेरइयस्स केवतिया भाविंदिया अतीता ? २०
गोयमा ! अणंता । केवतिया चट्ठेल्लगा ? पंच । केवतिया पुरेक्खडा ? पंच वा
दस वा एक्कारस वा संखेज्जा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

१०५९. एवं असुरकुमारस्स वि । णवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्स ।

१०६०. एवं पुढविकाइयं-आउकाइय-वणस्सइकाइयस्स वि, बेइंदिय- २५
तेइंदिय-चउरिंदियस्स वि । तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि एवं चेव, णवरं पुरेक्खडा
छ वा सत्त वा संखेज्जा वा असंखिज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते ।

[४] णेरइयाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? णत्थि । केवतिया बद्धेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

५ [५] एवं सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०४९. एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते भाणियव्वं । णवरं वणप्फतिकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते सव्वड्ड-सिद्धगदेवत्ते य पुरेक्खडा अणंता; सव्वेसिं मणूस-सव्वड्डसिद्धगवज्जाणं सट्ठाणे बद्धेल्लगा असंखेज्जा, परट्ठाणे बद्धेल्लगा णत्थि; वणस्सतिकाइयाणं सट्ठाणे बद्धेल्लगा अणंता ।

१०५० [१] मणुस्साणं णेरइयत्ते अतीता अणंता, बद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता ।

[२] एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते । णवरं सट्ठाणे अतीता अणंता, बद्धेल्लगा सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा, पुरेक्खडा अणंता ।

१५ [३] मणूसाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते केवतिया दब्बिदिया अतीता ? संखेज्जा । केवतिया बद्धेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा । एवं सव्वड्डसिद्धगदेवत्ते वि ।

१०५१. वाणमंतर-जोइसियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०४८) ।

१०५२. सोहम्मगदेवाणं एवं चेव । णवरं विजय-वेजयंत-जयंत-अपरा-जियदेवत्ते अतीता असंखेज्जा, बद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा । सव्वड्ड-सिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, बद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५३. एवं जाव गेवेज्जगदेवाणं ।

१०५४. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दब्बेंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं जाव जोइसियत्ते । णवरमेसिं मणूसत्ते अतीया अणंता; केवतिया बद्धेल्लगा ? णत्थि; पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव गेवेज्जगदेवते । सङ्घणे अतीता असंखेज्जा । क्वातिया बद्धेल्लगा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? असंखेज्जा ।

[४] सव्वड्डसिद्धगदेवते अतीता णत्थि, बद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

१०५५. [१] सव्वड्डसिद्धगदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दव्विंदिया ५
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[२] एवं मणसुवज्जं जाव गेवेज्जगदेवते ।

[३] मणसुत्ते अतीता अणंता, बद्धेल्लगा णत्थि, पुरेक्खडा संखेज्जा ।

[४] विजय-वेजयंत-जयंतापराजियदेवते केवतिया दव्विंदिया अतीता ? १०
संखेज्जा । केवतिया बद्धेल्लगा ? नत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्थि ।

[५] सव्वड्डसिद्धगदेवाणं भंते ! सव्वड्डसिद्धगदेवते केवतिया दव्विंदिया
अतीता ? णत्थि । केवतिया बद्धेल्लगा ? संखेज्जा । केवइया पुरेक्खडा ? णत्थि ।
११ दारं ॥

[सुत्ताइं १०५६-६७. १२ भाविंदियदारं]

१०५६. कति णं भंते ! भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया १५
पण्णत्तां । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए ।

१०५७. णेरइयाणं भंते ! कति भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा !
पंच भाविंदिया पण्णत्ता । तं जहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए । एवं जस्स जति
इंदिया तस्स तैत्तिया भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं ।

१०५८. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया भाविंदिया अतीता ? २०
गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लगा ? पंच । केवतिया पुरेक्खडा ? पंच वा
दस वा एक्कारस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०५९. एवं असुरकुमारस्स वि । णवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्स ।

१०६०. एवं पुढविकाइय-आउकाइय-वणस्सइकाइयस्स वि, वेइंदिय- २५
तेइंदिय-चउरिंदियस्स वि । तेउक्काइय-वाउक्काइयस्स वि एवं चेव, णवरं पुरेक्खडा
ळ वा सत्त वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०६१. पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स जाव ईसाणस्स जहा असुरकुमारस्स
(सु. १०५९) । णवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि ति भाणियव्वं ।

१०६२. सणकुमार जाव गेवेज्जगस्स जहा णेरइयस्स (सु.
१०५७-५८) ।

५ १०६३. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स अतीया अणंता, बद्धेल्ला
पंच, पुरेक्खडा पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा । सच्चद्वसिद्धगदेवस्स
अतीता अणंता, बद्धेल्ला पंच, केवतिया पुरेक्खडा ? पंच ।

१०६४. णेरइयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीया ? गोयमा !
अणंता । केवतिया बद्धेल्ला ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? अणंता । एवं
१० जहा दब्बिंदिएसु पोहत्तेणं दंडओ भणिओ तहा भाविंदिएसु वि पोहत्तेणं दंडओ
भाणियव्वो, णवरं वणप्फइकाइयाणं बद्धेल्ला वि अणंता ।

१०६५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवइया भाविंदिया
अतीता ? गोयमा ! अणंता, बद्धेल्ला पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि,
जस्सइत्थि पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।
१५ एवं असुरकुमारत्ते जाव थणियकुमारत्ते, णवरं बद्धेल्ला णत्थि ।

१०६६. [१] पुढविक्काइयत्ते जाव वेइंदियत्ते जहा दब्बिंदिया ।

[२] तेइंदियत्ते तहेव, णवरं पुरेक्खडा तिण्णि वा छ वा णव वा संखेज्जा
वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं चउरिंदियत्ते वि । णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ठ वा बारस
२० वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०६७. एवं एते चेव गमा चत्तारि णेयव्वा जे चेव दब्बिंदिएसु । नवरं
तइयगमे जाणियव्वा जस्स जइ ईदिया ते पुरेक्खडेसु मुणेयव्वा । चउत्थगमे
जहेव दब्बेदिया जाव सच्चद्वसिद्धगदेवाणं सच्चद्वसिद्धगदेवत्ते केवतिया भाविंदिया
अतीता ? णत्थि, बद्धेल्ला संखेज्जा, पुरेक्खडा णत्थि । १२ ॥

२५ [॥ वीओ उद्देशो समत्तो ॥]

॥ पण्णवणाए भगवतीए पनरसमं ईदियपयं समत्तं ॥

१०६१. पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स जाव ईसाणस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०५९) । णवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि ति भाणियव्वं ।

१०६२. सणकुमार जाव गेवेज्जगस्स जहा णेरइयस्स (सु. १०५७-५८) ।

५ १०६३. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स अतीया अणंता, बद्धेल्लागा पंच, पुरेक्खडा पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वां । सव्वट्ठसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेल्लागा पंच, केवतिया पुरेक्खडा ? पंच ।

१०६४. णेरइयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेल्लागा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? अणंता । एवं १० जहा दव्विंदिएसु पोहत्तेणं दंडओ भणिओ तहा भाविंदिएसु वि पोहत्तेणं दंडओ भाणियव्वो, णवरं वणप्फइकाइयाणं बद्धेल्लागा वि अणंता ।

१०६५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवइया भाविंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, बद्धेल्लागा पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । १५ एवं असुरकुमारत्ते जाव थणियकुमारत्ते, णवरं बद्धेल्लागा णत्थि ।

१०६६. [१] पुढविक्काइयत्ते जाव वेइंदियत्ते जहा दव्विंदिया ।

[२] तेइंदियत्ते तहेव, णवरं पुरेक्खडा तिण्णि वा छ वा णव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं चउरिंदियत्ते वि । णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ठ वा चारस २० वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०६७. एवं एत्ते चेव गमा चत्तारि णेयव्वा जे चेव दव्विंदिएसु । नवरं तइयगमे जाणियव्वा जस्स जइ इंदिया ते पुरेक्खडेसु मुणेयव्वा । चउत्थगमे जहेव दव्वेइया जाव सव्वट्ठसिद्धगदेवाणं सव्वट्ठसिद्धगदेवत्ते केवतिया भाविंदिया अतीता ? णत्थि, बद्धेल्लागा संखेज्जा, पुरेक्खडा णत्थि । १२ ॥

२५

[॥ वीओ उद्देशो समत्तो ॥]

॥ पणवणाए भगवतीए पनरसमं इंदियपयं समत्तं ॥

१६. सोलसमं पओगपयं

[सुत्तं १०६८. पओगभेयपरूवणं]

१०६८. कइविहे णं भंते ! पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! पण्णरसविहे पण्णत्ते । तं जहा—सच्चमणप्यओगे १ मोसमणप्यओगे २ सच्चामोसमणप्यओगे ३ असच्चामोसमणप्यओगे ४ एवं वइप्पओगे वि चउहा ८ ओरालियसरीरकायप्यओगे ९ ओरालियमीससरीरकायप्यओगे १० वेउव्वियसरीरकायप्यओगे ११ वेउव्वियमीससरीरकायप्यओगे १२ आहारगसरीरकायप्यओगे १३ आहारगमीससरीरकायप्यओगे १४. कम्मसासरीरकायप्यओगे १५ ।

[सुत्तं १०६९. जीविसु ओहेणं पओगपरूवणं]

१०६९. जीवाणं भंते ! कतिविहे पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—सच्चमणप्यओगे जाव कम्मसासरीरकायप्यओगे ।

[सुत्ताइं १०७०-७६. चउवीसदंडएसु ओहेणं पओगपरूवणं]

१०७०. णेरइयाणं भंते ! कतिविहे पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! एक्कारसविहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—सच्चमणप्यओगे १ जाव असच्चामोसवइप्पओगे ८ वेउव्वियसरीरकायप्यओगे ९ वेउव्वियमीससरीरकायप्यओगे १० कम्मसासरीरकायप्यओगे ११ ।

१०७१. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं ।

१०७२. पुढविक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! तिविहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—ओरालियसरीरकायप्यओगे १ ओरालियमीससरीरकायप्यओगे २ कम्मसासरीरकायप्यओगे ३ । एवं जाव वणप्फइकाइयाणं । णवरं वाउक्काइयाणं पंचविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा—ओरालियसरीरकायप्यओगे १ ओरालियमीससरीरकायप्यओगे २ वेउव्विए दुविहे ४ कम्मसासरीरकायप्यओगे य ५ ।

१०७३. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! चउव्विहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—असच्चामोसवइप्पओगे १ ओरालियसरीरकायप्यओगे २ ओरालियमीससरीर-

१. °प्यओगे १ असच्चमण° सु० ॥ २. कम्मस° पुर ॥ ३. कम्मस° ध० पुर । एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेषु कम्मसासरीर° कम्मसरीर° इति पाठमेदान्यतमः पाठः क्वचित् क्वचिदावृत्त्योपलभ्यते ॥

१०६१. पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स जाव ईसाणस्स जहा असुरकुमारस्स (सु.१०५९) । णवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि ति भाणियव्वं ।

१०६२. सणंकुमार जाव गेवेज्जगस्स जहा णेरइयस्स (सु. १०५७-५८) ।

५ १०६३. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स अतीया अणंता, चद्धेल्लागा पंच, पुरेक्खडा पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा । सव्वट्ठसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, चद्धेल्लागा पंच, केवतिया पुरेक्खडा ? पंच ।

१०६४. णेरइयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया चद्धेल्लागा ? असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? अणंता । एवं १० जहा दव्विंदिएसु पोहत्तेणं दंडओ भणिओ तहा भाविंदिएसु वि पोहत्तेणं दंडओ भाणियव्वो, णवरं वणप्फइकाइयाणं चद्धेल्लागा वि अणंता ।

१०६५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवइया भाविंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, चद्धेल्लागा पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । १५ एवं असुरकुमारत्ते जाव थणियकुमारत्ते, णवरं चद्धेल्लागा णत्थि ।

१०६६. [१] पुढविकाइयत्ते जाव वेइंदियत्ते जहा दव्विंदिया ।

[२] तेइंदियत्ते तहेव, णवरं पुरेक्खडा तिण्णि वा छ वा णव वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[३] एवं चउरिंदियत्ते वि । णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ठ वा चारस २० वा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

१०६७. एवं एते चेव गमा चत्तारि णेयव्वा जे चेव दव्विंदिएसु । नवरं तइयगमे जाणियव्वा जस्स जइ इंदिया ते पुरेक्खडेसु मुणेयव्वा । चउत्थगमे जहेव दव्वेदिया जाव सव्वट्ठसिद्धगदेवाणं सव्वट्ठसिद्धगदेवत्ते केवतिया भाविंदिया अतीता ? णत्थि, चद्धेल्लागा संखेज्जा, पुरेक्खडा णत्थि । १२ ॥

१६. सोलसमं पओगपयं

[सुत्तं १०६८. पओगभेयपरूवणं]

१०६८. कइविहे णं भंते ! पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! पण्णरसविहे पण्णत्ते । तं जहा—सच्चमणप्पओगे १ मोसमणप्पओगे २ सच्चामोसमणप्पओगे ३ असच्चामोसमणप्पओगे ४ एवं वइप्पओगे वि चउहा ८ ओरालियसरीरकायप्पओगे ९ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे १० वेउव्वियसरीरकायप्पओगे ११ वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगे १२ आहारगसरीरकायप्पओगे १३ आहारगमीससरीरकायप्पओगे १४ कम्मसरीरकायप्पओगे १५ ।

[सुत्तं १०६९. जीवेषु ओहेणं पओगपरूवणं]

१०६९. जीवाणं भंते ! कतिविहे पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—सच्चमणप्पओगे जाव कम्मसरीरकायप्पओगे ।

[सुत्ताइं १०७०-७६. चउवीसदंडएसु ओहेणं पओगपरूवणं]

१०७०. णेरइयाणं भंते ! कतिविहे पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! एक्कारसविहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—सच्चमणप्पओगे १ जाव असच्चामोसवइप्पओगे ८ वेउव्वियसरीरकायप्पओगे ९ वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगे १० कम्मसरीरकायप्पओगे ११ ।

१०७१. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं ।

१०७२. पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! तिविहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—ओरालियसरीरकायप्पओगे १ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे २ कम्मसरीरकायप्पओगे ३ । एवं जाव वणप्फइकाइयाणं । णवरं वाउक्काइयाणं पंचविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा—ओरालियसरीरकायप्पओगे १ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे २ वेउव्विए दुविहे ४ कम्मसरीरकायप्पओगे य ५ ।

१०७३. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! चउव्विहे पओगे पण्णत्ते । तं जहा—असच्चामोसवइप्पओगे १ ओरालियसरीरकायप्पओगे २ ओरालियमीससरीर-

१. ०प्पओगे १ असच्चमणं सु० ॥ २. कम्मसं पु२ ॥ ३. कम्मसं ध० पु२ । एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेषु कम्मसरीरं कम्मसरीरं इति पाठभेदान्धतमः पाठः क्वचित् क्वचिदावृत्त्योपलभ्यते ॥

कायप्पओगे ३ कम्मासरीरकायप्पओगे ४ । एवं जाव चउरिंदियाणं ।

१०७४. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! तेरसविहे पओगे पणत्ते । तं जहा-सच्चमणप्पओगे १ मोसमणप्पओगे २ सच्चामोसमणप्पओगे ३ असच्चामोसमणप्पओगे ४ एवं वइप्पओगे वि ८ ओरालियसरीरकायप्पओगे ९ ओरालियमीससरीरकायप्पओगे १० वेउव्वियसरीरकायप्पओगे ११ वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगे १२ कम्मासरीरकायप्पओगे १३ ।

१०७५. मणूसाणं पुच्छ । गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पणत्ते । तं जहा-सच्चमणप्पओगे १ जाव कम्मासरीरकायप्पओगे १५ ।

१०७६. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०७०) ।

१०

[सुत्तं १०७७. जविंसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०७७. जीवा णं भंते ! किं सच्चमणप्पओगी जाव किं कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! जीवा सव्वे वि ताव होज्जा सच्चमणप्पओगी वि जाव वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओगिणो य ४ चउभंगो, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४, एए जीवाणं अट्ट भंगा ।

२०

[सुत्तं १०७८. नेरइएसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०७८. णेरइया णं भंते ! किं सच्चमणप्पओगी जाव किं कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! णेरइया सव्वे वि ताव होज्जा सच्चमणप्पओगी वि जाव

१. अस्मिन् षोडशे पदे यत्र यत्र अह्वेगे इति पाठोऽस्ति तत्र तत्र जे० ध० प्रत्योः बाहुल्येन अह्वेते इति पाठः, क्वचिच्च अह्वेए इति पाठ उपलभ्यते; एकस्मिन्नपि स्थाने अह्वेगे इति पाठो नोपलभ्यते ॥ २-५. 'गमीसस' प्र० पु२ । एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेषु 'मीसासरीर' 'मीससरीर' इति पाठभेदान्यतमः पाठः क्वचित् क्वचिदुपलभ्यते, क्वचिच्च 'मीसगसरीर' इत्यपि ॥

वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १
अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ ।

[सुत्तं १०७९. भवणवासिसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०७९. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि ।

[सुत्तं १०८०. एगिंदिएसु विभागेणं पओगपरूवणं]

५

१०८०. पुढविकाइया णं भंते ! किं ओरालियसरीरकायप्पओगी ओरालि-
यमीससरीरकायप्पओगी कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! पुढविकाइया णं
ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरी-
रकायप्पओगी वि । एवं जाव वणफ्तिकाइयाणं । णवरं वाउक्काइया वेउव्वि-
यसरीरकायप्पओगी वि वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि ।

१०

[सुत्तं १०८१. विगलिंदिएसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०८१. वेइंदिया णं भंते ! किं ओरालियसरीरकायप्पओगी जाव
कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! वेइंदिया सव्वे वि ताव होज्जा असचामोसव-
इप्पओगी वि ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि,
अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो
य २ । एवं जाव चउरिंदिया ।

१५

[सुत्तं १०८२. पंचिंदियतिरिक्खेसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०८२. पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. १०७८) ।
णवरं ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे
य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ ।

२०

[सुत्तं १०८३. मणुस्सेसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०८३. मणुसा णं भंते ! किं सच्चमणप्पओगी जाव किं कम्मासरीर-
कायप्पओगी ? गोयमा ! मणुसा सव्वे वि ताव होज्जा सच्चमणप्पओगी वि जाव
ओरालियसरीरकायप्पओगी वि वेउव्वियसरीरकायप्पओगी वि वेउव्वियमीससरीर-
कायप्पओगी वि, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य

२५

ओरालियमीससरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य
 ३ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य ४ अह्वेगे य आहारगमीससरीर-
 कायप्पओगी य ५ अह्वेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ६ अह्वेगे
 य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ७ अह्वेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ८,
 ५ एते अट्ठ भंगा पत्तेयं ।

अह्वेगे य ओरालियमीससरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी
 य १ अह्वेगे य ओरालियमीससरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्प-
 ओगिणो य २ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारग-
 सरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहार-
 १० गसरीरकायप्पओगिणो य ४ एवं एते चत्तारि भंगा, अह्वेगे य ओरालियमी-
 सासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य ओरा-
 लियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे
 य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४
 १५ चत्तारि भंगा, अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्प-
 ओगी य १ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो
 य २ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य
 ३ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४
 एते चत्तारि भंगा, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीस-
 २० रीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-
 कायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-
 सरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-
 सरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि भंगा, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी
 य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य
 २५ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य
 कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य
 कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ४ चउरो भंगा, अह्वेगे य आहारगमीसगस-
 रीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य आहारगमीसगसरीर-
 कायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगमीससरीर-

- ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मा-
 सरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारग-
 मीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अह्वेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मा-
 ५ सरीरकायप्पओगी य ५ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ६ अह्वेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ८ एते अट्ठ
 १० भंगा, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी
 य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी-
 सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य आहारगसरीर-
 कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३
 अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 १५ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ५ अह्वेगे य
 आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर-
 कायप्पओगिणो य ६ अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-
 सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अह्वेगे य आहारगसरीर-
 २० कायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो
 य ८ एवं एते तियसंजोएणं चत्तारि अट्ठभंगा, सब्बे वि मिलिया वत्तीसं भंगा
 जाणियच्चा ३२ ।

अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी
 य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अह्वेगे य
 २५ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा-
 सरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अह्वेगे य ओरालियमीसा-
 सरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प-
 ओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अह्वेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प-

ओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य
 आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर-
 कायप्पओगी य ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीर-
 कायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ५
 ६ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमी-
 सासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ८ अहवेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी- १०
 सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ९ अहवेगे य ओरालियमी-
 सासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-
 कायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १० अहवेगे य ओरालिय-
 मीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-
 कायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ११ अहवेगे य ओरालियमीसा- १५
 सरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प-
 ओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १२ अहवेगे य ओरालियमीसासरीर-
 कायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी
 य कम्मासरीरकायप्पओगी य १३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो
 य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर- २०
 कायप्पओगिणो य १४ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणा य
 आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीर-
 कायप्पओगी य १५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहार-
 गसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्प-
 ओगिणो य १६, एवं एते चउसंजोएणं सोलस भंगा भवंति । सब्बे वि य णं २५
 संपिंडिया असीतिं भंगा भवंति ८० ।

[सुत्तं १०८४. वाणमंतराइसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०८४. वाणमंतर-जोईसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु. १०७९) ।

- ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मा-
 सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारग-
 मीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य
 ५ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मा-
 सरीरकायप्पओगी य ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ८ एते अट्ठ
 १० भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी
 य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी-
 सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीर-
 कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३
 अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 १५ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ५ अहवेगे य
 आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर-
 कायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा-
 सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य आहारगसरीर-
 २० कायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो
 य ८ एवं एते तियसंजोएणं चत्तारि अट्ठभंगा, सव्वे वि मिलिया वत्तीसं भंगा
 जाणियन्वा ३२ ।

- अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी
 य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य
 २५ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा-
 सरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य ओरालियमीसा-
 सरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प-
 ओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प-

ओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य
 कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य
 आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर-
 कायप्पओगी य ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीर-
 कायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ५
 ६ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य
 आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमी-
 सासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ८ अहवेगे य
 ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी- १०
 सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ९ अहवेगे य ओरालियमी-
 सासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-
 कायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १० अहवेगे य ओरालिय-
 मीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-
 कायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ११ अहवेगे य ओरालियमीसा- १५
 सरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प-
 ओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १२ अहवेगे य ओरालियमीसासरीर-
 कायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी
 य कम्मासरीरकायप्पओगी य १३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो
 य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर- २०
 कायप्पओगिणो य १४ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणा य
 आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीर-
 कायप्पओगी य १५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहार-
 गसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्प-
 ओगिणो य १६, एवं एते चउसंजोएणं सोलस भंगा भवंति । सव्वे वि य णं २५
 सर्पिडिया असीतिं भंगा भवंति ८० ।

[सुत्तं १०८४. वाणमंतराइसु विभागेणं पओगपरूवणं]

१०८४. वाणमंतर-जोईसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु.१०७९) ।

[सुत्तं १०८५. गइप्पवायपरूवणं]

१०८५. कतिविहे णं भंते ! गतिप्पवाए पणत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पणत्ते । तं जहा—पओगगती १ ततगती २ वंधणच्छेयणगती ३ उववायगती ४ विहायगती ५ ।

५

[सुत्ताइं १०८६-८९. पओगगइपरूवणं]

१०८६. से किं तं पओगगती ? पओगगती पणरसविहा पणत्ता । तं जहा—सच्चमणप्पओगगती एवं जहा पओगो भणिओ तहा एसा वि भाणियव्वा जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगती ।

१० पणरसविहा पणत्ता । तं जहा—सच्चमणप्पओगगती जाव कम्मासरीरकायप्पओगगती ।

१०८८. णेरइयाणं भंते ! कतिविहा पओगगती पणत्ता ? गोयमा ! एक्कारसविहा पणत्ता । तं जहा—सच्चमणप्पओगगती एवं उवउज्जिऊण जस्स जइविहा तस्स ततिविहा भाणितव्वा जाव वेमाणियाणं ।

१५

१०८९. जीवाणं भंते ! किं सच्चमणप्पओगगती जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगती ? गोयमा ! जीवा सच्चे वि ताव होजा सच्चमणप्पओगगती वि, एवं तं चेव पुव्ववण्णियं भाणियव्वं, भंगा तहेव जाव वेमाणियाणं । से तं पओगगती ।

[सुत्तं १०९०. ततगइपरूवणं]

२०

१०९०. से किं तं ततगती ? ततगती जेणं जं गामं वा जाव सण्णिवेसं वा संपड्डित्ते असंपत्ते अंतरापहे वट्ठति । से तं ततगती ।

[सुत्तं १०९१. वंधणच्छेयणगइपरूवणं]

१०९१. से किं तं वंधणच्छेयणगती ? २ जेणं जीवो वा सरीराओ सरीरं वा जीवाओ । से तं वंधणच्छेयणगती ।

[सुत्ताइं १०९२-११०४. उववायगइपरुवणं]

१०९२. से किं तं उववायगती ? २ तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-
खेतोववायगती १ भवोववायगती २ णोभवोववातगती ३ ।

१०९३. से किं तं खेतोववायगती ? २ पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा-
णेरइयखेतोववातगती १ तिरिक्खजोणियखेतोववायगती २ मणूसखेतोववातगती ३ ५
देवखेतोववातगती ४ सिद्धखेतोववायगती ५ ।

१०९४. से किं तं णेरइयखेतोववातगती ? २ सत्तविहा पण्णत्ता । तं
जहा-रयणप्पभापुढविणेरइयखेतोववातगती जाव अहेसत्तमापुढविणेरइयखेतोववाय-
गती । से तं णेरइयखेतोववायगती ।

१०९५. से किं तं तिरिक्खजोणियखेतोववायगती ? २ पंचविहा १०
पण्णत्ता । तं जहा-एगिंदियतिरिक्खजोणियखेतोववायगती जाव पंचेदियतिरिक्ख-
जोणियखेतोववायगती । से तं तिरिक्खजोणियखेतोववायगती ।

१०९६. से किं तं मणूसखेतोववायगई ? २ दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-
सम्मच्छिममणूसखेतोववायगती गन्भवक्कंतियमणुस्सखेतोववायगई । से तं मणूस-
खेतोववायगती । १५

१०९७. से किं तं देवखेतोववायगती ? २ चउव्विहा पण्णत्ता । तं
जहा-भवणवइ जाव वेमाणियदेवखेतोववायगती । से तं देवखेतोववायगती ।

१०९८. से किं तं सिद्धखेतोववायगती ? २ अणेगविहा पण्णत्ता । तं
जहा-जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवयवाससपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववायगती, जंबुद्दीवे
दीवे चुल्लहिमवंत-सिहरिवासहरपव्वयसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववायगती, २०
जंबुद्दीवे दीवे हेमवय-हेरन्नवयवाससपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववातगती,
जंबुद्दीवे दीवे सदावति-वियडावतिवट्टवेयडूसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववायगती,
जंबुद्दीवे दीवे महाहिमवंत-रुप्पिवासहरपव्वयसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववातगती,
जंबुद्दीवे दीवे हरिवास-रम्मगवाससपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववातगती, जंबु-
द्दीवे दीवे गंधावति-मालवंतपरियायवट्टवेयडूसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववातगती, २५
जंबुद्दीवे दीवे णिसिद्ध-णीलवंतवासहरपव्वयसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतोववात-
गती, जंबुद्दीवे दीवे पुव्वविदेह-अवरविदेहसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेतो-

- ववातगती, जंबुद्दीवे दीवे देवकुरूत्तरकुरूसपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स सपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, लवण-समुद्दे सपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, धायइसंडे दीवे पुंरिमद्ध-पच्छिमद्धमंदरपव्वयस्स सपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, कालोयसमुद्दे
- ५ सपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, पुक्खरवरदीवडुपुंरिमडुभरहेरवयवास-सपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, एवं जाव पुक्खरवरदीवडुपच्छिमडु-मंदरपव्वयसपक्खिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती । से तं सिद्धखेत्तोववातगती । से तं खेत्तोववातगती १ ।

१०९९. से किं तं भवोववातगती ? २ चउव्विहा पण्णत्ता । तं जहा-
 १० णेरइय० जाव देवभवोववातगती । से किं तं णेरइयभवोववातगती ? २ सत्तविहा पण्णत्ता तं जहा० । एवं सिद्धवज्जो भेओ भाणियव्वो, जो चेव खेत्तोववातगतीए सो चेव भवोववातगतीए । से तं भवोववातगती २ ।

११००. से किं तं णोभवोववातगती ? २ दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-पोग्गलणोभवोववातगती य सिद्धणोभवोववातगती य ।

१५ ११०१. से किं तं पोग्गलणोभवोववातगती ? २ जण्णं परमाणुपोग्गले लोगस्स पुरत्थिमिल्लाओ चरिमंताओ पच्छिमिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति, पच्छिमिल्लाओ वा चरिमंताओ पुरत्थिमिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति, दाहिणिल्लाओ वा चरिमंताओ उत्तरिल्लं चरिमंतं एगसमएणं गच्छति, एवं उत्तरिल्लाओ दाहिणिल्लं, उवरिल्लाओ हेडिल्लं, हेडिल्लाओ वा उवरिल्लं । से तं
 २० पोग्गलणोभवोववातगती ।

११०२. से किं तं सिद्धणोभवोववातगती ? २ दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-अणंतरसिद्धणोभवोववातगती य परंपरसिद्धणोभवोववातगती य ।

११०३. से किं तं अणंतरसिद्धणोभवोववातगती ? २ पन्नरसविहा पण्णत्ता । तं जहा-तित्थसिद्धअणंतरसिद्धणोभवोववातगती य जाव अणेगसिद्धणो-
 २५ भवोववातगती य । [से तं अणंतरसिद्धणोभवोववातगती ।]

१. पुरच्छिमद्ध-प० पु२ ॥ २. ०पुरच्छिमद्धभ० पु२ । ०पुरत्थिमद्धभ० मु० ॥ ३, ५. पोग्गल-ण्णोभ० जे० ध० म० ॥ ४. सिद्धणोभ० जे० ध० म० ॥ ६-७. पव्वत्थिमि० म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥ ८. पोग्गलणोभ० जे० ध० म० ॥ ९. सिद्धणोभ० जे० ध० म० ॥ १०-१४. ०सिद्धणोभ० जे० ध० म० ॥

११०४. से किं तं परंपरसिद्धणोभवोववातगती ? २ अणेगविहा
पण्णत्ता । तं जहा-अपढमसमयसिद्धणोभवोववातगती एवं दुसमयसिद्धणो-
भवोववातगती जाव अणंतसमयसिद्धणोभवोववातगती । से तं परंपरसिद्धणो-
भवोववातगती । से तं सिद्धणोभवोववातगती । से तं णोभवोववायगती ३ । से
तं उववातगती ।

[सुत्ताइं ११०५-२२. विहायगतिपरूवणं]

११०५. से किं तं विहायगती ? २ सत्तरसविहा पण्णत्ता । तं जहा-
फुसमाणगती १ अफुसमाणगती २ उवसंपज्जमाणगती ३ अणुवसंपज्जमाणगती ४
पोग्गलगती ५ मंडूयगती ६ णावागती ७ णयगती ८ छायागती ९ छायाणु-
वायगती १० लेसागती ११ लेसाणुवायगती १२ उँदिससपविभत्तगती १३ १०
चउपुरिसपविभत्तगती १४ वंकगती १५ पंकगती १६ वंधणविमोयणगती १७ ।

११०६. से किं तं फुसमाणगती ? २ जण्णं परमाणुपोग्गले दुपदेसिय
जाव अणंतपदेसियाणं खंधाणं अण्णमण्णं फुसित्ता णं गती पवत्तइ । से तं
फुसमाणगती १ ।

११०७. से किं तं अफुसमाणगती ? २ जण्णं एतेसिं चैव अफुसित्ता १५
णं गती पवत्तइ । से तं अफुसमाणगती २ ।

११०८. से किं तं उवसंपज्जमाणगती ? २ जण्णं रायं वा जुवरायं वा
ईसरं वा तलवरं वा माडंबियं वा कोडुंबियं वा इच्चं वा सिद्धिं वा सेणावइं वा
सत्थवाइं वा उवसंपज्जित्ता णं गच्छति । से तं उवसंपज्जमाणगती ३ ।

११०९. से किं तं अणुवसंपज्जमाणगती ? २ जण्णं एतेसिं चैव २०
अण्णमण्णं अणुवसंपज्जित्ता णं गच्छति । से तं अणुवसंपज्जमाणगती ४ ।

१११०. से किं तं पोग्गलगती ? २ जण्णं परमाणुपोग्गलणं जाव
अणंतपएसियाणं खंधाणं गती पवत्तति । से तं पोग्गलगती ५ ।

११११. से किं तं मंडूयगती ? २ जण्णं मंडूए उप्फिडिया उँप्फिडिया
गच्छति । से तं मंडूयगती ६ ।

१-२. सीद्धणोभ° जे० ध० म० ॥ ३. उँदिसियविभ° म० प्र० पु१ पु२ ॥ ४. जण्णं जं रायं
म० प्र० ॥ ५. गती ३ । ग्रन्थाग्र ५००० पु२ ॥ ६. जहा एतेसिं ध० । जे णं एतेसिं प्र० ॥
७. गच्छति प्र० पु२ ॥ ८. मंडूओ फिडित्ता ग° सु० ॥ ९. उप्पडिता पु२ । उप्फडिता पु२ सं० ।
ओफिडित्ता पु१ पु३

१११२. से किं तं णावागती ? २ जणं णावा पुव्ववेयालीओ दाहिणवेयालिं जलपहेणं गच्छति, दाहिणवेयालीओ वा अवरवेयालिं जलपहेणं गच्छति । से तं णावागती ७ ।

१११३. से किं तं णयगती ? २ जणं णेगम-संगह-ववहार-उज्जुसुय-सद-समभिरूढ-एवंभूयाणं णयाणं जा गती, अहवा सव्वणया वि जं इच्छंति । से तं णयगती ८ ।

१११४. से किं तं छायागती ? २ जणं हयच्छायं वा गयच्छायं वा नरच्छायं वा किन्नरच्छायं वा महोरगच्छायं वा गंधव्वच्छायं वा उसहच्छायं वा रहच्छायं वा छत्तच्छायं वा उवसंपाजित्ता णं गच्छति । से तं छायागती ९ ।

१११५. से किं तं छायाणुवातगती ? २ जणं पुरिसं छाया अणु-गच्छति णो पुरिसे छायां अणुगच्छति । से तं छायाणुवातगती १० ।

१११६. से किं तं लेस्सागती ? २ जणं कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावणत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति, एवं णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए परिणमति, एवं काउलेस्सा वि तेउलेस्सं, तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सं, पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव परिणमति । से तं लेस्सागती ११ ।

१११७. से किं तं लेस्साणुवायगती ? २ जल्लेस्साइं दव्वाइं परियाइत्ता कालं करेति तल्लेस्सेसु उववज्जति । तं जहा-कण्हलेस्सेसु वा जाव सुक्कलेस्सेसु वा । से तं लेस्साणुवायगती १२ ।

१११८. से किं तं उद्दिस्सपविभत्तगती ? २ जेणं आयरिय वा उवज्ज्जायं वा थेरं वा पवत्तिं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेइयं वा उद्दिसिय २ गच्छति । से तं उद्दिस्सपविभत्तगती १३ ।

१११९. से किं तं चउपुरिसपविभत्तगती ? २ से जहाणामए चत्तारि पुरिसा समगं पड्डिता समगं पज्जवट्टिया १ समगं पट्टिया विसमं पज्जवट्टिया २ विसमं पट्टिया ३ विसमं पज्जवट्टिया विसमं पट्टिया ४ । से मु०, अशुद्धटीकाप्रत्यन्तरगलितपाठेपलब्धेः परावर्तितोऽयं भ्रान्तिजनितः पाठमेवो मुद्रितादर्शे ॥

१, ३. जेणं म० पु१ पु२ ॥ २. गतच्छायं जे० थ० म० ॥ ४. पुरिसो पु२ ॥ ५. जणहं क० पु२ ॥ ६, ८. उद्दिसियविभं म० प्र० पु१ पु२ ॥ ७. °च्छेइं वा म० प्र० ॥ ९. समगं पज्जवट्टिया समगं पट्टिया १ समगं पज्जवट्टिया विसमं पट्टिया २ विसमं पज्जवट्टिया समगं पट्टिया ३ विसमं पज्जवट्टिया विसमं पट्टिया ४ । से मु०, अशुद्धटीकाप्रत्यन्तरगलितपाठेपलब्धेः परावर्तितोऽयं भ्रान्तिजनितः पाठमेवो मुद्रितादर्शे ॥

पड्डिया समगं पज्जवड्डिया ३ विसमं पड्डिया विसमं पज्जवड्डिया ४ । से तं चउ-
पुरिसपविभत्तगती १४ ।

११२०. से किं तं वंकगती ? २ चउव्विहा पण्णत्ता । तं जहा-
घट्टणया १ थंभणया २ लेसणया ३ पवडणया ४ । से तं वंकगती १५ ।

११२१. से किं तं पंकगती ? २ से जहाणामए केइ पुरिसे सेयंसि वा ५
पंकंसि वा उदयंसि वा कायं उव्वहिया गच्छति । से तं पंकगती १६ ।

११२२. से किं तं वंधणविमोयणगती ? [ग्रन्थाग्रम् ५०००] २ जणं
अंचाण वा अंचौडगाण वा माउलुंगाण वा विह्लाण वा कविट्टाण वा भह्णंण वा
फणसाण वा दाडिमाण वा पारेवाण वा अक्खोडाण वा चोराण वा वोराण वा
तिड्डुयाण वा पक्काणं परियागयाणं वंधणाओ विप्पमुक्काणं णिव्वाचाएणं अहे १०
वीससाए गती पवत्तइ । से तं वंधणविमोयणगती १७ । [से तं विहायगती ।
से तं गइप्पवाए ।]

॥ पण्णवणाए भगवतीए सोलसमं पओगपयं समत्तं ॥

१. सरंसि वा प्र० । सोइंसि वा पुर ॥ २. उव्विहता पुर । उव्विहिया मु० ॥ ३. अंबाडाण
पुर ॥ ४. भव्वाण म० प्र० पुर । “भच्चाण भर्चना फल” इति श्रीजीवविजयगणिकृते
प्रज्ञापनासूत्रस्तवके । “भद्दाण भाद्रा-द्राष” इति श्रीधनविमलगणिकृते प्रज्ञापनासूत्रस्तवके ॥
५. दालिमाण म० प्र० पुर ॥ ६. परिवताण म०, “परिवयाण-फलविशेष” इति
श्रीधनविमलगणिकृते स्तवके । परिवताण पुर, “परिवतना फल” इति श्रीजीवविजयगणिकृते
स्तवके ॥ ७. अक्खोलाण ध० म० प्र० पुर ॥ ८. दाराण पुरसं० । “चाराण-फलविशेष”
इति श्रीजीवविजयगणिकृते स्तवके । “चाराण-एही फलविशेष” इति श्रीधनविमलगणिकृते
स्तवके ॥ ९. तिड्डुयाण-तिट्ठकफल” इति श्रीधनविमलगणिकृते स्तवके । “तिट्ठसाण-
डसाफल” इति श्रीजीवविजयगणिकृते स्तवके ॥ १०. विसुक्काणं जे० ध० ॥

१७. सत्तरसमं लेस्सापयं

पढमो उद्देसओ

[सुत्तं ११२३. पढमुद्देसस्स अत्थाहिगारा]

११२३. आहार सम सरीरा उस्सासे १ कम्मवण्णइस्सासु४ ।
समवेदण ५ समकिरिया ६ समाउया ७ चेव बोधव्वा ॥२०९॥

[सुत्ताइं ११२४-३०. नेरइएसु समाहाराइसत्तदारपरूवणं]

११२४. णेरइया णं भंते ! सव्वे समाहारा सव्वे समसरीरा सव्वे समुस्सासणिस्सासा ? गोयमा ! णो इण्ढे समडे । से केण्ढेणं भंते ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समाहारा जाव णो सव्वे समुस्सासणिस्सासा ? गोयमा ! णेरइया
१० दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—महासरीरा य अप्पसरीरा य । तत्थ णं जे ते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गले आहारेंति बहुतराए पोग्गले परिणामेंति बहुतराए पोग्गले उस्ससंति बहुतराए पोग्गले णीससंति, अभिक्खणं आहारेंति अभिक्खणं परिणामेंति अभिक्खणं उस्ससंति अभिक्खणं णीससंति । तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोग्गले आहारेंति अप्पतराए पोग्गले परिणामेंति अप्पतराए पोग्गले
१५ उस्ससंति अप्पतराए पोग्गले णीससंति, आहच्च आहारेंति आहच्च परिणामेंति आहच्च उस्ससंति आहच्च णीससंति, से' एतेण्ढेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ णेरइया णो सव्वे समाहारा णो सव्वे समसरीरा णो सव्वे समुस्सासणीसासा ? ।

११२५. णेरइया णं भंते ! सव्वे समकम्मा ? गोयमा ! णो इण्ढे समडे । से केण्ढेणं भंते ! एवं वुच्चति ? णेरइया णो सव्वे समकम्मा ? गोयमा !
२० णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—पुव्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य । तत्थ णं जे ते पुव्वोववण्णगा ते णं अप्पकम्मतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं महाकम्मतरागा, सेएण्ढेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समकम्मा २ ।

११२६. णेरइया णं भंते ! सव्वे समवण्णा ? गोयमा ! णो इण्ढे
२५ समडे । से केण्ढेणं भंते ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समवण्णा ? गोयमा !

१. सेएण्ढेणं पु२, एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेप्वावृत्त्योपलभ्यते ॥ २. सेतेण्ढेणं पु२, एवमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेप्वावृत्त्योपलभ्यते ॥

णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पुव्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य । तत्थ णं जे ते पुव्वोववण्णगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं अविसुद्धवण्णतरागा, सेएण्ण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समवण्णा ३ ।

११२७. एवं जहेव वण्णेण भणिया तहेव लेस्सासु वि विसुद्धलेस्सतरागा अविसुद्धलेस्सतरागा य भाणियच्चा ४ ।

११२८. णेरइया णं भंते ! सव्वे समवेदणा ? गोयमा ! णो इण्ण्डे समडे । से केण्ण्डेणं भंते ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समवेयणा ? गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सण्णिभूया य असण्णिभूया य । तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते णं महावेदणतरागा । तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं अप्पवेदणतरागा, सेतेण्ण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चति नेरइया नो सव्वे समवेयणा ५ ।

११२९. णेरइया णं भंते ! सव्वे समकिरिया ? गोयमा ! णो इण्ण्डे समडे । से केण्ण्डेणं भंते ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समकिरिया ? गोयमा ! णेरइया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मदिट्ठी मिच्छदिट्ठी सम्मामिच्छदिट्ठी । तत्थ णं जे ते सम्मदिट्ठी तेसि णं चत्तारि किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्खाणकिरिया ४ । तत्थ णं जे ते मिच्छदिट्ठी जे य सम्मामिच्छदिट्ठी तेसिं णेरयत्तियाओ पंच किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५, सेतेण्ण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णेरइया णो सव्वे समकिरिया ६ ।

११३०. णेरइया णं भंते ! सव्वे समाउया ? गोयमा ! णो इण्ण्डे समडे । से केण्ण्डेणं भंते ! एवं वुच्चइ ? गोयमा ! णेरइया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-अत्थेगइया समाउया समोववण्णगा १ अत्थेगइया समाउया विसमोववण्णगा २ अत्थेगइया विसमाउया समोववण्णगा ३ अत्थेगइया विसमाउया विसमोववण्णगा ४, सेएण्ण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ णेरइया णो सव्वे समाउया णो सव्वे समोववण्णगा ७ ।

[सुत्ताइं ११३१-३६. भवणवासिसु समाहाराइसत्तदारपरूवणं]

११३१. असुरकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारं ? स च्चेव पुच्छा । गोयमा ! णो इण्ण्डे समडे, जहा णेरइया (सु. ११२४) ।

१-२. °लेसत्° पुर ॥ ३. मिच्छादिट्ठी पुर, एवमन्यत्रापि ॥ ४. °च्छदिट्ठी तेसि णं तियवाओ मु० ॥ ५. णियत्ति° पुर ॥ ६. °रा? एवं सव्वे वि पुच्छा । से केण्ण्डेणं भंते ! एवं वुच्चति ? जहा नेर° मु० ॥

११३२. असुरकुमारा णं भंते! सव्वे समकम्मा? गोयमा! णो इण्डे समड्ढे। से केण्डेणं भंते! एवं बुच्चति? गोयमा! असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—पुव्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य। तत्थ णं जे ते पुव्वोववण्णगा ते णं महाकम्मतरागा। तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं अप्पकम्मतरागा, सेएण्डेणं गोयमा! एवं बुच्चति असुरकुमारा णो सव्वे समकम्मा।

११३३. [१] एवं वण्ण-लेस्साए पुच्छ। तत्थ णं जे ते पुव्वोववण्णगा ते णं अविमुद्धवण्णतरागा। तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं विमुद्धवण्णतरागा, सेएण्डेणं गोयमा! एवं बुच्चति असुरकुमारा सव्वे णो समवण्णा।

१० [२] एवं लेस्साए वि।

११३४. वेदणाए जहा णेरइया (सु. ११२८)।

११३५. अवसेसं जहा णेरइयाणं (सु. ११२९-३०)।

११३६. एवं जाव थणियकुमारा।

[सुत्ताइं ११३७-४०. एगिंदियाइसु समाहाराइसत्तदारपरुवणं]

११३७. पुढविक्काइया आहार-कम्म-वण्ण-लेस्साहिं जहा णेरइया (सु. ११२४-२७)।

११३८. पुढविक्काइया णं भंते! सव्वे समवेदणा? हंता गोयमा! सव्वे समवेयणा। से केण्डेणं भंते! एवं बुच्चति? गोयमा! पुढविक्काइया सव्वे असण्णी असण्णीभूयं अणिययं वेदणं वेदंति, सेतेण्डेणं गोयमा! पुढविक्काइया सव्वे समवेदणा।

११३९. पुढविक्काइया णं भंते! सव्वे समकिरिया? हंता गोयमा! पुढविक्काइया सव्वे समकिरिया। से केण्डेणं? गोयमा! पुढविक्काइया सव्वे माइमिच्छदिट्ठी, तेसिं णेयतियाओ पंच किरियाओ कजंति, तं जहा—आरंभिया? परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपन्नक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५।

२५ ११४०. एवं जाव चउरिंदिया।

[सुत्तं ११४१. पंचिन्द्रियतिरिक्खेसु समाहाराइसत्तदारपरुवणं]

११४१. पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. ११२४-३०) । णवरं किरियाहिं सम्मदिट्ठी मिच्छदिट्ठी सम्मामिच्छदिट्ठी । तत्थ णं जे ते सम्मदिट्ठी ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-असंजया य संजयासंजया य । तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसि णं तिण्णि किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तिया । तत्थ णं जे ते असंजया तेसि णं चत्तारि किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्खाणकिरिया ४ । तत्थ णं जे ते मिच्छदिट्ठी जे य सम्मामिच्छदिट्ठी तेसिं णेयइयाओ पंच किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५ । सेसं तं चैव ।

[सुत्तं ११४२. मणुस्सेसु समाहाराइसत्तदारपरुवणं]

११४२. मणुसाणं भंते ! सच्चे समाहारा ? गोयमा ! णो इण्णट्ठे समट्ठे । से केणट्ठेणं ? गोयमा ! मणुसा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य । तत्थ णं जे ते महासरीरा ते णं बहुयराए पोग्गले आहारेंति जाव बहुतराए पोग्गले णीससंति, आहच्च आहारेंति० आहच्च णीससंति । तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोग्गले आहारेंति जाव अप्पतराए पोग्गले णीससंति, अभिक्खणं आहारेंति जाव अभिक्खणं नीससंति, सेएणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति मणुसा सच्चे णो समाहारा । सेसं जहा णेरइयाणं (सु. ११२५-३०) । णवरं किरियाहिं मणुसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मदिट्ठी मिच्छदिट्ठी सम्मामिच्छदिट्ठी । तत्थ णं जे ते सम्मदिट्ठी ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-संजया असंजया संजयासंजया । तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सरागसंजया य वीतरागसंजया य, तत्थ णं जे ते वीयरगसंजया ते णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य, तत्थ णं जे ते अपमत्तसंजया तेसिं एगा मायावत्तिया किरिया कज्जति, तत्थ णं जे ते पमत्तसंजया तेसिं दो किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया मायावत्तिया य । तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसिं तिण्णि किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ । तत्थ णं जे ते असंजया तेसिं चत्तारि किरियाओ कज्जंति, तं जहा-आरंभिया १

परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्खाणकिरिया ४ । तत्थ णं जे ते मिच्छद्दिट्ठी जे य सम्मामिच्छद्दिट्ठी तेसिं णेयइयाओ पंच किरियाओ कजंति, तं जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपच्चक्खाणकिरिया ४ मिच्छदंसणवत्तिया ५ । सेसं जहा णेरइयाणं ।

५ [सुत्ताइं ११४३-४४. वाणमंतराइसु समाहाराइसत्तदारपरूवणं]

११४३. वाणमंतराणं जहा असुरकुमाराणं (सु. ११३१-३५)

११४४. एवं जोइसिय-वेमाणियाण वि । णवरं ते वेदणाए दुविहा पणत्ता, तं जहा-माइमिच्छद्दिट्ठीउववण्णगा य अमाइसम्मद्दिट्ठीउववण्णगा य । तत्थ णं जे ते माइमिच्छद्दिट्ठीउववण्णगा ते णं अप्पवेदणत्तरागा । तत्थ णं जे ते अमाइसम्मद्दिट्ठीउववण्णगा ते णं महावेदणत्तरागा, सेएण्ण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ० । सेसं तहेव ।

[सुत्तं ११४५. सलेस्सेसु २४ दंडएसु ओहिणं समाहाराइसत्तदारपरूवणं]

११४५. सलेस्सा णं भंते ! णेरइया सव्वे समाहारा समसरीरा समुस्सा-सणिस्सासा ? स च्चेव पुच्छा, एवं जहा ओहिओ गमओ (सु. ११२४-४४) भणिओ तहा सलेस्सगमओ वि णिरवसेसो भाणियव्वो जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं ११४६-५५. सलेस्सेसु २४ दंडएसु विभागेणं समाहाराइसत्तदरापरूवणं]

११४६. कणहलेस्सा णं भंते ! णेरइया सव्वे समाहारा ३ पुच्छा । गोयमा ! जहा ओहिया (सु. ११२४-३०) । णवरं णेरइया वेदणाए माइमिच्छद्दिट्ठीउववण्णगा य अमाइसम्मद्दिट्ठीउववण्णगा य भाणियव्वा । सेसं तहेव जहा ओहियाणं ।

११४७. असुरकुमारा जाव वाणमंतरा एते जहा ओहिया (सु. ११३१-४३) । णवरं मणूसाणं किरियाहिं विसेसो, जाव तत्थ णं जे ते सम्मद्दिट्ठी ते तिविहा पणत्ता, तं जहा-संजया असंजया संजयासंजया य, जहा ओहियाणं (सु. ११४२) ।

२५ ११४८. जोइसिय-वेमाणिया आइल्लिगासु तिसु लेस्सासु ण पुच्छिजंति ।

११४९. एवं जहा किण्हलेस्सा चारिया तथा णीललेस्सा वि चारियव्वा ।

११५०. काउलेस्सा णेरइएहिंतो आरच्च जाव वाणमंतरा । णवरं काउलेस्सा णेरइया वेदणाए जहा ओहिया (सु. ११२८) ।

११५१. तेउलेस्साणं भंते ! असुरकुमाराणं ताओ चेव पुच्छाओ । गोयमा ! जहेव ओहिया तहेव (सु. ११३१-३५) । णवरं वेदणाए जहा ५ जोतिसिया (सु. ११४४) ।

११५२. पुढवि-आउ-वणस्सइ-पंचेंदियतिरिक्ख-मणूसा जहा ओहिया (सु. ११३७-३९, ११४१-४२) तहेव भाणियव्वा । णवरं मणूसा किरियाहिं जे संजया ते पमत्ता य अपमत्ता य भाणियव्वा, सरागा वीयरगा णत्थि ।

११५३. वाणमंतरा तेउलेस्साए जहा असुरकुमारा (सु. ११५१) । १०

११५४. एवं जोतिसिय-वेमाणिया वि । सेसं तं चेव ।

११५५. एवं पम्हलेस्सा वि भाणियव्वा, णवरं जेसिं अत्थि । सुक्कलेस्सा वि तहेव जेसिं अत्थि । सव्वं तहेव जहा ओहियाणं गमओ । णवरं पम्हलेस्स-सुक्कलेस्साओ पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वेमाणियाणं चेव, ण सेसाणं ति ।

॥ पण्णवणाए लेस्सापए पढमो उद्देसओ समत्तो ॥

१५

*

वीओ उद्देसओ

[सुत्तं ११५६. लेस्साभेयपरूवणं]

११५६. कति णं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छलेस्साओ पण्णत्ताओ । तं जहा—कण्हलेस्सा १ णीललेस्सा २ काउलेस्सा ३ तेउलेस्सा ४ पम्हलेस्सा ५ सुक्कलेस्सा ६ । २०

[सुत्ताइं ११५७-६९. चउवीसदंडएसु लेस्सापरूवणं]

११५७. णेरइयाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! तिण्णि । तं जहा—किण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा ।

११५८. तिरिक्खजोणियाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छलेस्साओ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । २५

११५९. एगिंदियाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !
चत्तारि लेस्साओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा ।

११६०. पुढविक्काइयाणं भंते ! कति लेस्साओ ? गोयमा ! एवं चेव ।

११६१. आउ-वण्णफ्तिकाइयाण वि एवं चेव ।

११६२. तेउ-वाउ-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं जहा णेरइयाणं
(सु. ११५७) ।

११६३. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! छलेस्साओ,
कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[२] सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! जहा
१० णेरइयाणं (सु. ११५७) ।

[३] गन्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोगियाणं पुच्छ । गोयमा ! छलेसा-
ओ, तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[४] तिरिक्खजोगिणीणं पुच्छ । गोयमा ! छलेसाओ एताओ चेव ।

११६४. [१] मणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! छलेसाओ एताओ चेव ।

१५ [२] सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! जहा णेरइयाणं
(सु. ११५७) ।

[३] गन्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छ । गोयमा ! छलेसाओ, तं जहा-
कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेसा ।

[४] मणुस्सीणं पुच्छ । गोयमा ! एवं चेव ।

११६५. [१] देवाणं पुच्छ । गोयमा ! छ एताओ चेव ।

[२] देवीणं पुच्छ । गोयमा ! चत्तारि । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव
तेउलेस्सा ।

११६६. [१] भवणवासीणं भंते ! देवाणं पुच्छ । गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं भवणवासिणीण वि ।

११६७. [१] वाणमंतरदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं वाणमंतरीण वि ।

११६८. [१] जोइसियाणं पुच्छ । गोयमा ! एगा तेउलेस्सा ।

[२] एवं जोइसिणीण वि ।

११६९. [१] वेमाणियाणं पुच्छ । गोयमा ! तिणिण । तं जहा-
तेउलेस्सा पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सा ।

[२] वेमाणिणीणं पुच्छ । गोयमा ! एगा तेउलेसा ।

[सुत्तं ११७०. सलेस्सेसु जीवेषु अप्पावहुयं]

११७०. एतेसि णं भंते ! सलेस्साणं जीवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साणं ५
अलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा,
पम्हलेस्सा संखेज्जगुणा, तेउलेस्सा संखेज्जगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा
अणंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया ।

[सुत्ताइं ११७१-९०. सलेस्सेसु २४ दंडएसु अप्पावहुयं]

११७१. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं नीललेस्साणं १०
काउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा णेरइया
कण्हलेस्सा, णीललेस्सा असंखेज्जगुणा, काउलेस्सा असंखेज्जगुणा ।

११७२. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव
सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्ख-
जोणिया सुक्कलेसा, एवं जहा ओहिया (सु. ११७०) णवरं अलेस्सवज्जा । १५

११७३. एतेसि णं भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण
य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा एगिंदिया तेउलेस्सा,
काउलेस्सा अणंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

११७४. एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं कण्हलेस्साणं जाव
तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहिया एगिंदिया २०
(सु. ११७३) । णवरं काउलेस्सा असंखेज्जगुणा ।

११७५. एवं आउक्काइयाण वि ।

११७६. एतेसि णं भंते ! तेउक्काइयाणं कण्हलेस्साणं णीललेस्साणं
काउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेउक्काइया
काउलेस्सा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

११७७. एवं वाउक्काइयाण वि । २५

११७८. एतेसि णं भंते ! वणप्फइकाइयाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य ० जहा एग्गिदियओहियाणं (सु. ११७३) ।

११७९. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं जहा तेउक्काइयाणं (सु. ११७६) ।

५ ११८०. [१] एतेसि णं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्खजोणियाणं (सु. ११७२) । णवरं काउलेस्सा असंखेजगुणा ।

[२] सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं जहा तेउक्काइयाणं । (सु. ११७६) ।

१० [३] गम्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं जहा ओहियाणं तिरिक्ख-जोणियाणं (सु. ११७२) । णवरं काउलेस्सा संखेजगुणा ।

[४] एवं तिरिक्खजोणिणीण वि ।

१५ [५] एतेसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं गम्भवक्कंतिय-पंचेदियतिरिक्खजोणियाण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा गम्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउलेस्सा संखेजगुणा, काउलेस्सा संखेजगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्सा सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्ख-जोणिया असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

२० [६] एतेसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजो-णिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहेव पंचमं (सु. ११८० [५]) तहा इमं पि छड्डं भाणियव्वं ।

२५ [७] एतेसि णं भंते ! गम्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्ख-जोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा गम्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, सुक्कलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, पम्हलेस्सा गम्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, तेउलेस्सा० संखेजगुणा, तेउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, काउलेस्सा० संखेजगुणा, णीललेस्सा० विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया, काउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ० विसेसाहियाओ ।

[८] एतेसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गम्भवक्कं-
 तियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण
 य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा गम्भवक्कंतियतिरिक्ख-
 जोणिया सुक्कलेस्सा, सुक्कलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ, पम्हलेस्सा
 गम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा, पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ ५
 संखेज्जगुणाओ, तेउलेस्सा गम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा, तेउलेस्सा-
 ओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ, काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया संखेज्जगुणा,
 णीललेस्सा० विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया, काउलेस्साओ० संखेज्ज-
 गुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ० विसेसाहियाओ,
 काउलेस्सा सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा० १०
 विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया ।

[९] एतेसि णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य
 कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा
 पंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, सुक्कलेस्साओ० संखेज्जगुणाओ, पम्हलेस्सा०
 संखेज्जगुणा, पम्हलेस्साओ० संखेज्जगुणाओ, तेउलेस्सा० संखेज्जगुणा, तेउलेस्साओ० १५
 संखेज्जगुणाओ, काउलेस्साओ० संखेज्जगुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ,
 कण्हलेस्साओ० विसेसाहियाओ, काउलेस्सा० असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा०
 विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया ।

[१०] एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य
 कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! २०
 जहेव णवमं अप्पावहुयं तहा इमं पि, नवरं काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया
 अणंतगुणा । एवं एते दस अप्पावहुगा तिरिक्खजोणियाणं ।

११८१. एवं मणूसाणं पि अप्पावहुगा भाणियव्वा । णवरं पच्छिमगं
 अप्पावहुयं णत्थि ।

११८२ [१] एतेसि णं भंते ! देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण २५
 य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा देवा सुक्कलेस्सा,
 पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा, काउलेस्सा असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया,
 कण्हलेस्सा विसेसाहिया, तेउलेस्सा संखेज्जगुणा ।

[२] एतेसि णं भंते ! देवीणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ देवीओ काउलेस्साओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्साओ संखेज्जगुणाओ ।

५ [३] एतेसि णं भंते ! देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा काउलेस्सा असंखेज्जगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ देवीओ संखेज्जगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्सा देवा संखेज्जगुणा, तेउलेस्साओ देवीओ संखेज्जगुणाओ ।

१० ११८३. [१] एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा भवणवासी देवा तेउलेस्सा, काउलेस्सा असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया ।

१५ [२] एतेसि णं भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! एवं चेव ।

[३] एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा भवणवासी देवा तेउलेस्सा, भवणवासिणीओ तेउलेस्साओ संखेज्जगुणाओ, काउलेस्सा भवणवासी असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, २० काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेज्जगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ ।

११८४. एवं वाणमंतराण वि तिण्णेव अप्पावहुया जहेव भवणवासीणं तहेव भाणियव्वा (सु. ११८३ [१-३]) ।

२५ ११८५. एतेसि णं भंते ! जोइसियाणं देवाणं देवीण य तेउलेस्साणं कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थो- वा जोइसियदेवा तेउलेस्सा, जोइसिणिदेवीओ तेउलेस्साओ संखेज्जगुणाओ ।

१. जाव सुक्कलेस्साण य ध० ॥ २. [३] एवं एतेसि म० प्र० पुर ॥ ३. वासिणीओ देवीओ संखे^० मुद्रिते ॥ ४. संखेजाओ, णील^० ध० ॥ ५. जोइसिणीओ देवीओ ध० म० प्र० पुर ॥ ६. संखेजाओ । जे० ॥

११८६. एतेसि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं सुक्कलेस्साणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वेमाणिया सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्सा असंखेज्जगुणा ।

११८७. एतेसि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं देवीणं य तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं सुक्कलेस्साणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ ।

११८८. एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं य देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्सा असंखेज्जगुणा; तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा, काउलेस्सा असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया; तेउलेस्सा वाणमंतरा देवा असंखेज्जगुणा, काउलेस्सा असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया; तेउलेस्सा जोइसियदेवा संखेज्जगुणा ।

११८९. एतासि णं भंते ! भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीणं वेमाणिणीणं य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवाओ देवीओ वेमाणिणीओ तेउलेस्साओ; भवणवासिणीओ तेउलेस्साओ असंखेज्जगुणाओ, काउलेस्साओ असंखेज्जगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ देवीओ असंखेज्जगुणाओ, काउलेस्साओ असंखेज्जगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्साओ जोइसिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ ।

११९०. एतेसि णं भंते ! भवणवासीणं जाव वेमाणियाणं देवाणं य देवीणं य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्चत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्सा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ; तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेज्जगुणा, तेउलेस्साओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ, काउलेस्सा भवणवासी असंखेज्जगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया,

१-२. अल्पवहुत्वाधिकारसूत्रेषु ध० आदर्शं पम्ह^० स्थाने वंभ(पंभ) इति पाठो वर्तते ॥

३. कण्हलेस्सा पुर ॥

कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेजगुणाओ, णीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्सा वाणमंतरा असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा वाणमंतरा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ वाणमंतरीओ
 ५ संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्सा जोइसिया संखेजगुणा, तेउलेस्साओ जोइसिणीओ संखेजगुणाओ ।

[सुत्तं ११९१. सलेस्सेसु जीविसु इड्ढिअप्पावहुयं]

११९१. एतेसि णं भंते ! जीवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेस्सेहिंतो
 १० णीललेस्सा महिड्डिया, णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड्डिया, एवं काउलेस्सेहिंतो तेउलेस्सा महिड्डिया, तेउलेस्सेहिंतो पण्हलेस्सा महिड्डिया, पण्हलेस्सेहिंतो सुक्कलेस्सा महिड्डिया, सँव्वप्पिड्डिया जीवा किण्हलेस्सा, सँव्वमँहिड्डिया जीवा सुक्कलेस्सा ।

[सुत्ताइं ११९२-९८. सलेस्सेसु २४ दंडएसु इड्ढिअप्पावहुयं]

११९२. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं णीललेस्साणं काउ-
 १५ लेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेस्सेहिंतो णीललेस्सा महिड्डिया, णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड्डिया, सँव्वप्पिड्डिया णेरइया कण्हलेस्सा, सँव्वमँहिड्डिया णेरइया काउलेस्सा ।

११९३. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्क-
 लेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! जहा जीवा ।

२० ११९४. एतेसि णं भंते ! एगिंदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेस्सेहिंतो एगिंदियतिरिक्खजोणिहिंतो णीललेस्सा महिड्डिया, णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड्डिया, काउलेस्सेहिंतो तेउलेस्सा महिड्डिया, सँव्वप्पिड्डिया एगिंदियतिरिक्खजोणिया कण्हलेस्सा, सँव्वमँहिड्डिया तेउलेस्सा ।

१. ऋद्रयल्पवहुत्वसूत्रेषु मुद्रिते सर्वत्र अप्पिड्डिया महिड्डिया इति पाठो वर्तते ॥ २, ६, ९. सँव्वप्पिड्डिया पुर सु० ॥ ३. कण्हं पुर सु० ॥ ४, ७, १०. ^०महिड्डिया जे० ध० ॥ ५, ८. महिड्डिया जे० ध० ॥

११९५. एवं पुढविक्काइयाण वि ।

११९६. एवं एतेणं अभिलावेणं जहेव लेस्साओ भावियाओ तहेव
णेयव्वं जाव चउरिंदिया ।

११९७. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं सम्मुच्छिमाणं
गम्भवक्कंतियाण य सव्वेसिं भाणियव्वं जाव अप्पिड्डिया वेमाणिया देवा तेउलेस्सा, ५
सव्वमहिड्डिया वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा ।

११९८. केइ मणंति—चउवीसदंडएणं इड्डी भाणियव्वा ।

॥ १वीओ उहेस्सओ समत्तो ॥

*

तइओ उहेस्सओ

१०

[सुत्ताइं ११९९-१२००. नयमएणं २४दंडएसु उववाय-उव्वट्टणाओ]

११९९. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएसु उववज्जति ? अणेरइए णेरइएसु
उववज्जति ? गोयमा ! णेरइए णेरइएसु उववज्जइ, णो अणेरइए णेरइएसु उववज्जति ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

१२००. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो उव्वट्टइ ? अणेरइए १५
णेरइएहिंतो उव्वट्टति ? गोयमा ! अणेरइए णेरइएहिंतो उव्वट्टति, णो णेरइए
णेरइएहिंतो उव्वट्टति ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं जोतिसिय-वेमाणिएसु चयणं ति अभिलावो
कायव्वो ।

[सुत्ताइं १२०१-७. सलेस्सेसु २४ दंडएसु ओहेणं उववाय-उव्वट्टणाओ] २०

१२०१. [१] से णणं भंते ! कणहलेस्से णेरइए कणहलेस्सेसु णेरइएसु
उववज्जति ? कणहलेस्से उव्वट्टति ? जलेस्से उववज्जति तलेस्से उव्वट्टति ? हंता
गोयमा ! कणहलेस्से णेरइए कणहलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जति, कणहलेस्से उव्वट्टति,
जलेस्से उववज्जति तलेस्से उव्वट्टति ।

१. वीयउहेसओ ॥ जे० ॥ २. अरिमल्लुदेशके उव्वट्टइ इति पाठस्थाने विशेषतः पुर प्रतौ अन्यासु
प्रतिपु च ववचित् ववचित् उववट्टइ इति पाठः आशुत्थोपलभ्यते ॥ ३. °लेस्सेसु उ° जे० प्र० ॥
४. °कणहलेस्सेसु उ° ध० ॥ ५. तलेस्सेसु उ° ध० ॥

[२] एवं णीललेसे वि काउलेसे वि ।

१२०२. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि । णवरं तेउलेस्सा अब्भइया ।

१२०३. [१] से णूणं भंते ! कण्हलेसे पुढविकाइए कण्हलेस्सेसु
५ पुढविकाइएसु उववज्जति ? कण्हलेस्से उव्वट्ठति ? जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे
उव्वट्ठति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्से पुढविकाइए कण्हलेस्सेसु पुढविकाइएसु
उववज्जति; सिय कण्हलेस्से उव्वट्ठति, सिय नीललेसे उव्वट्ठति, सिय काउलेसे
उव्वट्ठति; सिय जल्लेसे उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्ठति ।

[२] एवं णीललेस्सा काउलेस्साँ वि ।

१० [३] से णूणं भंते ! तेउलेस्से पुढविकाइए तेउलेस्सेसु पुढविकाइएसु
उववज्जइ ? ० पुच्छा । हंता गोयमा ! तेउलेसे पुढविकाइए तेउलेसेसु पुढविकाइएसु
उववज्जति; सिय कण्हलेसे उव्वट्ठइ, सिय णीललेसे उव्वट्ठइ, सिय काउलेसे
उव्वट्ठति; तेउलेसे उववज्जति, णो चेव णं तेउलेस्से उव्वट्ठति ।

[४] एवं आउक्काइय-वणप्फइकाइया वि ।

१५ [५] तेऊ वाऊ एवं चेव । णवरं एतेसिं तेउलेस्सा णत्थि ।

१२०४. विय-तिय-चउरिंदिया एवं चेव तिसु लेसासु ।

१२०५. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य जहा पुढविकाइया आदिल्लि-
यासु तिसु लेस्सासु भणिया (सु. १२०३[१-२]) तहा छसु वि लेसासु
भाणियव्वा । णवरं छप्पि लेसाओ चारियव्वाओ ।

२० १२०६. वाणमंतरा जहा असुरकुमारा (सु. १२०२) ।

१२०७. [१] से णूणं भंते ! तेउलेस्से जोइसिए तेउलेसेसु जोइसिएसु
उववज्जति ? जहेव असुरकुमारा ।

[२] एवं वेमाणिया वि । नवरं दोण्ह वि चयंतीति अभिलावो ।

[सुत्ताइं १२०८-१४. सलेस्सेसु २४ दंडएसु विभागणं उववाय-उव्वट्ठणाओ]

२५ १२०८. से णूणं भंते ! कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से णेरइए

१. °राण वि म० प्र० ॥ २. °ल्लेस्सेसु उ° ध० प्र० ॥ ३. °ज्जइ सिय तल्लेसे म० प्र० पु२ ॥

४. °स्सासु वि ध० म० प्र० ॥

कणहलेस्सेसु णीललेस्सेसु काउलेस्सेसु णेरइएसु उववज्जति ? कणहलेस्से णीललेस्से काउलेस्से उव्वट्टति ? जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वट्टति ? हंता गोयमा ! कणहलेस्स-णीललेस्स-काउलेस्सेसु उववज्जति, जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वट्टति ।

१२०९. से णूणं भंते ! कणहलेस्से जाव तेउलेस्से असुरकुमारे कणहलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु असुरकुमारेसु उववज्जति ? एवं जहेव नेरइए (सु. १२०८) तहा असुरकुमारे वि जाव थणियकुमारे वि । ५

१२१०. [१] से णूणं भंते ! कणहलेस्से जाव तेउलेस्से पुढविकाइए कणहलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढविकाइएसु उववज्जति ? एवं पुच्छा जहा असुर-कुमाराणं । हंता गोयमा ! कणहलेस्से जाव तेउलेस्से पुढविकाइए कणहलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढविकाइएसु उववज्जति, सिय कणहलेस्से उव्वट्टति सिय णीललेसे सिय काउलेस्से उव्वट्टति, सिय जल्लेस्से उववज्जइ तल्लेसे उव्वट्टइ, तेउलेसे उववज्जइ, णो चेव णं तेउलेस्से उव्वट्टति । १०

[२] एवं आउक्काइय-वणप्फइकाइया वि भाणियव्वा ।

[३] से णूणं भंते ! कणहलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेउक्काइए कणहलेसेसु णीललेसेसु काउलेसेसु तेउक्काइएसु उववज्जति ? कणहलेसे णीललेसे काउलेसे उव्वट्टति ? जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वट्टति ? हंता गोयमा ! कणहलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेउक्काइए कणहलेसेसु णीललेसेसु काउलेसेसु तेउक्काइएसु उववज्जति, सिय कणहलेसे उव्वट्टति सिय णीललेसे सिय काउलेस्से उव्वट्टति, सिय जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वट्टति । १५

[४] एवं वाउक्काइया वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया वि भाणियव्वा । २०

१२११. से णूणं भंते ! कणहलेसे जाव सुक्कलेसे पंचेंदियतिरिक्खजोणिए कणहलेसेसु जाव सुक्कलेसेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति ? ० पुच्छा । हंता गोयमा ! कणहलेस्से जाव सुक्कलेस्से पंचेंदियतिरिक्खजोणिए कणहलेस्सेसु जाव सुक्कलेस्सेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जति, सिय कणहलेस्से उव्वट्टति जाव सिय सुक्कलेस्से उव्वट्टति, सिय जल्लेसे उववज्जति तल्लेसे उव्वट्टति । २५

१२१२. एवं मणूसे वि ।

१२१३. वाणमंतरे जहा असुरकुमारे (सु. १२०९) ।

१२१४. जोइसिय-वेमाणिए वि एवं चेव । नवरं जस्स जल्लेसा, दोण्ह वि चयणं ति भाणियव्वं ।

[सुत्तं १२१५. कण्हलेस्सेसु नेरइएसु ओहिखेत्तपरुवणं]

१२१५. [१] कण्हलेस्से णं भंते ! णेरइए कण्हलेस्सं णेरइयं पणिहाए ओहिणा सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ केवतियं खेत्तं जाणति ? केवतियं खेत्तं पासइ ? गोयमा ! णो बहुयं खित्तं जाणति णो बहुयं खेत्तं पासइ, णो दूरं खेत्तं जाणति णो दूरं खेत्तं पासति, ईत्तिरियमेव खेत्तं जाणइ ईत्तिरियमेव खेत्तं पासति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति कण्हलेसे णं णेरइए तं चेव जाव ईत्तिरियमेव खेत्तं पासति ? गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिज्जंसि भूमिभागंसि ठिच्चा सव्वओ समंता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे धरणित्तलगत्तं पुरिसं पणिहाए सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ णो बहुयं खेत्तं जाव पासति जाव ईत्तिरियमेव खेत्तं पासइ, सेएणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति कण्हलेसे णं णेरइए जाव ईत्तिरियमेव खेत्तं पासति ।

[२] णीललेसे णं भंते ! णेरइए कण्हलेसं णेरइयं पणिहाय ओहिणा सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ केवतियं खेत्तं जाणइ ? केवतियं खेत्तं पासइ ? गोयमा ! बहुतरागं खेत्तं जाणति बहुतरागं खेत्तं पासति, दूरतरागं खेत्तं जाणइ दूरतरागं खेत्तं पासति, वित्तिमिरतरागं खेत्तं जाणइ वित्तिमिरतरागं खेत्तं पासइ, विसुद्धतरागं खेत्तं जाणति विसुद्धतरागं खेत्तं पासति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति णीललेस्से णं णेरइए कण्हलेस्सं णेरइयं पणिहाय जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पासइ ? गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ पव्वयं दुरूहति, दुरूहिता सव्वओ समंता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे धरणित्तलगयं पुरिसं पणिहाय सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ बहुतरागं खेत्तं जाणइ जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पासति, से एतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णीललेस्से णेरइए कण्हलेस्सं णेरइयं जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पासति ।

[३] काउलेसे णं भंते ! णेरइए णीललेस्सं णेरइयं पणिहाय ओहिणा सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ केवतियं खेत्तं जाणइ ? केवतियं खेत्तं पासइ ?

१. “कण्हलेसे णं भंते ! णेरइए कण्हलेसं णेरइयं पणिहाय ओहिणा सव्वओ समंता समभिलोएमाणे केवतियं खेत्तं जाणति ? केवतियं खेत्तं पासति ? गोयमा ! णो बहुतरयं खेत्तं जाणइ, णो बहुतरयं खेत्तं पासति, तिरियमेव खेत्तं पासति । जह लेस्सुद्देसए ।” इति सूत्रकृद्दं अध्व.५ उ.१ तृतीयगाथाचूर्णे प्रज्ञापनासूत्रपाठोद्धरणे ॥ २-४, ६-७. इत्तरिय पुर मु० ॥ ५. °तले गत्तं जे० ॥ ८-९. दूरतरखेत्तं मु० ॥ १०. पणिहाए जे० ॥ ११. °रागं खेत्तं जाणइ विसुद्धतरागं खेत्तं पा० मु० ॥

गोयमा ! बहुतरागं खेतं जाणइ बहुतरागं खेतं पासइ जाव विसुद्धतरागं खेतं पासइ । से केण्डेणं भंते ! एवं वुच्चति काउलेसे णं णेरइए जाव विसुद्धतरागं खेतं पासति ? गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ पव्वतं दुरूहति, दुरूहिता स्वखं दुरूहति, दुरूहिता दो वि पादे उंचाविय सव्वओ समंता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे पव्वतगयं धरणितलगयं च पुरिसं पणिहाय सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ बहुतरागं खेतं जाणति बहुतरागं खेतं पासति जाव वितिमिरतरागं(?) विसुद्धतरागं) खेतं पासइ, सेएण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चति काउलेस्से णं णेरइए णीललेस्सं णेरइयं पणिधाय तं चेव जाव वितिमिरतरागं(?) विसुद्धतरागं) खेतं पासति ।

[सुत्ताइं १२१६-१७. कण्हाइलेस्सेसु जीविसु णाणपरूचणं]

१०

१२१६. [१] कण्हेस्से णं भंते ! जीवे कतिसु णाणेसु होजा ? गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा णाणेसु हुजा, दोसु होमाणे आभिणिबोहिय-सुयणाणेसु होजा, तिसु होमाणे आभिणिबोहिय-सुयणाण-ओहिणाणेसु होजा, अहवा तिसु होमाणे आभिणिबोहिय-सुयणाण-मणपज्जवणाणेसु होजा, चउसु होमाणे आभिणिबोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाण-मणपज्जवणाणेसु होजा ।

१५

[२] एवं जाव पम्हलेस्से ।

१२१७. सुक्केस्सें णं भंते ! जीवे कइसु णाणेसु होजा ? गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउसु वा एगम्मि वा होजा, दोसु होमाणे आभिणिबोहियणाणं एवं जहेव कण्हेस्साणं (सु. १२१६[१]) तहेव भाणियच्चं जाव चउहिं, एगम्मि होमाणे एगम्मि केवलणाणे होजा ।

२०

॥ पणवणाए भगवतीए लेस्सापदे ततिओ उद्देसओ समत्तो ॥

*

चउत्थो उद्देसओ

[सुत्तं १२१८. चउत्थुद्देसस्स अहिगारपरूचणं]

१२१८. परिणाम१ वण्ण २रस ३गंध ४सुद्ध ५अपसत्थ ६संकलिङ्गुणा ७-८ । २५
गति ९परिणाम १०पदेसावगाह ११-१ २वग्गण ३ठाणाणमप्वहुं ४-१ ५ ॥ २१० ॥

[सुत्तं १२१९. लेस्साभेयपरूवणं]

१२१९. कति णं भंते! लेस्साओ पणत्ताओ? गोयमा! छलेसाओ पणत्ताओ। तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा।

[सुत्ताइं १२२०-२५. १ परिणामाहिगारो]

५ १२२०. से णूणं भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति। से केणट्ठेणं भंते! एवं वुच्चति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? गोयमा! से जहाणामए
१० खीरे दूसिं पप्प सुद्धे वा वत्थे रागं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति, सेणट्ठेणं गोयमा! एवं वुच्चइ कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति।

१२२१. एवं एतेणं अभिलावेणं णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प, काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प जाव भुज्जो
१५ २ परिणमति।

१२२२. से णूणं भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति।
२० से केणट्ठेणं भंते! एवं वुच्चति किण्हलेस्सा णीललेस्सं जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? गोयमा! से जहाणामए वेरुलियमणी सिया किण्हसुत्ताए वा णीलसुत्ताए वा लोहियसुत्ताए वा हालिद्दसुत्ताए वा सुक्किल्लसुत्ताए वा आइए समाणे

१२२४. एवं काउलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं, एवं तेउलेस्सा किण्हलेस्सं णीललेस्सं काउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं, एवं पम्हलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं सुक्कलेस्सं ।

१२२५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा किण्ह० णील० काउ० तेउ० पम्हलेस्सं पप्प जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! एवं चेव । ५

[सुत्ताइं १२२६-३२. २ वण्णाहिगारो]

१२२६. कण्हलेस्सा णं भंते ! वण्णेणं केरिसिया पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहाणामए जीमूए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कज्जले इ वा गवले इ वा गवलवलए इ वा जंवूफलए इ वा अँहारिट्टए इ वा परपुट्टे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकलभे इ वा किण्हँकेसे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्हासोए १० इ वा किण्हकणवीरए इ वा किण्हवंधुजीवए इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इँणट्टे समट्टे, किण्हलेस्सा णं एत्तो अणिट्टँतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुण्णतरिया चेव अंमणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता ।

१२२७. णीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहाणामएँ भिंगे इ वा भिंगपत्ते इ वा चासे ति वा चासपिच्छे इ वा सुए इ १५ वा सुँयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उँच्चंतए इ वा पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हलधरवसणे इ वा अयसिक्कुँसुमए इ वाँ वाणक्कुँसुमए इ वा अंजणकेसियाक्कुँसुमए इ वा णीलुप्पले इ वा नीलासोए इ वा णीलकणवीरए इ वा णीलवंधुजीवए इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इँणट्टे समट्टे, एत्तो जाव अमणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । २०

१२२८. काउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा !

१. सुक्कलेस्सं पप्प जाव भुज्जो भुज्जो परिणमइ ? हंता गोयमा ! तं चेव । पुर सु० ॥ २. ०मा ! तं चेव म० प्र० पुर ॥ ३. गवलवलए इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ ४. अँहारिट्टए इति पाठस्थाने अरिट्टए इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ५. किण्हँकेसेरे इ वा इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ६. भवे एयारूवे मलयवृत्तिगतावतरणे । भवे एतारूवे सु० ॥ ७. इणमट्टे पुर ॥ ८. ०ट्टरिया जे० ॥ ९. अमणापतरिया इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् । १०. ०ए भिंगए इ वा सु० ॥ ११. चासपिच्छे जे० ध० । चासपिच्छए सु० ॥ १२. सुयपिच्छे जे० ध० ॥ १३. उच्चत्तए जे० प्रदेसाव्याख्यायां च ॥ १४, १६-१७. कुसुमे इ वा म० प्र० पुर ॥ १५. वा वणक्कुँ मुद्रिते मुद्रितमलयवृत्तौ च, किन्तु मलयवृत्तेः ताडपत्रीयादिलिखितादर्शेषु वाणकुसुमे इत्येव पाठ उपलभ्यते ॥ १८. भवे तेयारूवा जे० ॥ १९. इणमट्टे पुर, एवमन्यत्रापि ॥

[सुत्तं १२१९. लेस्साभेयपरूवणं]

१२१९. कति णं भंते! लेस्साओ पणत्ताओ? गोयमा! छलेसाओ पणत्ताओ। तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा।

[सुत्ताइं १२२०-२५. १ परिणामाहिगारो]

५ १२२०. से णूणं भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावणत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावणत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति। से केणट्ठेणं भंते! एवं बुच्चति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? गोयमा! से जहाणामए खीरे दूसिं पप्प सुद्धे वा वत्थे रागं पप्प तारूवत्ताए तावणत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति, सेएणट्ठेणं गोयमा! एवं बुच्चइ कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति।

१० १२२१. एवं एतेणं अभिलावेणं णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प, काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प जाव भुज्जो २ परिणमति।

१५ १२२२. से णूणं भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति।

२० से केणट्ठेणं भंते! एवं बुच्चति किण्हलेस्सा णीललेस्सं जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? गोयमा! से जहाणामए वेरुलियमणी सिया किण्हसुत्ताए वा णीलसुत्ताए वा लोहियसुत्ताए वा हालिदसुत्ताए वा सुक्किल्लसुत्ताए वा आइए समाणे तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति, सेएणट्ठेणं गोयमा! एवं बुच्चइ किण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति।

२५ १२२३. से णूणं भंते! णीललेस्सा किण्हलेस्सं जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! एवं चेव।

१२२४. एवं काउलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं, एवं तेउलेस्सा किण्हलेसं णीललेसं काउलेसं पम्हलेसं सुक्कलेस्सं, एवं पम्हलेस्सा कण्हलेसं णीललेसं काउलेसं तेउलेसं सुक्कलेस्सं ।

१२२५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा किण्ह० णील० काउ० तेउ० पम्हलेस्सं पप्प जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! एवं चेव । ५

[सुत्ताइं १२२६-३२. २ वण्णाहिगारो]

१२२६. कण्हलेस्सा णं भंते ! वण्णेणं केरिसिया पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहाणामए जीमूए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कज्जले इ वा गवले इ वा गव्वलवले इ वा जंबूफले इ वा अँद्धारिट्टे इ वा परपुट्टे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकलभे इ वा किण्हँकेसे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्हासोए १० इ वा किण्हकणवीरए इ वा किण्हवंधुजीवए इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इण्णट्टे समट्टे, किण्हलेस्सा णं एत्तो अणिर्द्धतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमण्णणत्तरिया चेव अमणामत्तरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता ।

१२२७. णीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहाणामए भिंगे इ वा भिंगपत्ते इ वा चासे ति वा चासपिच्छे इ वा सुए इ १५ वा सुयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उच्चंतए इ वा पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हलधरवसणे इ वा अयसिक्कुसुमए इ वा वाणक्कुसुमए इ वा अंजणकेसियाक्कुसुमए इ वा णीलुप्पले इ वा नीलासोए इ वा णीलकणवीरए इ वा णीलवंधुजीवए इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इण्णट्टे समट्टे, एत्तो जाव अमणामयरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । २०

१२२८. काउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा !

१. सुक्कलेसं पप्प जाव भुज्जो भुज्जो परिणमइ ? हंता गोयमा ! तं चेव । पुर मु० ॥ २. ०मा ! तं चेव म० प्र० पुर ॥ ३. गव्वलवले इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ ४. अँद्धारिट्टे इति पाठस्थाने अरिट्टे इति पाठानुसारी मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ५. किण्हँकेसे इ वा इति पाठानुसारी मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ६. भवे एयारूवे मलयवृत्तिगतावतरणे । भवे एतारूवे मु० ॥ ७. इणमट्टे पुर ॥ ८. ०इरिया जे० ॥ ९. अमणावत्तरिया इति पाठानुसारी मलयवृत्तिव्याख्यानम् । १०. ०ए भिंगए इ वा मु० ॥ ११. चासपिच्छे जे० ध० । चासपिच्छे मु० ॥ १२. सुयपिच्छे जे० ध० ॥ १३. उव्वत्तए जे० प्रदेसव्याख्यायां च ॥ १४, १६-१७. कुसुमे इ वा म० प्र० पुर ॥ १५. वा वण्णं मुद्रिते मुद्रितमलयवृत्तौ च, किन्तु मलयवृत्तेः ताडपत्रीयादिलिखितादर्शेषु वाणक्कुसुमे इत्येव पाठ उपलभ्यते ॥ १८. भवे तेयारूवा जे० ॥ १९. इणमट्टे पुर, एवमन्थवापि ॥

[सुत्तं १२१९. लेस्साभेयपरूवणं]

१२१९. कति णं भंते! लेस्साओ पण्णत्ताओ? गोयमा! छ्ळेसाओ पण्णत्ताओ। तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा।

[सुत्ताइं १२२०—२५. १ परिणामाहिगारो]

५ १२२०. से णूणं भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति। से केणट्ठेणं भंते! एवं वुच्चति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? गोयमा! से जहाणामए
१० खीरे दूसिं पप्प सुद्धे वा वत्थे रागं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति, सेएणट्ठेणं गोयमा! एवं वुच्चइ कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति।

१२२१. एवं एतेणं अभिलावेणं णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प, काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प जाव भुज्जो
१५ २ परिणमति।

१२२२. से णूणं भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं काउलेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति।
२० से केणट्ठेणं भंते! एवं वुच्चति किण्हलेस्सा णीललेस्सं जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? गोयमा! से जहाणामए वेरुलियमणी सिया किण्हसुत्ताए वा णीलसुत्ताए वा लोहियसुत्ताए वा हालिद्दसुत्ताए वा सुक्किल्लसुत्ताए वा आइए समाणे तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति, सेएणट्ठेणं गोयमा! एवं वुच्चइ किण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति।

२५ १२२३. से णूणं भंते! णीललेस्सा किण्हलेस्सं जाव सुक्कलेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति? हंता गोयमा! एवं चेव।

१२२४. एवं काउलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्सं तेउलेस्सं पम्हलेस्सं सुक्कलेस्सं, एवं तेउलेस्सा किण्हलेसं णीललेसं काउलेसं पम्हलेसं सुक्कलेस्सं, एवं पम्हलेस्सा कण्हलेसं णीललेसं काउलेसं तेउलेसं सुक्कलेस्सं ।

१२२५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा किण्ह० णील० काउ० तेउ० पम्हलेस्सं पप्प जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! एवं चेव । ५

[सुत्ताइं १२२६-३२. २ वण्णाहिगारो]

१२२६. कण्हलेस्सा णं भंते ! वण्णेणं केरिसिया पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहाणामए जीमूए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कज्जले इ वा गवले इ वा गव्वलवलए इ वा जंवूफलए इ वा अँद्वारिट्टए इ वा परपुट्टे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकलभे इ वा किण्हँकेसे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्ह्हासोए १० इ वा किण्हकणवीरए इ वा किण्हवंधुजीवए इ वा । भँवेतारूवा ? गोयमा ! णो इँणट्टे समट्टे, किण्हलेस्सा णं एत्तो अणिट्टतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुण्णतरिया चेव अमणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता ।

१२२७. णीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहाणामएँ भिंगे इ वा भिंगपत्ते इ वा चासे ति वा चासपिच्छे इ वा सुए इ १५ वा सुँयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उँचंतए इ वा पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हलधरवसणे इ वा अयसिक्कुँसुमए इ वा वाणक्कुँसुमए इ वा अंजणेकेसियाक्कुँसुमए इ वा णीलप्पले इ वा नीलासोए इ वा णीलकणवीरए इ वा णीलवंधुजीवए इ वा । भँवेतारूवा ? गोयमा ! णो इँणट्टे समट्टे, एत्तो जाव अमणामयरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । २०

१२२८. काउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा !

१. सुक्कलेसं पप्प जाव भुज्जो भुज्जो परिणमइ ? हंता गोयमा ! तं चेव । पुर २०॥ २. ०मा ! तं चेव म० प्र० पुर ॥ ३. गवलवलए इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ ४. अद्वारिट्टए इति पाठस्थाने अरिट्टए इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ५. किण्हकेसेरे इ वा इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् ॥ ६. भवे एयारूवे मलयवृत्तिगतावतरणे । भवे एतारूवे मु० ॥ ७. इणमट्टे पुर ॥ ८. ०ट्टरिया जे० ॥ ९. अमणावतरिया इति पाठानुसारि मलयवृत्तिव्याख्यानम् । १०. ०ए भिंगए इ वा मु० ॥ ११. चासपिच्छे जे० ४० । चासपिच्छए मु० ॥ १२. सुयपिच्छे जे० ४० ॥ १३. उव्वत्तए जे० प्रदेशव्याख्यायां च ॥ १४, १६-१७. कुसुमे इ वा म० प्र० पुर ॥ १५. वा वणक्कुँ मुद्रिते मुद्रितमलयवृत्तौ च, किन्तु मलयवृत्तेः ताडपत्रीयादिलिखितादर्शेषु वाणक्कुसुमे इत्येव पाठ उपलभ्यते ॥ १८. भवे तेयारूवा जे० ॥ १९. इणमट्टे पुर, एवमन्यत्रापि ॥

से जहाणामए खयरसारे इ वा कैयरसारे इ वा धमाससारे इ वा तंवे इ वा तंवकरोडए इ वा तंवच्छिवाडियाँ इ वा वाइंगणिकुंसुमए इ वा कोइल्लच्छद-कुंसुमए इ वा ◁ जवासाकुसुमे इ वा कलकुसुमे इ वा ▷ । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, काउलेस्सा णं एत्तो अँणिइतरिया जाव अमणा-
५ मयरिया चेव वण्णेणं पणत्ता ।

१२२९. तेउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पणत्ता ? गोयमा ! से जहाणामए ससरुहिरे इ वा उरन्भरुहिरे इ वा वराहरुहिरे इ वा संवररुहिरे इ वा मणुस्सरुहिरे इ वाँ चालिंदगोवे इ वा चालदिवागरे इ वा संज्ञन्भरागे इ वा गुंजद्धरागे इ वा जाइहिंगुलए इ वा पवालंकरे इ वा लक्खारसे इ वा १० लोहियक्खमणी इ वा किमिरागकंबले इ वा गँयतालुए इ वा चीणापिट्टरासी इ वा पालियायकुसुमे इ वा जाँसुमणाकुसुमे इ वा किंसुर्यँपुप्फरासी इ वा रत्तुप्पले इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ वा रत्तवंधुजीवए इ वा । भवेयारूवा ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, तेउलेस्सा णं एत्तो इइतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव वण्णेणं पणत्ता ।

१५ १२३०. पम्हलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पणत्ता ? गोयमा ! से जहाणामँए चंपे इ वा चंपयछल्ली इ वा चंपयभेदे इ वा हलिदा इ वा हलिदगुलिया इ वा हलिदाभेए इ वा हरियाले इ वा हरियालगुलिया इ वा हरियालभेए इ वा चिउरे इ वा चिउररागे इ वा सुवण्णसिप्पी इ वा वरकणगणिहसे इ वा वरपुरिसवसणे इ वा अल्लइकुसुमे इ वा चंपयकुसुमे इ वा कैणियारकुसुमे इ वा २० कुहंडियाकुसुमे इ वा सुवण्णजूहिया इ वा सुहिरणियाकुसुमे इ वा कोरेट्टेमल्लदांमे इ वा पीयासोगे इ वा पीयकणवीरए इ वा पीयवंधुजीवए इ वा । भवेतारूवा ?

१. खइर° पुर । खदिर° सु० ॥ २, ४-५. °सारए इ वा म० प्र० पुर ॥ ३. कइर° पुर सु० ॥
६. °याए इ सु० ॥ ७, ९. °कुसुमे इ वा म० पुर ॥ ८. °लच्छाकु° जे० ॥ १०. ◁▷ एत-
च्चिह्नमध्यगतः पाठो मलयवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ ११. कलकुसुमे इ वा इति पाठः प्र० पु१ पुर
प्रतिपु श्रीधनविमलगणिकृतस्तवके च नारित । कलमुकुसुमे इ वा पुर । “कलसकुसुमे इ
वा-कलसकुसुम फूल जेहवो” इति श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके ॥ १२. अकंततरिया जे० घ० ॥
१३. वा इंदगोवे इ वा चालिं° मुद्रिते एव, मुद्रितादर्शे उपलभ्यमानोऽयं पाठो भ्रान्तिजनित
एव, न हि कस्मिंश्चिदप्यादर्शे उपलभ्यते ॥ १४. °कुरए इ पुर ॥ १५. गइता° जे० घ० ॥
१६. पारियाय° पुर । पारिजाय° सु० ॥ १७. जासुमिणाकु° जे० ॥ १८. °यकुसुमरासी घ० ॥
१९. भवे एयारूवा इति मलयवृत्तिगतावतरणे ॥ २०. °मए चंपा इ जे० घ० म० प्र० ॥
२१ कणियार° मुद्रिते, मुद्रितमलयवृत्तौ च ॥ २२. कोडेट्टमल्ल° जे० ॥

गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, पम्हलेस्सा णं एत्तो इड्डतरिया चेव जाव मणामतरिया
चेव वण्णेणं पण्णत्ता ।

१२३१. सुक्कलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा !
से जहाणामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे इ वा कुंदे इ वा दगे इ वा दगरए
इ वा दही इ वा दहिघणे इ वा खीरे इ वा खीरपूरे इ वा सुक्कळिवाडिया इ वा ५
पेहुणमिंजिया इ वा धंत-धोयरूपपट्ठे इ वा सारइयवलहए इ वा कुमुददले इ वा
पोंडरियदले इ वा सालिपिट्टरासी ति वा कुडगपुप्फरासी ति वा सिंदुवारवरमल्लदामे
इ वा सेयासोए इ वा सेयकणवीरे इ वा सेयचंशुजीवए इ वा । भवेतारूया ?
गोयमा ! णो इण्ठे सम्ठे, सुक्कलेस्सा णं एत्तो इड्डतरिया चेव कंतयरिया चेव
पियतरिया चेव मणुण्णतरिया चेव मणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । १०

१२३२. एयाओ णं भंते ! छल्लेस्साओ कतिसु वण्णेसु साहिज्जंति ?
गोयमा ! पंचसु वण्णेसु साहिज्जंति । तं जहा-कण्हलेसा कालएणं वण्णेणं
साहिज्जति, णीललेस्सा णीलएणं वण्णेणं साहिज्जति, काउलेस्सा काललोहिएणं
वण्णेणं साहिज्जति, तेउलेस्सा लोहिएणं वण्णेणं साहिज्जइ, पम्हलेस्सा हालिहएणं
वण्णेणं साहिज्जइ, सुक्कलेस्सा सुक्किलएणं वण्णेणं साहिज्जइ । १५

[सुत्ताइं १२३३-३८. ३ रसाहिगारो]

१२३३. कण्हलेस्सा णं भंते ! केरिसिया आसाएणं पण्णत्ता ? गोयमा !
से जहाणामए णिंवे इ वा णिंवसरे इ वा णिंवल्ली इ वा णिंवफाणिए इ वा
कुडए इ वा कुडगफले इ वा कुडगल्ली इ वा कुडगफाणिए इ वा कडुगतुंवी इ
वा कडुगतुम्बीफले ति वा खारतउसी इ वा खारतउसीफले इ वा देवदाली इ वा २०
देवदालिपुप्फे इ वा मियँवालुंकी इ वा मियँवालुंकीफले इ वा घोसाडिए इ वा
घोसाडइफले इ वा कण्हकंदए इ वा वज्जकंदए इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा !
णो इण्ठे सम्ठे, कण्हलेस्सा णं एत्तो अणिड्डतरिया चेव जाव अमणामयरिया चेव
अँस्साएणं पण्णत्ता ।

१२३४. णीललेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहाणामए भंगी ति वा २५

१. °पूरए इ मु० ॥ २. सिंदुवारमल्लदामे मु० ॥ ३. चेव मणामत° प्र० । चेव मणुण्णतरिया चेव
वण्णेणं मु० ॥ ४. सुक्किलएणं मु० ॥ ५. °ए णिंवए इ जे० ध० म० ॥ ६. °सारए जे० ध० ॥ ७.
मित्वा° जे० ध० । मिगवा° पुर ॥ ८. मिगवा° पुर ॥ ९. घोसाडइ इ वा मु० ॥ १०. आसाएणं
म० प्र० मु०, एवमन्यत्राप्यस्मिन्नधिकारे ॥ ११. °ए हिं(भि)गी ति वा भंगीरिया इ वा जे० ॥

भंगीरए इ वा पाढा इ वा चँविता इ वा चित्तामूलए इ वा पिप्पलीमूलए इ वा पिप्पली इ वा पिप्पल्लिचुण्णे इ वा मिरिए इ वा मिरियचुण्णे इ वा सिंगवेरे इ वा सिंगवेरचुण्णे इ वा । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे, णीललेस्सा णं एत्तो जाव अमणामतरिया चेव अस्साएणं पणत्ता ।

५ १२३५. काउलेस्साए पुच्छ । गोयमा ! से जहाणामए अंबाण वा अंबाडगाण वा माउलुंगाण वा विल्लाण वा कविट्ठाण वा भँट्टाण वा फणसाण वा दालिमाण वा पारेवयाण वा अक्खोलाण वा चोर्राण वा बोराण वा तेंदुयाण वा अपिक्काणं अपरियागाणं वण्णेणं अणुववेताणं गंधेण अणुववेयाणं फासेणं अणुववेयाणं । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे, जाव एत्तो अमणामयरिया चेव काउलेस्सा अस्साएणं पणत्ता ।

१२३६. तेउलेस्सा णं पुच्छ । गोयमा ! से जहाणामए अंबाण वा जाँव तेंदुयाण वा पिक्काणं परियावण्णाणं वण्णेणं उववेताणं पसत्थेणं. जाव फासेणं जाव एत्तो मणामयरिया चेव तेउलेस्सा अस्साएणं पणत्ता ।

१२३७. पम्हलेस्साए पुच्छ । गोयमा ! से जहाणामए चंदप्पभा इ वा मँणिसिलागा इ वा वरसीधू इ वा वरवारुणी ति वा पत्तासवे इ वा पुप्फासवे इ वा फलासवे इ वा चोयासवे इ वा आसवे इ वा मधू इ वा मेरँए इ वा कविसाणए इ वा खज्जूरसारए इ वा मुद्दियासारए इ वा सुँपिक्कखोयरसे इ वा अट्टपिट्ठणिट्ठिया इ वा जंबूफलकालिया इ वा वरपसण्णा इ वा आँसला मँसला पेसला ईसी ओट्टावलंविणी ईसिं वोच्छेयकडुई ईसी तंवाच्छिकरणी उक्कोसमयपत्ता वण्णेणं

१. वा पाठी इ वा पाढा इ वा चपा इ वा चित्ता° पुर ॥ २. चविता इ वा इति पाठो मलयवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ ३. पिप्पलीमूलए इ वा इति पाठो जे० ध० श्रीजीवविजयकृतस्तवके च नास्ति ॥ ४. माउलुंगाण मु० ॥ ५. भच्चाण ध० म० प्र० पुर । “भच्चाण-भर्चवृक्षना फल” श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके । “भट्टाण-द्राघ अपक्व जेहवी” श्रीधनविमलगणिकृतस्तवके । दृश्यतां पत्रं २७३ टि. ४ ॥ ६. अक्खोडयाण म० प्र० पुर ॥ ७. “वा बोराण वा पोराण वा तें वोर प्रसिद्ध, प्रोराणि प्रौढवदराणि” इति श्रीधनविमलगणिकृतस्तवके ॥ ८. चोराण वा इति पाठो पुर मुद्रिते जीवविजयगणिकृतस्तवके च नास्ति । चाराण वा प्र० । दृश्यतां पत्रं २७३ टि. ८ ॥ ९. अपक्काणं पुरसं० मु० ॥ १०. जाव तेंदुयाण वा इति पाठः पुर प्रतावेव ॥ ११. पक्काणं म० प्र० पुर ॥ १२. आस्ताएणं ध० म० प्र० ॥ १३. मणिसिलागा इ जे० । मणिसिला इ म० प्र० । मणिसलागा इ पुर ॥ १४. मेरतिए इ जे० ध० ॥ १५. सुपक्क° मु० ॥ १६. वा कडुयपिट्ठ° जे० । वा कट्टपिट्ठ° म० प्रतौ पाठान्तरम् ॥ १७. धासला इति पाठो मलयवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ १८. मंसला म० मु० ॥

उववेया जाव फासेणं, आसायणिजा वीसायणिजा पीणणिजा विहणिजा दीवणिजा
दप्पणिजा मयणिजा सच्चिदिय-गायपल्हायणिजा । भवेतारूया ? गोयमा ! णो
इण्ढे सम्ढे, पम्हलेस्सा णं एत्तो इड्ढतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव अस्साएणं
पणत्ता ।

१२३८. सुक्कलेस्सा णं भंते ! केरिसिया अस्साएणं पणत्ता ? गोयमा ! ५
से जहाणामए गुले इ वा खंडे इ वा सक्करा इ वा मच्चंडिया इ वा पप्पडमोदए
इ वा भिसकंदे इ वा पुप्फुत्तरा इ वा पउमुत्तरा इ वा आयंसिया इ वा सिद्ध-
त्थिया इ वा आगासफालिओवमा इ वा अणोवमाइ वा । भवेतारूवा ? गोयमा !
णो इण्ढे सम्ढे, सुक्कलेस्सा णं एत्तो इड्ढतरिया चेव कंततरिया चेव पियंतरिया
चेव मणामयरिया चेव अस्साएणं पणत्ता । १०

[सुत्ताइं १२३९-४१. ४-९ गंधाहिगाराइ अहिगारच्छकं]

१२३९. कति णं भंते ! लेस्साओ दुब्भिगंधाओ पणत्ताओ ? गोयमा !
तओ लेस्साओ दुब्भिगंधाओ पणत्ताओ । तं जहा-क्किण्हेस्सा णील्लेस्सा
काउलेस्सा ।

१२४०. कति णं भंते ! लेस्साओ सुब्भिगंधाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! १५
तओ लेस्साओ सुब्भिगंधाओ पणत्ताओ । तं जहा-तेउलेस्सा पम्हलेस्सा
सुक्कलेस्सा ।

१२४१. एवं तओ अविस्सुद्धाओ तओ विस्सुद्धाओ, तओ अप्पसत्थाओ
तओ पसत्थाओ, तओ संकिलिद्धाओ तओ असंकिलिद्धाओ, तओ सीयलुक्खाओ
तओ निद्धुण्हाओ, तओ दुग्गइर्गांमिणीओ तओ सुगइर्गांमिणीओ । २०

[सुत्तं १२४२. १० परिणामाहिगारो]

१२४२. कण्हेस्सा णं भंते ! कतिविधं परिणामं परिणमति ? गोयमा !
तिविहं वा नवविहं वा सत्तावीसतिविहं वा एक्कासीतिविहं वा बेतेयालसतविहं वा
बहुं वा बहुविहं वा परिणामं परिणमति । एवं जाव सुक्कलेसा ।

१. विहणिजा इति पाठो मलयवृत्तौ न व्याख्यातः ॥ २. मच्चंडिया म० प्र० ॥ ३. वा उवमाइ
वा मणो म० पुरसं० सु० ॥ ४. पिततरिया जे० ध० म० पुर० ॥ ५-६. °गामियाओ
म० प० प० ॥

[सुत्तं १२४३. ११ पदेसाहिगारो]

१२४३. कणहलेस्सा णं भंते ! कतिपदेसिया पणत्ता ? गोयमा !
अणंतपदेसिया पणत्ता । एवं जाव सुक्कलेस्सा ।

[सुत्तं १२४४. १२ अवगाहाहिगारो]

५ १२४४. कणहलेस्सा णं भंते ! कइएसोगाढा पणत्ता ? गोयमा !
असंखेज्जपएसोगाढा पणत्ता । एवं जाव सुक्कलेस्सा ।

[सुत्तं १२४५. १३ वग्गणाहिगारो]

१२४५. कणहलेस्साए णं भंते ! केवतियाओ वग्गणाओ पणत्ताओ ?
गोयमा ! अणंताओ वग्गणाओ पणत्ताओ । एवं जाव सुक्कलेस्साए ।

१०

[सुत्तं १२४६. १४ ठाणाहिगारो]

१२४६. केवतिया णं भंते ! कणहलेस्साठाणा पणत्ता ? गोयमा !
असंखेज्जा कणहलेस्साठाणा पणत्ता । एवं जाव सुक्कलेस्साए ।

[सुत्ताइं १२४७-४९. १५ अप्पबहुअहिगारो]

१५ १२४७. एतेसि णं भंते ! कणहलेस्साठाणाणं जाव सुक्कलेस्साठाणाण थ
जहण्णगाणं दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएसड्डयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा
४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्साठाणा दव्वड्डयाए, जहण्णगा
णीललेस्साठाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा कणहलेस्साठाणा दव्वड्डयाए
असंखेज्जगुणा, जहण्णगा तेउलेस्सड्डाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा
पम्हलेस्साठाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा सुक्कलेस्सड्डाणा दव्वड्डयाए
२० असंखेज्जगुणा; पदेसड्डयाए-सव्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्साठाणा पएसड्डयाए,
जहण्णगा णीललेस्सड्डाणा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा कणहलेस्साठाणा
पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा तेउलेस्सड्डाणा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा,
जहण्णगा पम्हलेस्सड्डाणा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णगा सुक्कलेस्साठाणा
पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा; दव्वड्डपदेसड्डयाए-सव्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सड्डाणा
२५ दव्वड्डयाए, जहण्णगा णीललेस्सड्डाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं कणहलेस्सड्डाणा

तेउलेस्सद्वाणा पम्हलेस्सद्वाणा, जहण्णगा सुक्कलेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा,
जहण्णएहिंतो सुक्कलेस्सद्वाणेहिंतो दव्वड्डयाए जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा पदेसड्डयाए
अणंतगुणा, जहण्णगा णीललेस्सद्वाणा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं जाव
सुक्कलेस्सद्वाणा ।

१२४८. एतेसि णं भंते ! कण्हलेस्सद्वाणाणं जाव सुक्कलेस्सद्वाणाण य ५
उक्कोसगाणं दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा
४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा उक्कोसगा काउलेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए, उक्कोसगा
णीललेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं जहेव जहण्णगा तहेव उक्कोसगा
वि, णवरं उक्कोस ति अभिलावो ।

१२४९. एतेसि णं भंते ! कण्हलेस्सद्वाणाणं जाव सुक्कलेस्सद्वाणाण य १०
जहण्णुक्कोसगाणं दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा
वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए, जहण्णया
णीललेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं कण्हलेस्सद्वाणा तेउलेस्सद्वाणा
पम्हलेस्सद्वाणा, जहण्णगा सुक्कलेसद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, जहण्णएहिंतो
सुक्कलेस्सद्वाणेहिंतो दव्वड्डयाए उक्कोसा काउलेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, १५
उक्कोसा णीललेसद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं कण्हलेसद्वाणा तेउलेसद्वाणा
पम्हलेसद्वाणा, उक्कोसा सुक्कलेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा; पदेसड्डयाए—
सव्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सद्वाणा पएसड्डयाए, जहण्णगा णीललेसद्वाणा
पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं जहेव दव्वड्डयाए तहेव पएसड्डयाए वि भाणियव्वं,
णवरं पएसड्डयाए ति अभिलावविसेसो; दव्वड्डपएसड्डयाए—सव्वत्थोवा जहण्णगा २०
काउलेस्सद्वाणा दव्वड्डयाए, जहण्णगा णीललेसद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं
कण्हलेसद्वाणा तेउलेसद्वाणा पम्हलेसद्वाणा, जहण्णया सुक्कलेसद्वाणा दव्वड्डयाए
असंखेज्जगुणा, जहण्णएहिंतो सुक्कलेसद्वाणेहिंतो दव्वड्डयाए उक्कोसा काउलेसद्वाणा
दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, उक्कोसा णीललेसद्वाणा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा,
एवं कण्हलेसद्वाणा तेउलेसद्वाणा पम्हलेसद्वाणा, उक्कोसगा सुक्कलेसद्वाणा दव्वड्डयाए २५
असंखेज्जगुणा, उक्कोसएहिंतो सुक्कलेसद्वाणेहिंतो दव्वड्डयाए जहण्णगा काउलेसद्वाणा
पदेसड्डयाए अणंतगुणा, जहण्णगा णीललेसद्वाणा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं
कण्हलेसद्वाणा तेउलेसद्वाणा पम्हलेसद्वाणा, जहण्णगा सुक्कलेसद्वाणा असंखेज्जगुणा,

जहण्णएहिंतो सुक्कलेसद्दणोहिंतो पदेसड्डयाए उक्कोसा काउलेसद्दणा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा, उक्कोसया णीललेसद्दणा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं कण्हलेसद्दणा तेउलेसद्दणा पम्हलेसद्दणा, उक्कोसया सुक्कलेसद्दणा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा ।

५ । पणवणाए भगवतीए लेस्सापदे चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

*

पंचमो उद्देसओ

[सुत्तं १२५०. लेस्साभेयपरूवणं]

१० १२५०. कति णं भंते ! लेस्साओ पणत्ताओ ? गोयमा ! छलेसाओ पणत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[सुत्ताइं १२५१-५५. लेस्साणं परिणमणभावपरूवणं]

१२५१. से णूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावणत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? एत्तो आढत्तं जहा चउत्थुद्देसए तहा भाणियव्वं जाव वेरुलियमणिदिड्डंतो त्ति ।

१५ १२५२. से णूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए णो तावणत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए णो तावणत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा से २० सिया कण्हलेस्सा णं सा, णो खलु सा णीललेस्सा, तत्थ गता उस्सक्कति, से-तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ।

२५ १२५३. से णूणं भंते ! णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा सिया णीललेस्सा णं सा, णो खलु सा काउलेस्सा,

तत्थ गता उस्सकृति वा ओसकृति वा, सेएणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ।

१२५४. एवं काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प ।

१२५५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव परिणमति ? हंता गोयमा ! सुक्कलेस्सा तं चेव । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति सुक्कलेस्सा जाव णो परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा जाव सुक्कलेस्सा णं सा, णो खलु सा पम्हलेस्सा, तत्थ गता ओसकृति, सेएणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ जाव णो परिणमति ।

॥ लेस्सापदे पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥

१०

*

छट्टो उद्देसओ

[सुत्तं १२५६. लेस्साभेयपरूवणं]

१२५६. कति णं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छल्लेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

१५

[सुत्तं १२५७. मणुस्सेसु लेस्सापरूवणं]

१२५७. [१] मणुसाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छल्लेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[२] मणुसीणं पुच्छ । गोयमा ! छल्लेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

२०

[३] कम्मभूमयमणुसाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[४] एवं कम्मभूमयमणुसीण वि ।

[५] भरहेरवयमणुसाणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

२५

जहण्णएहिंतो सुक्कलेसद्वाणोहिंतो पदेसड्डयाए उक्कोसा काउलेसद्वाणा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा, उक्कोसया णीललेसद्वाणा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा, एवं कण्हलेसद्वाणा तेउलेसद्वाणा पम्हलेसद्वाणा, उक्कोसया सुक्कलेसद्वाणा पएसड्डयाए असंखेज्जगुणा ।

५ ॥ पणवणाए भगवतीए लेस्सापदे चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

*

पंचमो उद्देसओ

[सुत्तं १२५०. लेस्साभेयपरूवणं]

१० १२५०. कति णं भंते ! लेस्साओ पणत्ताओ ? गोयमा ! छलेसाओ पणत्ताओ । तं जहा—कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[सुत्ताइं १२५१-५५. लेस्साणं परिणमणभावपरूवणं]

१२५१. से णूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? एत्तो आढत्तं जहा चउत्थुद्देसए तहा भाणियव्वं जाव वेसलियमणिदिडंतो त्ति ।

१५ १२५२. से णूणं भंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए णो तावण्णत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए णो तावण्णत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा से २० सिया कण्हलेस्सा णं सा, णो खलु सा णीललेस्सा, तत्थ गता उस्सक्कति, से-तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ।

२५ १२५३. से णूणं भंते ! णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा सिया णीललेस्सा णं सा, णो खलु सा काउलेस्सा,

तत्थ गता उस्सकृति वा ओसकृति वा, सेण्णट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ णीललेस्सा काउलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमति ।

१२५४. एवं काउलेस्सा तेउलेस्सं पप्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पप्प ।

१२५५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा पम्हलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव परिणमति ? हंता गोयमा ! सुक्कलेस्सा तं चेव । से केण्णट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति सुक्कलेस्सा जाव णो परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा जाव सुक्कलेस्सा णं सा, णो खलु सा पम्हलेस्सा, तत्थ गता ओसकृति, सेण्णट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ जाव णो परिणमति ।

॥ लेस्सापदे पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥

१०

*

छट्ठो उद्देसओ

[सुत्तं १२५६. लेस्साभेयपरूवणं]

१२५६. कति णं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छहेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

१५

[सुत्तं १२५७. मणुस्सेसु लेस्सापरूवणं]

१२५७. [१] मणुस्साणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छहेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[२] मणुस्सीणं पुच्छ । गोयमा ! छहेसाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

२०

[३] कम्मभूमयमणुस्साणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

[४] एवं कम्मभूमयमणुस्सीण वि ।

[५] भरहेरवयमणुस्साणं भंते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छ । तं जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा ।

२५

[६] एवं मणूसीण वि ।

[७] पुव्वविदेह-अवरविदेहकम्मभूमयमणूसाणं भंते ! कति लेस्ताओ पणत्ताओ ? गोयमा ! छ लेसाओ । तं जहा-कण्हलेस्ता जाव सुक्कलेस्ता ।

[८] एवं मणूसीण वि ।

५ [९] अकम्मभूमयमणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि लेस्ताओ पणत्ताओ । तं जहा-कण्हलेस्ता जाव तेउलेस्ता ।

[१०] एवं अकम्मभूमयमणूसीण वि ।

[११] एवं अंतरदीवयमणूसाणं मणूसीण वि ।

१० [१२] हेमवय-एरणवयअकम्मभूमयमणूसाणं मणूसीण य कति लेस्ताओ पणत्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि । तं जहा-कण्हलेस्ता जाव तेउलेस्ता ।

[१३] हरिवास-रम्मयअकम्मभूमयमणूसाणं मणूसीण य पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि । तं जहा-कण्हलेस्ता जाव तेउलेस्ता ।

[१४] देवकुरुत्तरकुरुअकम्मभूमयमणूसाणं एवं चेव ।

[१५] एतेसिं चेव मणूसीणं एवं चेव ।

१५ [१६] धायइसंडपुंरिमद्धे एवं चेव, पच्छिमद्धे वि । एवं पुक्खरद्धे वि भाणियव्वं [ग्रन्थाग्रम्—५५००] ।

[सुत्तं १२५८. लेस्सं पडुच्च गव्वमुप्पत्तिपरूवणं]

१२५८. [१] कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे कण्हलेस्सं गव्वं जणेज्जा ? हंता गोयमा ! जणेज्जा ।

२० [२] कण्हलेस्से णं भंते ! मणूसे णीललेस्सं गव्वं जणेज्जा ? हंता गोयमा ! जणेज्जा ।

[३] एवं काउलेस्सं तेउलेस्सं पण्हलेस्सं सुक्कलेस्सं छपि मालावगा भाणियव्वा ।

१. °पुरत्थिमद्धे पु२ ॥ २. °रदीवे वि म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥ ३. कण्हलेस्सं मणूसं जणेजे० ॥ ४. जणेज्जा । जाव कण्ह० सुक्कलेस्सं गव्वं जणेज्जा । णीललेस्से णं मणूस्से कण्हलेस्सं गव्वं जणेज्जा ? हंता गो० ! जणेज्जा । एवं जाव णील० मणूस्से सुक्कलेस्सं गव्वं जणेज्जा । एवं काउलेस्सेणं छपि मालावगा भाणितव्वा, तेउलेस्सेण वि पण्हलेस्सेण वि सुक्कलेस्सेण वि । एवं एते छत्तीसं मालावगा म० प्र० पु२ ॥

[४] एवं णील्लेसेणं काउलेसेणं तेउलेसेण वि पम्हलेसेण वि सुक्कलेसेण वि, एवं एते छत्तीसं आलावगा ।

[५] कण्हलेस्सा णं भंते ! इत्थिया कण्हलेस्सं गव्वं जणेज्जा ? हंता गोयमा ! जणेज्जा । एवं एते वि छत्तीसं आलावगा ।

[६] कण्हलेसे णं भंते ! मणुस्से कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेस्सं गव्वं ५ जणेज्जा ? हंता गोयमा ! जणेज्जा । एवं एते छत्तीसं आलावगा ।

[७] कम्मभूमयकण्हलेस्से णं भंते ! मणुस्से कण्हलेस्साए इत्थियाए कण्हलेस्सं गव्वं जणेज्जा ? हंता गोयमा ! जणेज्जा । एवं एते वि छत्तीसं आलावगा ।

[८] अकम्मभूमयकण्हलेसे णं भंते ! मणुस्से अकम्मभूमयकण्हलेस्साए १० इत्थियाए अकम्मभूमयकण्हलेस्सं गव्वं जणेज्जा ? हंता गोयमा ! जणेज्जा, णवरं चउसु लेसासु सोलस आलावगा । एवं अंतरदीवगा वि ।

॥ छट्ठो उद्देशओ समत्तो ॥

॥ पणवणाए भगवईए सत्तरस्समं लेस्सापयं समत्तं ॥

१८. अट्टारसमं कायट्टिइपयं

[सुत्तं १२५९. अट्टारसमपयस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

१२५९. जीव १ गतिंदिय २-३ काए ४

जोगे ५ वेदे ६ कसाय ७ लेस्सा ८ य ।

५

सम्मत्त ९ णाण १० दंसण ११

संजय १२ उवओग १३ आहारे १४ ॥ २११ ॥

भासग १५ परित्त १६ पज्जत्त १७

सुहुम १८ सण्णी १९ भवऽत्थि २०-२१ चरिमे २२ य ।

एतेसिं तु पदाणं कायठिई होति णायव्वा ॥ २१२ ॥

१०

[सुत्तं १२६०. पढमं जीवदारं]

१२६०. जीवे णं भंते ! जीवे त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !

सव्वद्धं । दारं १ ॥

[सुत्ताइं १२६१-७०. वीयं गइदारं]

१२६१. णेरइए णं भंते ! नेरइए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !

१५ जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ।

१२६२ [१]. तिरिक्खजोणिए णं भंते ! तिरिक्खजोणिए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालतो, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेज्जा पोग्गल-परियट्ठा, ते णं पोग्गलपरियट्ठा आवलियाए असंखेज्जतिभागो ।

२०

[२] तिरिक्खजोणिणी णं भंते ! तिरिक्खजोणिणीति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं पुव्वकोडि-पुहुत्तंअब्भइयाइं ।

१२६३. [१] एवं मण्णसे वि ।

[२] मण्णसी वि एवं चेव ।

१२६४. [१] देवे णं भंते ! देवे त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !
जहेव णेरइए (सु. १२६१) ।

[२] देवी णं भंते ! देवीत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !
जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं पणपणं पलिओवमाइं ।

१२६५. सिद्धे णं भंते ! सिद्धे त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! ५
सादीए अपज्जवसिए ।

१२६६. [१] णेरइयअपज्जत्तए णं भंते ! णेरइयअपज्जत्तए त्ति कालओ
केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

[२] एवं जाव देवी अपज्जत्तिया ।

१२६७. णेरइयपज्जत्तए णं भंते ! णेरइयपज्जत्तए त्ति कालओ केवचिरं १०
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं
सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१२६८. [१] तिरिक्खजोणियपज्जत्तए णं भंते ! तिरिक्खजोणिय-
पज्जत्तए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं ।

१५

[२] एवं तिरिक्खजोणिपज्जत्तिया वि ।

१२६९. मणूसे मणूसी वि एवं चैव ।

१२७०. [१] देवपज्जत्तए जहा णेरइयपज्जत्तए (सु. १२६७) ।

[२] देविपज्जत्तिया णं भंते ! देविपज्जत्तिय त्ति कालओ केवचिरं होइ ?
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं पणपणं
पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाइं । दारं २ ॥

[१२७१-८४. तइयं इंदियदारं]

१२७१. सइंदिए णं भंते ! सइंदिए त्ति कालओ केवचिरं होइ ?
गोयमा ! सइंदिए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणाट्टिए वा अण्णत्तिए वा अण्णत्तिए
वा सपज्जवसिए २ ।

२५

१२७२. एगिंदिए णं भंते ! एगिंदिए त्ति कालओ केवचिरं होइ ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अण्णत्तिए वा अण्णत्तिए वा अण्णत्तिए
२०

१२७३. वेइंदिए णं भंते ! वेइंदिए ति कालओ केवचिरं होइ ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं ।

१२७४. एवं तेइंदिय-चउरिंदिए वि ।

१२७५. पंचेंदिए णं भंते ! पंचेंदिए ति कालतो केवचिरं होइ ?
५ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसहस्सं सातिरेगं ।

१२७६. अणिंदिए णं ० पुच्छ । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।

१२७७. सइंदियअपज्जत्तए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१२७८. एवं जाव पंचेंदियअपज्जत्तए ।

१० १२७९. सइंदियपज्जत्तए णं भंते ! सइंदियपज्जत्तए ति कालओ केवचिरं
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसतपुहत्तं सातिरेगं ।

१२८०. एगिंदियपज्जत्तए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२८१. वेइंदियपज्जत्तए णं भंते ! वेइंदियपज्जत्तए ति ० पुच्छ ।

१५ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वासाइं ।

१२८२. तेइंदियपज्जत्तए णं भंते ! तेइंदियपज्जत्तए ति ० पुच्छ ।

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं रातिंदियाइं ।

१२८३. चउरिंदियपज्जत्तए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जा मासा ।

२० १२८४. पंचेंदियपज्जत्तए णं भंते ! पंचेंदियपज्जत्तए ति कालओ केवचिरं
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्तं । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं १२८५-१३२०. चउत्थं कायदारं]

१२८५. सकाइए णं भंते ! सकाइए ति कालओ केवचिरं होइ ?
गोयमा ! सकाइए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १

२५ अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१२८६. पुढविक्काइए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, असंखेज्जाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेतओ
असंखेज्जा लोगा ।

१२८७. एवं आउ-तेउ-वाउक्काइया वि ।

१२८८. वणप्फइकाइया णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा, ते णं पोग्गलपरियट्ठा आवलियाए असंखेज्जभागो ।

५

१२८९. तसकाइए णं भंते ! तसकाइए त्ति ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइं संखेज्जवासअम्भइयाइं ।

१२९०. अकाइए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! अकाइए सादीए अपज्जवसिए ।

१२९१. सकाइयअपज्जत्तए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि १०
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१२९२. एवं जाव तसकाइयअपज्जत्तए ।

१२९३. सकाइयपज्जत्तए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्तं सातिरेगं ।

१२९४. पुढविक्काइयपज्जत्तए णं ० पुच्छ ! गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, १५
उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२९५. एवं आऊ वि ।

१२९६. तेउक्काइयपज्जत्तए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं राइंदियाइं ।

१२९७. वाउक्काइयपज्जत्तए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, २०
उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२९८. वणप्फइकाइयपज्जत्तए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१२९९. तसकाइयपज्जत्तए णं ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्तं सातिरेगं ।

२५

१३००. सुहुमे णं भंते ! सुहुमे त्ति कालओ केवचिरं होत्ति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं असंखेज्जाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेज्जा लोगा ।

१३०१. सुहुमपुढविकाइए सुहुमआउकाइए सुहुमतेउकाइए सुहुमवा-
उकाइए सुहुमवणप्फइकाइए सुहुमणिगोदे वि जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
असंखेज्जं कालं, असंखेजाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेतओ असंखेजा
लोगा ।

५ १३०२. सुहुमे णं भंते ! अपज्जत्तए त्ति ० पुच्छा ! गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३०३. पुढविकाइए-आउकाइए-तेउकाइए-वाउकाइए-वणस्सइकाइयाण
य एवं चेव ।

१३०४. पज्जत्तयाण वि एवं चेवं ।

१० १३०५. चादरे णं भंते ! चादरे त्ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, असंखेजाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ
कालतो, खेतओ अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं ।

१३०६. चादरपुढविकाइए णं भंते ! २ पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

१५ १३०७. एवं चादरआउकाइए वि जाँव चादरवाउकाइए वि ।

१३०८. चादरवणस्सइकाइए णं भंते ! २ पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं जाव खेतओ अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं ।

१३०९. पत्तेयसररवादरवणप्फइकाइए णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

२० १३१०. णिगोए णं भंते ! णिगोए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ
कालओ, खेतओ अड्डाइज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

१३११. चादरनिगोदे णं भंते ! चादर० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

२५ १३१२. चादरतसकाइए णं भंते ! चादरतसकाइए त्ति कालओ केवचिरं
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइं संखेज्ज-
वासअन्भइयाइं ।

१३१३. एतेसिं चव अपज्जत्तगा सव्वे वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३१४. वादरपज्जत्तए णं भंते ! वादरपज्जत्त० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसतपुहुत्तं सातिरेगं ।

१३१५. वादरपुढविकाइयपज्जत्तए णं भंते ! वादर० पुच्छ । गोयमा ! ५ जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१३१६. एवं आउक्काइए वि ।

१३१७. तेउक्काइयपज्जत्तए णं भंते ! तेउक्काइयपज्जत्तए० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं राइंदियाइं ।

१३१८. वाउक्काइए वणप्फइकाइए पत्तेयसरीरवायरवणप्फइकाइए य १० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं वाससहस्साइं ।

१३१९. णिगोयपज्जत्तए वादरणिगोयपज्जत्तए य पुच्छ । गोयमा ! दोणिण वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३२०. वादरतसकाइयपज्जत्तए णं भंते ! वादरतसकाइयपज्जत्तए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसत- १५ पुहुत्तं सातिरेगं । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं १३२१-२५. पंचमं जोगदारं]

१३२१. सजोगी णं भंते ! सजोगि त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सजोगी दुविहे पणत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए ? अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

२०

१३२२. मणजोगी णं भंते ! मणजोगि त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

१३२३. एवं वयजोगी वि ।

१३२४. कायजोगी णं भंते ! २ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वणप्फइकालो ।

२५

१३०१. सुहुमपुढविकाइए सुहुमआउकाइए सुहुमतेउकाइए सुहुमवा-
उकाइए सुहुमवणप्फइकाइए सुहुमणिगोदे वि जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं
असंखेज्जं कालं, असंखेजाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा
लोगा ।

५ १३०२. सुहुमे णं भंते ! अपज्जत्तए त्ति ० पुच्छ ! गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३०३. पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-वणस्सइकाइयाण
य एवं चेव ।

१३०४. पज्जत्तयाण वि एवं चेवं ।

१० १३०५. वादरे णं भंते ! वादरे त्ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, असंखेजाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ
कालतो, खेत्तओ अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं ।

१३०६. वादरपुढविकाइए णं भंते ! २ पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

१५ १३०७. एवं वादरआउकाइए वि जाँव वादरवाउकाइए वि ।

१३०८. वादरवणस्सइकाइए णं भंते ! २ पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं जाव खेत्तओ अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं ।

१३०९. पत्तेयसरीरवादरवणप्फइकाइए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

२० १३१०. णिगोए णं भंते ! णिगोए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ
कालओ, खेत्तओ अड्डाज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

१३११. वादरनिगोदे णं भंते ! वादर० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ ।

२५ १३१२. वादरतसकाइए णं भंते ! वादरतसकाइए त्ति कालओ केवचिरं
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साइं संखेज्ज-
वासअब्भइयाइं ।

१३१३. एतेसिं चव अपज्जत्तगा सच्चे वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३१४. वादरपज्जत्तए णं भंते ! वादरपज्जत्त० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसत्पुहुत्तं सातिरेगं ।

१३१५. वादरपुढविक्काइयपज्जत्तए णं भंते ! वादर० पुच्छ । गोयमा ! ५ जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेजाइं वाससहस्साइं ।

१३१६. एवं आउक्काइए वि ।

१३१७. तेउक्काइयपज्जत्तए णं भंते ! तेउक्काइयपज्जत्तए० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेजाइं राइंदियाइं ।

१३१८. वाउक्काइए वणप्फइकाइए पत्तेयसररीरवायरवणप्फइकाइए य १० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेजाइं वाससहस्साइं ।

१३१९. णिगोयपज्जत्तए वादरणिगोयपज्जत्तए य पुच्छ । गोयमा ! दोणिण वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३२०. वादरतसकाइयपज्जत्तए णं भंते ! वादरतसकाइयपज्जत्तए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसत्- १५ पुहुत्तं सातिरेगं । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं १३२१-२५. पंचमं जोगदारं]

१३२१. सजोगी णं भंते ! सजोगि त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सजोगी दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए ? अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१३२२. मणजोगी णं भंते ! मणजोगि त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

१३२३. एवं वयजोगी वि ।

१३२४. कायजोगी णं भंते ! २ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वणप्फइकाले ।

१३२५. अजोगी णं भंते ! अजोगीति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १३२६-३०. छट्ठं वेयदारं]

१३२६. सवेदए णं भंते सवेदए ति० ? गोयमा ! सवेदए तिविहे
५ पणत्ते । तं जहा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २
सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ,
खेत्तओ अवडुं पोग्गलपरियट्ठं देसूणं ।

१३२७. इत्थिवेदे णं भंते ! इत्थिवेदे ति कालतो केवचिरं होति ?
१० गोयमा ! एगेणं आदेसेणं जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं दसुत्तरं पलिओवमसतं
पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भइयं १ एगेणं आदेसेणं जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं अद्वारस
पलिओवमाइं पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भइयाइं २ एगेणं आदेसेणं जहण्णेणं एगं समयं
उक्कोसेणं चोदस पलिओवमाइं पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भइयाइं ३ एगेणं आदेसेणं
जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं पलिओवमसयं पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भइयं ४ एगेणं
१५ आदेसेणं जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं पलिओवमपुहुत्तं पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भइयं ५ ।

१३२८. पुरिसवेदे णं भंते ! पुरिसवेदे ति० ? गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसतपुहत्तं सातिरेगं ।

१३२९. नपुंसगवेदे णं भंते ! णपुंसगवेदे ति० पुच्छ । गोयमा !
जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं वणप्फइकालो ।

२० १३३०. अवेदए णं भंते ! अवेदए ति० पुच्छ । गोयमा ! अवेदए दुविहे
पणत्ते । तं जहा—सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा सपज्जवसिए २ । तत्थ णं
जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं । दारं ६ ॥

[सुत्ताइं १३३१-३४. सत्तमं कसायदारं]

१३३१. सकसाई णं भंते ! सकसाईति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा !
२५ सकसाई तिविहे पणत्ते । तं जहा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा
सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ जाव (सु. १३२६) अवडुं पोग्गल-
परियट्ठं देसूणं ।

१३३२. कोहकसाई णं भंते ! २ पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । एवं जाव मायकसाई ।

१३३३. लोभकसाई णं भंते ! लोभ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

१३३४. अकसाई णं भंते ! अकसाईति कालतो केवचिरं होइ ? ५
गोयमा ! अकसाई दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सादीए वा अपज्जवसिए ? सादीए वा सपज्जवसिए २ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । दारं ७ ॥

[सुत्ताइं १३३५-४२. अट्टमं लेस्सादारं]

१३३५. सलेस्से णं भंते ! सलेसे त्ति० पुच्छ । गोयमा ! सलेसे दुविहे १०
पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए ? अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१३३६. कणहलेसे णं भंते ! कणहलेसे त्ति कालओ केवचिरं होइ ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तिसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तम्भइयाइं ।

१३३७. णीललेसे णं भंते ! णीललेसे त्ति० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं पलिओवमासंखेज्जइभागम्भइयाइं । १५

१३३८. काउलेस्से णं० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को-
सेणं तिण्णि सागरोवमाइं पलिओवमासंखेज्जइभागम्भइयाइं ।

१३३९. तेउलेस्से णं० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं दे सागरोवमाइं पलिओवमासंखेज्जइभागम्भइयाइं ।

१३४०. पम्हलेस्से णं० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, २०
उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तम्भइयाइं ।

१३४१. सुक्कलेस्से णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं तेत्तिसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तम्भइयाइं ।

१३४२. अलेस्से णं० पुच्छ । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।
दारं ८ ॥

[सुत्ताइं १३४३-४५. णवमं सम्मत्तदारं]

१३४३. सम्मद्धिटी णं भंते ! सम्मद्धिटी० केवचिरं होइ ? गोयमा !
सम्मद्धिटी दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा
सपज्जवसिए २ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
५ उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं सातिरेगाइं ।

१३४४. मिच्छद्धिटी णं भंते !० पुच्छ । गोयमा ! मिच्छद्धिटी तिविहे
पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणाईए वा सपज्जवसिए २
सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ,
१० खेत्तओ अवट्ठं पोगलपरियट्ठं देसूणं ।

१३४५. सम्मामिच्छद्धिटी णं० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण
वि अंतोमुहुत्तं । दारं ९ ॥

[सुत्ताइं १३४६-५३. दसमं गाणदारं]

१३४६. णाणी णं भंते ! णाणीति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा !
१५ णाणी दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा
सपज्जवसिए २ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं साइरेगाइं ।

१३४७. आभिणिचोहियणाणी णं भंते !० पुच्छ । गोयमा एवं चेव ।

१३४८. एवं सुयणाणी वि ।

२० १३४९. ओहिणाणी वि एवं चेव । णवरं जहण्णेणं एक्कं समयं ।

१३५०. मणपज्जवणाणी णं भंते ! मणपज्जवणाणीति कालओ केवचिरं
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देसूणं पुव्वकोट्ठिं ।

१३५१. केवलणाणी णं० पुच्छ । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।

१३५२. अण्णाणी-मइअण्णाणी-सुयअण्णाणी णं० पुच्छ । गोयमा !
२५ अण्णाणी मतिअण्णाणी सुयअण्णाणी तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा
अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थ

णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवडुं पोग्गलपरियट्टं देसूणं ।

१३५३. विभंगणाणी णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं देसूणाए पुव्वकोडीए अब्भइयाइं । दारं १० ॥

[सुत्ताइं १३५४-५७. एक्कारसमं दंसणदारं]

५

१३५४. चक्खुदंसणी णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसहस्सं सातिरेगं ।

१३५५. अचक्खुदंसणी णं भंते ! अचक्खुदंसणीति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! अचक्खुदंसणी दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१०

१३५६. ओहिदंसणी णं० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं दो छवड्डीओ सागरोवमाणं सातिरेगाओ ।

१३५७. केवलदंसणी णं० पुच्छ । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं ११ ॥

[सुत्ताइं १३५८-६१. वारसमं संजयदारं]

१५

१३५८. संजए णं भंते ! संजते त्ति० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं देसूणं पुव्वकोडिं ।

१३५९. असंजए णं भंते ! असंजए त्ति० पुच्छ । गोयमा ! असंजए त्तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालतो, खेत्ततो अवडुं पोग्गलपरियट्टं देसूणं ।

२०

१३६०. संजयासंजए जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूणं पुव्वकोडिं ।

१३६१. णोसंजए णोअसंजए णोसंजयासंजए णं० पुच्छ । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं १२ ॥

२५

[सुत्ताइं १३६२-६३. तेरसमं उवओगदारं]

१३६२. सागारोवउत्ते णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

१३६३. अणागारोवउत्ते वि एवं चेव । दारं १३ ॥

५

[सुत्ताइं १३६४-७३. चोइसमं आहारदारं]

१३६४. आहारए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! आहारए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-छउमत्थआहारए य केवलिआहारए य ।

१३६५. छउमत्थाहारए णं भंते ! छउमत्थाहारए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं खुड्डागभवग्गहणं दुसमऊणं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, असंखेज्जाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालतो, खेततो अंगुलस्स असंखेज्जभागं ।

१३६६. केवलिआहारए णं भंते ! केवलिआहारए त्ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूणं पुव्वकोडिं ।

१३६७. अणाहारए णं भंते ! अणाहारए त्ति ० पुच्छ । गोयमा ! अणाहारए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-छउमत्थअणाहारए य १ केवलअणाहारए य २ ।

१५

१३६८. छउमत्थअणाहारए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं दो समयया ।

१३६९. केवलअणाहारए णं भंते ! केवलअणाहारए त्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! केवलअणाहारए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सिद्ध-केवलअणाहारए य १ भवत्थकेवलअणाहारए य २ ।

२०

१३७०. सिद्धकेवलअणाहारए णं ० पुच्छ । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए ।

१३७१. भवत्थकेवलअणाहारए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! भवत्थ-केवलअणाहारए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सजोगिभवत्थकेवलअणाहारए य १ अजोगिभवत्थकेवलअणाहारए य २ ।

२५

१३७२. सजोगिभवत्थकेवलअणाहारए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तिण्णि समयया ।

१३७३. अजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । दारं १४ ॥

[सुत्ताइं १३७४-७५. पणरसमं भासगदारं]

१३७४. भासए णं० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं ।

५

१३७५. अभासए णं० पुच्छा । गोयमा ! अभासए तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणाईए वा अपज्जवसिए १ अणाईए वा सपज्जवसिए २ सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थ णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वणप्फइकालो । दारं १५ ॥

[सुत्ताइं १३७६-८२ सोलसमं परित्तदारं]

१०

१३७६. परित्ते णं भंते !० पुच्छा । गोयमा ! परित्ते दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-कायपरित्ते य १ संसारपरित्ते य २ ।

१३७७. कायपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुढविकालो असंखेज्जाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ ।

१३७८. संसारपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव अवहुं पोग्गलपरियट्ठं देसूणं ।

१५

१३७९. अपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! अपरित्ते दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-कायअपरित्ते य १ संसारअपरित्ते य २ ।

१३८०. कायअपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वणप्फइकालो ।

२०

१३८१. संसारअपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! संसारअपरित्ते दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणादीए वा सपज्जवसिए २ ।

१३८२. णोपरित्ते-णोअपरित्ते णं० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं १६ ॥

१. °ए णंभंते ! भासए त्ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा ! पु २ ॥ २ अभासए दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सातीते वा अपज्जवसिते सातीते वा सपज्जवसिते । तत्थ णं म० प्र० पु १ पु २ पु ३ ॥

[सुत्ताइं १३८३-८५. सत्तरसमं पज्जत्तदारं]

१३८३. पज्जत्तए णं० पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्तं सातिरेगं ।

५ १३८४. अपज्जत्तए णं० पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं ।

१३८५. णोपज्जत्तए-णोअपज्जत्तए णं० पुच्छ। गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं १७ ॥

[सुत्ताइं १३८६-८८. अट्टारसमं सुहुमदारं]

१० १३८६. सुहुमे णं भंते ! सुहुमे त्ति० पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुढविकाले ।

१३८७. बादरे णं० पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं जाव (सु. १३६५) खेत्तओ अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१३८८. णोसुहुमणोवादरे णं भंते !० पुच्छ। गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं १८ ॥

१५ [सुत्ताइं १३८९-९१. एगूणवीसइमं सण्णिदारं]

१३८९. सण्णी णं भंते !० पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसतपुहत्तं सातिरेगं ।

१३९०. असण्णी णं भंते !० पुच्छ। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वणप्फइकाले ।

२० १३९१. णोसण्णीणोअसण्णी णं० पुच्छ। गोयमा ! सादीए अपज्जवसिए । दारं १९ ॥

[सुत्ताइं १३९२-९४. वीसइमं भवसिद्धियदारं]

१३९२. भवसिद्धिए णं भंते !० पुच्छ। गोयमा ! अणादीए सपज्जवसिए ।

२५ १३९३. अभवसिद्धिए णं भंते !० पुच्छ। गोयमा ! अणादीए अपज्जवसिए ।

१३९४. णोभवसिद्धियणोअभवसिद्धिए णं० पुच्छ । गोयमा ! सादीए
अपज्जवसिए । दारं २० ॥

[सुत्ताइं १३९५-९६. एगवीसइमं अत्थिकायदारं]

१३९५. धम्मत्थिकाए णं० पुच्छ । गोयमा ! सव्वत्तं ।

१३९६. एवं जाव अद्दासमए । दारं २१ ॥

५

[सुत्ताइं १३९७-९८. वावीसइमं चरिमदारं]

१३९७. चरिमे णं० पुच्छ । गोयमा ! अणादीए सपज्जवसिए ।

१३९८. अचरिमे णं० पुच्छ । गोयमा ! अचरिमे दुविहे पणत्ते । तं
जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा अपज्जवसिए २ । दारं २२ ॥

॥ पणवणाए भगवतीए अट्टारसमं कायट्ठिइपयं समत्तं ॥

१०

१३९४. णोभवसिद्धियणोअभवसिद्धिए णं० पुच्छ । गोयमा ! सादीए
अपज्जवसिए । दारं २० ॥

[सुत्ताइं १३९५-९६. एगवीसइमं अत्थिकायदारं]

१३९५. धम्मत्थिकाए णं० पुच्छ । गोयमा ! सच्चद्धं ।

१३९६. एवं जाव अद्धासमए । दारं २१ ॥

[सुत्ताइं १३९७-९८. वावीसइमं चरिमदारं]

१३९७. चरिमे णं० पुच्छ । गोयमा ! अणादीए सपज्जवसिए ।

१३९८. अचरिमे णं० पुच्छ । गोयमा ! अचरिमे दुविहे पणत्ते । तं
जहा-अणादीए वा अपज्जवसिए १ सादीए वा अपज्जवसिए २ । दारं २२ ॥

॥ पणवणगाए भगवतीए अट्टारसमं कायट्ठिइपयं समत्तं ॥

१९. एगूणवीसइमं सम्मत्तपयं

[सुत्तं १३९९. जीवेषु सम्मत्तपरूवणं]

१३९९. जीवा णं भंते ! किं सम्मद्दिट्ठी मिच्छद्दिट्ठी सम्मामिच्छद्दिट्ठी ?
गोयमा ! जीवा सम्मद्दिट्ठी वि मिच्छद्दिट्ठी वि सम्मामिच्छद्दिट्ठी वि ।

५ [सुत्ताइं १४००-५. चउवीसदंडएसु सम्मत्तपरूवणं]

१४००. एवं णेरइया वि ।

१४०१. असुरकुमारा वि एवं चेव जाव थणियकुमारा ।

१४०२. पुढविक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! पुढविक्काइया णो सम्मद्दिट्ठी,
मिच्छद्दिट्ठी, णो सम्मामिच्छद्दिट्ठी । एवं जाव वणप्फइकाइया ।

१० १४०३. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! वेइंदिया सम्मद्दिट्ठी वि
मिच्छद्दिट्ठी वि, णो सम्मामिच्छद्दिट्ठी । एवं जाव चउरेंदिया ।

१४०४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणुस्सा वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया
य सम्मद्दिट्ठी वि मिच्छद्दिट्ठी वि सम्मामिच्छद्दिट्ठी वि ।

१५ १४०५. सिद्धाणं पुच्छ । गोयमा ! सिद्धा णं सम्मद्दिट्ठी, णो मिच्छद्दिट्ठी
णो सम्मामिच्छद्दिट्ठी ।

॥ पण्णवणाए भगवतीए एगूणवीसइमं सम्मत्तपयं समत्तं ॥

२०. वीसइमं अंतकिरियापयं

[सुत्तं १४०६. वीसइमपयस्स अत्थाहिगारा]

१४०६. णेरइय अंतकिरिया १ अणंतरं २ एगसमय ३ उव्वट्टा ४ ।
तित्थगर ५ चक्कि ६ वल ७ वासुदेव ८ मंडलिय ९ रयणा
य १० ॥ २१३ ॥ दारगाहा ॥ ५

[सुत्ताइं १४०७-९. पढमं अंतकिरियादारं]

१४०७. [१] जीवे णं भंते ! अंतकिरियं करेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए करेज्जा, अत्थेगइए णो करेज्जा ।

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१४०८. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएसु अंतकिरियं करेज्जा ? १०
गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

[२] णेरइए णं भंते ! असुरकुमारिसु अंतकिरियं करेज्जा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

[३] एवं जाव वेमाणिएसु । णवरं मणूसेसु अंतकिरियं करेज्ज त्ति पुच्छा ।
गोयमा ! अत्थेगइए करेज्जा, अत्थेगइए णो करेज्जा । १५

१४०९. एवं असुरकुमारे जाव वेमाणिए । एवमेते चउवीसं चउवीस-
दंडगा ५७६ भवन्ति । दारं १ ॥

[सुत्ताइं १४१०-१३. वीर्यं अणंतरदारं]

१४१०. [१] णेरइया णं भंते ! किं अणंतरागता अंतकिरियं करेत्ति
परंपरागया अंतकिरियं करेत्ति ? गोयमा ! अणंतरागया वि अंतकिरियं करेत्ति, २०
परंपरागता वि अंतकिरियं करेत्ति ।

[२] एवं रयणप्पभापुढविणेइया वि जाव पंकप्पभापुढविणेइया ।

[३] धूमप्पभापुढविणेइया णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! णो अणंतरागया
अंतकिरियं करेत्ति, परंपरागया अंतकिरियं करेत्ति । एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेइया ।

१. बलदेव ७ वासु° पु१ पु२ पु३ सु०॥ २. पुच्छाए अत्थे° जे०॥ ३. एवमेव च° सु० पु१ पु३ सु०। एवं चउवीसं दं° पु२ ॥

१४११. असुरकुमारा जाव थणियकुमारा पुढवि-आउ-वणस्सइकाइया य अणंतरागया वि अंतकिरियं करेति, परंपरागया वि अंतकिरियं करेति ।

१४१२. तेउ-वाउ-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया णो अणंतरागया अंतकिरियं पकरेति, परंपरागया अंतकिरियं पकरेति ।

५ १४१३. सेसा अणंतरागया वि अंतकिरियं पकरेति, परंपरागया वि अंतकिरियं पकरेति । दारं २ ॥

[सुत्ताइं १४१४-१६. तइयं एगसमयदारं]

१४१४. [१] अणंतरागया णं भंते ! णेरइया एगसमएणं केवतिया अंतकिरियं पकरेति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं दस ।

[२] रयणप्पभापुढविणेरइया वि एवं चेव जाव वालुयप्पभापुढविणेरइया ।

[३] अणंतरागता णं भंते ! पंक्कप्पभापुढविणेरइया एगसमएणं केवतिया अंतकिरियं पकरेति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि ।

१५ १४१५. [१] अणंतरागया णं भंते ! असुरकुमारा एगसमएणं केवइया अंतकिरियं पकरेति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं दस ।

[२] अणंतरागयाओ णं भंते ! असुरकुमारीओ एगसमएणं केवतियाओ अंतकिरियं पकरेति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को(क्का) वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं पंच ।

[३] एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तहा जाव थणियकुमारा ।

१४१६. [१] अणंतरागया णं भंते ! पुढविक्काइया एगसमएणं केवतिया अंतकिरियं पकरेति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि ।

[२] एवं आउक्काइया वि चत्तारि । वणप्फइकाइया छं । पंचेदियति-रिक्खजोणिया दस । तिरिक्खजोणियाओ दस । मणूसा दस । मणूसीओ वीसं । वाणमंतरा दस । वाणमंतरीओ पंच । जोइसिया दस । जोइसिणीओ वीसं । वेमाणिया अड्डसंतं । वेमाणियाओ वीसं । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं १४१७-४३. चउत्थं उच्चट्टदारां]

१४१७. णेरइए णं भंते! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चट्टिता णेरइएसु उववज्जेजा? गोयमा! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१४१८. णेरइए णं भंते! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चट्टिता असुरकुमारिसु उववज्जेजा? गोयमा! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१४१९. एवं निरंतरं जाव चउरिंदिएसु पुच्छा । गोयमा! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१४२०. [१] णेरइए णं भंते! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चट्टिता पंचे-दियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जेजा? गोयमा! अत्थेगइए उववज्जेजा, अत्थेगइए णो उववज्जेजा ।

१०

[२] जे णं भंते! णेरइएहिंतो अणंतरं उच्चट्टिता पंचेदियतिरिक्खजो-णिएसु उववज्जेजा से णं केवल्लिपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए? गोयमा! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा ।

[३] जे णं भंते! केवल्लिपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए से णं केवलं वोहिं बुज्जेजा? गोयमा! अत्थेगइए बुज्जेजा, अत्थेगइए णो बुज्जेजा ।

१५

[४] जे णं भंते! केवलं वोहिं बुज्जेजा से णं सदहेजा पत्तिएजा रोएजा? गोयमा! सदहेजा पत्तिएजा रोएजा ।

[५] जे णं भंते! सदहेजा पत्तिएजा रोएजा से णं आभिणिवोहियणाण-सुयणाणाइं उप्पाडेजा? हंता! गोयमा! उप्पाडेजा ।

[६] जे णं भंते! आभिणिवोहियणाण-सुयणाणाइं उप्पाडेजा से णं संचाएजा सीलं वा वयं वा गुणं वा वेरमणं वा पक्खखाणं वा पोसहोववासं वा पडिवज्जित्तए? गोयमा! अत्थेगइए संचाएजा, अत्थेगइए णो संचाएजा ।

२०

[७] जे णं भंते! संचाएजा सीलं वा जाव पोसहोववासं वा पडिवज्जित्तए से णं ओहिणाणं उप्पाडेजा? गोयमा! अत्थेगइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा ।

२५

[८] जे णं भंते ओहिणाणं उप्पाडेजा से णं संचाएजा मुंढे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए? गोयमा! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१४२१. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता मणूसेसु उव्वज्जेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उव्वज्जेजा, अत्थेगइए णो उव्वज्जेजा ।

[२] जे णं भंते ! उव्वज्जेजा से णं केवल्लिपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! जहा पंचेदियतिरिक्खजोणिएसु (सु. १४२० [२-७]) जाव जे णं भंते ! ओहिणाणं उप्पाडेजा से णं संचाएजा मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ? गोयमा ! अत्थेगइए संचाएजा, अत्थेगइए णो संचाएजा ।

[३] जे णं भंते ! संचाएजा मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए से णं मणपज्जवणाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा ।

१० [४] जे णं भंते ! मणपज्जवणाणं उप्पाडेजा से णं केवल्लणाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा ।

[५] जे णं भंते ! केवल्लणाणं उप्पाडेजा से णं सिज्जेजा बुज्जेजा मुच्चेजा सव्वदुक्खाणं अंतं करेजा ? गोयमा ! सिज्जेजा जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करेजा ।

१५ १४२२. णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता वाणमंतर-जोइसिय-त्रेमाणिएसु उव्वज्जेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्भे ।

१४२३. असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता णेरइएसु उव्वज्जेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्भे ।

१४२४. असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता असुरकुमारेसु उव्वज्जेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्भे । एवं जाव थणियकुमारेसु ।

२० १४२५. [१] असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता पुढविक्काइएसु उव्वज्जेजा ? हंता ! गोयमा ! अत्थेगइए उव्वज्जेजा, अत्थेगइए नो उव्वज्जेजा ।

[२] जे णं भंते ! उव्वज्जेजा से णं केवल्लिपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! नो इण्ठे सम्भे ।

२५ [३] एवं आउ-वणप्फईसु वि ।

१४२६. [१] असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता तेउ-वाउ-वेइदिय-तेइदिय-चउरिंदिएसु उव्वज्जेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे सम्भे । अवसेसेसु पंचसु पंचेदियतिरिक्खजोणियादिसु असुरकुमारे जहा णेरइए (सु. १४२०-२२) ।

[२] एवं जाव थणियकुमारे ।

१४२७. [१] पुढविकाइए णं भंते ! पुढविकाइएहितो अणंतरं उच्चट्टिता णेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे समडे ।

[२] एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु वि ।

१४२८. [१] पुढविकाइए णं भंते ! पुढविकाइएहितो अणंतरं उच्चट्टिता ५
पुढविकाइएसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेजा से णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! णो इण्ठे समडे ।

[३] एवं आउक्काइयादीसु णिरंतरं भाणियव्वं जाव चउरिंदिएसु ।

[४] पंचेदियतिरिक्खजोगिय-मणूसेसु जहा णेरइए (सु. १४२०-२१) । १०

[५] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु पडिसेहो ।

१४२९. एवं जहा पुढविकाइओ भणियो तहेव आउक्काइओ वि वणप्फइकाइओ वि भाणियव्वो ।

१४३०. [१] तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहितो अणंतरं उच्चट्टिता
णेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे समडे । १५

[२] एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु वि ।

१४३१. [१] पुढविकाइय-आउ-तेउ-वाउ-वणस्सइ-वेइंदिय-तेइंदिय-च-उरिंदिएसु अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेजा से णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणताए ? गोयमा ! नो इण्ठे समडे । २०

१४३२. [१] तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहितो अणंतरं उच्चट्टिता
पंचेदियतिरिक्खजोगिएसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए
णो उववजेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेजा से णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ?
गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा । २५

[३] जे णं भंते ! केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए से णं केवलं
वोहिं बुज्जेजा ? गोयमा ! णो इण्ठे समडे ।

१४३३. मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु पुच्छा । गोयमा ! णो
इण्ठे समडे ।

१४३४. एवं जहेव तेउक्काइए णिरंतरं एवं वाउक्काइए वि ।

१४३५. बेइंदिए णं भंते ! बेइंदिएहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता णेरइएसु उववज्जेजा ? गोयमा ! जहा पुढविक्काइए (सु. १४२७-२८) । णवरं मणूसेसु जाव मणपज्जवणाणं उप्पाडेजा ।

५ १४३६. [१] एवं तेइंदिय-चउरिंदिया वि जाव मणपज्जवणाणं उप्पाडेजा ।

[२] जे णं भंते ! मणपज्जवणाणं उप्पाडेजा से णं केवलणाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१० १४३७. [१] पंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता णेरइएसु उववज्जेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेजा, अत्थेगइए णो उववज्जेजा ।

[२] जे णं भंते ! उववज्जेजा से णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा ।

१५ [३] जे णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए से णं केवलं वोहिं बुज्जेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए बुज्जेजा, अत्थेगइए नो बुज्जेजा ।

[४] जे णं भंते ! केवलं वोहिं बुज्जेजा से णं सदहेजा पत्तिएजा रोएजा ? हंता गोयमा ! जाव रोएजा ।

[५] जे णं भंते ! सदहेजा ३ से णं आभिणिचोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाणाणि उप्पाडेजा ? हंता गोयमा ! उप्पाडेजा ।

२० [६] जे णं भंते ! आभिणिचोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाणाणं उप्पाडेजा से णं संचाएजा सीलं वा जाव पडिवज्जित्तए ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१४३८. एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु ।

१४३९. एगिंदिय-विगलिंदिएसु जहा पुढविक्काइए (सु. १४२८ [१-३]) ।

१४४०. पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु मणूसेसु य जहा णेरइए (सु.

२५ १४२०-२१) ।

१४४१. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिएसु जहा णेरइएसु उवव[? जे]ज्जत्ति पुच्छाए भणियाए (सु. १४३७) ।

१. उवज्जत्ति पु° जे० ध० म० प्र० । उववज्जत्ति ति पु° पु१ पु३ । उववज्जत्ति पु° पु२ । उववज्जेजा पुच्छा भणिया । १४४२. एवं सु० ॥

१४४२. एवं मणूसे वि ।

१४४३. वाणमंतर-जोतिसिय-त्रेमाणिए जहा असुरकुमारे (सु.
१४२३-२६) । दारं ४ ।

[सुत्ताइं १४४४-५८. पंचमं तित्थगरदारं]

१४४४. रयणप्पभापुढविणेरइए णं भंते ! रयणप्पभापुढविणेरइएहिंतो ५
अणंतरं उच्चट्टित्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए
णो लभेज्जा । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो
लभेज्जा ? गोयमा ! जस्स णं रयणप्पभापुढविणेरइयस्स तित्थगरणाम-गोयाइं कम्माइं
बद्धाइं पुट्ठाइं कडाइं पड्डवियाइं णिविट्ठाइं अभिनिविट्ठाइं अभिसमण्णागयाइं उदिण्णाइं
णो उवसंताइं भवंति से णं रयणप्पभापुढविणेरइए रयणप्पभापुढविणेरइएहिंतो १०
अणंतरं उच्चट्टित्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा, जस्स णं रयणप्पभापुढविणेरइयस्स
तित्थगरणाम-गोयाइं णो बद्धाइं जाव णो उदिण्णाइं उवसंताइं भवंति से णं
रयणप्पभापुढविणेरइएहिंतो अणंतरं उच्चट्टित्ता तित्थगरत्तं णो लभेज्जा, सेतेणट्टेणं
गोयमा ! एवं बुच्चइ अत्थेगइए लभेज्जा अत्थेगइए णो लभेज्जा ।

१४४५. एवं जाव वालुयप्पभापुढविणेरइएहिंतो तित्थगरत्तं लभेज्जा । १५

१४४६. पंकप्पभापुढविणेरइए णं भंते ! पंकप्पभापुढविणेरइएहिंतो
अणंतरं उच्चट्टित्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा ? गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे, अंतकिरियं
पुण करेज्जा ।

१४४७. धूमप्पभापुढविणेरइए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे,
विरतिं पुण लभेज्जा । २०

१४४८. तंमापुढविणेरइए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे,
विरयाविरियं पुण लभेज्जा ।

१४४९. अहेसत्तमाए ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे, सम्मत्तं
पुण लभेज्जा ।

१४५०. असुरकुमारे णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे, अंतकिरियं २५
पुण करेज्जा ।

१४३४. एवं जहेव तेउक्काइए णिरंतरं एवं वाउक्काइए वि ।

१४३५. वेइंदिए णं भंते ! वेइंदिएहितो अणंतरं उव्वट्ठित्ता णेरइएसु उववजेज्जा ? गोयमा ! जहा पुढविक्काइए (सु. १४२७-२८) । णवरं मणसेसु जाव मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा ।

५ १४३६. [१] एवं तेइंदिय-चउरिंदिया वि जाव मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा ।

[२] जे णं भंते ! मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा से णं केवलणाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१० १४३७. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिएहितो अणंतरं उव्वट्ठित्ता णेरइएसु उववजेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उववजेज्जा, अत्थेगइए णो उववजेज्जा ।

[२] जे णं भंते ! उववजेज्जा से णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा ।

१५ [३] जे णं केवलपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए से णं केवलं वोहिं बुज्जेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए बुज्जेज्जा, अत्थेगइए नो बुज्जेज्जा ।

[४] जे णं भंते ! केवलं वोहिं बुज्जेज्जा से णं सदहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ? हंता गोयमा ! जाव रोएज्जा ।

[५] जे णं भंते ! सदहेज्जा ३ से णं आभिणिवोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाणाणि उप्पाडेज्जा ? हंता गोयमा ! उप्पाडेज्जा ।

२० [६] जे णं भंते ! आभिणिवोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाणाणं उप्पाडेज्जा से णं संचाएज्जा सीलं वा जाव पडिवज्जित्तए ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१४३८. एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु ।

१४३९. एगिंदिय-विगलिंदिएसु जहा पुढविक्काइए (सु. १४२८ [१-३]) ।

२५ १४४०. पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु मणसेसु य जहा णेरइए (सु. १४२०-२१) ।

१४४१. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिएसु जहा णेरइएसु उवव[? जे]ज्जत्ति पुच्छाए भणियाए (सु. १४३७) ।

१. उवज्जंति पु^० जे० ध० म० प्र० । उववज्जि त्ति पु^० पु^१ पु^२ । उववज्ज त्ति पु^० पु^२ । उववजेज्जा पुच्छा भणिया । १४४२. एवं मु० ॥

[सुत्तं १४६४. सत्तमं बलदारं]

१४६४. एवं बलदेवत्तं पि । णवरं सक्करप्पभापुढविणेरइए वि लभेज्जा । दारं ७ ॥

[सुत्तं १४६५. अड्डमं वासुदेवदारं]

१४६५. एवं वासुदेवत्तं दोहिंतो पुढवीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोव- ५
वातियवजेहिंतो, सेसेसु णो इण्ठे समडे । दारं ८ ॥

[सुत्तं १४६६. नवमं मंडलियदारं]

१४६६. मंडलियत्तं अहेसत्तमा-तेउ-त्राउवजेहिंतो । दारं ९ ॥

[सुत्तं १४६७-६९. दसमं रयणदारं]

१४६७. सेणावइरयणत्तं गाहावइरयणत्तं वड्डुइरयणत्तं पुरोहियरयणत्तं १०
इत्थिरयणत्तं च एवं चेव, णवरं अणुत्तरोववाइयवजेहिंतो ।

१४६८. आसरयणत्तं हत्थिरयणत्तं च रयणप्पभाओ णिरंतरं जाव
सहस्सारो अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा ।

१४६९. चक्करयणत्तं छत्तरयणत्तं चम्मरयणत्तं दंडरयणत्तं असिरयणत्तं
णत्तं कागिणिरयणत्तं एतेसि णं असुरकुमारेहिंतो औरद्धं निरंतरं जाव १५
उववातो, सेसेहिंतो णो इण्ठे समडे । दारं १० ॥

१४५१. एवं निरंतरं जाव आउक्काइए ।

१४५२. तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता उववज्जेजा (°त्ता तित्थगरत्तं लभेजा) ? गोयमा ! णो इणङ्के समङ्के, केवलपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ।

५ १४५३. एवं वाउक्काइए वि ।

१४५४. वणप्फइकाइए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणङ्के समङ्के, अंतकिरियं पुण करेजा ।

१४५५. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणङ्के समङ्के, मणपज्जवणाणं पुण उप्पाडेजा ।

१० १४५६. पंचेइदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इणङ्के समङ्के, अंतकिरियं पुण करेजा ।

१४५७. सोहम्मगदेवे णं भंते ! अणंतरं चंइं चइत्ता तित्थगरत्तं लभेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा, एवं जहा रयणप्पभापुढविणेरइए (सु. १४४४) ।

१५ १४५८. एवं जाव सव्वइसिद्धगदेवे । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १४५९-६३. छट्ठं चक्किदारं]

१४५९. रयणप्पभापुढविणेरइए णं भंते ! अणंतरं उव्वट्ठित्ता चक्कवट्ठित्तं लभेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! जहा रयणप्पभापुढविणेरइयस्स तित्थगरत्ते (सु. १४४४) ।

२० १४६०. सक्करप्पभापुढविणेरइए अणंतरं उव्वट्ठित्ता चक्कवट्ठित्तं लभेजा ? गोयमा ! णो इणङ्के समङ्के ।

१४६१. एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेरइए ।

१४६२. तिरिय-मणुएहिंतो पुच्छ । गोयमा ! णो इणङ्के समङ्के ।

२५ १४६३. भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो पुच्छ । गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए नो लभेजा । दारं ६ ॥

१. चयं च° पु२ सु० ॥ २. °गदेवत्ते । जे० । °गदेवाणं । म० प्र० । °गदेवा । पु२सं० ॥

३. °णेरइए ति° म० ॥

[सुत्तं १४६४. सत्तमं बलदारं]

१४६४. एवं बलदेवत्तं पि । णवरं सक्करप्पभापुढविणेइए वि लभेज्जा । दारं ७ ॥

[सुत्तं १४६५. अड्डमं वासुदेवदारं]

१४६५. एवं वासुदेवत्तं दोहिंतो पुढवीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोव- वातियवज्जेहिंतो, सेसेसु णो इण्ठे समडे । दारं ८ ॥

[सुत्तं १४६६. नवमं मंडलियदारं]

१४६६. मंडलियत्तं अहेसत्तमा-त्तेउ-त्राउवज्जेहिंतो । दारं ९ ॥

[सुत्तं १४६७-६९. दसमं रयणदारं]

१४६७. सेणावइरयणत्तं गाहावइरयणत्तं वड्डुइरयणत्तं पुरोहियरयणत्तं इत्थिरयणत्तं च एवं चेव, णवरं अणुत्तरोववाइयवज्जेहिंतो । १०

१४६८. आसरयणत्तं हत्थिरयणत्तं च रयणप्पभाओ णिरंतरं जाव सहस्सारो अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा ।

१४६९. चक्करयणत्तं छत्तरयणत्तं चम्मरयणत्तं दंडरयणत्तं असिरयणत्तं मणिरयणत्तं कागिणिरयणत्तं एतेसि णं असुरकुमारोहिंतो औरद्धं निरंतरं जाव ईसाणेहिंतो उववातो, सेसेहिंतो णो इण्ठे समडे । दारं १० ॥ १५

[सुत्तं १४७०. भवियदच्चदेवउववायपरूवणं]

१४७०. अह भंते ! असंजयभवियदच्चदेवाणं अविराहियसंजमाणं विराहियसंजमाणं अविराहियसंजमासंजमाणं विराहियसंजमासंजमाणं असण्णीणं तावसाणं कंदप्पियाणं चरग-परिव्वायगाणं किन्विसियाणं तिरिच्छियाणं आजी- वियाणं आभोओगियाणं सल्लिगीणं दंसणवावण्णगाणं देवलोकेसु उववज्जमाणं कस्स कहिं उववाओ पण्णत्तो ? गोयमा ! असंजयभवियदच्चदेवाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेवेज्जगेसु, अविराहियसंजमाणं जहण्णेणं सौहम्मे कप्पे उक्कोसेणं सव्वड्डिसिद्धे, विराहियसंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं २०

१४५१. एवं निरंतरं जाव आउक्काइए ।

१४५२. तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उव्वट्ठित्ता उववजेज्जा (ंत्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा) ? गोयमा ! णो इण्ठे समडे, केवल्लिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ।

५ १४५३. एवं वाउक्काइए वि ।

१४५४. वणप्फइक्काइए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इण्ठे समडे, अंतकिरियं पुण करेज्जा ।

१४५५. वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इण्ठे समडे, मणपज्जवणाणं पुण उप्पाडेज्जा ।

१० १४५६. पंचेदियतिरिक्खज्जोणिय-मणूस-त्राणमंतर-जोइसिए णं ० पुच्छ । गोयमा ! णो इण्ठे समडे, अंतकिरियं पुण करेज्जा ।

१४५७. सोहम्मगदेवे णं भंते ! अणंतरं चइं चइत्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा, एवं जहा रयणप्पभापुढविणेइए (सु. १४४४) ।

१५ १४५८. एवं जाव सव्वइसिद्धगदेवे । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १४५९-६३. छट्ठं चक्किदारं]

१४५९. रयणप्पभापुढविणेइए णं भंते ! अणंतरं उव्वट्ठित्ता चक्कवट्ठित्तं लभेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुद्धति ? गोयमा ! जहा रयणप्पभापुढविणेइयस्स तित्थगरत्ते (सु. १४४४) ।

२० १४६०. सक्करप्पभापुढविणेइए अणंतरं उव्वट्ठित्ता चक्कवट्ठित्तं लभेज्जा ? गोयमा ! णो इण्ठे समडे ।

१४६१. एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेइए ।

१४६२. तिरिय-मणुएहिंतो पुच्छ । गोयमा ! णो इण्ठे समडे ।

१४६३. भवणवइ-त्राणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो पुच्छ । गोयमा ! अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए नो लभेज्जा । दारं ६ ॥

१. चयं च° पु२ मु० ॥ २. °गदेवत्ते । जे० । °गदेवाणं । म० प्र० । °गदेवा । पु२सं० ॥

३. °णेइए ति° म० ॥

[सुत्तं १४६४. सत्तमं बलदारं]

१४६४. एवं बलदेवत्तं पि । णवरं सक्करप्पभापुढाविणेइए वि लभेज्जा । दारं ७ ॥

[सुत्तं १४६५. अट्टमं वासुदेवदारं]

१४६५. एवं वासुदेवत्तं दोहितो पुढवीहितो वेमाणिएहितो य अणुत्तरोव- ५
वातियवज्जेहितो, सेसेसु णो इण्ठे समङ्के । दारं ८ ॥

[सुत्तं १४६६. नवमं मंडलियदारं]

१४६६. मंडलियत्तं अहेसत्तमा-तेउ-वाउवज्जेहितो । दारं ९ ॥

[सुत्तं १४६७-६९. दसमं रयणदारं]

१४६७. सेणावइरयणत्तं गाहावइरयणत्तं वड्डुइरयणत्तं पुरोहियरयणत्तं १०
इत्थिरयणत्तं च एवं चेव, णवरं अणुत्तरोववाइयवज्जेहितो ।

१४६८. आसरयणत्तं हत्थिरयणत्तं च रयणप्पभाओ गिरंतं जाव
सहस्सारो अत्थेगइए लभेज्जा, अत्थेगइए णो लभेज्जा ।

१४६९. चक्करयणत्तं छत्तरयणत्तं चम्मरयणत्तं दंडरयणत्तं असिरयणत्तं
माणिरयणत्तं काणिणिरयणत्तं एतेसि णं असुरकुमारेहितो औरद्धं निरंतरं जाव १५
ईसाणेहितो उववातो, सेसेहितो णो इण्ठे समङ्के । दारं १० ॥

[सुत्तं १४७०. भवियद्व्वदेवउववायपरूवणं]

१४७०. अह भंते ! असंजयभवियद्व्वदेवाणं अविराहियसंजमाणं
विराहियसंजमाणं अविराहियसंजमासंजमाणं विराहियसंजमासंजमाणं असण्णीणं २०
तावसाणं कंदप्पियाणं चरग-परिव्वायगाणं किब्बिसियाणं तिरिच्छियाणं आजी-
वियाणं आभिओगियाणं सलिंगीणं दंसणवावण्णगाणं देवलोगेसु उववज्जमाणाणं
कस्स कहिं उववाओ पण्णत्तो ? गोयमा ! असंजयभवियद्व्वदेवाणं जहण्णेणं
भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेवेज्जगेसु, अविराहियसंजमाणं जहण्णेणं सोहम्मं
कप्पे उक्कोसेणं सव्वड्डसिद्धे, विराहियसंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं

सोहम्मे कप्पे, अविराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे, विराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं जोइसिएसु, असण्णीणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं वाणमंतरेसु, तावसाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं जोइसिएसु, कंदप्पियाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं वंभलोए कप्पे, किब्बिसियाणं जहण्णेणं सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं लंतए कप्पे, तेरिच्छियाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे, आजीवियाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे, एवं आभिओगाण वि, सलिंगीणं दंसणवावणगाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेवेज्जएसु ।

१०

[सुत्ताइं १४७१-७३. असण्णिआउयपरूवणं]

१४७१. कतिविहे णं भंते ! असण्णिआउए पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे असण्णिआउए पण्णत्ते । तं जहा-णेरइयअसण्णिआउए जाव देवअसण्णिआउए ।

१५

१४७२. असण्णी णं भंते ! जीवे किं णेरइयाउयं पकरोति जाव देवाउयं पकरोति ? गोयमा ! णेरइयाउयं पकरोति जाव देवाउयं पकरोति, णेरइयाउयं पकरोमाणे जहण्णेणं दस वाससहस्साइं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पकरोति, तिरिक्खजोगियाउयं पकरोमाणे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पकरोति, एवं मणुयाउयं पि, देवाउयं जहा णेरइयाउयं ।

२०

१४७३. एयस्स णं भंते ! णेरइयअसण्णिआउयस्स जाव देवअसण्णिआउयस्स य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवे देवअसण्णिआउए, मणुयअसण्णिआउए असंखेज्जगुणे, तिरिक्खजोगियअसण्णिआउए असंखेज्जगुणे, णेरइयअसन्न्याउए असंखिज्जगुणे ।

॥ पणवणाए भगवतीए वीसइमं अंतक्रियापयं समत्तं ॥

२१. एगवीसइमं ओगाहणसंठाणपयं

[सुत्तं १४७४. एगवीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरुवणं]

१४७४. विहि १ संठाण २ पमाणं ३

पोग्गलचिणणा ४ सरीरसंजोगो ५ ।

दच्च-पएसप्पवहुं ६ सरीरओगाहणप्पवहुं ७ ॥ २१४ ॥

५

[सुत्ताइं १४७५-१५५२. १-३ विहि-संठाण-पमाणदाराइं]

१४७५. कति णं भंते ! सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरया पण्णत्ता । तं जहा-ओरालिए १ वेउच्चिए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ ।

[सुत्ताइं १४७६-८७. ओरालियसरीरे विहिदारं]

१४७६. ओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-एग्गिदियओरालियसरीरे जाव पंचेदियओरालियसरीरे । १०

१४७७. एग्गिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-पुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे जाव वणप्फइकाइय-एग्गिदियओरालियसरीरे ।

१४७८. [१] पुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सुहुमपुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे य वादरपुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे य । १५

[२] सुहुमपुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-पज्जत्तगसुहुमपुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तगसुहुमपुढविकाइयएग्गिदियओरालियसरीरे य । २०

[३] वादरपुढविकाइया वि एवं चेव ।

१४७९. एवं जाव वणस्सइकाइयएग्गिदियओरालिय ति ।

१४८०. वेइंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-पज्जत्तवेइंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तवेइंदियओरालियसरीरे य । २५

१. पमाणे हारिवृत्ति-मलयवृत्तिगतसूत्रपाठान्तरणे, हारिवृत्तिप्रत्यन्तरे पुनः पमाणं इति पाठोऽप्युपलभ्यते ॥

सोहम्मे कप्पे, अविराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे, विराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं जोइसिएसु, असण्णीणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं वाणमंतरेसु, तावसाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं जोइसिएसु, कंदप्पियाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं
 ५ सोहम्मे कप्पे, चरग-परिच्चायगाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं वंभलोए कप्पे, किन्विसियाणं जहण्णेणं सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं लंतए कप्पे, तेरिच्छियाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे, आजीवियाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे, एवं आभिओगाणं वि, सलिंगीणं दंसणवावण्णगाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेवेज्जएसु ।

१०

[सुत्ताइं १४७१-७३. असण्णिआउयपरूवणं]

१४७१. कतिविहे णं भंते ! असण्णिआउए पण्णत्ते ? गोयमा ! चउन्विहे असण्णिआउए पण्णत्ते । तं जहा-णेरइयअसण्णिआउए जाव देवअसण्णिआउए ।

१५

१४७२. असण्णी णं भंते ! जीवे किं णेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं पकरेति ? गोयमा ! णेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं पकरेति, णेरइयाउयं पकरेमाणे जहण्णेणं दस वाससहस्साइं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जभागं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जभागं पकरेति, एवं मणुयाउयं पि, देवाउयं जहा णेरइयाउयं ।

२०

१४७३. एयस्स णं भंते ! णेरइयअसण्णिआउयस्स जाव देवअसण्णिआउयस्स य कतरे कतरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवे देवअसण्णिआउए, मणुयअसण्णिआउए असंखेज्जगुणे, तिरिक्खजोणियअसण्णिआउए असंखेज्जगुणे, णेरइयअसन्निआउए असंखिज्जगुणे ।

॥ पणवणाए भगवतीए वीसइमं अंतकिरियापयं समत्तं ॥

२१. एगवीसइमं ओगाहणसंठाणपयं

[सुत्तं १४७४. एगवीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरुवणं]

१४७४. विहि १ संठाण २ पमाणं ३

पोग्गलच्चिणणा ४ सरीरसंजोगो ५ ।

दच्च-पएसप्पवहुं ६ सरीरओगाहणप्पवहुं ७ ॥ २१४ ॥

५

[सुत्ताइं १४७५-१५५२. १-३ विहि-संठाण-पमाणदाराइं]

१४७५. कति णं भंते ! सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरया पण्णत्ता । तं जहा-ओरालिए १ वेउच्चिए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ ।

[सुत्ताइं १४७६-८७. ओरालियसरीरे विहिदारं]

१४७६. ओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे १० पण्णत्ते । तं जहा-एगिंदियओरालियसरीरे जाव पंचेदियओरालियसरीरे ।

१४७७. एगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे जाव वणप्फइकाइय-एगिंदियओरालियसरीरे ।

१४७८. [१] पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे १५ पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-सुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य बादरपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य ।

[२] सुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-पज्जत्तगसुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तगसुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य ।

२०

[३] चादरपुढविक्काइया वि एवं चैव ।

१४७९. एवं जाव वणस्सइकाइयएगिंदियओरालिय ति ।

१४८०. वेइंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-पज्जत्तवेइंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तवेइंदियओरालियसरीरे य ।

२५

१४८१. एवं तेइंदिय-चउरिंदिया वि ।

१४८२. पंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—तिरिक्खपंचेंदियओरालियसरीरे य मणुस्सपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

५ १४८३. तिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! तिविहे पणत्ते । तं जहा—जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य १ थलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य २ खहयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ३ ।

१० १४८४. [१] जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—सम्मुच्छिमजलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गन्भवकंतियजलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

१५ [२] सम्मुच्छिमजलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—पजत्तगसम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य अपजत्तगसम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[३] एवं गन्भवकंतिए वि ।

२० १४८५. [१] थलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—चउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

२५ [२] चउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गन्भवकंतियचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[३] सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—पजत्तसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य अपजत्तसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[४] एवं गन्भवक्कंतिए वि ।

[५] परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य भुयपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[६] उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गन्भवक्कंतियउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[७] सम्मुच्छिमे दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—अपज्जत्तसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य पज्जत्तसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[८] एवं गन्भवक्कंतियउरपरिसप्पचउक्कओ भेदो ।

[९] एवं भुयपरिसप्पा वि सम्मुच्छिम-गन्भवक्कंतिय-पज्जत्त-अपज्जत्ता ।

१४८६. [१] खहयरा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सम्मुच्छिमा य गन्भवक्कंतिया य ।

[२] सम्मुच्छिमा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पज्जत्ता य अपज्जत्ता य ।

[३] गन्भवक्कंतिया वि पज्जत्ता य अपज्जत्ता य ।

१४८७. [१] मणूसपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सम्मुच्छिममणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य गन्भवक्कंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[२] गन्भवक्कंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—पज्जत्तगगन्भवक्कंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तगगन्भवक्कंतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य ।

[सुत्ताइं १४८८—१५०१. ओरालियसरीरे संठाणदारां]

१४८८. ओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१४८९. एगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१४९०. [१] पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-
संठिए पणत्ते ? गोयमा ! मंसूरचंदसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[२] एवं सुहुमपुढविक्काइयाण वि ।

[३] चायराण वि एवं चेव ।

५ [४] पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं चेव ।

१४९१. [१] आउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-
संठिए पणत्ते ? गोयमा ! थिबुगविंदुसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[२] एवं सुहुम-चायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१० १४९२. [१] तेउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-
संठिए पणत्ते ? गोयमा ! सूईकलावसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[२] एवं सुहुम-वादर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९३. [१] वाउक्काइयाणं पडागासंठाणसंठिए पणत्ते ।

[२] एवं सुहुम-चायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९४. [१] वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पणत्ते ।

१५ [२] एवं सुहुम-चायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९५. [१] चेइंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए
पणत्ते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पणत्ते ।

[२] एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९६. एवं तेइंदिय-चउरिंदियाण वि ।

२० १४९७. [१] तिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पणत्ते । तं जहा-सम-
चउरंसंठाणसंठिए जाव हुंडसंठाणसंठिए वि । एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ३ ।

[२] सम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पणत्ते । एवं पज्जत्तापज्जत्ताण

२५ वि ३ ।

[३] गम्भवकंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं
संठाणसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पणत्ते ।

चउरंसे जाव हुंडसंठाणसंठिए । एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ३ । एवमेते तिरिक्ख-
जोणियाणं ओहियाणं णव आलावगा ।

१४९८. [१] जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! छ्विहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तं जहा-
समचउरंसे जाव हुंडे ।

[२] एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

[३] सम्मुच्छिमजलयरा हुंडसंठाणसंठिया । एतेसिं चेव पज्जत्तापज्जत्तगा
वि एवं चेव ।

[४] गम्भवक्कंतियजलयरा छ्विहसंठाणसंठिया । एवं पज्जत्तापज्जत्तगा वि ।

१४९९. [१] एवं थलयराण वि णव सुत्ताणि ।

[२] एवं चउप्पयथलयराण वि उरपरिसप्पथलयराण वि भुयपरिसप्प-
थलयराण वि ।

१५००. एवं खहयराण वि णव सुत्ताणि । णवरं सव्वत्थ सम्मुच्छिमा
हुंडसंठाणसंठिया भाणियव्वा, इयरे छसु वि ।

१५०१. [१] मणसपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए
पण्णत्ते ? गोयमा ! छ्विहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तं जहा-समचउरंसे जाव हुंडे ।

[२] पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं चेव ।

[३] गम्भवक्कंतियाण वि एवं चेव । पज्जत्तापज्जत्तगाण वि एवं चेव ।

[४] सम्मुच्छिमाणं पुच्छ । गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिया पण्णत्ता ।

[सुत्ताई १५०२-१३. ओरालियसरीरे पमाणदारां]

१५०२. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

१५०३. एगिंदियओरालियस्स वि एवं चेव जहा ओहियस्स
(सु. १५०२) ।

१५०४. [१] पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहा-
लिया पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[२] एवं अपज्जत्तयाण वि पज्जत्तयाण वि ।

१४९०. [१] पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! मंसूरचंदसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं सुहुमपुढविकाइयाण वि ।

[३] वायरण वि एवं चेव ।

५ [४] पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं चेव ।

१४९१. [१] आउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! थिबुगबिंदुसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं सुहुम-वायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१० १४९२. [१] तेउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण-
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! सूईकलावसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं सुहुम-वायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९३. [१] वाउक्काइयाणं पडागासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं सुहुम-वायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९४. [१] वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५ [२] एवं सुहुम-वायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९५. [१] वेइंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए
पण्णत्ते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

१४९६. एवं तेइंदिय-चउरिंदियाण वि ।

२० १४९७. [१] तिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तं जहा-सम-
चउरंसंठाणसंठिए जाव हुंडसंठाणसंठिए वि । एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ३ ।

[२] सम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते । एवं पज्जत्तापज्जत्ताण

२५ वि ३ ।

[३] गन्भवकंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किं-
संठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तं जहा-सम-

चउरंसे जाव हुंडसंठाणसंठिए । एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ३ । एवमेते तिरिक्खं-
जोगियाणं ओहियाणं णव आलावगा ।

१४९८. [१] जलयरतिरिक्खजोगियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! छच्चिहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तं जहा-
समचउरंसे जाव हुंडे ।

[२] एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि ।

[३] सम्मुच्छिमजलयरा हुंडसंठाणसंठिया । एतेसिं चैव पज्जत्तापज्जत्तगा
वि एवं चैव ।

[४] गम्भवक्कंतियजलयरा छच्चिहसंठाणसंठिया । एवं पज्जत्तापज्जत्तगा वि ।

१४९९. [१] एवं थलयराण वि णव सुत्ताणि ।

[२] एवं चउप्पयथलयराण वि उरपरिसप्पथलयराण वि भुयपरिसप्प-
थलयराण वि ।

१५००. एवं खहयराण वि णव सुत्ताणि । णवरं सव्वत्थ सम्मुच्छिमा
हुंडसंठाणसंठिया भाणियव्वा, इयरे छसु वि ।

१५०१. [१] मणसपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए
पण्णत्ते ? गोयमा ! छच्चिहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तं जहा-समचउरंसे जाव हुंडे ।

[२] पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं चैव ।

[३] गम्भवक्कंतियाण वि एवं चैव । पज्जत्ताऽपज्जत्तगाण वि एवं चैव ।

[४] सम्मुच्छिमाणं पुच्छा । गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिया पण्णत्ता ।

[सुत्ताई १५०२-१३. ओरालियसरीरे पमाणदारं]

१५०२. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

१५०३. एगिंदियओरालियस्स वि एवं चैव जहा ओहियस्स
(सु. १५०२) ।

१५०४. [१] पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहा-
लिया पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[२] एवं अपज्जत्तयाण वि पज्जत्तयाण वि ।

[३] एवं सुहुमाण वि पज्जत्तापज्जत्ताणं ।

[४] वादराणं पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं । एसो णवओ भेदो ।

१५०५. जहा पुढविक्काइयाणं तहा आउक्काइयाण वि तेउक्काइयाण वि वाउक्काइयाण वि ।

५ १५०६. [१] वणस्सइकाइयओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

[२] अपज्जत्तगाणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[३] पज्जत्तगाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

[४] वादराणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं । पज्जत्ताण वि एवं चेव । अपज्जत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[५] सुहुमाणं पज्जत्तापज्जत्ताण य तिण्ह वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१५०७. [१] वेइंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं वारस जोयणाइं ।

[२] एवं सव्वत्थ वि अपज्जत्तयाणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि ।

[३] पज्जत्तयाणं जहेव ओरालियस्स ओहियस्स (सु. १५०२) ।

१५०८. एवं तेइंदियाणं तिण्णि गाउयाइं, चउरिंदियाणं चत्तारि गाउयाइं ।

१५०९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ३, एवं सम्मुच्छिमाणं ३, गन्भवक्कंतियाण वि ३ । एवं चेव णवओ भेदो भाणियव्वो ।

१५१०. एवं जलयराण वि जोयणसहस्सं, णवओ भेदो ।

१५११. [१] थलयराण वि णवओ भेदो < > उक्कोसेणं छगाउयाइं,

१. णवओ भेदो भाणियव्वो, उक्को° ध० ॥ २. सर्वेष्वपि सूत्रादर्शेषूपलभ्यमानः < > एतच्चिह्नान्तर्गतः पाठोऽसङ्गत आभाति, टीकायामस्य पाठस्य व्याख्या न वर्तते, नोपलभ्यते चायं पाठः श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके ॥

पज्जत्ताणं वि एवं चेव ३ । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताणं य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।
गम्भवक्कंतियाणं उक्कोसेणं छग्गाउयाइं पज्जत्ताणं य २ । ▷ ओहियचउप्पयपज्ज-
त्तय-गम्भवक्कंतियपज्जत्ताणं य उक्कोसेणं छग्गाउयाइं । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताणं य
गाउयपुहत्तं उक्कोसेणं ।

[२] एवं उरपरिसप्पाणं वि ओहिय-गम्भवक्कंतियपज्जत्ताणं जोयणसहस्सं । ५
सम्मुच्छिमाणं जोयणपुहत्तं ।

[३] भुयपरिसप्पाणं ओहियगम्भवक्कंतियाणं य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।
सम्मुच्छिमाणं धणुपुहत्तं ।

१५१२. खहराणं ओहिय-गम्भवक्कंतियाणं सम्मुच्छिमाणं य तिण्ह वि
उक्कोसेणं धणुपुहत्तं । इमाओ संगहणिगाहाओ— १०

जोयणसहस्सं छग्गाउयाइं ततो य जोयणसहस्सं ।

गाउयपुहत्तं भुयए धणुपुहत्तं च पक्खीसु ॥ २१५ ॥

जोयणसहस्सं गाउयपुहत्तं ततो य जोयणपुहत्तं ।

दोण्हं तु धणुपुहत्तं सम्मुच्छिमे होति उच्चत्तं ॥ २१६ ॥

१५१३. [१] मणुस्सोरालियसरीरस्सं णं भंते ! केमहालिया सरीरो- १५
गाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं
तिणिण्णं गाउयाइं ।

[२] अपज्जत्ताणं जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं ।

[३] सम्मुच्छिमाणं जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं ।

[४] गम्भवक्कंतियाणं पज्जत्ताणं य जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं, २०
उक्कोसेणं तिणिण्णं गाउयाइं ।

[सुत्ताइं १५१४-२०. वेडव्वियसरीरे विहिदारं]

१५१४. वेडव्वियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे
पण्णत्ते । तं जहा-एग्गिदियवेडव्वियसरीरे य पंचेंदियवेडव्वियसरीरे य ।

१५१५. [१] जदि एग्गिदियवेडव्वियसरीरे किं वाउक्काइयएग्गिदियवे- २५
डव्वियसरीरे अवाउक्काइयएग्गिदियवेडव्वियसरीरे ? [ग्रन्थाप्रम ६०००] गोयमा !
वाउक्काइयएग्गिदियवेडव्वियसरीरे, णो अवाउक्काइयएग्गिदियवेडव्वियसरीरे ।

[३] एवं सुहुमाण वि पज्जत्तापज्जत्ताणं ।

[४] वादराणं पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं । एसो णवओ भेदो ।

१५०५. जहा पुढविकाइयाणं तहा आउक्काइयाण वि तेउक्काइयाण वि वाउक्काइयाण वि ।

५ १५०६. [१] वणस्सइकाइयओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

[२] अपज्जत्तगाणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[३] पज्जत्तगाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं

१० जोयणसहस्सं ।

[४] वादराणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं । पज्जत्ताण वि एवं चेव । अपज्जत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[५] सुहुमाणं पज्जत्तापज्जत्ताण य तिण्ह वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि

१५ अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१५०७. [१] वेइंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं चारस जोयणाइं ।

[२] एवं सव्वत्थ वि अपज्जत्तयाणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि ।

२० [३] पज्जत्तयाणं जहेव ओरालियस्स ओहियस्स (सु. १५०२) ।

१५०८. एवं तेइंदियाणं तिण्णि गाउयाइं, चउरिंदियाणं चत्तारि गाउयाइं ।

१५०९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ३, एवं सम्मुच्छिमाणं ३, गव्भवक्कंतियाण वि ३ । एवं चेव णवओ भेदो भाणियच्चो ।

२५ १५१०. एवं जलयराण वि जोयणसहस्सं, णवओ भेदो ।

१५११. [१] थलयराण वि णवओ भेदो ^१ उक्कोसेणं छग्गाउयाइं,

१. णवओ भेदो भाणियच्चो, उक्को^० ध० ॥ २. सर्वेष्वपि सूत्रादर्शेषूपलभ्यमानः < > एतच्चि-
द्वान्तर्गतः पाठोऽसङ्गत आभाति, टीकायामस्य पाठस्य व्याख्या न वर्तते, नोपलभ्यते चायं पाठः
श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके ॥

पज्जत्ताणं वि एवं चेव ३ । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताणं य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।
गम्भवक्कंतियाणं उक्कोसेणं छग्गाउयाइं पज्जत्ताणं य २ । ▷ ओहियचउप्पयपज्ज-
त्तय-गम्भवक्कंतियपज्जत्तयाणं य उक्कोसेणं छग्गाउयाइं । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताणं य
गाउयपुहत्तं उक्कोसेणं ।

[२] एवं उरपरिसप्पाणं वि ओहिय-गम्भवक्कंतियपज्जत्तयाणं जोयणसहस्सं । ५
सम्मुच्छिमाणं जोयणपुहत्तं ।

[३] भुयपरिसप्पाणं ओहियगम्भवक्कंतियाणं य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।
सम्मुच्छिमाणं धणुपुहत्तं ।

१५१२. खहयराणं ओहिय-गम्भवक्कंतियाणं सम्मुच्छिमाणं य तिण्ह वि
उक्कोसेणं धणुपुहत्तं । इमाओ संगहणिगाहाओ— १०

जोयणसहस्सं छग्गाउयाइं ततो य जोयणसहस्सं ।

गाउयपुहत्तं भुयए धणुपुहत्तं च पक्खीसु ॥ २१५ ॥

जोयणसहस्सं गाउयपुहत्तं ततो य जोयणपुहत्तं ।

दोण्हं तु धणुपुहत्तं सम्मुच्छिमे होति उच्चत्तं ॥ २१६ ॥

१५१३. [१] मणुस्सोरालियसरीरस्सं णं भंते ! केमहालिया सरीरो- १५
गाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं
तिण्णि गाउयाइं ।

[२] अपज्जत्ताणं जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं ।

[३] सम्मुच्छिमाणं जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं ।

[४] गम्भवक्कंतियाणं पज्जत्ताणं य जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं, २०
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं ।

[सुत्ताइं १५१४-२०. वेडव्वियसरीरे विहिदारं]

१५१४. वेडव्वियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे
पण्णत्ते । तं जहा-एग्गिदियवेडव्वियसरीरे य पंचेदियवेडव्वियसरीरे य ।

१५१५. [१] जदि एग्गिदियवेडव्वियसरीरे किं वाउक्काइयएग्गिदियवे- २५
उव्वियसरीरे अवाउक्काइयएग्गिदियवेडव्वियसरीरे ? [ग्रन्थाग्रम् ६०००] गोयमा !
वाउक्काइयएग्गिदियवेडव्वियसरीरे, णो अवाउक्काइयएग्गिदियवेडव्वियसरीरे ।

[३] एवं सुहुमाण वि पज्जत्तापज्जत्ताणं ।

[४] वादराणं पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं । एसो णवओ भेदो ।

१५०५. जहा पुढविक्काइयाणं तहा आउक्काइयाण वि तेउक्काइयाण वि वाउक्काइयाण वि ।

५ १५०६. [१] वणस्सइकाइयओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेणं जोयणसहस्सं ।

[२] अपज्जत्तगाणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[३] पज्जत्तगाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेणं जोयणसहस्सं ।

[४] वादराणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेणं जोयणसहस्सं । पज्जत्ताण वि एवं चेव । अपज्जत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[५] सुहुमाणं पज्जत्तापज्जत्ताण य तिण्ह वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१५०७. [१] बेइंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं बारस जोयणाइं ।

[२] एवं सव्वत्थ वि अपज्जत्तयाणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि ।

[३] पज्जत्तयाणं जहेव ओरालियस्स ओहियस्स (सु. १५०२) ।

१५०८. एवं तेइंदियाणं तिण्णि गाउयाइं, चउरिंदियाणं चत्तारि गाउयाइं ।

१५०९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ३, एवं सम्मुच्छिमाणं ३, गम्भवक्कंतियाण वि ३ । एवं चेव णवओ भेदो भाणियव्वो ।

१५१०. एवं जलयराण वि जोयणसहस्सं, णवओ भेदो ।

१५११. [१] थलयराण वि णवओ भेदो उक्कोसेणं छग्गाउयाइं,

१. णवओ भेदो भाणियव्वो, उक्को° ध० ॥ २. सर्वेष्वपि सूत्रादर्शेषूपलभ्यमानः < > एतच्चिद्धान्तर्गतः पाठोऽसङ्गत आभाति, टीकायामस्य पाठस्य व्याख्या न वर्तते, नोपलभ्यते चायं पाठः श्रीजीवविजयराणिकृतस्तवके ॥

पज्जत्ताणं वि एवं चेव ३ । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताणं य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।
गम्भवक्कंतियाणं उक्कोसेणं छग्गाउयाइं पज्जत्ताणं य २ । ▷ ओहियचउप्पयपज्ज-
त्तय-गम्भवक्कंतियपज्जत्तयाणं य उक्कोसेणं छग्गाउयाइं । सम्मुच्छिमाणं पज्जत्ताणं य
गाउयपुहत्तं उक्कोसेणं ।

[२] एवं उरपरिसप्पाणं वि ओहिय-गम्भवक्कंतियपज्जत्तयाणं जोयणसहस्सं । ५
सम्मुच्छिमाणं जोयणपुहत्तं ।

[३] भुयपरिसप्पाणं ओहियगम्भवक्कंतियाणं य उक्कोसेणं गाउयपुहत्तं ।
सम्मुच्छिमाणं धणुपुहत्तं ।

१५१२. खह्यराणं ओहिय-गम्भवक्कंतियाणं सम्मुच्छिमाणं य तिण्ह वि
उक्कोसेणं धणुपुहत्तं । इमाओ संगहणिगाहाओ— १०

जोयणसहस्सं छग्गाउयाइं ततो य जोयणसहस्सं ।

गाउयपुहत्तं भुयए धणुपुहत्तं च पक्खीसु ॥ २१५ ॥

जोयणसहस्सं गाउयपुहत्तं ततो य जोयणपुहत्तं ।

दोण्हं तु धणुपुहत्तं सम्मुच्छिमे होति उच्चत्तं ॥ २१६ ॥

१५१३. [१] मणुस्सोराणियसरीरस्सं णं भंते ! केमहालिया सरीरो- १५
गाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं
तिण्णि गाउयाइं ।

[२] अपज्जत्ताणं जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं ।

[३] सम्मुच्छिमाणं जहण्णेणं वि उक्कोसेणं वि अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं ।

[४] गम्भवक्कंतियाणं पज्जत्ताणं य जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जइभागं, २०
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं ।

[सुत्ताइं १५१४-२०. वेउव्वियसरीरे विहिदारं]

१५१४. वेउव्वियसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे
पण्णत्ते । तं जहा-एग्गिदियवेउव्वियसरीरे य पंचेदियवेउव्वियसरीरे य ।

१५१५. [१] जदि एग्गिदियवेउव्वियसरीरे किं वाउक्काइयएग्गिदियवे- २५
उव्वियसरीरे अवाउक्काइयएग्गिदियवेउव्वियसरीरे ? [ग्रन्थाग्रम् ६०००] गोयमा !
वाउक्काइयएग्गिदियवेउव्वियसरीरे, णो अवाउक्काइयएग्गिदियवेउव्वियसरीरे ।

[३] एवं सुहुमाण वि पज्जत्तापज्जत्ताणं ।

[४] चादराणं पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं । एसो णवओ भेदो ।

१५०५. जहा पुढविकाइयाणं तहा आउक्काइयाण वि तेउक्काइयाण वि वाउक्काइयाण वि ।

५ १५०६. [१] वणस्सइक्काइयओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्वत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

[२] अपज्जत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

[३] पज्जत्ताणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं ।

[४] चादराणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं । पज्जत्ताण वि एवं चेव । अपज्जत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१५ १५०७. [५] सुहुमाणं पज्जत्तापज्जत्ताण य तिण्ह वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१५०७. [१] चेइंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्वत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं चारस्स जोयणाइं ।

[२] एवं सव्वत्थ वि अपज्जत्तयाणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि ।

२० [३] पज्जत्तयाणं जहेव ओरालियस्स ओहियस्स (सु. १५०२) ।

१५०८. एवं तेइंदियाणं तिण्णि गाउयाइं, चउरिंदियाणं चत्तारि गाउयाइं ।

१५०९. पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ३, एवं सम्मुच्छिमाणं ३, गन्भवक्कंतियाण वि ३ । एवं चेव णवओ भेदो भाणियव्वो ।

२५ १५१०. एवं जलयराण वि जोयणसहस्सं, णवओ भेदो ।

१५११. [१] थलयराण वि णवओ भेदो ◁ उक्कोसेणं छग्गाउयाइं,

१. णवओ भेदो भाणियव्वो, उक्को° ध० ॥ २. सर्वेपि सूत्रादर्शेषूपलभ्यमानः ◁ ▷ एतच्चि-
हान्तर्गतः पाठोऽसङ्गत आभाति, टीकायामस्य पाठस्य व्याख्या न वर्तते, नोपलभ्यते चायं पाठः
श्रीजीवविजयगणिकृतस्तवके ॥

[३] यदि संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्विय-
सरीरे किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे
अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गो-
यमा ! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे,
णो अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे । ५

[४] यदि संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्विय-
सरीरे किं जलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे
थलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे खहयर-
संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा !
जलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि थलयर- १०
संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि खहयरसंखेज्ज-
वासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि ।

[५] यदि जलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदियवे-
उव्वियसरीरे किं पज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदि-
यवेउव्वियसरीरे अपज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदि- १५
यवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्ख-
जोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे, णो अपज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियति-
रिक्खजोगियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ।

[६] यदि थलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोगियपंचेंदिय जाव
सरीरे किं चउप्पय जाव सरीरे परिसप्प जाव सरीरे ? गोयमा ! चउप्पय जाव २०
सरीरे वि परिसप्प जाव सरीरे वि ।

[७] एवं सव्वेसिं णेयं जाव खहयराणं पज्जत्ताणं, णो अपज्जत्ताणं ।

१५१९. [१] यदि मणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे किं सम्मुच्छिमणूस-
पंचेंदियवेउव्वियसरीरे गन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णो
सम्मुच्छिमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे, गन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे । २५

[२] यदि गन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे किं कम्मभूमगगन्भव-
क्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे अकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वि-
यसरीरे अंतरदीवयगन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! कम्मभू-

[२] जदि वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे किं सुहुमवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे वादरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णो सुहुमवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, वायरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ।

[३] जदि वादरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे किं पज्जत्तवायरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे अपज्जत्तवायरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तवादरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, णो अपज्जत्तवादरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ।

१५१६. जदि पंचेदियवेउव्वियसरीरे किं णेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे जाव किं देवपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे वि जाव देवपंचेदियवेउव्वियसरीरे वि ।

१५१७. [१] जदि णेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे किं रयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे जाव किं अहेसत्तमापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे वि जाव अहेसत्तमापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे वि ।

१५ [२] जदि रयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे किं पज्जत्तगरयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे अपज्जत्तगरयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तगरयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे वि अपज्जत्तगरयणप्पभापुढविणेरइयपंचेदियवेउव्वियसरीरे वि ।

[३] एवं जाव अहेसत्तमाए दुंगतो भेदो णेयव्वो ।

२० १५१८. [१] जदि तिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे किं सम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे गम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णो सम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे, गम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे ।

[२] जदि गम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे किं संखेज्जवासाउयगम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे असंखेज्जवासाउयगम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! संखेज्जवासाउयगम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे, णो असंखेज्जवासाउयगम्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरे ।

[३] यदि संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्विय-
सरीरे किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे
अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गो-
यमा ! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे,
णो अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे । ५

[४] यदि संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्विय-
सरीरे किं जलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे
थलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे खहयर-
संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा !
जलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि थलयर- १०
संखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि खहयरसंखेज्ज-
वासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि ।

[५] यदि जलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवे-
उव्वियसरीरे किं पज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदि-
यवेउव्वियसरीरे अपज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदि- १५
यवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्ख-
जोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे, णो अपज्जत्तगजलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियति-
रिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ।

[६] यदि थलयरसंखेज्जवासाउयगन्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदिय जाव
सरीरे किं चउप्पय जाव सरीरे परिसप्प जाव सरीरे ? गोयमा ! चउप्पय जाव २०
सरीरे वि परिसप्प जाव सरीरे वि ।

[७] एवं सव्वेसिं णेयं जाव खहयराणं पज्जत्ताणं, णो अपज्जत्ताणं ।

१५१९. [१] यदि मणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे किं सम्मुच्छिमणूस-
पंचेंदियवेउव्वियसरीरे गन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णो
सम्मुच्छिमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे, गन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे । २५

[२] यदि गन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे किं कम्मभूमगगन्भव-
क्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे अकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वि-
यसरीरे अंतरदीवयगन्भवक्कंतियमणूसंपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! कम्मभू-

मगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे, णो अकम्मभूमगगभवक्कतियमणूस-
पंचेंदियवेउच्चियसरीरे नो अंतरदीवयगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे य ।

[३] जदि कम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे किं

संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे असंखेज्जवासा-
५ उयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे ? गोयमा ! संखेज्जवासा-
उयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे, णो असंखेज्जवासाउयकम्म-
भूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे ।

[४] जदि संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चिय-

सरीरे किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे
१० अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे ? गोय-
मा ! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे,
णो अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगभवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउच्चियसरीरे ।

१५२०. [१] जदि देवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे किं भवणवासिदेवपंचें-

दियवेउच्चियसरीरे जाव वेमाणियदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे ? गोयमा ! भवण-
१५ वासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे वि जाव वेमाणियदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे वि ।

[२] जदि भवणवासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे किं असुरकुमारभवणवासि-

देवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे ?
गोयमा ! असुरकुमार० जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे वि ।

[३] जदि असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे किं पज्जत्तग-

असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे अपज्जत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेव-
२० पंचेंदियवेउच्चियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवे-
उच्चियसरीरे वि अपज्जत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेउच्चियसरीरे वि ।
एवं जाव थणियकुमारे वि णं दुगओ भेदो ।

[४] एवं वाणमंतराणं अट्टविहाणं, जोइसियाणं पंचविहाणं ।

२५ [५] वेमाणिया दुविहा-कप्पोवगा कप्पातीता य । कप्पोवगा वारसविहा,
तेसिं पि एवं चेव दुगतो भेदो । कप्पातीता दुविहा-गेवेज्जगा य अणुत्तरा य ।
गेवेज्जगा णवविहा, अणुत्तरोववाइया पंचविहा, एतेसिं पज्जत्तापज्जत्ताभिलावेणं
दुगतो भेदो ।

[सुत्ताईं १५२१-२६, वेडव्वियसरीरे संठाणदारं]

१५२१. वेडव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणा-
संठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५२२. वाउक्काइयएगिंदियवेडव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ?
गोयमा ! पडागासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५२३. [१] णेरइयपंचेंदियवेडव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ?
गोयमा ! णेरइयपंचेंदियवेडव्वियसरीरे दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-भवधारणिज्जे य
उत्तरवेडव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे से हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तत्थ णं
जे से उत्तरवेडव्विए से वि हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[२] रयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेडव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण- १०
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविणेरइयाणं दुविहे सरीरे पण्णत्ते । तं
जहा-भवधारणिज्जे य उत्तरवेडव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे से वि हुंडे,
जे वि उत्तरवेडव्विए से वि हुंडे । एवं जाव अहेसत्तमापुढविणेरइयवेडव्वियसरीरे ।

१५२४. [१] त्तिरिक्खजोणियपंचेंदियवेडव्वियसरीरे णं भंते !
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । १५

[२] एवं जलयर-थलयर-खह्यराण वि । थलयराण चउप्पय-परिसप्पाण
वि । परिसप्पाण उरपरिसप्प-भुयपरिसप्पाण वि ।

१५२५. एवं मणूसपंचेंदियवेडव्वियसरीरे वि ।

१५२६. [१] असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेडव्वियसरीरे णं भंते !
किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहे सरीरे पण्णत्ते । तं २०
जहा-भवधारणिज्जे य उत्तरवेडव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे से णं
समचउरंसंठाणसंठिए पण्णत्ते । तत्थ णं जे से उत्तरवेडव्विए से णं णाणासंठाण-
संठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव थणियकुमारदेवपंचेंदियवेडव्वियसरीरे ।

[३] एवं वाणमंतराण वि । णवरं ओहिया वाणमंतरा पुच्छिज्जंति । २५

[४] एवं जोइसियाण वि ओहियाणं ।

[५] एवं सोहम्म जाव अञ्जुयदेवसरीरे ।

[६] गेवेज्जगक्प्पातीयवेमाणियदेवपंचेंदियवेडव्वियसरीरे णं भंते !

किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! गेवेज्जगदेवाणं एगे भवधारणिज्जे सररीए, से णं समचउरंससंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[७] एवं अणुत्तरोववातिथाण वि ।

[सुत्ताइं १५२७-३२. वेउव्वियसररीरे पमाणदारं]

५ १५२७. वेउव्वियसररीरस्स णं भंते ! केमहालिया सररीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसतसहस्सं ।

१५२८. वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसररीरस्स णं भंते ! केमहालिया सररीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं ।

१० १५२९. [१] णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसररीरस्स णं भंते ! केमहालिया सररीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य । तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं पंचधणुसयाइं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं धणुसहस्सं ।

१५ [२] रयणप्पभापुढविणेरइयाणं भंते ! केमहालिया सररीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य । तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सत्त धणूं तिण्णि रयणीओ छच्च अंगुलाइं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं पण्णरस धणूं अड्डाइज्जाओ रयणीओ ।

२० [३] सक्करप्पभाए पुच्छ । गोयमा ! जाव तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं पण्णरस धणूं अड्डाइज्जाओ रयणीओ । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं एकतीसं धणूं एक्का य रयणी ।

२५ [४] वालुयप्पभाए भवधारणिज्जा एकतीसं धणूं एक्का य रयणी, उत्तरवेउव्विया चावट्ठिं धणूं दोण्णि य रयणीओ ।

[५] पंकप्पभाए भवधारणिज्जा चावट्ठिं धणूं दोण्णि य रयणीओ, उत्तरवेउव्विया पणुवीसं धणुसतं ।

[६] धूमप्पभाए भवधारणिज्जा पणुवीसं धणुसतं, उत्तरवेउव्विया अड्डाइज्जाइं धणुसताइं ।

[७] तमाए भवधारणिज्जा अड्डाइज्जाइं धणुसताइं, उत्तरवेउव्विया पंच धणुसताइं ।

[८] अहेसत्तमाए भवधारणिज्जा पंच धणुसताइं, उत्तरवेउव्विया धणुसहस्सं । एयं उक्कोसेणं ।

[९] जहण्णेणं भवधारणिज्जा अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उत्तरवेउव्विया ५ अंगुलस्स संखेज्जइभागं ।

१५३०. तिरिक्खजोणियपंचेदियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसतपुहत्तं ।

१५३१. सणूसपंचेदियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरो- १० गाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसतसहस्सं ।

१५३२. [१] असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेदियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! असुरकुमारणं देवाणं दुविहा सरीरोगाहणा पण्णत्ता । तं जहा—भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य । तत्थ णं १५ जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सत्त रयणीओ । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसतसहस्सं ।

[२] एवं जाव थणियकुमारणं ।

[३] एवं ओहियाणं वाणमंतराणं ।

[४] एवं जोइसियाण वि ।

[५] सोहम्मीसाणगदेवाणं एवं चेव उत्तरवेउव्विया जाव अञ्चुओ कप्पो । णवरं सणंकुमारि भवधारणिज्जा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं उक्कोसेणं छ रयणीओ, एवं माहिंदे वि, बंभलोय-लंतगेसु पंच रयणीओ, महासुक्क-सहस्सारेसु चत्तारि रयणीओ, आणय-पाणय-आरण-अञ्चुएसु तिण्णि रयणीओ ।

[६] गेवेज्जगक्काप्पातीतवेमाणियदेवपंचेदियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! गेवेज्जगदेवाणं एगा भवधारणिज्जा सरीरोगाहणा पण्णत्ता, सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं उक्कोसेणं दो रयणीओ ।

[७] एवं अणुत्तरोववाइयदेवाण वि । णवरं एक्का रयणी ।

[सुत्तं १५३३. आहारगसरीरे विहिदारं]

१५३३. [१] आहारगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! एगागारे पणत्ते ।

५ [२] जदि एगागारे पणत्ते किं मणूसआहारयसरीरे अमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! मणूसआहारगसरीरे, णो अमणूसआहारगसरीरे ।

[३] जदि मणूसआहारगसरीरे किं सम्मुच्छिममणूसआहारगसरीरे गन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! णो सम्मुच्छिममणूसआहारगसरीरे, गन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

१० [४] जदि गन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे किं कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे अकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे अंतरदीवगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो अकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे णो अंतरदीवगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

१५ [५] जदि कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे किं संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे असंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो असंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

२० [६] जदि संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे किं पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो अपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

२५ [७] जदि पज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे किं सम्मदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे मिच्छदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! सम्मदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो मिच्छदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे णो सम्मामिच्छदिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

[८] जदि सम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूस-
आहारगसरीरे किं संजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणू-
सआहारगसरीरे असंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियम-
णूसआहारगसरीरे संजतासंजतसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कं-
तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्म- ५
भूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो असंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासा-
उयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे णो संजयासंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तग-
संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

[९] जदि संजतसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतिय-
मणूसआहारगसरीरे किं पमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भव- १०
क्कंतियमणूसआहारगसरीरे अपमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमग-
गन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासा-
उयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो अपमत्तसंजतसम्मदिट्टिपज्जत्तग-
संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ।

[१०] जदि पमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भव- १५
क्कंतियमणूसआहारगसरीरे किं इड्ढिपत्तपमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउय-
कम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे अणिड्ढिपत्तपमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तग-
संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! इड्ढिपत्तपमत्त-
संजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, णो
अणिड्ढिपत्तपमत्तसंजयसम्मदिट्टिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउयकम्मभूमगगन्भवक्कंतियमणूस - २०
आहारगसरीरे ।

[सुत्तं १५३४. आहारगसरीरे संठाणदारं]

१५३४. आहारगसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! समच-
उरंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

[सुत्तं १५३५. आहारगसरीरे पमाणदारं]

१५३५. आहारगसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा ! जहण्णेणं देसूणा रयणी, उक्कोसेणं पडिपुण्णा रयणी ।

[सुत्ताइं १५३६-३९. तेयगसरिरे विहिदारं]

१५३६. तेयगसरिरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-एगिंदियतेयगसरिरे जाव पंचेदियतेयगसरिरे ।

१५३७. एगिंदियतेयगसरिरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-पुढविक्काइय जाव वणप्फइकाइयएगिंदियतेयगसरिरे ।

१५३८. एवं जहा ओरालियसरिरेस्स भेदो भणियो (सु. १४७७-८१) तथा तेयगस्स वि जाव चउरिंदियाणं ।

१५३९. [१] पंचेदियतेयगसरिरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा-णेरइयतेयगसरिरे जाव देवतेयगसरिरे ।

१० [२] णेरइयाणं दुगतो भेदो भाणियव्वो जहा वेउव्वियसरिरे (सु. १५१७) ।

[३] पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहा ओरालियसरिरे भेदो भणितो (सु. १४८२-८७) तथा भाणियव्वो ।

१५ [४] देवाणं जहा वेउव्वियसरिरे भेओ भणितो (सु. १५२०) तथा भाणियव्वो जाव सब्बइसिद्धदेवे ति ।

[सुत्ताइं १५४०-४४. तेयगसरिरे संठाणदारं]

१५४०. तेयगसरिरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाण-संठिए पण्णत्ते ।

१५४१. एगिंदियतेयगसरिरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५४२. पुढविक्काइयएगिंदियतेयगसरिरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! मसूरचंदसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५४३. एवं ओरालियसंठाणाणुसारेणं भाणियव्वं (सु. १४९०-९६) जाव चउरिंदियाणं ति ।

१५४४. [१] णेरइयाणं भंते ! तेयगसरिरे किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! जहा वेउव्वियसरिरे (सु. १५२३) ।

[२] पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहा एतेसिं चेत्र ओगलिय ति (सु. १५२४-२५) ।

[३] देवाणं भंते ! तेयगसरीरे किंसंठिए पणत्ते ? गोयमा ! जहा वेउव्वियस्स (सु. १५२६) जाव अणुत्तरोववाइय ति ।

[सुत्ताइं १५४५-५१. तेयगसरीरे पमाणदारं]

१५४५. जीवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागो, उक्कोसेणं लोगंताओ लोगंतो ।

१५४६. एण्णंदियस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! एवं चेत्र, जाव पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फइकाइयस्स ।

१५४७. [१] वेइंदियस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं तिरियलोगाओ लोगंतो ।

[२] एवं जाव चउरिंदियस्स ।

१५४८. णेरइयस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं, उक्कोसेणं अहे जाव अहेसत्तमा पुढवी, तिरियं जाव सयंभुरमणे समुद्दे, उड्डं जाव पंडगवणे पुक्खरिणीओ ।

१५४९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! जहा वेइंदियसरीरस्स (सु. १५४७ [१]) ।

१५५०. मणूसस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! समयखेत्ताओ लोगंतो ।

१५५१. [१] असुरकुमारस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं

[सुत्ताइं १५३६-३९. तेयगसरीरे विहिदारं]

१५३६. तेयगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-एगिंदियतेयगसरीरे जाव पंचेदियतेयगसरीरे ।

५ १५३७. एगिंदियतेयगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-पुढविक्काइय जाव वणप्फइकाइयएगिंदियतेयगसरीरे ।

१५३८. एवं जहा ओरालियसरीरस्स भेदो भण्णित्तो (सु. १४७७-८१) तहा तेयगस्स वि जाव चउरिंदियाणं ।

१५३९. [१] पंचेदियतेयगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा-णेरइयतेयगसरीरे जाव देवतेयगसरीरे ।

१० [२] णेरइयाणं दुगतो भेदो भाणियच्चो जहा वेउव्वियसरीरे (सु. १५१७) ।

[३] पंचेदियतिरिक्खज्जोणियाणं मणूसण य जहा ओरालियसरीरे भेदो भणित्तो (सु. १४८२-८७) तहा भाणियच्चो ।

१५ [४] देवाणं जहा वेउव्वियसरीरे भेओ भणित्तो (सु. १५२०) तहा भाणियच्चो जाव सव्वइसिद्धदेवे त्ति ।

[सुत्ताइं १५४०-४४. तेयगसरीरे संठाणदारं]

१५४०. तेयगसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाण-संठिए पण्णत्ते ।

२० १५४१. एगिंदियतेयगसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५४२. पुढविक्काइयएगिंदियतेयगसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! मसूरचंदसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

१५४३. एवं ओरालियसंठाणाणुसारेणं भाणियच्चं (सु. १४९०-९६) जाव चउरिंदियाणं ति ।

२५ १५४४. [१] णेरइयाणं भंते ! तेयगसरीरे किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! जहा वेउव्वियसरीरे (सु. १५२३) ।

अहे जाव तच्चाए पुढवीए हेड्डिल्ले चरिमंते, तिरियं जाव सयंभुरमणसमुद्दस्स वाहिरिल्ले वेइयंते, उडुं जाव इसीपब्भारा पुढवी ।

[२] एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स ।

[३] वाणमंतर-जोइसिया सोहम्मीसाणगा य एवं चेव ।

५ [४] सणकुमारदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जमागं, उक्कोसेणं अहे जाव महापातालाणं दोच्चे तिभागे, तिरियं जाव सयंभुरमणसमुद्दे, उडुं जाव अञ्चुओ कप्पो ।

१० [५] एवं जाव सहस्सारदेवस्स ।

[६] आणयदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं, उक्कोसेणं अहे जाव अहेलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेत्ते, उडुं जाव अञ्चुओ कप्पो ।

१५ [७] एवं जाव आरणदेवस्स ।

[८] अञ्चुयदेवस्स वि एवं चेव । णवरं उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ।

२० [९] भेवेज्जगदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्लेणं; आयामेणं जहण्णेणं विज्जाहरसेदीओ, उक्कोसेणं जाव अहेलोइय-गामा, तिरियं जाव मणूसखेत्ते, उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ।

[१०] अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव ।

[सुत्तं १५५२. कम्मगसरीरे विहि-संठाण-पमाणदाराइं]

१५५२. कम्मगसरीरे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा-एगिंदियकम्मगसरीरे जाव पंचेदिय० । एवं जेहव तेयग-सरीरस्स भेदो संठाणं ओगाहणा य भणिया (सु. १५३६-५१) तहेव णिरवसेसं भाणियच्चं जाव अणुत्तरोववाइय ति ।

[सुत्ताइं १५५३-५८. ४ पोग्गलच्चिणणादारं]

१५५३. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! कतिदिसिं पोग्गला चिज्जंति ?

गोयमा ! णिव्वाघाएणं छदिसिं, वाघातं पडुच्च सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं ।

१५५४. वेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! कतिदिसिं पोग्गला चिज्जंति ? गोयमा ! णियमा छदिसिं ।

१५५५. एवं आहारगसरीरस्स वि । ५

१५५६. तेया-कम्मगाणं जहा ओरालियसरीरस्स (सु. १५५३) ।

१५५७. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! कतिदिसिं पोग्गला उवचिज्जंति ? गोयमा ! एवं चेव, जाव कम्मगसरीरस्स ।

१५५८. एवं उवचिज्जंति(?) अवचिज्जंति ।

[सुत्ताहं १५५९-६४. ५ सरीरसंजोगदाराहं]

१०

१५५९. जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स णं वेउव्वियसरीरं ? जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि ।

१५६०. जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं ? जस्स आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, जस्स पुण आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं णियमा अत्थि । १५

१५६१. जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? जस्स तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं णियमा अत्थि, जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि । २०

१५६२. एवं कम्मगसरीरं पि ।

१५६३. [१] जस्स णं भंते ! वेउव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं ? जस्स आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं ? गोयमा ! जस्स वेउव्वियसरीरं तस्साहारगसरीरं णत्थि, जस्स वि य आहारगसरीरं तस्स वि वेउव्वियसरीरं णत्थि । २५

[२] तेया-कम्माइं जहा ओरालिएण समं (सु. १५६१-६२) तहेव आहारगसरीरेण वि समं तेया-कम्माइं चारेयव्वाणि ।

१५६४. जस्स णं भंते ! तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं ? जस्स कम्म-

गसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? गोयमा ! जस्स तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं नियमा अत्थि, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरं णियमा अत्थि ।

[सुत्तं १५६५. ६ दव्व-पएसडप्पवहुदारं]

१५६५. एतेसि णं भंते ! ओरालिय-वेउव्विय-आहारग-तेया-कम्मग-
 ५ सरीराणं दव्वड्डयाए पएसड्डयाए दव्वड्डपएसड्डयाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?
 गोयमा ! सव्वत्थोवा आहारगसरीरा दव्वड्डयाए, वेउव्वियसरीरा दव्वड्डयाए
 असंखेज्जगुणा, ओरालियसरीरा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, तेया-कम्मगसरीरा दो
 वि तुल्ला दव्वड्डयाए अणंतगुणा; पएसड्डयाए-सव्वत्थोवा आहारगसरीरा पएस-
 ड्डयाए, वेउव्वियसरीरा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा, ओरालियसरीरा पदेसड्डयाए
 १० असंखेज्जगुणा, तेयगसरीरा पदेसड्डयाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पदेसड्डयाए
 अणंतगुणा; दव्वड्डपदेसड्डयाए-सव्वत्थोवा आहारगसरीरा दव्वड्डयाए, वेउव्विय-
 सरीरा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा, ओरालियसरीरा दव्वड्डयाए असंखेज्जगुणा,
 ओरालियसरीरहिंतो दव्वड्डयाए आहारगसरीरा पएसड्डयाए अणंतगुणा, वेउव्विय-
 सरीरा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा, ओरालियसरीरा पदेसड्डयाए असंखेज्जगुणा,
 १५ तेया-कम्मगसरीरा दो वि तुल्ला दव्वड्डयाए अणंतगुणा, तेयगसरीरा पदेसड्डयाए
 अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पदेसड्डयाए अणंतगुणा ।

[सुत्तं १५६६. ७ सरीरओगाहणडप्पवहुदारं]

१५६६. एतेसि णं भंते ! ओरालिय-वेउव्विय-आहारग-तेया-कम्मगसरी-
 राणं जहण्णियाए ओगाहणाए उक्कोसियाए ओगाहणाए जहण्णुक्कोसियाए ओगाह-
 २० णाए कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा ओरालियसरीरस्स
 जहण्णिया ओगाहणा, तेया-कम्मगाणं दोण्ह वि तुल्ला जहण्णिया ओगाहणा
 विसेसाहिया, वेउव्वियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा, आहारग-
 सरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा; उक्कोसियाए ओगाहणाए-सव्वत्थोवा
 आहारगसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा
 २५ संखेज्जगुणा, वेउव्वियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेज्जगुणा, तेया-कम्मगाणं
 दोण्ह वि तुल्ला उक्कोसिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा; जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणा-
 ए-सव्वत्थोवा ओरालियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा, तेया-कम्मगाणं दोण्ह वि
 तुल्ला जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउव्वियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा

असंखेज्जगुणा, आहारगसरीरस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा, आहारग-
 सरीरस्स जहणियाहितो ओगाहणाहितो तस्स चेव उक्कोसिया ओगाहणा
 विसोसाहिया, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेज्जगुणा, वेउव्विय-
 सरीरस्स णं उक्कोसिया ओगाहणा संखेज्जगुणा, तेया-कम्मगाणं दोण्ह वि तुट्ठा
 उक्कोसिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।

५.

॥ पणवणाय भगवतीए पगवीसद्धमं ओगाहणसंठाणायं सगत्तं ॥

२२. बाबीसइमं किरियापयं

[सुत्ताई १५६७-७२. किरियाभेय-पभेयपरूवणं]

१५६७. कति णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच
किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया ? आहिगरणिया २ पादोसिया ३
५ पारियावणिया ४ पाणाइवातकिरिया ५ ।

१५६८. काइया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-अणुवरयकाइया य दुप्पउत्तकाइया य ।

१५६९. आहिगरणिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-संजोयणाहिकरणिया य निव्वत्तणाहिकरणिया य ।

१५७०. पादोसिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !
१० तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा अस्सुभं म्पं
पहारेति । से त्तं पादोसिया किरिया ।

१५७१. पारियावणिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !
१५ तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असायं
वेदणं उदीरेति । से त्तं पारियावणिया किरिया ।

१५७२. पाणातिवातकिरिया णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !
तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-जेणं अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा जीवियाओ
ववरोवेइ । से त्तं पाणाइवायकिरिया ।

[सुत्तं १५७३. जीविसु सकिरियत्त-अकिरियत्तपरूवणं]

२० १५७३. जीवा णं भंते ! किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! जीवा
सकिरिया वि अकिरिया वि । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवा सकिरिया वि
अकिरिया वि ? गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता । तं जहा-संसारसमावण्णगा य
असंसारसमावण्णगा य । तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धा
णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते संसारसमावण्णगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-
२५ सेलेसिपडिवण्णगा य असेलेसिपडिवण्णगा य । तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवण्णगा

ते णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते असेलेसिपडिवण्णमा ते णं सकिरिया । से एतेण-
हेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि ।

[सुत्ताइं १५७४-८०. जीवाइंसु किरियाविमयपरुचणं]

१५७४. अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जति ? हंता
गोयमा ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ ? गोयमा ! ५
छसु जीवणिकाएसु ।

१५७५. [१] अत्थि णं भंते ! णेरइयाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जति ?
गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं जाव निरंतरं वेमाणियाणं ।

१५७६. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जति ? हंता ! १०
अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जति ? गोयमा ! सच्चदव्वेसु ।

[२] एवं णिरंतरं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१५७७. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं अदिण्णादाणेणं किरिया कज्जति ?
हंता अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं अदिण्णादाणेणं किरिया कज्जइ ? गोयमा !
गहण-धारणिल्लेसु दव्वेसु । १५

[२] एवं णेरइयाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं ।

१५७८. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं मेहुणेणं किरिया कज्जइ ? हंता !
अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मेहुणेणं किरिया कज्जति ? गोयमा ! रूवेसु वा
रूवसहगतेसु वा दव्वेसु ।

[२] एवं णेरइयाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं । २०

१५७९. [१] अत्थि णं भंते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ? हंता !
अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कज्जति ? गोयमा ! सच्चदव्वेसु ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१५८०. एवं कोहेणं माणेणं मायाए लोभेणं पेज्जेणं दोसेणं कलहेणं
अब्भक्खाणेणं पेसुण्णेणं परपरिवाएणं अरतिरतीए मायामोसेणं मिच्छादंसणसहेणं २५
सच्चेसु जीव-णेरइयभेदेसु भाणियच्चं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं ति । एवं
अट्टारस एते दंडगा १८ ।

[सुत्ताइं १५८१-८४. जीवाइंसु किरियाहेऊहिं कम्मपगडिबंधपरुवणं]

१५८१. [१] जीवे णं भंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा ।

[२] एवं णेरइए जाव णिरंतरं वेमाणिए ।

५ १५८२. जीवा णं भंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि अट्टविहबंधगा वि ।

१५८३. [१] णेरइया णं भंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होजा सत्तविहबंधगा, अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य, अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य ।

१० [२] एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा ।

[३] पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फइकाइया य, एते सव्वे वि जहा ओहिया जीवा (सु. १५८२) ।

[४] अवसेसा जहा णेरइया ।

१५८४. [१] एवं एते जीवेगिंदियवज्जा तिण्णि तिण्णि भंगा सव्वत्थ
१५ भाणियव्व ति जाव मिच्छादंसणसल्लेणं ।

[२] एवं एगत्त-पोहत्तिया छत्तीसं दंडगा होंति ।

[सुत्ताइं १५८५-८७. जीवाइंसु कम्मबंधमहिक्खिच्च किरियापरुवणं]

१५८५. [१] जीवे णं भंते ! पाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कति-किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

२० [२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१५८६. [१] जीवा णं भंते ! पाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति-किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

[२] एवं णेरइया निरंतरं जाव वेमाणिया ।

२५ १५८७. [१] एवं दरिसणावरणिज्जं वेयणिज्जं मोहणिज्जं आउयं णामं गोयं अंतराइयं च अट्टविहकम्मपगडीओ भाणियव्वाओ ।

[२] एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा ।

[सुत्ताइं १५८८-१६०४. जीवाइसु एगत्त-पुहत्तेहिं किरियापरुवणं]

१५८८. जीवे णं भंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए ।

१५८९. [१] जीवे णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चतुकिरिए सिय अकिरिए ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराओ ।

[३] पुढविक्रुइय-आउक्काइय-तेउक्काइय-वाउक्काइय-वणप्फइकाइय-वेइं-दिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियतिरिक्खजोणिय-मणसातो जहा जीवातो (सु. १५८८) ।

[४] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाओ जहा णेरइयाओ (सु. १५८९) । १०

१५९०. जीवे णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए ।

१५९१. जीवे णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय अकिरिए । एवं जहेव पढमो दंडओ तहा एसो वि वित्तो भाणियव्वो । १५

१५९२. जीवा णं भंते ! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया वि सिय चउकिरिया वि सिय पंचकिरिया वि सिय अकिरिया वि ।

१५९३. जीवा णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! जहेव आइल्लदंडओ तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणिय त्ति ।

१५९४. जीवा णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि अकिरिया वि । २०

१५९५. [१] जीवा णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि अकिरिया वि ।

[२] असुरकुमारोहिंतो वि एवं चेव जाव वेमाणिएहिंतो । [णवरं] ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो (सु. १५९४) । २५

१५९६. णेरइए णं भंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

१. °क्काइयाओ आउक्काइयाओ तेउक्काइयाओ वाउक्काइयाओ वणस्सत्तिकाइयाओ वेइं° पुर ३१॥ २. °व्वो । जाव वेमाणिय त्ति । १५९२. जी° पुर सु० ॥ २३

१५९७. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिए ।

[२] एवं जाव वेमाणियाओ । णवरं ओरालियसरीराओ जहा जीवाओ (सु. १५९६) ।

५ १५९८. णेरइए णं भंते ! जीवेहिंतो कइकिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिए सिय पंचकिए ।

१५९९. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो कइकिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिए । एवं जहेव पढमो दंडओ तहा एसो वि वितिओ भाणियव्वो । ▷

१० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो । णवरं णेरइयस्स णेरइएहिंतो देवेहिंतो य पंचमा किरिया णत्थि ।

१६००. णेरइया णं भंते ! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया सिय चउकिए सिय पंचकिए ।

१६०१. एवं जाव वेमाणियाओ । णवरं णेरइयाओ देवाओ य पंचमा किरिया णत्थि ।

१६०२. णेरइया णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिए वि पंचकिए वि ।

१६०३. [१] णेरइया णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिए वि ।

२० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो । णवरं ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो (सु. १६०२) ।

१६०४. [१] असुरकुमारे णं भंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! जहेव णेरइएणं चत्तारि दंडगा (सु. १५९६-९९) तहेव असुरकुमारेण वि चत्तारि दंडगा भाणियव्वा । एवं उवउज्जिउण भावेयव्वं ति-जीवे मण्ण्से य अकिए बुच्चति, सेसा अकिए ण बुच्चति, सव्वे जीवा ओरालियसरीरेहिंतो पंचकिए, णेरइय-देवेहिंतो य पंचकिए ण बुच्चति ।

[२] एवं एक्केक्कजीवपए चत्तारि चत्तारि दंडगा भाणियव्वा । एवं एयं दंडगसयं । सव्वे वि य जीवादीया दंडगा ।

[सुत्ताइं १६०५-६. चउवीसदंडएसु किरियापरूवणं]

१६०५. कति णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया ।

१६०६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया । ५

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइं १६०७-१६. जीवार्हसु किरियाणं सहभावपरूवणं]

१६०७. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति ? जस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जति तस्स आहिगरणी णियमा कज्जति, जस्स आहिगरणी किरिया कज्जति तस्स वि काइया किरिया णियमा कज्जति । १०

१६०८. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तस्स पाओसिया किरिया कज्जति ? जस्स पाओसिया किरिया कज्जति तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! एवं चेव । १५

१६०९. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ? जस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स काइया नियमा कज्जति । २०

१६१०. एवं पाणाइवायकिरिया वि ।

१६११. एवं आदिल्लाओ परोप्परं नियमा तिण्णि कज्जंति । जस्स आदिल्लाओ तिण्णि कज्जंति तस्स उवरिल्लाओ दोण्णि सिय कज्जंति सिय णो कज्जंति । जस्स उवरिल्लाओ दोण्णि कज्जंति तस्स आइल्लाओ तिण्णि णियमा कज्जंति ।

१६१२. जस्स णं भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स पाणाइवायकिरिया कज्जति ? जस्स पाणाइवायकिरिया कज्जति तस्स पारियावणिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स पाणाइवायकिरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण २५

१५९७. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा !
सिय तिकिरिए सिय चउकिए ।

[२] \triangleleft एवं जाव वेमाणियाओ । णवरं ओरालियसरीराओ जहा जीवाओ
(सु. १५९६) ।

५ १५९८. णेरइए णं भंते ! जीवेहिंतो कइकिए ? गोयमा ! सिय
तिकिए सिय चउकिए सिय पंचकिए ।

१५९९. [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो कइकिए ? गोयमा !
सिय तिकिए सिय चउकिए । एवं जहेव पढमो दंडओ तहा एसो वि चित्तिओ
माणियव्वो । \triangleright

१० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो । णवरं णेरइयस्स णेरइएहिंतो देवेहिंतो य
पंचमा किरिया णत्थि ।

१६००. णेरइया णं भंते ! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय
तिकिरिया सिय चउकिए सिय पंचकिए ।

१६०१. एवं जाव वेमाणियाओ । णवरं णेरइयाओ देवाओ य पंचमा
१५ किरिया णत्थि ।

१६०२. णेरइया णं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा !
तिकिरिया वि चउकिए वि पंचकिए वि ।

१६०३. [१] णेरइया णं भंते ! णेरइएहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा !
तिकिरिया वि चउकिए वि ।

२० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो । णवरं ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो
(सु. १६०२) ।

१६०४. [१] असुरकुमारे णं भंते ! जीवातो कतिकिए ? गोयमा !
जहेव णेरइएणं चत्तारि दंडगा (सु. १५९६-९९) तहेव असुरकुमारेण वि
चत्तारि दंडगा भाणियव्वा । एवं उवउज्जिउण भावेयव्वं ति-जीवे मण्णसे य
२५ अकिए बुच्चति, सेसा अकिए ण बुच्चंति, सव्वे जीवा ओरालियसरीरेहिंतो
पंचकिए, णेरइय-देवेहिंतो य पंचकिए ण बुच्चंति ।

[२] एवं एक्केक्कजीवपए चत्तारि चत्तारि दंडगा भाणियव्वा । एवं एयं
दंडगसयं । सव्वे वि य जीवादीया दंडगा ।

[सुत्ताइं १६०५-६. चउवीसदंडएसु किरियापरूवणं]

१६०५. कति णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया ।

१६०६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया । ५

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइं १६०७-१६. जीवईसु किरियाणं सहभावपरूवणं]

१६०७. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति ? जस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जति तस्स आहिगरणी णियमा कज्जति, जस्स आहिगरणी किरिया कज्जति तस्स वि काइया किरिया णियमा कज्जति । १०

१६०८. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तस्स पाओसिया किरिया कज्जति ? जस्स पाओसिया किरिया कज्जति तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! एवं चेव । १५

१६०९. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ? जस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स काइया नियमा कज्जति । २०

१६१०. एवं पाणाइवायकिरिया वि ।

१६११. एवं आदिल्लाओ परोप्परं नियमा तिण्णि कज्जंति । जस्स आदिल्लाओ तिण्णि कज्जंति तस्स उवरिल्लाओ दोण्णि सिय कज्जंति सिय णो कज्जंति । जस्स उवरिल्लाओ दोण्णि कज्जंति तस्स आइल्लाओ तिण्णि णियमा कज्जंति ।

१६१२. जस्स णं भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स पाणाइवायकिरिया कज्जति ? जस्स पाणाइवायकिरिया कज्जति तस्स पारियावणिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स पाणाइवायकिरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण २५

पाणाइवायकिरिया कज्जति तस्स पारियावणिया किरिया नियमा कज्जति ।

१६१३. [१] जस्स णं भंते ! णेरइयस्स काइया किरिया कज्जति तस्स आहिगरणिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जहेव जीवस्स (सु. १६०७ तः १२) तहेव णेरइयस्स वि ।

५ [२] एवं निरंतरं जाव वेमाणियस्स ।

१६१४. जं समयं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तं समयं आहिगरणिया किरिया कज्जति ? जं समयं आहिगरणिया किरिया कज्जति तं समयं काइया किरिया कज्जति ? एवं जहेव आइल्लओ दंडओ भणियो (सु. १६०७ तः १३) तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स ।

१० १६१५. जं देसं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तं देसं णं आहिगरणिया किरिया कज्जति ? ० तहेव जाव वेमाणियस्स ।

१६१६. [१] जं पएसं णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जति तं पएसं आहिगरणिया किरिया कज्जति ? ० एवं तहेव जाव वेमाणियस्स ।

१५ [२] एवं एते जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पएसं णं ४ चत्तारि दंडगा होंति ।

[सुत्ताइं १६१७-१९. जीवाइसु आओजियकिरियापरूवणं]

१६१७. कति णं भंते ! आओजिताओ किरियाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! पंच आओजिताओ किरियाओ पणत्ताओ । तं जहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया ।

१६१८. एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

२० १६१९. जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि तस्स आहिकरणिया आओजिया किरिया अत्थि ? जस्स आहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि तस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि ? एवं एतेणं अभिलावेणं ते चेव चत्तारि दंडगा भाणियव्वा जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पदेसं ४ जाव वेमाणियाणं ।

२५ [सुत्तं १६२०. जीवेसु किरियाणं पुट्टापुट्टभावपरूवणं]

१६२०. जीवे णं भंते ! जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्टे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुट्टे ? पाणाइवायकिरियाए पुट्टे ? गोयमा ! अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए

पाओसियाए किरियाए पुड्डे तं समयं पारियावणियाए किरियाए पुड्डे पाणाइवाय-
 किरियाए पुड्डे १, अत्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए
 आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुड्डे तं समयं पारियावणियाए किरियाए
 पुड्डे पाणाइवायकिरियाए अपुड्डे २, अत्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं
 काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुड्डे तं समयं पारियावणियाए ५
 किरियाए अपुड्डे पाणाइवायकिरियाए अपुड्डे ३ । १ अत्येगइए जीवे एगइयाओ
 जीवाओ जं समयं काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए अपुड्डे तं समयं
 पारियावणियाए किरियाए अपुड्डे पाणाइवायकिरियाए अपुड्डे ४ । ७

[सुत्तं १६२१. पयारंतरेण किरियाभेयपरूवणं]

१६२१. कइ णं भंते ! किरियाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरि- १०
 याओ पणत्ताओ । तं जहा—आरंभिया ? पारिग्गहिया २ मायावत्तिया ३
 अपच्चक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५ ।

[सुत्ताइं १६२२-२६. आरंभियाइकिरियासामित्तपरूवणं]

१६२२. आरंभिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !
 अण्णयरस्सावि पसत्तसंजयस्स । १५

१६२३. पारिग्गहिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !
 अण्णयरस्सावि संजयासंजयस्स ।

१६२४. मायावत्तिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !
 अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्स ।

१६२५. अपच्चक्खाणकिरिया णं भंते ! कस्स कज्जति ? गोयमा ! २०
 अण्णयरस्सावि अपच्चक्खाणिस्स ।

१६२६. मिच्छादंसणवत्तिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गोयमा !
 अण्णयरस्सावि मिच्छादंसणिस्स ।

[सुत्तं १६२७. चउवीसदंडएसु किरियापरूवणं]

१६२७. [१] णेरइयाणं भंते ! कति किरियाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! २५
 पंच किरियाओ पणत्ताओ । तं जहा—आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइं १६२८-३६. जीवाइंसु किरियाणं सहभावपरुवणं]

१६२८. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स पारिग्गहिया किरिया कज्जति ? जस्स पारिग्गहिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स पारिग्गहिया किरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जइ, जस्स पुण पारिग्गहिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया नियमा कज्जति ।

१६२९. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ ? ० पुच्छ । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स मायावत्तिया किरिया णियमा कज्जइ, जस्स पुण मायावत्तिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ ।

१६३०. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया कज्जइ ? ० पुच्छ । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, जस्स पुण अप्पच्चक्खाणकिरिया कज्जति तस्स आरंभिया किरिया णियमा कज्जति ।

१६३१. एवं मिच्छादंसणवत्तियाए वि समं ।

१६३२. एवं पारिग्गहिया वि तिहिं उवरिल्लाहिं समं चारेयव्वा ।

१६३३. जस्स मायावत्तिया किरिया कज्जति तस्स उवरिल्लाओ दो वि सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स उवरिल्लाओ दो कज्जति तस्स मायावत्तिया णियमा कज्जति ।

२० १६३४. जस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया कज्जति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया णियमा कज्जति ।

१६३५. [१] णेरइयस्स आइल्लियाओ चत्तारि परोप्परं णियमा कज्जति, जस्स एताओ चत्तारि कज्जति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया भज्जति, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स एयाओ चत्तारि णियमा कज्जति ।

[२] एवं जाव थणियकुमारस्स ।

[३] पुढविक्काइयस्स जाव चउरिंदियस्स पंच वि परोप्परं णियमा कज्जति ।

[४] पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स आइल्लियाओ तिण्णि वि परोप्परं गियमा कज्जंति, जस्स एयाओ कज्जंति तस्स उवरिल्लिओ दो भइज्जंति, जस्स उवरिल्लिओ दोण्णि कज्जंति तस्स एताओ तिण्णि वि गियमा कज्जंति; जस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया तस्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया गियमा कज्जति ।

५

[५] मणूसस्स जहा जीवस्स ।

[६] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स जहा णेरइयस्स ।

१६३६. जं समयणं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तं समयं पारिग्गहिया किरिया कज्जति ? एवं एते जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पदेसणं ४ चत्तारि दंडगा णेयव्वा । जहा णेरइयाणं तथा सच्चदेवाणं णेयव्वं जाव वेमाणियाणं ।

१०

[मुत्ताइं १६३७-४१. जीवाईसु पावट्ठाणविरइपरूवणं]

१६३७. अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जति ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जति ? गोयमा ! छसु जीवणिकाएसु ।

१६३८. [१] अत्थि णं भंते ! णेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जति ? गोयमा ! णो इण्ठे समट्ठे ।

१५

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं मणूसणं जहा जीवाणं (सु. १६३७) ।

१६३९. एवं मुसावाएणं जाव मायामोसेणं जीवस्स य मणूसस्स य, सेसाणं णो इण्ठे समट्ठे । णवरं अदिण्णादाणे गहण-धारणिज्जेसु दव्वेसु, मेहुणे रूवेसु वा रूवसहगएसु वा दव्वेसु, सेसाणं सँव्वदव्वेसु ।

२०

१६४०. अत्थि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कज्जति ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कज्जति ? गोयमा ! सच्चदव्वेसु ।

१६४१. एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं एगिंदिय-विगल्लि-दियाणं णो इण्ठे समट्ठे ।

२५

१. उवरिल्लिया दोण्णि भइं म० प्र० पु१ पु३ ॥ २. पदेसेणं य चत्तारि म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥ ३. रूवसाहगेसु जे० ॥ ४. सच्चेसु दव्वेसु म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥

[सुत्ताइं १६२८-३६. जीवाइसु किरियाणं सहभावपरूवणं]

१६२८. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स पारिग्गहिया किरिया कज्जति ? जस्स पारिग्गहिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स पारिग्गहिया किरिया सिय कज्जति सिय णो कज्जइ, जस्स पुण पारिग्गहिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया नियमा कज्जति ।

१६२९. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ ? ० पुच्छा । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स मायावत्तिया किरिया णियमा कज्जइ, जस्स पुण मायावत्तिया किरिया कज्जइ तस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ ।

१६३०. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया कज्जइ ? ० पुच्छा । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, जस्स पुण अप्पच्चक्खाणकिरिया कज्जति तस्स आरंभिया किरिया णियमा कज्जति ।

१६३१. एवं मिच्छादंसणवत्तियाए वि समं ।

१६३२. एवं पारिग्गहिया वि तिहिं उवरिल्लाहिं समं चारेयव्वा ।

१६३३. जस्स मायावत्तिया किरिया कज्जति तस्स उवरिल्लाओ दो वि सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स उवरिल्लाओ दो कज्जति तस्स मायावत्तिया णियमा कज्जति ।

१६३४. जस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया कज्जति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया णियमा कज्जति ।

१६३५. [१] णेरइयस्स आइल्लियाओ चत्तारि परोप्परं णियमा कज्जति, जस्स एताओ चत्तारि कज्जति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया भइज्जति, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स एयाओ चत्तारि णियमा कज्जति ।

[२] एवं जाव थणियकुमारस्स ।

[३] पुढविक्काइयस्स जाव चउरिंदियस्स पंच वि परोप्परं णियमा कज्जति ।

[४] पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स आइल्लियाओ तिण्णि वि परोप्परं णियमा कज्जंति, जस्स एयाओ कज्जंति तस्स उवरिल्लओ दो भइज्जंति, जस्स उवरिल्लओ दोण्णि कज्जंति तस्स एताओ तिण्णि वि णियमा कज्जंति; जस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया तस्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज्जति सिय णो कज्जति, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति तस्स अप्पच्चक्खाणकिरिया णियमा कज्जति ।

५

[५] मणूसस्स जहा जीवस्स ।

[६] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स जहा णेरइयस्स ।

१६३६. जं समयणं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जति तं समयं पारिग्गहिया किरिया कज्जति ? एवं एते जस्स १ जं समयं २ जं देसं ३ जं पदेसणं ४ चत्तारि दंडगा णेयव्वा । जहा णेरइयाणं तहा सव्वदेवाणं णेयव्वं जाव वेमाणियाणं ।

१०

[सुत्ताइं १६३७-४१. जीवाइसु पावट्टाणाविरइपरूवणं]

१६३७. अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जति ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जति ? गोयमा ! छसु जीवणिकाएसु ।

१६३८. [१] अत्थि णं भंते ! णेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कज्जति ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१५

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं मणूसणं जहा जीवाणं (सु. १६३७) ।

१६३९. एवं मुसावाएणं जाव मायामोसेणं जीवस्स य मणूसस्स य, सेसाणं णो इणट्ठे समट्ठे । णवरं अदिण्णादाणे गहण-धारणिज्जेसु दव्वेसु, मेहुणे रूवेसु वा रूवसाहगएसु वा दव्वेसु, सेसाणं सँव्वदव्वेसु ।

२०

१६४०. अत्थि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कज्जति ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्लवेरमणे कज्जइ ? गोयमा ! सव्वदव्वेसु ।

१६४१. एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं एग्गिदिय-विगल्लि-दियाणं णो इणट्ठे समट्ठे ।

२५

१. उवरिल्लिया दोण्णि भइं म० प्र० पु१ पु३ ॥ २. पदेसेण य चत्तारि म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥ ३. रूवसाहगेसु जे० ॥ ४. सव्वेसु दव्वेसु म० प्र० पु१ पु२ पु३ ॥

[सुताई १६४२-४९. पावड्डाणविरएसु जीवाइसु कम्मपगडिबंधपरूवणं]

१६४२. पाणाइवायविरए णं भंते ! जीवे कति कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधगे वा छव्विहबंधिए वा एगविहबंधगे वा अबंधए वा । एवं मणूसे वि भाणियव्वे ।

५ १६४३. पाणाइवायविरया णं भंते ! जीवा कति कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य ? ।

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगे य ५ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगा य ६ ।

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य छव्विहबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य छव्विहबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ४, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य अबंधए य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य अबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य अबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य अबंधगा य ४, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य अबंधए य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य अबंधगा य ४ ।

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य छव्विहबंधगे य अबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य छव्विहबंधगे य अबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य छव्विहबंधगा य अबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य छव्विहबंधगा य अबंधगा य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधगे य ५

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगे य
 अवंधगा य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य
 छव्विहबंधगा य अवंधगे य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्ट-
 विहबंधगा य छव्विहबंधगा य अवंधगा य ८ एते अट्ट भंगा । सव्वे वि मिलिया
 सत्तावीसं भंगा भवंति ।

५

१६४४. एवं मणूसान वि एते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा ।

१६४५. एवं मुसावायविरयस्स जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स य
 मणूसस्स य ।

१६४६. मिच्छादंसणसल्लविरए णं भंते ! जीवे कति कम्मपगडीओ
 वंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा छव्विहबंधए वा एगविह- १०
 वंधए वा अवंधए वा ।

१६४७. [१] मिच्छादंसणसल्लविरए णं भंते ! णेरइए कति कम्मपगडीओ
 वंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा, जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिए ।

[२] मणूसे जहा जीवे (सु. १६४६) ।

[३] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए जहा णेरइए ।

१५

१६४८. मिच्छादंसणसल्लविरया णं भंते ! जीवा कति कम्मपगडीओ
 वंधति ? गोयमा ! ते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा (सु. १६४३) ।

१६४९. [१] मिच्छादंसणसल्लविरया णं भंते ! णेरइया कति कम्मप-
 गडीओ वंधति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्ज सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविह-
 वंधगा य अट्टविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य ३ । २०

[२] एवं जाव वेमाणिया । णवरं मणूसानं जहा जीवाणं (सु. १६४८) ।

[सुत्ताइं १६५०-६२. पावट्टाणविरएसु जीवाइंसु किरियाभेयपरूवणं]

१६५०. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं आरंभिया किरिया
 कज्जति <जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ> ? गोयमा ! पाणाइवाय-
 विरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ । २५

१६५१. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स पारिग्गहिया किरिया
 कज्जइ ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

[सुताई १६४२-४९. पावड्डाणविरएसु जीवाइसु कम्मपगडिबंधपरूवणं]

१६४२. पाणाइवायविरए णं भंते ! जीवे कति कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अड्डविहबंधगे वा छव्विहबंधिए वा एगविहबंधगे वा अबंधए वा । एवं मणूसे वि भाणियव्वे ।

५ १६४३. पाणाइवायविरया णं भंते ! जीवा कति कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य ? ।

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगे य ५ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगा य ६ ।

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य छव्विहबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य छव्विहबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छव्विहबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ४, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य अबंधए य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य अबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य अबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य अबंधगा य ४, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य अबंधए य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य अबंधगा य ४ ।

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य छव्विहबंधगे य अबंधगे य ? अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य छव्विहबंधगे य अबंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य छव्विहबंधगा य अबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य छव्विहबंधगा य अबंधगा य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधगे य ५

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छविहबंधगे य
अबंधगा य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य
छविहबंधगा य अबंधगे य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्ट-
विहबंधगा य छविहबंधगा य अबंधगा य ८ एते अट्ट भंगा । सच्चे वि मिलिया
सत्तावीसं भंगा भवंति ।

५

१६४४. एवं मणूसान वि एते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियच्चा ।

१६४५. एवं मुसावायविरयस्स जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स य
मणूसस्स य ।

१६४६. मिच्छादंसणसल्लविरए णं भंते ! जीवे कति कम्मपगडीओ
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा छविहबंधए वा एगविह- १०
बंधए वा अबंधए वा ।

१६४७. [१] मिच्छादंसणसल्लविरए णं भंते ! णेरइए कति कम्मपगडीओ
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा, जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिए ।

[२] मणूसे जहा जीवे (सु. १६४६) ।

[३] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिए जहा णेरइए ।

१५

१६४८. मिच्छादंसणसल्लविरया णं भंते ! जीवा कति कम्मपगडीओ
बंधति ? गोयमा ! ते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियच्चा (सु. १६४३) ।

१६४९. [१] मिच्छादंसणसल्लविरया णं भंते ! णेरइया कति कम्मप-
गडीओ बंधति ? गोयमा ! सच्चे वि ताव होज्ज सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविह-
बंधगा य अट्टविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य ३ । २०

[२] एवं जाव वेमाणिया । णवरं मणूसानं जहा जीवाणं (सु. १६४८) ।

[सुत्ताइं १६५०-६२. पावड्डाणविरएसु जीवाइसु किरियाभेयपरूवणं]

१६५०. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं आरंभिया किरिया
कज्जति <जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ> ? गोयमा ! पाणाइवाय-
विरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ ।

२५

१६५१. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स पारिग्गहिया किरिया
कज्जइ ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ।

१६५२. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! सिय कज्जइ सिय णो कज्जति ।

१६५३. पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! जीवस्स अप्पच्चक्खाणवत्तिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे ।

५ १६५४. मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा । गोयमा ! नो इण्ढे सम्ढे ।

१६५५. एवं पाणाइवायविरयस्स मणूसस्स वि ।

१६५६. एवं जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स मणूसस्स य ।

१६५७. मिच्छादंसणसल्लविरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं आरंभिया किरिया कज्जति जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जति ? गोयमा ! मिच्छादंसण-
१० सल्लविरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जति सिय नो कज्जति । एवं जाव अप्पच्चक्खाणकिरियां । मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो कज्जति ।

१६५८. मिच्छादंसणसल्लविरयस्स णं भंते ! णेरइयस्स किं आरंभिया किरिया कज्जति जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! आरंभिया वि किरिया कज्जति जाव अप्पच्चक्खाणकिरिया वि कज्जति, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया णो कज्जइ ।

१६ १६५९. एवं जाव थणियकुमारस्स ।

१६६०. मिच्छादंसणसल्लविरयस्स णं भंते ! पंचेदियतिरिक्खजोणियस्स एवमेव पुच्छा । गोयमा ! आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मायावत्तिया किरिया कज्जइ, अप्पच्चक्खाणकिरिया सिय कज्जइ सिय णो कज्जइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया णो कज्जति ।

२० १६६१. मणूसस्स जहा जीवस्स (सु. १६५७) ।

१६६२. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयस्स (सु. १६५८) ।

[सुत्तं १६६३. आरंभियाइकिरियाणं अप्पावहुयं]

१६६३. एयासि णं भंते ! आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवत्तियाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ
२५ किरियाओ, अप्पच्चक्खाणकिरियाओ विसेसाहियाओ, पारिग्गहियाओ विसेसाहियाओ, आरंभियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ ।

॥ पणवणाए भगवईए बावीसइमं किरियापयं समत्तं ॥

२३. तेवीसइमं कम्मपगडिपयं

पढमो उद्देसओ

[सुत्तं १६६४. पढमुद्देसस्स अत्थाहिगारा]

१६६४. कति पगडी १ कह वंधति २

कतिहि व ठाणेहिं वंधए जीवो ३ । ५

कति वेदेइ य पयडी ४ अणुभावो कतिविहो कस्स ५ ॥ २१७ ॥

[सुत्ताइं १६६५-६६. १ कतिपयडिदारं]

१६६५. कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ ? गोयमा ! अड्ड कम्मपगडीओ पणत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिज्जं १ दरिसणावरणिज्जं २ वेदणिज्जं ३ मोहणिज्जं ४ आउयं ५ णामं ६ गोयं ७ अंतराइयं ८ । १०

१६६६. णेरइयाणं भंते ! कति कम्मपगडीओ पणत्ताओ ? गोयमा ! एवं चेवं । एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइं १६६७-६९. २ कहबंधतिदारं]

१६६७. कहण्णं भंते ! जीवे अड्ड कम्मपगडीओ वंधइ ? गोयमा ! णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दरिसणावरणिज्जं कम्मं णियच्छति, दरिसणा- १५
वरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दंसणमोहणिज्जं कम्मं णियच्छति, दंसणमोहणिज्जस्स
कम्मस्स उदएणं मिच्छत्तं णियच्छति, मिच्छत्तेणं उदिण्णेणं गोयमा ! एवं खलु
जीवे अड्ड कम्मपगडीओ वंधइ ।

१६६८. कहण्णं भंते ! णेरइए अड्ड कम्मपगडीओ वंधति ? गोयमा !
एवं चेवं । एवं जाव वेमाणिए । २०

१. दंसणा^० पु१ पु२ पु३ ॥ २, ६. चेव, जाव जे० ध० ॥ ३. दंसणा^० म० प्र० मु० ॥
४. णिग्गच्छति जे० पु२ ॥ ५. श्रीमद्भिर्हरिभद्रपादैः सर्वेष्वप्यादर्शेषूपलभ्यमानः उदिण्णेणं
इत्येव पाठः स्वव्याख्यायां व्याख्यातोऽस्ति, तथा हि—“ततश्च मिथ्यात्वेन उदीर्णेन एवं खलु
जावोऽष्टकर्मप्रकृतीर्ब्रूति” । अपि चोत्तराध्यनचूर्णोवपि एतत्पाठोद्धरणे उदिण्णेणं इत्येव पाठ
उपलभ्यते । किञ्च “तत एवं मिथ्यात्वोद्दयेन जीवोऽष्टौ प्रकृतीर्ब्रूति” इति श्रीमलयगिरिपाद-
व्याख्यानानुसारेण श्रीमद्भिः सागरानन्दसूरिपादैः उदिण्णं इति पाठो विहितः सम्भाव्यते ॥

१६६९. कहण्णं भंते ! जीवा अहु कम्मपगडीओ वंधंति ? गोयमा ! एवं चेव । एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं १६७०-७४. ३ कतिठाणवंधदारं]

५ गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं । तं जहा-रागेण य दोसेण य । रागे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-माया य लोभे य । दोसे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-कोहे य माणे य । इच्चेतेहिं चउहिं ठाणेहिं वीरिओवग्गहिएहिं एवं खलु जीवे णाणावरणिज्जं कम्मं वंधति ।

१६७१. एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१० गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, एवं चेव ।

१६७२. एवं णेरइया जाव वेमाणिया ।

१६७४. [१] एवं दंसणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं एते एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा ।

[सुत्ताइं १६७५-७८. ४ कतिपयडिवेददारं]

१५ १६७५. जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेति ? गोयमा ! अत्थे-गइए वेदेति, अत्थेगइए णो वेदेति ।

१६७६. [१] णेरइए णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेति ? गोयमा ! णियमा वेदेति ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं मणूसे जहा जीवे (सु. १६७५) ।

२० १६७७. [१] जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेति ? गोयमा ! एवं चेव ।

[२] एवं जाव वेमाणिया ।

१६७८. [१] एवं जहा णाणावरणिज्जं तथा दंसणावरणिज्जं मोहणिज्जं अंतराइयं च ।

२५ [२] वेदणिज्जाऽऽउय-णाम-गोयाइं एवं चेव । णवरं मणूसे वि णियम वेदेति ।

[३] एवं एते एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा ।

[सुत्ताइं १६७९-८६. ५ कतिविधाणुभावदारं]

१६७९. णाणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स पुट्टस्स वद्ध-फास-पुट्टस्स संचितस्स चियस्स उवचितस्स आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स फलपत्तस्स उदयपत्तस्स जीवेणं कडस्स जीवेणं णिव्वत्तियस्स जीवेणं परिणामियस्स सयं वा उदिण्णस्स परेण वा उदीरियस्स तदुभएण वा उदीरिज्जिमाणस्स गतिं पप्प ५ ठितिं पप्प भवं पप्प पोग्गलं पप्प पोग्गलपरिणामं पप्प कतिविहे अणुभावे पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणावरणिज्जस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प दसविहे अणुभावे पण्णत्ते । तं जहा-सोयावरणे १ सोयविण्णाणावरणे २ जेत्तावरणे ३ णेतविण्णाणावरणे ४ घाणावरणे ५ घाणविण्णाणावरणे ६ रसावरणे ७ रसविण्णाणावरणे ८ फासावरणे ९ फासविण्णाणावरणे १० । जं वेदेति पोग्गलं वा पोग्गले १० वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं जाणियच्चं ण जाणइ, जाणिकामे वि ण याणइ, जाणित्ता वि ण याणति, उच्छण्णणाणी यावि भवति णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं । एस णं गोयमा ! णाणावरणिज्जे कम्मे । एस णं गोयमा ! णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प दसविहे अणुभावे पण्णत्ते १ । १५

१६८०. दरिसणावरणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कतिविहे अणुभावे पण्णत्ते ? गोयमा ! दरिसणावरणिज्जस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प णवविहे अणुभावे पण्णत्ते । तं जहा-णिहा १ णिहाणिहा २ पयला ३ पयलापयला ४ थीणगिद्धी ५ चक्खुदंसणावरणे ६ अचक्खुदंसणावरणे ७ ओहिदंसणावरणे ८ केवलदंसणावरणे ९ । २० जं वेदेति पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं पासियच्चं ण पासति, पासिकामे वि ण पासति, पासित्ता वि ण पासति, उच्छन्नदंसणी यावि भवति दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं । एस णं गोयमा ! दरिसणावरणिज्जे कम्मे । एस णं गोयमा ! दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प णवविहे अणुभावे पण्णत्ते २ । २५

१६८१. [१] सातावेदणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कतिविहे अणुभावे पण्णत्ते ? गोयमा ! सायावेदणिज्जस्स णं

कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव अडुविहे अणुभावे पण्णत्ते । तं जहा—मणुण्णा सद्दा
 १ मणुण्णा रूवा २ मणुण्णा गंधा ३ मणुण्णा रसा ४ मणुण्णा फासा ५
 मणोसुहता ६ वड्सुहया ७ कायसुहया ८ । जं वेएइ पोग्गलं वा पोग्गले वा
 पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं सातावेदणिज्जं
 ५ कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! सातावेदणिजे कम्मे । एस णं गोयमा !
 सातावेयणिज्जस्स जाव अडुविहे अणुभावे पण्णत्ते ।

[२] असातावेयणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० तहेव पुच्छा
 उत्तरं च । नवरं अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुहया । एस णं गोयमा ! असाया-
 वेदणिज्जस्स जाव अडुविहे अणुभावे पण्णत्ते ३ ।

१० १६८२. मोहणिज्जस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव कतिविहे
 अणुभावे पण्णत्ते ? गोयमा ! मोहणिज्जस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव
 पंचविहे अणुभावे पण्णत्ते । तं जहा—सम्मत्तवेयणिजे १ मिच्छत्तवेयणिजे २
 सम्मामिच्छत्तवेयणिजे ३ कसायवेयणिजे ४ णोकसायवेयणिजे ५ । जं वेदेति
 पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं,
 १५ तेसिं वा उदएणं मोहणिज्जं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! मोहणिजे कम्मे ।
 एस णं गोयमा ! मोहणिज्जस्स कम्मस्स जाव पंचविहे अणुभावे पण्णत्ते ४ ।

१६८३. आउअस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० तहेव पुच्छा । गोयमा !
 आउअस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव चउव्विहे अणुभावे पण्णत्ते । तं
 २० जहा—णेरइयाउए १ तिरियाउए २ मणुयाउए ३ देवाउए ४ । जं वेएइ पोग्गलं
 वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा
 उदएणं आउयं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! आउए कम्मे । एस णं गोयमा !
 आउअस्स कम्मस्स जाव चउव्विहे अणुभावे पण्णत्ते ५ ।

१६८४. [१] सुभणामस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छा ।
 गोयमा ! सुभणामस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव चोइसविहे अणुभावे
 २५ पण्णत्ते । तं जहा—इड्ढा सद्दा १ इड्ढा रूवा २ इड्ढा गंधा ३ इड्ढा रसा ४
 इड्ढा फासा ५ इड्ढा गती ६ इड्ढा ठिती ७ इड्ढे लावण्णे ८ इड्ढा जसोकित्ती ९
 इड्ढे उट्ठाण-कम्म-वल-विरिय-पुरिसक्कार-परक्कमे १० इड्ढस्सरता ११ कंतस्सरता १२

१. जाव सत्तविहे अणुभावे पण्णत्ते इत्यादि यावन् वत्तिसुहया ७ । जं वेएइ जे० थ० पु१
 पु३ ॥ २. वयसुं पु२सं० सु० ॥ ३, ५. जाव सत्तविहे जे० थ० पु१ पु३ ॥ ४. जाव
 वत्तिदुहया जे० थ० पु१ पु३ ॥

पियस्सरया १३ मणुण्णस्सरया १४ । जं वेएइ पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं सुभणामं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! सुभनामे कम्मे । एस णं गोयमा ! सुभणामस्स कम्मस्स जाव चोद्वसविहे अणुभावे पण्णत्ते ।

[२] दुहणामस्स णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! एवं चेव । णवरं अणिट्ठा ५ सहा १ जाव हीणस्सरया ११ दीणस्सरया १२ अणिट्ठस्सरया १३ अकंतस्सरया १४ । जं वेदेति सेसं तं चेव जाव चोद्वसविहे अणुभावे पण्णत्ते ६ ।

१६८५. [१] उच्चागोयस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छ । गोयमा ! उच्चागोयस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव अट्ठविहे अणुभावे पण्णत्ते । तं जहा-जातिविसिड्डया १ कुलविसिड्डया २ बलविसिड्डया ३ रूवविसिड्डया ४ तव- १० विसिड्डया ५ सुयविसिड्डया ६ लाभविसिड्डया ७ इस्सरियविसिड्डया ८ । जं वेदेति पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं जाव अट्ठविहे अणुभावे पण्णत्ते ।

[२] पीयागोयस्स णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! एवं चेव । णवरं जातिविहीणया १ जाव इस्सरियविहीणया ८ । जं वेदेति पोग्गलं वा पोग्गले वा १५ पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं वा उदएणं जाव अट्ठविहे अणुभावे पण्णत्ते ७ ।

१६८६. अंतराइयस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छ । गोयमा ! अंतराइयस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव पंचविहे अणुभावे पण्णत्ते । तं जहा-दाणंतराए १ लाभंतराए २ भोगंतराए ३ उवभोगंतराए ४ वीरियंतराए ५ । जं २० वेदेति पोग्गलं वा पोग्गले वा जाव वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं वा, तेसिं वा उदएणं अंतराइयं कम्मं वेदेति । एस णं गोयमा ! अंतराइए कम्मे । एस णं गोयमा ! जाव पंचविहे अणुभावे पण्णत्ते ८ ।

॥ कम्मपगडिपदे पढमो उद्देसओ समत्तो ॥

*

वीओ उद्देसओ

२५

[सुत्ताइं १६८७-९६. मूलोत्तरपयडिभेदपरूवणं]

१६८७. कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अट्ठ कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

१६८८. णाणावरणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—अभिणिचोहियणाणावरणिल्ले जाव केवलणाणावरणिल्ले ।

१६८९. [१] दरिसणावरणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—णिद्वापंचए य दंसणचउक्कए य ।

५ [२] णिद्वापंचए णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते । तं जहा—णिद्वा जाव थीणैगिद्धी ।

[३] दंसणचउक्कए णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! चउच्चिहे पण्णत्ते । तं जहा—चक्खुदंसणावरणिल्ले जाव केवलदंसणावरणिल्ले ।

१६९०. [१] वेयणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—सातावेदणिल्ले य असातावेयणिल्ले य ।

[२] सातावेयणिल्ले णं भंते ! कम्मे ० पुच्छ । गोयमा ! अट्टविहे पण्णत्ते । तं जहा—मणुण्णा सद्दा जाव कायसुहया (सु. १६८१ [१]) ।

[३] असायावेदणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! अट्टविहे पण्णत्ते । तं जहा—अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुहया ।

१६९१. [१] मोहणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—दंसणमोहणिल्ले य चरित्तमोहणिल्ले य ।

[२] दंसणमोहणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते । तं जहा—सम्मत्तवेयणिल्ले १ मिच्छत्तवेयणिल्ले २ सम्मामिच्छत्तवेयणिल्ले ३ य ।

२० [३] चरित्तमोहणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । तं जहा—कसायवेयणिल्ले य णोकसायवेयणिल्ले य ।

[४] कसायवेयणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलसविहे पण्णत्ते । तं जहा—अणंताणुवंधी कोहे १ अणंताणुवंधी माणे २ अणंताणुवंधी माया ३ अणंताणुवंधी लोभे ४ अपच्चक्खाणे कोहे ५ एवं माणे ६ माया ७ लोभे ८ पच्चक्खाणावरणे कोहे ९ एवं माणे १० माया ११ लोभे १२ संजलणे कोहे १३ एवं माणे १४ माया १५ लोभे १६ ।

३५ [५] णोकसायवेयणिल्ले णं भंते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! णवविहे पण्णत्ते । तं जहा—इत्थिवेए १ पुरिसवेए २ णपुंसगवेदे ३ हासे ४ रती ५ अरती ६ भये ७ सोगे ८ दुगुंछा ९ ।

तण ७ वलय ८ हरिय ९ ओसहि १० जलरुह ११ कुहणा य १२
बोधव्वा ॥ १२ ॥

३९. से किं तं रुक्खा ? रुक्खा दुविहा पन्नत्ता । तं जहा—एगड्डिया
य बहुवीयगा य ।

४०. से किं तं एगड्डिया ? एगड्डिया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा— ५
णिंबव जंबु कोसंव साल अंकोल्लं पीलुं सेलू य ।

सल्लइ मोयइ मालुय वउल पलासे करंजे य ॥ १३ ॥

पुत्तंजीवयऽरिद्धे विभेलेण हरंडए य भल्लाए ।

उंवेभरिया खीरिणि बोधव्वे धायइ पियाले ॥ १४ ॥

पूईकरंज सेण्हा(सण्हा) तह सीसवा य असणे य ।

१०

पुण्णाग णागरुक्खे सीवणिण तहा असोगे य ॥ १५ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । एतेसि णं मूला वि असंखेज्जजीविया, कंदा वि
खंधा वि तथा वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुप्फा अणेग-
जीविया । फला एगड्डिया । से तं एगड्डिया ।

४१. से किं तं बहुवीयगा ? बहुवीयगा अणेगविहा पण्णत्ता । १५
तं जहा—

अत्थिय तिंदु कविद्धे अंबाडग माउलिंग विहे य ।

आमलग फणस दाडिम आसोत्थे उंवर वडे य ॥ १६ ॥

णंगगोह णंदिरुक्खे पिप्परि सयरी पिल्लुक्खरुक्खे य ।

काउंबरि कुत्थुंभरि बोधव्वा देवदाली य ॥ १७ ॥

२०

तिलए लंडए छत्तोह सिरीसे सत्तिवण्ण दहिवन्ने ।

लोद्ध धव चंदणऽज्जुण णीमे कुडए कयंबे य ॥ १८ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । एएसि णं मूला वि असंखेज्जजीविया, कंदा वि खंधा

१-२-३. एगवीयगा ध० ॥ ४. अंकुल्ल जे० म० ॥ ५. चित्तलए जे० । विहेलए म० ।

वहेलए प्र० ॥ ६. हरिडए ध० म० ॥ ७. भिल्लाए म० पुर ॥ ८. खीरणि म० ॥

९. पूई य निंव सेण्हा पासिय तह जे० । पूई य निंव करए सेण्हा तह ध० म० । पूई य

करए सेण्हा पासिय तह पुर । पूइ य निंव करंजे सुण्हा तह मु० ॥ १०. अणेगजीवा जे० पुर ॥

११. आगलग जे० ध० म० ॥ १२. णिगगोह प्र० ॥ १३. पिल्लुक्खरुक्खे प्र० ॥ १४. काउंबरि

कुत्थुंभरि जे० ध० ॥ १५. मलयगिरिपादैरत्र टीकायां लयक इति नाम निर्दिष्टमस्ति प्रतिषु तु

लंडए इत्येव पाठो वर्तते ॥ १६. सत्तवण्ण पुर ॥

वि तथा वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुप्फा अणेगजीविया ।
फला बहुवीया । से तं बहुवीयगा । से तं रुक्खा ।

४२. से किं तं गुँच्छा ? गुँच्छा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

वाइंगणं सल्लइ वोडई य तह कच्छुरी य जासुमणा ।

रूवी आढइ नीली तुलसी तह माउलिंगी य ॥ १९ ॥

कँत्थुंभरि पिप्पलिया अतसी विल्ली य कायमाई या ।

चुच्चू पडोला कंदलि वाउच्चा वत्थुले बदरे ॥ २० ॥

पत्तउर सीयउरए हवति तहा जवसए य बोधव्वे ।

णिगुंडि अक्क तूवरि आँढई चेव तलऊडा ॥ २१ ॥

सण वाँण कास मद्दग अगघाडग साम सिंदुवारे य ।

करमद्द अद्दरूसग करीर एरावणं मँहित्थे ॥ २२ ॥

जाउलग माल परिली गयमारिणि कुच्च कारिया भंडी ।

जावइ केयइ तह गंज पाडला दासि अंकोल्ले ॥ २३ ॥

जे यावण्णे तहप्पगारा । से तं गुच्छीं ।

४३. से किं तं गुम्मा ? गुम्मा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

सेरियँणं गोमालिय कोरंटयँ बंधुजीवग मणेज्जे ।

पीईय पाण कँणइर कुज्जय तह सिंदुवारे य ॥ २४ ॥

जाई मोगगर तह जूहिया य तह मल्लिया य वासंती ।

वत्थुल कँच्छुल सेवाल गंठि मगदंतिया चेव ॥ २५ ॥

चंपगजाती णवणीईया य कुंदो तहा महाजाई ।

एवमणेगागारा हवति गुम्मा मुणेयच्चा ॥ २६ ॥

से तं गुम्मा ।

१. बहुवीयगा मु० ॥ २-३. गच्छा जे० ध० ॥ ४. णणि मु० ॥ ५. थुंडई मु० ॥
६. कँत्थुंभरि ध० पु२ । कुच्छुंभरि म० प्र० । कच्छुंभरि मु० ॥ ७. वल्ली जे० म० पु२ ॥
८. चुच्चू पडोला कंदलि ध० म० प्र० । चुच्चू पडोलकंदे मु० ॥ ९. अद्द जे० ध० ॥
१०. पाण कास मुद्दग अगघाडग म० प्र० मु० पु२ ॥ ११. करमद्दियऽद्दरूसग ध० ।
करमद्द अद्दरूसग मु० ॥ १२. महत्थे ध० प्र० ॥ १३. जाउल तमाल परिली ध० पु२ ॥
१४ गच्छा जे० ध० ॥ १५. सेणियए पु२ । सेणियए मु० ॥ १६. गेमालिय पु२ ।
गोमालिय प्र० ॥ १७. कोरिटे पु२ ॥ १८. कणयर पु२ ॥ १९. कत्थुल म० प्र० मु० ॥
२०. णीतया ध० ॥

४४. से किं तं लयाओ ? लयाओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ । तं जहा-
पउमलता नागलता असोग-चंपयलता यं चूतलता ।
वणलय वासंतिलया अइमुत्तय-कुंदं-सामलता ॥ २७ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं लयाओ ।

४५. से किं तं वल्लीओ ? वल्लीओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ । तं ५

जहा-

पूसफली कालिंगी तुंची तैउसी य एलवालुंकी ।
घोसांडई पडोला पंचंगुलिया यं णालीया ॥ २८ ॥
कंगूया कहुइया कंकोडइ कारियलई सुभगा ।
कुवधा(या) य वागली पाववलि तह देवदारू य ॥ २९ ॥ १०
अप्फोया अइमुत्तय णागलया कण्ह-सूरवल्ली य ।
संघट्ट सुमणसा वि य जासुवण कुविंदवल्ली य ॥ ३० ॥
मुद्दिय अप्पा भल्ली छीरविराली जियंति गोवांली ।
पाणी मांसावल्ली गुंजावल्ली य वच्छणी ॥ ३१ ॥
संसिंदु गोत्तफुसिया गिरिकण्णइ मालुया य अंजणई । १५
दहफुल्लइ कागणि भोगली य तह अक्कबोदी य ॥ ३२ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं वल्लीओ ।

४६. से किं तं पव्वगा ? पव्वगा अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा-

इक्खू य इक्खुवाँडी वीरण तह एक्कडे भमासे य ।
सुवे सरे य वेत्ते तिमिरे सतपोरग णले य ॥ ३३ ॥ २०
वंसे वेलू कणए कंकावंसे यं चाववंसे य ।
उदए कुडए विमए कंडावेलू य कल्लाणे ॥ ३४ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं पव्वगा ।

१. य भूतलता जे० म० । य पूयलता प्र० ॥ २. कंदं पुर विना ॥ ३. तपुसी प्र० ॥
४. घोसालती पडोला ध० । घोसाई य पडोला जे० । घोसाडइ पडोला मु० ॥ ५. य णीली
य प्र० मु० ॥ ६. कंकोडइ ध० ॥ ७. कुयवा यवा गली ध० पुर मु० ॥ ८. देवदारू मु० पुर ॥
९. धंवात्रल्ली किण्हछिराली जयंति मु० ॥ १०. गोवल्ली ध० ॥ ११. सामावल्ली पुर ॥
१२. ससिंदी दुगोत्तं मु० ॥ १३. दहफोल्हइ कागलि ध० । दहिफोल्हइ कागलि मु० ॥
१४. वाडिग वीं प्र० ॥ १५. एक्कडे य मासे म० पुर मु० ॥ १६. य वाडवंसे य प्र० ॥

वि तया वि साला वि पवाल वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुफ्फा अणेगजीविया ।
फला बहुवीया । से तं बहुवीयगा । से तं रुक्खा ।

४२. से किं तं गुच्छ ? गुच्छ अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

वाइंगण सल्लइ बोंडई य तह कच्छुरी य जासुमणा ।

रूवी आढइ नीली तुलसी तह माउलिगी य ॥ १९ ॥

कैथुंभरि पिप्पलिया अतसी विल्ली य कायमाई या ।

सुच्चु पडोला कंदलि वाउच्चा वत्थुले वदरे ॥ २० ॥

पत्तउर सीयउरए हवति तहा जवसए य बोधव्वे ।

णिग्गुंडि अक्क तूवरि आंढई चेव तलऊडा ॥ २१ ॥

सण वाण कास मद्दग अगघाडग साम सिंदुवारे य ।

करमद्द अद्दरूसग करीर एरावण मैहित्थे ॥ २२ ॥

जाउलग माल परिली गयमारिणि कुच्च कारिया भंडी ।

जावइ केयइ तह गंज पाडला दासि अंकोले ॥ २३ ॥

जे यावण्णे तहप्पगारा । से तं गुच्छं ।

४३. से किं तं गुम्मा ? गुम्मा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

सेरियंए गोमालिय कोरंटयं वंधुजीवग मणेजे ।

पीइय पाण कण्णइर कुच्चय तह सिंदुवारे य ॥ २४ ॥

जाई मोगगर तह जूहिया य तह मल्लिया य वासंती ।

वत्थुल कच्छुल सेवाल गंठि मगदंतिया चेव ॥ २५ ॥

चंपगजाती णवणीइया य कुंदो तहा महाजाई ।

एवमणेगागारा हवति गुम्मा मुणेयव्वा ॥ २६ ॥

से तं गुम्मा ।

१. बहुवीयगा मु० ॥ २-३. गच्छा जे० ध० ॥ ४. णणि मु० ॥ ५. थुंढई मु० ॥
६. कुत्थुंभरि ध० पुर । कुत्थुंभरि म० प्र० । कच्छुंभरि मु० ॥ ७. वल्ली जे० म० पुर ॥
८. सुच्चुपडोला कंदलि ध० म० प्र० । सुच्चु पडोलकंदे मु० ॥ ९. अद्दइ जे० ध० ॥
१०. पाण कास मुद्दग अगघाडन म० प्र० मु० पुर ॥ ११. करमद्दियडद्दरूसग ध० ।
करमद्द अद्दरूसग मु० ॥ १२. महत्थे ध० प्र० ॥ १३. जाउल तमाल परिली ध० पुर ॥
१४ गच्छा जे० ध० ॥ १५. सेणियए पुर । सेणियए मु० ॥ १६. नेमालिय पुर ।
गोमालिय प्र० ॥ १७. कोरिटे पुर ॥ १८. कण्यर पुर ॥ १९. कत्थुल म० प्र० मु० ॥
२०. णीतया ध० ॥

४४. से किं तं लयाओ ? लयाओ अणेगविहाओ पणत्ताओ । तं जहा-
पउमलता नागलता असोग-चंपयलता यं चूतलता ।
वणलय वासंतिलया अइमुत्तय-कुंद-सामलता ॥ २७ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं लयाओ ।

४५. से किं तं वल्लीओ ? वल्लीओ अणेगविहाओ पणत्ताओ । तं
जहा-

पूसफली कालिंगी तुंची तँउसी य एलवालुंकी ।
घोसाडई पडोला पंचंगुलिया यं णालीया ॥ २८ ॥
कंगूया कहुइया कँकोडइ कारियलई सुभगा ।
कुँवधा(या) य वागली पाववल्लि तह देवदारू य ॥ २९ ॥ १०
अप्फोया अइमुत्तय णागलया कण्ह-सूरवल्ली य ।
संघट्ट सुमणसा वि य जासुवण कुविंदवल्ली य ॥ ३० ॥
मुद्दिय अप्पा भल्ली छीरविराली जियंति गोवाँली ।
पाणी माँसावल्ली गुंजावल्ली य वच्छाणी ॥ ३१ ॥
सँसविंदु गोत्तफुसिया गिरिकण्णइ मालुया य अंजणई । १५
दँहफुलइ कागणि भोगली य तह अक्कबोँदी य ॥ ३२ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं वल्लीओ ।

४६. से किं तं पव्वगा ? पव्वगा अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा-

इक्खू य इक्खुवाँडी वीरण तह एँक्कडे भमासे य ।
सुवे सरे य वेत्ते तिमिरे सतपोरग णले य ॥ ३३ ॥ २०
वंसे वेलू कणए कंकावसे यँ चाववंसे य ।
उदए कुडए विमए कंडावेलू य कल्लाणे ॥ ३४ ॥

जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं पव्वगा ।

१. य भूतलता जे० म० । य पूयलता प्र० ॥ २. 'कंद' पुर विना ॥ ३. तपुसी प्र० ॥
४. घोसालती पडोला ध० । घोसाई य पडोला जे० । घोसाडइ पंडोला मु० ॥ ५. य णाली
य प्र० मु० ॥ ६. कँकोडइ ध० ॥ ७. कुयवा यवा गली ध० पुर मु० ॥ ८. देवदाली मु० पुर ॥
९. खंवावल्ली किण्हछिराली जयंति मु० ॥ १०. गोवल्ली ध० ॥ ११. सामावल्ली पुर ॥
१२. सत्तिवी दुगोत्त' मु० ॥ १३. दहफोलइ कागलि ध० । दहिफोलइ कागलि मु० ॥
१४. 'वादिग वी' प्र० ॥ १५. एक्कडे य मासे म० पुर मु० ॥ १६. य चाववंसे य प्र० ॥

४७. से किं तं तणा ? तणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

सेडिय भत्तिय होत्तिय डब्भं कुसे पव्वए य पोड्डइला ।

अज्जुण असाढए रोहियंसे सुय वेय खीर तुंसे ॥ ३५ ॥

एण्डे कुरुविंदे कक्खंड सुंटे तहा विभंगू य ।

५. महुरतण लुणय सिप्पिय बोधच्चे सुंकलितणा य ॥ ३६ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं तणा ।

४८. से किं तं वलया ? वलया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

ताल तमाले तक्कलि तेयलि सारे य सारकल्लण्णे ।

सरले जावति केयइ कंदीलि तह धम्मरुक्खे य ॥ ३७ ॥

१०. भुयरुक्ख हिंगुरुक्खे लवंगरुक्खे य होति बोधच्चे ।

पूयफली खज्जूरी बोधच्चा नालिएरी य ॥ ३८ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं वलया ।

४९. से किं तं हरिया ? हरिया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-

अञ्जोरुह बोडाणे हरितग तह तंदुलेज्जग तणे य ।

१५. वत्थुल पारंग मँजार पाइ विल्ली य पालक्का ॥ ३९ ॥

दगपिप्पली य दव्वी सोत्थियसाए तहेव मंडुक्की ।

मूलग सरिसव अंवलिसाए य जियंतए चेव ॥ ४० ॥

तुलसी कण्ह उराले फणिज्जए अज्जए य भूयणए ।

चौरंग दमणग मरुयग सयपुण्णिदीवरे य तहा ॥ ४१ ॥

२०. जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं हरिया ।

५०. से किं तं ओसहीओ ? ओसहीओ अणेगविहाओ पणत्ताओ ।
तं जहा-

साली १ वीही २ गोधूम ३ जवजवा ४ कल ५ मसूर ६ तिल ७ मुग्गा ८ ।

१. सेडिय गंत्तिय ध० पुर । संडिय मंत्तिय सु० ॥ २. दब्भ ध० पुर ॥ ३. पाड्डइला जे० ॥

४. भुसे म० प्र० ॥ ५. करकर सुंटे म० प्र० पुर ॥ ६. विसंगू म० प्र० ॥ ७. थुरय म० ।

दुरय प्र० पुर सु० ॥ ८. वडण्णा जे० ध० ॥ ९. सारे य सालकं ध० । साले य

सारकं म० । साली य सारकं मु० पुर । सरले य सारकं प्र० ॥ १०. कदली मु० ॥

११. अच्चोरुह म० ॥ १२. तंदुलिज्जग म० प्र० ॥ १३. पोरग म० प्र० पुर सु० ॥

१४. मज्जारयाइ प्र० मु० ॥ १५. पालंका प्र० ॥ १६. वारग पुर ॥

मास ९ निष्फाव १० कुलत्थ ११ अलिसंद १२ सतीण १३
पलिमंथा १४ ॥ ४२ ॥

अयसी १५ कुसुंभ १६ कोदव १७ कंगू १८ रालग १९
वरसामग २० कोदूसा २१ ।

सण २२ सरिसव २३ मूलग २४ वीय २५ जा यावऽण्णा तहपगारा ॥ ४३ ॥ ५
से तं ओसहीओ ।

५१. से किं तं जलरुहा ? जलरुहा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—
उदए अवए पणए सेवाले कलंबुया ह्द्वे कसेरुया कच्छा भाणी उप्पले पउमे
कुमुदे नल्लिणे सुमए सुगंधिए पोंडरीए महापोंडरीए सयपत्ते सहस्सपत्ते कल्हारे
कोकणदे अरविंदे तामरसे भिसे भिसमुणाले पोक्खले पोक्खलत्थिभए, जे यावऽण्णे १०
तहपगारा । से तं जलरुहा ।

५२. से किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—आए
काए कुहणे कुण्णके दव्वहलिया सँफ्फाए सँज्जाए सिँत्ताए वंसी णँहिया कुरए, जे
यावऽण्णे तहपगारा । से तं कुहणा ।

५३. णाणाविहसंठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता । १५

खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ ४४ ॥

जह सगलसरिसवाणं सिलेसभिस्साण वट्टिया वट्टी ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंधाया ॥ ४५ ॥

जह वा तिलपप्पडिया बहुएहिं तिलेहिं संहिता संती ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंधाया ॥ ४६ ॥ २०

से तं पत्तेयसरीरवाद्रवणप्फइकाइया ।

५४. [१] से किं तं साहारणसरीरवाद्रवणस्सइकाइया ? साहारण-
सरीरवाद्रवणस्सइकाइया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—

अवए पणए सेवाले लोहिणीं मिहू त्थिहू त्थिभगा ।

अंसकण्णी सीहकण्णी सिउंढि तत्तो मुसुंढी य ॥ ४७ ॥ २५

१. अयसि कुसुंभक कोदव ध० ॥ २. °लविभए ध० । °लत्थिसुए मु० ॥ ३. कुडुके ध० ।
अणुके म० ॥ ४. सप्पाए प्र० ॥ ५. सज्जाए ध० म० प्र० मु० ॥ ६. सत्ताए प्र० ।
छत्ताए ध० म० पु२ । छत्तोए मु० ॥ ७. अणहिया जे० ॥ ८. °णी त्थिहु त्थिसुगा म०
प्र० ॥ ९. असकिण्ही सीहकिण्ही जे० ॥

४७. से किं तं तणा ? तणा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
 'सेडिय भत्तिय होत्तिय डब्भं कुसे पव्वए य पोडैइला ।
 अज्जुण असाढए रोहियंसे सुय वेय खीर तुँसे ॥ ३५ ॥
 एरंडे कुरुविदे कक्खंड सुंठे तहा विभंगू य ।
 महरत्तण लुण्णय सिप्पिय बोधव्वे सुंकलितणा य ॥ ३६ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं तणा ।

४८. से किं तं वलया ? वलया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
 ताल तमाले तक्कलि तेयलि सारे य सारकलाणे ।
 सरले जावति केयइ कंदालि तह धम्मरुक्खे य ॥ ३७ ॥
 भुयरुक्ख हिंसुरुक्खे लवंगरुक्खे य होति बोधव्वे ।
 पूयफली खज्जूरी बोधव्व्वा नालिएरी य ॥ ३८ ॥

जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं वलया ।

४९. से किं तं हरिया ? हरिया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा-
 अँजोरुह बोडाणे हरितग तह तँडुँलेज्जग तणे य ।
 वत्थुल पारंग मँजार पाइ बिह्ठी य पालका ॥ ३९ ॥
 दगपिप्पली य दव्वी सोत्थियसाए तहेव मंडुक्की ।
 मूलग सरिसव अंविलसाए य जिथंतए चेव ॥ ४० ॥
 तुलसी कण्ह उराले फणिज्जए अज्जए य भूयणए ।
 चोरगँ दमणग मरुयग सयपुण्फिंदीवरे य तहा ॥ ४१ ॥

२० जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं हरिया ।

५०. से किं तं ओसहीओ ? ओसहीओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ ।
 तं जहा-

साली १ वीही २ गोधूम ३ जवजवा ४ कल ५ मसूर ६ तिल ७ मुग्गा ८ ।

१. सेडिय गंतिय ध० पुर । संडिय मंतिय मु० ॥ २. दब्भ ध० पुर ॥ ३. पाडैइला जे० ॥
 ४. भुसे म० प्र० ॥ ५. करकर सुंठे म० प्र० पुर ॥ ६. विसंगू म० प्र० ॥ ७. धुरय म० ।
 धुरय प्र० पुर मु० ॥ ८. वडण्णा जे० ध० ॥ ९. सारे य सालकं ध० । साले य
 सारकं म० । साली य सारकं मु० पुर । सरले य सारकं प्र० ॥ १०. कदली मु० ॥
 ११. अब्भोरुह म० ॥ १२. तँडुँलेज्जग म० प्र० ॥ १३. पोरग म० प्र० पुर मु० ॥
 १४. मँजारवाइ प्र० मु० ॥ १५. पालका प्र० ॥ १६. वारग पुर ॥

मास ९ निष्पाव १० कुलत्थ ११ अलिसंद १२ सतीण १३

पलिमंथा १४ ॥ ४२ ॥

अयसी १५ कुसुंभ १६ कोद्व १७ कंगू १८ रलग १९

वरसामग २० कोदूसा २१ ।

सण २२ सरिसव २३ मूलग २४ वीय २५ जा यावऽण्णा तहपगारा ॥ ४३ ॥

से तं ओसहीओ ।

५१. से किं तं जलरुहा ? जलरुहा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—
उदए अवए पणए सेवाले कलंबुया हडे कसेरुया कच्छा भाणी उप्पेले पउमे
कुमुदे नलिणे सुभए सुगंधिए पोंडरीए महापोंडरीए सयपत्ते सहस्सपत्ते कत्तहारे
कीकणदे अरविंदे तामरसे भिसे भिसमुणाले पोक्खले पोक्खलैत्थिभए, जे यावऽण्णे १०
तहपगारा । से तं जलरुहा ।

५२. से किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—आए
काए कुहणे कुण्णके दव्वहलिया सँप्पाए सँज्जाए सिँत्ताए वंसी णँहिया कुरए, जे
यावऽण्णे तहपगारा । से तं कुहणा ।

५३. णाणाविहसंठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता ।

खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ ४४ ॥

जह सगलसरिसवाणं सिलेसमिस्साण वट्टिया वट्टी ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंवाया ॥ ४५ ॥

जह वा तिलपप्पडिया बहुएहिं तिलेहि संहिता संती ।

पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंवाया ॥ ४६ ॥

से तं पत्तेयसरीरवाद्रवणप्फइकाइया ।

५४. [१] से किं तं साहारणसरीरवाद्रवणस्सइकाइया ? साहारण-
सरीरवाद्रवणस्सइकाइया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—

अवए पणए सेवाले लोहिणीं मिहू त्थिहू त्थिभगा ।

अंसकण्णी सीहकण्णी सिउंढि तत्तो सुसुंढी य ॥ ४७ ॥

१. अयसि कुसुंभक कोद्व ध० ॥ २. °लविभए ध० । °लत्थिभुए सु० ॥ ३. कुडुके ध० ।
अणुक्के म० ॥ ४. सप्पाए प्र० ॥ ५. सज्जाए ध० म० प्र० सु० ॥ ६. सत्ताए प्र० ।
छत्ताए ध० म० पुर । छत्तोए मु० ॥ ७. अणहिया जे० ॥ ८. °णी त्थिहू त्थिभुगा म०
प्र० ॥ ९. असक्किणी सीहक्किणी जे० ॥

रुरु कुंडुरिया जारू छीरविराली तहेव किट्टीया ।

हलिद्धा सिंगबेरे य आलूगा मूलए इ य ॥ ४८ ॥

कंबू य कण्हकडवू महुओ वलई तहेव महुसिंगी ।

गिरुहा सप्पसुयंधा छिण्णरुहा चेव बीयरुहा ॥ ४९ ॥

५

पाढा मियवालुंकी महुसरसा चेव रायवल्ली य ।

पउमा य माढरी दंती चंडी किट्टि ति यावरा ॥ ५० ॥

मासपण्णी मुग्गपण्णी जीविय रसभेय रेणुया चेव ।

काओली खीरकाओली तहा भंगी णही इ य ॥ ५१ ॥

किमिरासि भदमुत्था णंगलई पलुंगा इ य ।

१०

किण्हे पउले य हढे हरतणुया चेव लोयाणी ॥ ५२ ॥

कण्हे कंदे वज्जे सूरणकंदे तहेव खलूडे ।

ए अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५३ ॥

[२] तणमूल कंदमूले वंसमूले ति यावरे ।

संखेज्जमसंखेज्जा बोधच्चाऽणंतजीवा य ॥ ५४ ॥

१५

सिंघाडगस्स गुच्छो अणेगजीवो उ होति नायव्वो ।

पत्ता पत्तेयजिया, दोण्णिं य जीवा फले भणिता ॥ ५५ ॥

[३] जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए ।

अणंतजीवे उ से मूले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५६ ॥

जस्स कंदस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए ।

२०

अणंतजीवे उ से कंदे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५७ ॥

जस्स खंधस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।

अणंतजीवे उ से खंधे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ५८ ॥

जीसे तयाए भग्गाए समो भंगो पदीसए ।

अणंतजीवा तया सा उ, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ५९ ॥

१. कुंडुरिया ध० सु० । कुंडुरिया पु२ । कुंडुरिया म० । कुंडुरी प्र० ॥ २. जीरू सु० ॥
 ३. किट्टीया प्र० सु० ॥ ४. कण्णकडत्त महुओ ध० । कलुकड सुमत्तओ सु० ॥ ५. गिरुहा
 प्र० ॥ ६. तयाभं० म० ॥ ७. पेलुगा म० प्र० पु२ सु० ॥ ८. वंसीमूले पु२ ॥
 ९. गच्छो जे० ॥ १०. दोण्हि य म० पु२ ॥ ११. अत्र गाया कदम्बके पदीसए, पदीसई,
 पदीसइ, पदीसती, पदीसति स्थाने सर्वास्वपि प्रतिष्वावृत्या य दीसए, य दीसई, य दीसइ,
 य दीसती, य दीसति इति पाठो वरीवृत्यते ॥

- जस्स सालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से साले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६० ॥
- जस्स पवालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे पवाले से, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६१ ॥
- जस्स पत्तस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से पत्ते, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६२ ॥
- जस्स पुप्फस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से पुप्फे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६३ ॥
- जस्स फलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसती ।
 अणंतजीवे फले से उ, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६४ ॥
- जस्स बीयस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई ।
 अणंतजीवे उ से बीए, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६५ ॥
- [४] जस्स मूलस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवे उ से मूले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६६ ॥
- जस्स कंदस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवे उ से कंदे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६७ ॥
- जस्स खंघस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवे उ से खंघे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ६८ ॥
- जीसे तयाए भग्गाए हीरो भंगे पदीसई ।
 परित्तजीवा तया सा उ, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ६९ ॥
- जस्स सालस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसती ।
 परित्तजीवे उ से साले, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७० ॥
- जस्स पवालस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे पवाले उ, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७१ ॥
- जस्स पत्तस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे उ से पत्ते, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७२ ॥
- जस्स पुप्फस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे उ से पुप्फे, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७३ ॥
- जस्स फलस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।
 परित्तजीवे फले से उ, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७४ ॥

जस्स वीयस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।

परित्तजीवे उ से वीए, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७५ ॥

[५] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७६ ॥

५ जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा तु सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७७ ॥

जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७८ ॥

जीसे सालाए कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

१० अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७९ ॥

[६] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८० ॥

जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८१ ॥

१५ जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८२ ॥

जीसे सालाए कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८३ ॥

[७] चक्कागं भज्जमाणस्स गंठी चुण्णघणो भवे ।

२० पुंढविसरिसेण भेएण अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८४ ॥

गूढछिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होति णिच्छीरं ।

जं पि य पण्डुसंधिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८५ ॥

[८] पुप्फा जलया थलया य वेंटवद्धा य णालवद्धा य ।

संखेज्जमसंखेज्जा चोधच्चाऽणंतजीवा य ॥ ८६ ॥

२५ जे केइ नालियावद्धा पुप्फा संखेज्जजीविया भणिता ।

णिहुया अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८७ ॥

पउमुप्पलिणीकंदे अंतैरकंदे तहेव शिल्ली य ।

१. पुढविसरिसेण जे० म० पुर ॥ २. यावऽण्णा.प्र० ॥ ३. अणंतर् जे० ध० म० प्र० ॥

४. जिह्वा जे० म० प्र० ॥

एते अणंतजीवा एगो जीवो भिसं-मुणाले ॥ ८८ ॥

पलंडू-लहसणकंदे य कंदली य कुंसुवए ।

एए परित्तजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८९ ॥

पउमुप्पल-नलिणाणं सुभग-सोगंधियाण य ।

अरविंद-कोकणाणं सतवत्त-सहस्सवत्ताणं ॥ ९० ॥

५

वेणं बाहिरपत्ता य कणिया चेव एगजीवस्स ।

अन्भितरगा पत्ता पत्तेयं केसंरा मिंजा ॥ ९१ ॥

वेणु णल इक्खुवाडिय मंसमा सइखू य इक्केडेरंडे ।

करकर सुंठि विहुंगुं^६ तणाण तह पव्वगाणं च ॥ ९२ ॥

अच्छि पव्वं बलिमोडओ य एगस्स होति जीवस्स ।

१०

पत्तेयं पत्ताइं पुप्फाइं अणेगजीवाइं ॥ ९३ ॥

पुंसफलं कालिंगं तुंबं तउसेलवालु वालुंकं ।

घोसांडयं पडोलं तिंदूयं चेव तेंदूसं ॥ ९४ ॥

विंटं^{११} संसकडाहं एयाइं होति एगजीवस्स ।

पत्तेयं पत्ताइं सकेसरमकेसरं मिंजा ॥ ९५ ॥

१५

संप्पाए सज्जाए उव्वेहलिया य कुहण कंदुक्के ।

एए अणंतजीवा कंडुक्के होति भयणा उ ॥ ९६ ॥

[९] जौणिन्मूए वीए जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा ।

जो वि य मूले जीवो सो वि य पत्ते पढमताए ॥ ९७ ॥

सव्वो वि किसलओ खलु उग्गममाणो अणंतओ भणिओ ।

२०

सो चेव विवडुंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ९८ ॥

[१०] समयं वक्कताणं समयं तेसिं सरिरनिव्वत्ती ।

समयं आपुग्गहणं समयं ऊसास-नीसासे ॥ ९९ ॥

१. विस-मुणाले मु० ॥ २. कुंडवए जे० ध० । कुंडवए म० प्र० ॥ ३. कोकणाणं म० प्र० । कुंक-
णाणं पु० ॥ ४. केसरं पु० ॥ ५. ममसा सइखू जे० ध० । मसमा सइखू प्र० । समास इक्खू
मु० पु० ॥ ६. विहुंगू मु० ॥ ७. पूसफलं मु० ॥ ८. घोसालयं म० प्र० पु० ॥ ९. डय पंडोलं
मु० ॥ १०. तिंदूयं चेव तेंदूसं म० प्र० ॥ ११. विंटं संसकडाहं म० । विंटं गिरं कडाहं प्र०,
श्रीहरिभद्रपादसम्मतोऽयं पाठः ॥ १२. पु० प्रती समंसइत्यस्योपरि “ गिर ” इति कडाहइत्यस्योपरि
“ पो(लो)परी ” इति च टिप्पणी वर्तते ॥ १३. सप्पाए जे० ध० म० ॥ १४. कुंडुक्के जे०
ध० म० ॥ १५. श्रीमलयगिरिभिः वीए जौणिन्मूए इति पाठ आदतोऽरित्त, नोपलब्धोऽसावादशेषु ॥

जस्स वीयस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति ।

परित्तजीवे उ से वीए, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ७५ ॥

[५] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७६ ॥

५ जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा तु सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७७ ॥

जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७८ ॥

जीसे सालाए कट्ठाओ छल्ली वहलतरी भवे ।

१० अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ७९ ॥

[६] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८० ॥

जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८१ ॥

१५ जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८२ ॥

जीसे सालाए कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे ।

परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा ॥ ८३ ॥

[७] चक्कागं भज्जमाणस्स गंठी चुण्णघणो भवे ।

२० पुंढविसरिसेण भेएण अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८४ ॥

गूढछिरागं पत्तं सच्छिरं जं च होति णिच्छिरं ।

जं पि य पणडुसंधिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ८५ ॥

[८] पुप्फा जलया थलया य वेंटबद्धा य णालबद्धा य ।

संखेज्जमसंखेज्जा बोधच्चाऽणंतजीवा य ॥ ८६ ॥

२५ जे केइ नालियाबद्धा पुप्फा संखेज्जजीविया भणिता ।

णिट्टुया अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८७ ॥

पउमुप्पलिणीकंदे अंतैरकंदे तहेव शिल्ली य ।

१. पुढवीसरिसभेएण जे० म० पुर ॥ २. यावऽण्णा प्र० ॥ ३. अणंतरं जे० ध० म० प्र० ॥

४. जिह्मी जे० म० प्र० ॥

एते अणंतजीवा एगो जीवो भिसं-मुणाले ॥ ८८ ॥

पलंडू-ल्हसणकंदे य कंदली य कुंसुंबए ।

एए परित्तजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा ॥ ८९ ॥

पउमुप्पल-नलिणाणं सुभग-सोगंधियाण य ।

अरविंद-कोकणाणं सतवत्त-सहस्सवत्ताणं ॥ ९० ॥

५

वेटं बाहिरपत्ता य कणिया चैव एगजीवस्स ।

अब्भितरगा पत्ता पत्तेयं केसंरा मिंजा ॥ ९१ ॥

वेणु णल इक्खुवाडिय मंसमा सइखू य इक्केडेरंडे ।

करकर सुंठि विहुंगुं तणाण तह पव्वगाणं च ॥ ९२ ॥

अच्छि पव्वं बलिमोडओ य एगस्स होंति जीवस्स ।

१०

पत्तेयं पत्ताइं पुप्फाइं अणेगजीवाइं ॥ ९३ ॥

पुंसफलं कालिंगं तुंभं तउसेलवालु वालुकं ।

घोसांडयं पडोलं तिंदूयं चैव तेंदूसं ॥ ९४ ॥

विटं^३ संसं-कडाहं एयाइं होंति एगजीवस्स ।

पत्तेयं पत्ताइं सकेसरमकेसरं मिंजा ॥ ९५ ॥

१५

संप्पाए सज्जाए उव्वेहलिया य कुहण कंडुके ।

एए अणंतजीवा कंडुके होति भयणा उ ॥ ९६ ॥

[९] जौणिन्भूए वीए जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा ।

जो वि य मूले जीवो सो वि य पत्ते पढमताए ॥ ९७ ॥

सव्वो वि किसलओ खलु उग्गममाणो अणंतओ भणिओ ।

२०

सो चैव विवडुंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ९८ ॥

[१०] समयं वक्कताणं समयं तेसिं सरीरनिव्वत्ती ।

समयं आणुग्गहणं समयं ऊसास-नीसासे ॥ ९९ ॥

१. विस-मुणाले सु० ॥ २. कुंडुंबए जे० ध० । कुंडुंबए म० प्र० ॥ ३. कोकणाणं म० प्र० । कुंडु-
णाणं पु२ ॥ ४. केसरं पु२ ॥ ५. ममसा सइखू जे० ध० । मसमा सइखू प्र० । समास इक्खू
सु० पु२ ॥ ६. विहुंगुं सु० ॥ ७. पुंसफलं सु० ॥ ८. घोसालयं म० प्र० पु२ ॥ ९. ङय पडोलं
सु० ॥ १०. तिंदूयं चैव तेंदूसं म० प्र० ॥ ११. विटं संसकडाहं म० । विटं गिरं कडाहं प्र०,
श्रीहरिभद्रपादसम्मतोऽयं पाठः ॥ १२. पु२ प्रती संसइत्यस्योपरि “ गिर ” इति कडाहइत्यस्योपरि
“ पो(लो)परी ” इति च टिप्पणी वर्तते ॥ १३. संप्पाए जे० ध० म० ॥ १४. कुंडुके जे०
ध० म० ॥ १५. श्रीमलयगिरिभिः वीए जौणिन्भूए इति पाठ आहतोऽस्ति, नोपलब्धोऽसावाददेशु ॥

एकस्स उ जं गहणं बहूण साहारणाण तं चैव ।
 जं बहुयाणं गहणं समासओ तं पि एगस्स ॥ १०० ॥
 साहारणमाहारो साहारणमाणुपाणगहणं च ।
 साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥ १०१ ॥
 जह अयगोलो धंतो जाओ तत्तवणिज्जसंकासो ।
 सव्वो अगणिपरिणतो निगोयजीवे तहा जाण ॥ १०२ ॥
 एगस्स दोण्ह तिण्ह व संखेजाण व न पासिउं सक्का ।
 दीसंति सरीराइं णिओयजीवाणडणंताणं ॥ १०३ ॥

[११] लोगागासपएसे णिओयजीवं ठवेहि एक्केकं ।

१० एवं मवेज्जमाणा हवंति लोया अणंता उ ॥ १०४ ॥
 लोगागासपएसे परित्तजीवं ठवेहि एक्केकं ।
 एवं मविज्जमाणा हवंति लोया असंखेज्जा ॥ १०५ ॥
 पत्तेया पज्जत्ता पयरस्स असंखभागमेत्ता उ ।
 लोगाऽसंखाऽपज्जत्तगाण साहारणमणंता ॥ १०६ ॥
 १५ [एएहिं सरीरेहिं पच्चक्खं ते परूविया जीवा ।
 सुहुमा आणागेज्जा चक्खुप्फासं ण ते एंति ॥ १ ॥] [पक्खित्ता गाहा]
 जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

५५. [१] ते समासओ दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य
 अपज्जत्तगा य ।

२० [२] तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता ।

[३] तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा तेसिं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसादेसेणं
 फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइं, संखेजाइं जोणिप्पमुहसयसहस्साइं ।
 पज्जत्तगणिस्साए अपज्जत्तगा वक्कमंति—जत्थ एगो तत्थ सिय संखेजा
 सिय असंखेजा सिय अणंता । एएसि णं इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओ ।
 २५ तं जहा—

कंदा य १ कंदमूला य २ रुक्खमूला इ ३ यावरे ।

गुच्छा य ४ गुम्म ५ वल्ली य ६ वेलुयाणि ७ तणाणि य ८ ॥ १०७ ॥

पउमुप्पल ९-१० संघाडे ११ हँडे य १२ सेवाल १३ किण्हए १४
पणए १५ ।

अवए य १६ कच्छ १७ भाणी १८ कंडुक्केक्कणवीसइमे १९ ॥ १०८ ॥
तय-छल्लि-पवालेसु य पत्त-पुप्फ-फलेसु य ।

मूलऽग्ग-मज्झ-वीएसु जोणी कस्स य कित्तिया ? ॥ १०९ ॥

५

से त्तं साहारणसरिरिवादरवणस्सइकाइया । से त्तं वादरवणस्सइकाइया । से त्तं
वणस्सइकाइया । से त्तं एगिंदिया ।

[सुत्तं ५६. वेद्विद्यजीवपणवणा]

५६. [१] से किं तं वेद्वियाँ ? वेद्विया (? से किं तं वेद्विद्यसंसारसमा-
वण्णजीवपणवणा ? वेद्विद्यसंसारसमावण्णजीवपणवणा) अणेगविहा पन्नत्ता । तं १०
जहा - पुलकिमिया कुच्छिकिमिया गंडूयलगा गोलोमा णेउँरा सोमंगलगा वंसीमुहा
सुँईमुहा गोजलोया जलोया जँलोउया संखा संखणगा घुल्लँ खुल्ला वराडा सोत्तिया
मोत्तिया कलुया वासा एगओवत्ता दुहओवत्ता णंदियावत्ता संबुक्का माईवाहा सिप्पिसंपुडा
चंदणा समुदलिकखा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिमा नपुंसगा ।

[२] ते समासतो दुविहा पन्नत्ता । तं जहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा १५
य । एसि णं एवमादियाणं वेद्विद्याणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणी-
पमुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । से त्तं वेद्विद्यसंसारसमावण्णजीवपणवणा ।

[सुत्तं ५७. तेद्विद्यजीवपणवणा]

५७. [१] से किं तं तेद्विद्यसंसारसमावण्णजीवपणवणा ? तेद्विद्य-
संसारसमावण्णजीवपणवणा अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा-ओवइया रोहिणीया २०
कुंधू पिपीलिया उदंसगा उद्वेहिया उक्कलिया उप्पीया उक्कडा उप्पडा तणाहारा

१. हडे य म० प्र० ॥ २. किण्हए अवए । पणए य कच्छ इति पाठानुसारेण श्रीमलयगिरिपादै-
व्याख्यातमरित । नोपलभ्यतेऽयं पाठः काप्यादशे ॥ ३. वेद्विद्या ? वेद्विद्या पुर म० प्र० ॥
४. णेयरा म० प्र० ॥ ५. सूयीमुहा म० प्र० ॥ ६. जालाउया म० प्र० पुर मु० ॥ ७. घेला
कुल्ला कुन्धा वराडा जे० । घल्ला फुल्ला खंधा वराडा ध० । घेला फुल्ला गुल्ल्या खुल्ला वराडा म० ।
घुल्ला खुल्ला गुल्ल्या खंधा वराडा मु० । घुल्ला फुल्ला गुल्ल्या खुल्ला वराडा पुर, अत्र खुल्ला
इत्येतस्योपरि " खंधा " इति पुर प्रती टिप्पणी वर्तते । प्रदेशव्याख्यायां तु खुल्ला खुद्धा वराडा इति
पाठानुसारेण व्याख्यातं वर्तते ॥ ८-९. तेद्विद्यसं० मु० पुर ॥ १०. वप्पाया उप्पाडा तणाहारा
कट्टहारा समालुया म० प्र० । वप्पाया उप्पाया उप्पाडा तणाहारा कट्टाहारा मालुया पुर ॥

कद्दाहारा मालुया पत्ताहारा तण्णविटिया पत्तविटिया पुप्फविटिया फलविटिया वीयविटिया तेदुरणमज्जिया तउसमिजिया कप्पासड्डिसमिजिया हिल्लिया झिल्लिया झिगिरा किंगिरिडाँ पाँहुया सुभगा सोवच्छिया सुयविटा इंदिकाइया इंदगोवया उँरुलुं चगा कोत्थलवाहगा जूया हालाहला पिसुया सतवाइया गोम्ही हत्थिसोंडा, जे यावऽण्णे ५ तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिम-णपुंसगा ।

[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एएसि णं एवमाइयाणं तेइंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं अट्ट जातिकुलकोडिजोणिप्प-मुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं तेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ।

[सुत्तं ५८. चउरिंदियजीवपण्णवणा]

१० ५८. [१] से किं तं चउरिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? चउरिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अपोगविहा पण्णत्ता । तं जहा—

अंधिय णेत्थियं मच्छिय मंगमिगकीडे तहा पर्यगे य ।

दिक्कुण कुक्कुड कुक्कुह णंदावत्ते य सिंगिरिडे ॥ ११० ॥

१५ क्रिण्हपत्ता नीलपत्ता लोहियपत्ता हलिदपत्ता सुक्किलपत्ता चित्तपक्खा विचित्तपक्खा ओभंजलिया जलचारिया गंभीरा णीणिया तंतवा अच्छिरोडा अच्छिवेहा सारंगा णेउँला दोला भमरा भरिली जरुला तोट्टाँ विच्छुता पत्तविच्छुयाँ छाणविच्छुया जलविच्छुया पियंगाला केंणगा गोमयकीडगा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । सव्वेते सम्मुच्छिमा नपुंसगा ।

२० [२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । एतेसि णं एवमाइयाणं चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं णव जातिकुलकोडि-जोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं चउरिंदियसंसारसमावण्ण-जीवपण्णवणा ।

१. पण्णविटिया म० ॥ २. तंदुरणुमज्जिया म० प्र० । तंदुरणमज्जिया ध० । तंदुरणमिजिया सु० पुर ॥ ३. झिगिरिडा प्र० ॥ ४. वाहुया लहुया सुभगा सु० पुर ॥ ५. इंदकाइया प्र० सु० ॥ ६. उरुत्तुंभुगा म० प्र० पुर । उरुत्तुंभुगा सु० ॥ ७. पोत्तिय म० प्र० पुरसं० । पत्तिय सु० पुर ॥ ८. मगसिरकीडे म० । मगसकीडे प्र० पुर । मसगा कीडे सु० ॥ ९. दंक्कुण म० प्र० सु० पुर ॥ १०. णेउरा म० प्र० पुर ॥ ११. तोट्टा म० प्र० पुर ॥ १२. ०यां बालजणविच्छुता जल० जे० ॥ १३. कणभागा जे० ॥

[सुत्ताइं ५९-१४७. पंचिदियजीवपणवणा]

५९. से किं तं पंचिदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ? पंचिदियसंसार-समावण्णजीवपणवणा चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—नेरइयपंचिदियसंसार-समावण्णजीवपणवणा १ तिरिक्खजोणियपंचिदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा २ मणुस्सपंचिदियसंसारसमावण्णजीवपणवणा ३ देवपंचिदियसंसारसमावण्णजीव-पणवणा ४ ।

[सुत्तं ६०. नेरइयजीवपणवणा]

६०. से किं तं नेरइया ? नेरइया सत्तविहा पणत्ता । तं जहा—रयण-प्पभापुढविनेरइया १ सक्करप्पभापुढविनेरइया २ वालुयप्पभापुढविनेरइया ३ पंकप्पभापुढविनेरइया ४ धूमप्पभापुढविनेरइया ५ तमप्पभापुढविनेरइया ६ १० तमत्तमप्पभापुढविनेरइया ७ । ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य । से तं नेरइया ।

[सुत्ताइं ६१-९१. तिरिक्खजोणियजीवपणवणा]

६१. से किं तं पंचिदियतिरिक्खजोणिया ? पंचिदियतिरिक्खजोणिया तिविहा पणत्ता । तं जहा—जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया १ थलयरपंचिदिय-तिरिक्खजोणिया २ खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया ३ । १५

६२. से किं तं जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया ? जलयरपंचिदियतिरिक्ख-जोणिया पंचविहा पणत्ता । तं जहा—मच्छा १ कच्छहा २ गाहा ३ मगरा ४ सुंसुमारा ५ ।

६३. से किं तं मच्छा ? मच्छा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—सण्हमच्छा २० खवल्लमच्छा जुंगमच्छा विज्झिंडियमच्छा हल्लिमच्छा मंगरिमच्छा रोहियमच्छा हलीसागरा गागरा वडा वडगरा तिमी तिमिंगिला णक्का तंदुलमच्छा कणिकामच्छा

१. तमतमापुढवी° प्र० ॥ २. सिंसुमारा जे० । सुसुमारा मु० ॥ ३. जुंगमच्छा मु० ॥
 ४. विट्ठिमडि° म० प्र० जीटी० । विज्झिंडि° सु० ॥ ५. हल्लिमच्छा म० । हेलियमच्छा जीटी० ॥ ६. मगरि° पुर मु० ॥ ७. लोहिय° म० ॥ ८. १रा गढमगा ज्जसगारा तिमी पुर । २रा गढमया उल्लगारा तिमी मुद्रिते । ३रा तिमितिमिंगिलमच्छा तंदुल° प्र० ॥
 ९. तिमिंगिला म० ॥ १०. ०च्छा सल्लिच्छियामच्छा लेमूलमच्छा पडागाति° जे० ॥

सालिसच्छियामच्छा लंभणमच्छा पडागा पडागातिपडागा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।
से तं मच्छा ।

६४. से किं तं कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पणत्ता । तं जहा-
अट्टिकच्छभा य मंसकच्छभा य । से तं कच्छभा ।

५ ६५. से किं तं गाहा ? गाहा पंचविहा पणत्ता । तं जहा-दिली
१ वेढला २ सुद्धया ३ पुलगा ४ सीमागारा ५ । से तं गाहा ।

६६. से किं तं मगरा ? मगरा दुविहा पणत्ता । तं जहा-सोंडमगरा
य मैडमगरा य । से तं मगरा ।

६७. से किं तं सुंसुमारा ? सुंसुमारा एगागारा पणत्ता । से तं
१० सुंसुमारा । जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

६८. [१] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा-सम्मच्छिमा य
गन्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गन्भवक्कंतिया ते तिविहा पणत्ता । तं जहा-इत्थी
१५ १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एतेसि णं एवमाइयाणं जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जता-
पज्जताणं अद्धतेरस जाइकुलकोडिजोणिप्पसुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

६९. से किं तं थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
२० जोणिया दुविहा पणत्ता । तं जहा-चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य
परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य ।

७०. से किं तं चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? चउप्पयथल-
यरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा-एगखुरा १ दुँखुरा २
गंडीपदा ३ सणप्फदा ४ ।

७१. से किं तं एगखुरा ? एगखुरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
२५ अस्सा अस्सतरा घोडगा गदभा गोरक्खरा कंदलगा सिरिकंदलगा आवत्ता, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं एगखुरा ।

७२. से किं तं दुखुरा ? दुखुरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—उट्टा गोणा गवया रोञ्जा पसया महिसा मिया संवरा वराहा अय-एलग-रुरु-सरभ-चमर-कुरंग-गोकण्णमादी । से तं दुखुरा ।

७३. से किं तं गंडीपया ? गंडीपया अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—हत्थी पूयणया मंक्कुणहत्थी खग्गा गंडा, जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं गंडीपया । ५

७४. से किं तं सणप्फदा ? सणप्फदा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा—सीहा वग्घा दीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा सियाला विडाला सुणगा कोलसुणगा [ग्रन्थाग्रम् ५००] कोकंतिया ससगा चित्तगा चित्तलगा, जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं सणप्फदा । १०

७५. [१] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा—सम्मुच्छिमा य गन्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सब्बे णपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गन्भवक्कंतिया ते तिविहा पणत्ता । तं जहा—इत्थी १ पुरिसा २ णपुंसगा ३ । १५

[४] एतेसि णं एवमादियाणं थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पजत्ता-उपजत्ताणं दस जाईकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा हवंतीति मक्खत्तात्तं । से तं चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ।

७६. से किं तं परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पथलयर-पंचेदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पणत्ता । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरपंचेदिय-तिरिक्खजोणिया य सुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया य । २०

७७. से किं तं उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? उरपरि-सप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—अही १ अयगरा २ आसालिया ३ महोरगा ४ ।

७८. से किं तं अही ? अही दुविहा पणत्ता । तं जहा—दव्वीकरा य मउलिणो य । २५

१. मादी, जे यावडण्णे तहप्पगारा । से तं मुद्रिते ॥ २. हत्थी हत्थिपूयणया म० सु० । हत्थो हत्थिपूयणा पु२ ॥ ३. चिद्धलगा प्र० पु२ ॥

सालिसच्छियामच्छ लंभणमच्छ पडागा पडागातिपडागा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।
से तं मच्छ ।

६४. से किं तं कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पणत्ता । तं जहा-
अट्टिकच्छभा य मंसकच्छभा य । से तं कच्छभा ।

५ ६५. से किं तं गाहा ? गाहा पंचविहा पणत्ता । तं जहा-दिली
१ वेढला २ सुद्धया ३ पुलगा ४ सीमागारा ५ । से तं गाहा ।

६६. से किं तं मगरा ? मगरा दुविहा पणत्ता । तं जहा-सोंडमगरा
य मँडमगरा य । से तं मगरा ।

६७. से किं तं सुंसुमारा ? सुंसुमारा एगागारा पणत्ता । से तं
१० सुंसुमारा । जे यावऽण्णे तहप्पगारा ।

६८. [१] ते समासतो दुविहा पणत्ता । तं जहा-सम्मुच्छिमा य
गन्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गन्भवक्कंतिया ते तिविहा पणत्ता । तं जहा-इत्थी
१५ १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ ।

[४] एतेसि णं एवमाइयाणं जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं अद्धतेरस जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । से तं
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ।

६९. से किं तं थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचेंदियतिरिक्ख-
२० जोणिया दुविहा पणत्ता । तं जहा-चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य
परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य ।

७०. से किं तं चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? चउप्पयथल-
यरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा-एगखुरा १ दुँखुरा २
गंडीपदा ३ सण्फदा ४ ।

७१. से किं तं एगखुरा ? एगखुरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
२५ अस्सा अस्सतरा घोडगा गद्दभा गोरक्खरा कंदलगा सिरिकंदलगा आवत्ता, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं एगखुरा ।

१. वेढगा प्र० सु० पु२सं० । वेढली पु२ ॥ २. सुद्धया म० प्र० ॥ ३. मँडमगरा म० प्र० ॥

४. विखुरा जे० विना ॥

७२. से किं तं दुखुरा ? दुखुरा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—उट्टा गोणा गवया रोज्झा पसया महिसा मिया संवरा वराहा अय-एलग-रुरु-सरभ-चमर-कुरंग-गोकण्णमादी । से तं दुखुरा ।

७३. से किं तं गंडीपया ? गंडीपया अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—हत्थी पूयणया मंक्कुणहत्थी खग्गा गंडा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं गंडीपया ।

७४. से किं तं सणप्फदा ? सणप्फदा अणेगविहा पण्णत्ता । तं जहा—सीहा वग्घा दीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा सियाला विडाला सुणगा कोलसुणगा [ग्रन्थाग्रम् ५००] कोकंतिया ससगा चित्तगा चित्तलगा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं सणप्फदा ।

७५. [१] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सम्मुच्छिमा य गम्भवक्कंतिया य ।

[२] तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सञ्चे णपुंसगा ।

[३] तत्थ णं जे ते गम्भवक्कंतिया ते तिविहा पण्णत्ता । तं जहा—इत्थी १ पुरिसा २ णपुंसगा ३ ।

[४] एतेसि णं एवमादियाणं थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जत्ता-ऽपज्जत्ताणं दस जाईकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा हवंतीति मक्खातं । से तं चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ।

७६. से किं तं परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पथलयर-पंचेदियतिरिक्खजोणिया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—उरपरिसप्पथलयरपंचेदिय-तिरिक्खजोणिया य भुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया य ।

७७. से किं तं उरपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? उरपरि-सप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पण्णत्ता । तं जहा—अही १ अयगरा २ आसालिया ३ महोरगा ४ ।

७८. से किं तं अही ? अही दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—दव्वीकरा य मउल्लिणो य ।

१. °मादी, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं मुद्रिते ॥ २. इत्थी इत्थिपूयणया म० मु० । इत्थी इत्थिपूयणा पुर ॥ ३. चिह्ललगा प्र० पुर ॥

७९. से किं तं दव्वीकरा ? दव्वीकरा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
आसीविसा दिड्डीविसा उग्गविसा भोगविसा तयाविसा लालविसा उस्सासविसा
निस्सासविसा कण्हसप्पा सेदंसप्पा काँओदरा दँडुयुप्फा कोलाहा मेलिभिदाँ, जे
यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं दव्वीकरा ।

५ ८०. से किं तं मउलिणो ? मउलिणो अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
दिवागा गोणसा कसाहीया वइउला चित्तलिणो मंडलिणो मौलिणो अही अहिसलागाँ
पडागा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा । से तं मउलिणो । से तं अही ।

८१. से किं तं अँयगरा ? अयगरा एगागारा पणत्ता । से तं अयगरा ।

१० ८२. से किं तं आसालिया ? कहि णं भंते ! आसालिया सम्मुच्छति ?
गोयमा ! अंतोमणुस्सखित्ते अड्डाइज्जेसु दीवेसु, निव्वाघाएणं पणरससु कम्मभूमीसु,
वाघातं पडुच्च पंचसु महाविदेहेसु, चक्कवट्टिखंधावारेसु वाँ वासुदेवखंधावारेसु बलदेव-
खंधावारेसु मंडलियखंधावारेसु महामंडलियखंधावारेसु वाँ गामनिवेसेसु नँगरनिवेसेसु
निगमणिवेसेसु खेडनिवेसेसु कव्वडनिवेसेसु मडंबनिवेसेसु वाँ दोणमुहनिवेसेसु
पट्टणनिवेसेसु आगरनिवेसेसु आसमनिवेसेसु संवाहननिवेसेसु रायहाणीनिवेसेसु एतेसि
१५ णं चेवँ विणासेसु एत्थ णं आसालिया सम्मुच्छति, जहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइ-
भाँगेमेत्तीए ओगाहणाए उक्कोसेणं बारसजोयणाइँ, तँयणुरूवं च णं विक्खंभ-
बाहलेणं भूमिं दालित्ताणं समुडेति अस्सण्णी मिच्छदिड्डी अण्णाणी अंतोमुहुत्तँद्दा-
उया चेव कालं करेइ । से तं आसालिया ।

८३. से किं तं महोरगा ? महोरगा अणेगविहा पणत्ता । तं जहा-
२० अत्थेगइया अंगुलं पि अंगुलपुहत्तिया वि वियत्थिं पि वियत्थिपुँहत्तिया वि रयणिं
पि रयणिपुहत्तिया वि कुच्छिं पि कुच्छिपुहत्तिया वि धणुं पि धणुपुहत्तिया वि

१. सेसलप्पा प्र० ॥ २. काऊदरा जे० ॥ ३. दव्वपुप्फा म० प्र० ॥ ४. °दा सेलिंदा, जे याँ
मु० ॥ ५. मउलिणो ध० ॥ ६. °गा वायपडागा ध० । °गा वासपडागा मु० ॥ ७. अइगरा
जे० ॥ ८. आसालिया ? आसालिया एगागारा पणत्ता । कहि णं प्र० ॥ ९, १०, १२, वा
इति पु२ प्रतावेवोपलभ्यते । “वाशब्दः सर्वत्रापि विकल्पार्थो द्रष्टव्यः” इति मलयटीका-
व्याख्यानात् चक्कवट्टिखंधावारेसु इत्यत आरब्धानां रायहाणीनिवेसेसु इत्येतदन्तानां सर्वेषामपि
पदानामनन्तरं श्रीमलयगिरिपादा वाशब्दं निर्दिशन्ति, परं नोपलभ्यतेऽयं ऐदंयुगीनेष्वादर्शेषु ॥
११. नगरनिवेसेसु इति पदं मलयवृत्तौ न व्याख्यातम् ॥ १३. चेव निवासेसु जे० ध० ॥
१४. °गमेत्ताए पु२ ॥ १५. तयाणुं ध० प्र० ॥ १६. °त्तमद्दाउया ध० । °त्तट्टिइँया प्र० ॥
१७. °पुहुत्तं पि रयणिं जे० ध० ॥

२४. चउवीसइमं कम्मबंधपयं

[सुत्ताइं १७५४-६१. णाणावरणिज्जबंधएसु जीवाइंसु कम्मपयडिबंधपरूवणं]

१७५४. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ ? गोयमा !
अड्ड कम्मपगडीओ पणत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

५

१७५५. जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कति कम्मपगडीओ
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अड्डविहबंधए वा छव्विहबंधए वा ।

१७५६. [१] णेरइए णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कति
कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अड्डविहबंधए वा ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं मणूसे जहा जीवे (सु. १७५५) ।

१०

१७५७. जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति कम्म-
पगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा
य १ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छव्विहबंधगे य २ अहवा
सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ३ ।

१७५८. [१] णेरइया णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति
कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा १ अहवा
सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य,
३ तिणिणं भंगा ।

१५

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

१७५९. [१] पुढविक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि
अड्डविहबंधगा वि ।

२०

[२] एवं जाव वणस्सत्तिकाइया ।

१७६०. वियलाणं पंचेदियतिरिक्खजोणियाण य तियमंगो-सव्वे वि ताव
होज्जा सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधए य २ अहवा
सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य ३ ।

२५

१७६१. मणूसा णं भंते ! णाणावरणिज्जस्स पुच्छ । गोयमा ! सव्वे वि
ताव होज्जा सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधए य २ अहवा
सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य छव्विहबंधए य ४

अहवा सत्तविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ५ अहवा सत्तविहबंधगा य
 अट्टविहबंधए य छव्विहबंधए य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य
 छव्विहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधए य ८
 अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ९, एवं एते णव
 ५ भंगा । सेसा वाणमंतराइया जाव वेमाणिया जहा णेरइया सत्तविहादिवंधगा
 भणिया (सु. १७५८ [१]) तहा भाणियच्चा ।

[सुत्तं १७६२. दंसणावरणिज्जबंधएसु जीवाइसु कम्मपयडिवंधपरूवणं]

१७६२. एवं जहा णाणावरणं बंधमाणा जाहिं भणिया दंसणावरणं पि
 बंधमाणा ताहिं जीवादीया एगत्त-पोहत्तेहिं भाणियच्चा ।

१० [सुत्ताइं १७६३-६५. वेयणिज्जबंधएसु जीवाइसु कम्मपयडिवंधपरूवणं]

१७६३. [१] वेयणिज्जं बंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ वंधति ?
 गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा छव्विहबंधए वा एगविहबंधए वा ।

[२] एवं मणूसे वि ।

[३] सेसा णारगादीया सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य जाव

१५ वेमाणिए ।

१७६४. जीवा णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं० पुच्छ । गोयमा ! सव्वे वि
 ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य
 १ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य २ ।

१७६५. [१] अवसेसा णारगादीया जाव वेमाणिया जाओ णाणावरणं
 २० बंधमाणा बंधंति ताहिं भाणियच्चा ।

[२] णवरं मणूसा णं भंते ! वेदणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति कम्मपग-
 डीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा
 य १ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधए य २ अहवा
 सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य

२५ एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य
 छव्विहबंधगा य ५ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधए य

छव्विहबंधए य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधए य
 छव्विहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य
 छव्विहबंधए य ८ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य
 छव्विहबंधगा य ९, एवं णव भंगा ।

[सुत्ताइं १७६६-६८. मोहणिज्जाइबंधएसु जीवाइंसु कम्मपयडिवंधपरूवणं] ५

१७६६. मोहणिज्जं बंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ बंधइ ? गोयमा !
 जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो । जीवेगिंदिया सत्तविहबंधगा वि अट्टविहबंधगा वि ।

१७६७. [१] जीवे णं भंते ! आउअं कम्मं बंधमाणे कति कम्म-
 पगडीओ बंधइ ? गोयमा ! णियमा अट्ट । एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

[२] एवं पुहत्तेण वि ।

१०

१७६८. [१] णाम-गोय-अंतरायं बंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ
 बंधति ? गोयमा ! जाओ णाणावरणिज्जं बंधमाणे बंधइ ताहिं भाणियव्वो ।

[२] एवं णेरइए वि जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि भाणियव्वं ।

॥ पणवणाए भगवतीए चउवीसइमं कम्मबंधपदं समत्तं ॥

१५

२५. पंचवीसइमं कम्मबंधवेयपयं

[सुत्ताइं १७६९-७४. णाणावरणाइंघणसु जीवाइंसु कम्मपयडिवेयपरूवणं]

१७६९. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ ? गोयमा !
अट्ट कम्मपगडीओ पणत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

५ [२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१७७०. [१] जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं बंधमाणे कति
कम्मपगडीओ वेदेति ? गोयमा ! णियमा अट्ट कम्मपगडीओ वेदेति ।

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

१७७१. एवं पुहत्तेण वि ।

१० १७७२. एवं वेयणिज्जवज्जं जाव अंतराइयं ।

१७७३. [१] जीवे णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं बंधमाणे कइ कम्म-
पगडीओ वेइ ? गोयमा ! सत्तविहवेयए वा अट्टविहवेयए वा चउव्विहवेयए वा ।

[२] एवं मणूसे वि । सेसा णेरइयाई एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णियमा
अट्ट कम्मपगडीओ वेदेति, जाव वेमाणिया ।

१५ १७७४. [१] जीवा णं भंते ! वेदणिज्जं कम्मं बंधमाणा कति कम्म-
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा अट्टविहवेदगा य चउव्विहवेदगा
य ? अहवा अट्टविहवेदगा य चउव्विहवेदगा य सत्तविहवेदगे य २ अहवा
अट्टविहवेदगा य चउव्विहवेदगा य सत्तविहवेदगा य ३ ।

[२] एवं मणूसा वि भाणियच्चा ।

२६. छव्वीसइमं कम्मवेयबंधपयं

[सुत्ताइं १७७५-८१. णाणावरणिज्जवेदएसु जीवाइसु कम्मपयडिबंधपरूवणं]

१७७५. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !
अट्ट कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । तं जहा-णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

१७७६. जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा छव्विहबंधए वा एगविहबंधए वा ।

१७७७. [१] णेरइए णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कति
कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । [णवरं] मणूसे जहा जीवे (सु. १७७६) ।

१७७८. जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणा कति कम्म-
पगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य अट्टविह-
बंधगा य १ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधए य २ अहवा
सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य
अट्टविहबंधगा य एगविहबंधगे य ४ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य
एगविहबंधगा य ५ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधए य
एगविहबंधए य ६ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य ए छव्विहबंधए य
एगविहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगा य
एगविहबंधए य ८ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य छव्विहबंधगा य
एगविहबंधगा य ९, एवं एते नव भंगा ।

१७७९. अवसेसाणं एगिंदिय-मणूसवज्जाणं तियभंगो जाव वेमाणियाणं ।

१७८०. एगिंदिया णं सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य ।

१७८१. मणूसणं पुच्छ । गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविह-
बंधगा १ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य
अट्टविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य छव्विहबंधए य, एवं छव्विहबंधएण
वि समं दो भंगा ५ एगविहबंधएण वि समं दो भंगा ७ अहवा सत्तविहबंधगा
य अट्टविहबंधए य छव्विहबंधए य चउभंगो ११ अहवा सत्तविहबंधगा य

अट्टविहबंधए य एगविहबंधए य चउभंगो १५ अहवा सत्तविहबंधगा य छ्विह-
बंधगे य एगविहबंधए य चउभंगो १९ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधए
य छ्विहबंधए य एगविहबंधए य भंगा अट्ट २७, एवं एते सत्तावीसं भंगा ।

[सुत्तं १७८२. दंसणावरणाइवेदएसु जीवाईसु एगत्त-पुहत्तेणं कम्मबंधपरूवणं]

५ १७८२. एवं जहा णाणावरणिज्जं तहा दरिसणावरणिज्जं पि अंतराइयं पि ।

[सुत्ताई १७८३-८४. वेयणिज्जवेदएसु जीवाईसु कम्मपयडिबंधपरूवणं]

१७८३. [१] जीवे णं भंते ! वेयणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंधए वा छ्विहबंधए वा एगविह-
बंधए वा अवंधए वा ।

१० [२] एवं मणूसे वि । अवसेसा णारगादीया सत्तविहबंधगा य अट्टविह-
बंधगा य । एवं जाव वेमाणिए ।

१५ १७८४. [१] जीवा णं भंते ! वेदणिज्जं कम्मं वेदेमाणा कति कम्म-
पगडीओ चंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा
य एगविहबंधगा य १ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य एगविहबंधगा य
छ्विहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविहबंधगा य एगविहबंधगा य
छ्विहबंधगा य ३ अवंधगेण वि समं दो भंगा भाणियव्वा ५ अहवा सत्तविह-
बंधगा य अट्टविहबंधगा य एगविहबंधगा य छ्विहबंधए य अवंधए य चउभंगो
९, एवं एते णव भंगा ।

[२] एगिंदियाणं अभंगयं ।

२० [३] णारगादीणं तियभंगो, जाव वेमाणियाणं । णवरं मणूसानं पुच्छा ।
गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य १ अहवा सत्त-
विहबंधगा य एगविहबंधगा य छ्विहबंधए य अट्टविहबंधए य अवंधए य, एवं
एते सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा जहा किरियासु पाणाइवायविरतस्स (सु. १६४३) ।

[सुत्ताई १७८५-८६. आउयाइवेदएसु जीवाईसु कम्मपयडिबंधपरूवणं]

२५ १७८५. एवं जहा वेदणिज्जं तहा आउयं णामं गोयं च भाणियव्वं ।

१७८६. मोहणिज्जं वेदेमाणे जहा वंधे णाणावरणिज्जं तहा भाणियाव्वं
(सु. १७५५-६१) ।

२७. सत्तावीसइमं कम्मवेयवेयगपयं

[सुत्ताइं १७८७-९२. णाणावरणिज्जाइवेदएसु जीवाइंसु कम्मपयडिवेयपरूवणं]

१७८७. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा !
अट्ट। तं जहा-णाणावरणिज्जं जाव अंतराइयं ।

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ।

५

१७८८. [१] जीवे णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कति कम्म-
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सत्तविहवेदए वा अट्टविहवेदए वा ।

[२] एवं मणूसे वि । अवसेसा एगत्तेण वि पुहत्तेण वि नियमा
अट्टविहकम्मपगडीओ वेदेति जाव वेमाणिया ।

१७८९. जीवा णं भंते ! णाणावरणिज्जं कम्मं वेदेमाणा कति कम्म- १०
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा अट्टविहवेदगा १ अहवा
अट्टविहवेदगा य सत्तविहवेदगे य २ अहवा अट्टविहवेदगा य सत्तविहवेदगा य
३ । एवं मणूसा वि ।

१७९०. दरिसणावरणिज्जं अंतराइयं च एवं चेव भाणियव्वं ।

१७९१. वेदणिज्ज-आउअ-णाम-गोयाइं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ १५
वेदेति ? गोयमा ! जहा वंधगवेयगस्स वेदणिज्जं (सु. १७७३-७४) तहा
भाणियव्वं ।

१७९२. [१] जीवे णं भंते ! मोहणिज्जं कम्मं वेदेमाणे कति कम्म-
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! णियमा अट्ट कम्मपगडीओ वेदेति ।

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि ।

२०

॥ पण्णवणाए भगवतीए सत्तावीसत्तिमं कम्मवेद्वेदयपर्यं समत्तं ॥

२८. अट्टावीसइमं आहारपयं

पढमो उद्देसओ

[सुत्तं १७९३. पढमुद्देसस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

१७९३. सच्चित्ता१ऽऽहारद्वी २ केवति ३ किं वा वि ४

सव्वओ चेव ५ ।

कतिभागं ६ सव्वे खलु ७ परिणामे चेव ८ बोधव्वे ॥ २१७ ॥

एग्गिंदिसरीरादी ९ लोमाहारे १० तहेव मणभव्वी ११ ।

एतेसिं तु पयाणं विभावणा होइ कायव्वा ॥ २१८ ॥

[सुत्तं १७९४. चउवीसदंडएसु १ सच्चित्ताहारदारं]

१० १७९४. [१] णेरइया णं भंते ! किं सच्चित्ताहारा अचित्ताहारा मीसाहारा ? गोयमा ! णो सच्चित्ताहारा, अचित्ताहारा, णो मीसाहारा ।

[२] एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिया ।

[३] ओरालियसरीरी जाव मणूसा सच्चित्ताहारा वि अचित्ताहारा वि मीसाहारा वि ।

१५ [सुत्ताइं १७९५-१८०५. नेरइएसु २-८ आहारद्विआइदारसत्तगं]

१७९५. णेरइया णं भंते ! आहारद्वी ? हंता गोयमा ! आहारद्वी ।

१७९६. णेरइयाणं भंते ! केवतिकालस्स आहारद्वे समुप्पज्जति ? गोयमा ! णेरइयाणं आहारे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-आभोगणिव्वत्तिए यं अणाभोगणिव्वत्तिए य । तत्थ णं जे से अणाभोगणिव्वत्तिए से णं अणुसमयमविरहिए २० आहारद्वे समुप्पज्जति । तत्थ णं जे से आभोगणिव्वत्तिए से णं असंखेज्जसमइए अंतोमुहुत्तिए आहारद्वे समुप्पज्जति ।

१७९७. णेरइया णं भंते ! किमाहारमाहारेति ? गोयमा ! दव्वओ अणंतपदेसियाइं, खेत्तओ असंखेज्जपदेसोगाढाइं, कालतो अण्णत्तरठितियाइं, भावओ वण्णमंताइं गंधमंताइं रसमंताइं फासमंताइं ।

१७९८. [१] जाइं भावओ वण्णमंताइं आहारेति ताइं किं एगवण्णाइं आहारेति जाव किं पंचवण्णाइं आहारेति ? गोयमा ! ठाणमग्गणं पडुच्च एगवण्णाइं पि आहारेति जाव पंचवन्नाइं पि आहारेति, विहाणमग्गणं पडुच्च कालवण्णाइं पि आहारेति जाव सुक्किलाइं पि आहारेति ।

[२] जाइं वण्णओ कालवण्णाइं आहारेति ताइं किं एगगुणकालाइं आहारेति जाव दसगुणकालाइं आहारेति संखेज्जगुणकालाइं असंखेज्जगुणकालाइं अणंतगुणकालाइं आहारेति ? गोयमा ! एगगुणकालाइं पि आहारेति जाव अणंतगुणकालाइं पि आहारेति । एवं जाव सुक्किलाइं पि ।

१७९९. एवं गंधओ वि रसतो वि ।

१८००. [१] जाइं भावओ फासमंताइं ताइं णो एगफासाइं आहारेति णो दुफासाइं आहारेति णो तिफासाइं आहारेति, चउफासाइं आहारेति जाव अट्टफासाइं पि आहारेति, विहाणमग्गणं पडुच्च कक्खडाइं पि आहारेति जाव लुक्खाइं पि ।

[२] जाइं फासओ कक्खडाइं आहारेति ताइं किं एगगुणकक्खडाइं आहारेति जाव अणंतगुणकक्खडाइं आहारेति ? गोयमा ! एगगुणकक्खडाइं पि आहारेति जाव अणंतगुणकक्खडाइं पि आहारेति । एवं अट्ट वि फासा भाणियव्वा जाव अणंतगुणलुक्खाइं पि आहारेति ।

[३] जाइं भंते ! अणंतगुणलुक्खाइं आहारेति ताइं किं पुट्टाइं आहारेति अपुट्टाइं आहारेति ? गोयमा ! पुट्टाइं आहारेति, णो अपुट्टाइं आहारेति, जहा भासुद्देसए (सु. ८७७ [१५-२३]) जाव णियमा छदिसिं आहारेति ।

१८०१. ओसण्णकारणं पडुच्च वण्णओ काल-नीलाइं गंधओ दुब्भिगंधाइं रसतो तित्तरस-कडुयाइं फासओ कक्खड-गरुय-सीय-लुक्खाइं तेसिं पोरारणे वण्णगुणे गंधगुणे रसगुणे फासगुणे विप्परिणामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडइत्ता परिविद्धंसइत्ता अण्णे अपुच्चे वण्णगुणे गंधगुणे रसगुणे फासगुणे उप्पाएत्ता आयसरीरखेतोगाढे पोगगले सव्वप्पणयाए आहारमाहरेति ।

१८०२. णेरइया णं भंते ! सव्वतो आहारेति सव्वतो परिणामेति सव्वओ ऊससंति सव्वओ णीससंति अभिक्खणं आहारेति अभिक्खणं परिणामेति अभिक्खणं ऊससंति अभिक्खणं णीससंति आहच्च आहारेति आहच्च परिणामेति आहच्च ऊससंति आहच्च णीससंति ? हंता गोयमा ! णेरइया सव्वतो आहारेति एवं तं चेव जाव आहच्च णीससंति ।

१८०३. णेरइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोग्गलाणं सेयालंसि कतिभागं आहारेंति कतिभागं आसाएंति ? गोयमा ! असं-
खेज्जतिभागं आहारेंति अणंतभागं अस्साएंति ।

१८०४. णेरइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते किं सव्वे
५ आहारेंति णो सव्वे आहारेंति ? गोयमा ! ते सव्वे अपरिसेसिएँ आहारेंति ।

१८०५. णेरइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं
पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो २ परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए
अणिट्ठत्ताए अकंतत्ताए अप्पियत्ताए असुभत्ताए अमणुणत्ताए अमणामत्ताए
अणिच्छियत्ताए अभिज्झियत्ताए अहत्ताए णो उड्डत्ताए दुक्खत्ताए णो सुहत्ताएँ
१० एएसिं(ते तेसिं) भुज्जो भुज्जो परिणमंति ।

[सुत्तं १८०६. भवणवासीसु २-८ आहारट्टिआइदारसत्तगं]

१८०६. [१] असुरकुमारा णं भंते ! आहारट्टी ? हंता ! आहारट्टी ।
एवं जहा णेरइयाणं तहा असुरकुमाराण वि भाणियव्वं जाव ते तेसिं भुज्जो भुज्जो
परिणमंति । तत्थ णं जे से आभोगणिव्वत्तिए से णं जहण्णेणं चउत्थमतस्स
१५ उक्कोसेणं सातिरेगस्स वाससहस्सस्स आहारट्टे समुप्पज्जति । ओसण्णकारणं पडुच्च
वण्णओ हालिद्ध-सुक्किलाइं गंधओ सुब्भिमंघाइं रसओ अंवल-महुराइं फासओ
मउय-लहुअ-णिट्ठुण्हाइं तेसिं पोरणे वण्णगुणे जाव फासिंदियत्ताए जाव मणामत्ताए
इच्छियत्ताए अभिज्झियत्ताए [ग्रन्थाग्रम्-७०००] उड्डत्ताए णो अहत्ताए सुहत्ताए
णो दुहत्ताए ते तेसिं भुज्जो २ परिणमंति । सेसं जहा णेरइयाणं ।

२० [२] एवं जाव थणियकुमाराणं । णवरं आभोगणिव्वत्तिए उक्कोसेणं
दिवसपुहत्तस्स आहारट्टे समुप्पज्जति ।

[सुत्ताइं १८०७-१३. एगिंदिएसु २-८ आहारट्टिआइदारसत्तगं]

१८०७. पुढविकाइया णं भंते ! आहारट्टी ? हंता ! आहारट्टी ।

१८०८. पुढविकाइयाणं भंते ! केवत्तिकालस्स आहारट्टे समुप्पज्जति ?
२५ गोयमा ! अणुसमयं अविरहिए आहारट्टे समुप्पज्जति ।

१८०९. पुढविकाइया णं भंते ! किमाहारमाहारेंति एवं जहा णेरइयाणं (सु. १७९७-१८००) जाव ताइं भंते ! कति दिसिं आहारेंति ? गोयमा ! णिच्चाघाएणं छदिसिं, वाघायं पडुच्च सिय त्तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं, णवरं ओसण्णकारणं ण भवति, वण्णतो काल-णील-लोहिय-हालिद्ध-सुकिलाइं, गंधओ सुब्भिगंध-दुब्भिगंधाइं, रसओ तित्त-कडुय-कसाय-अंचिल-महुराइं, फासतो कक्खड्ड-मउय-गरुअ-लहुय-सीय-उंसिण-णिद्ध-लुक्खाइं, तेसिं पोराणे वण्णगुणे सेसं जहा णेरइयाणं (सु. १८०१-२) जाव आहच्च णीससंति ।

१८१०. पुढविकाइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति तेसिं णं भंते ! पोग्गलाणं सेयालंसि कतिभागं आहारेंति कतिभागं आसाएंति ? गोयमा ! असंखेज्जतिभागं आहारेंति अणंतभागं आसाएंति ।

१८११. पुढविकाइया णं भंते ! जे पुग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते किं सव्वे आहारेंति णो सव्वे आहारेंति ? जहेव णेरइया (सु. १८०४) तहेव ।

१८१२. पुढविकाइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति ? गोयमा ! फासेंदियवेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति ।

१८१३. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

[सुत्ताइं १८१४-२३. विगल्लिदिएसु २-८ आहारद्विआइदारसत्तगं]

१८१४. वेइंदिया णं भंते ! आहारड्डी ? हंता गोयमा ! आहारड्डी ।

१८१५. वेइंदियाणं भंते ! केवतिकालस्स आहारड्डे समुप्पज्जति ? जहा णेरइयाणं (सु. १७९६) । णवरं तत्थ णं जे से आभोगणिच्चत्तिए से णं असंखेज्जसमइए अंतोमुहुत्तिए वेमायाए आहारड्डे समुप्पज्जति । सेसं जहा पुढविकाइयाणं (सु. १८०९) जाव आहच्च णीससंति, णवरं णियमा छदिसिं ।

१८१६. वेइंदियां णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोग्गलाणं सेयालंसि कतिभागं आहारेंति कतिभागं अस्साएंति ? एवं जहा णेरइयाणं (सु. १८०३) ।

१. भण्णति जे० विना । हवति मलयवृत्तौ ॥ २. तित्तरस-कडुयरस-कसायरस-अं० म० प्र० पु१ पु२ पु३ मु० ॥ ३. °डफास-म° पु१ पु२ पु३ मु० ॥ ४. °उण्ह-णि° मु० ॥ ५. तेसिं भंते ! म० मु० ॥ ६. °ए तेसिं भुं° पु२ ॥ ७. °काइया । जे० ध० मु० ॥ ८. णेरतिया । जे० ध० ॥ ९. णवरणं णियमा जे० ध० ॥ १०. ° या णं भंते ! पुच्छ । गोयमा ! जे पो° पु२ मु० ॥

१८१७. वेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते किं सव्वे आहारेंति णो सव्वे आहारेंति ? गोयमा ! वेइंदियाणं दुविहे आहारे पणत्ते, तं जहा— लोमाहारे य पक्खेवाहारे य । जे पोग्गले लोमाहारत्ताए गेण्हंति ते सव्वे अपरिसेसे आहारेंति, जे पोग्गले पक्खेवाहारत्ताए गेण्हंति तेसिं असंखे-
 ५ ज्जभागमाहारेंति णेगाइं च णं भागसहस्साइं अफासाइज्जमाणं अणासाइ-
 ज्जमाणं विद्धंसमागच्छंति ।

१८१८. एतेसि णं भंते ! पोग्गलाणं अणासाइज्जमाणं अफासाइज्ज-
 माणाण य कतरे कतरेहिंतो ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पोग्गला अणासाइज्जमाणा,
 अफासाइज्जमाणा अणंतगुणा ।

१० १८१९. वेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए ० पुच्छ । गोयमा !
 जिब्भंदिय-फासिंदियवेमायत्ताए ते तेसिं भुज्जो २ परिणमंति ।

१८२०. एवं जाव चउरिंदिया । णवरं णेगाइं च णं भागसहस्साइं
 अणग्घाइज्जमाणाइं अफासाइज्जमाणाइं अणस्साइज्जमाणाइं विद्धंसमागच्छंति ।

१८२१. एतेसि णं भंते ! पोग्गलाणं अणाघाइज्जमाणं अणासाइज्ज-
 १५ माणाणं अफासाइज्जमाणाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा
 पोग्गला अणग्घाइज्जमाणा, अणस्साइज्जमाणा अणंतगुणा, अफासाइज्जमाणा अणंत-
 गुणा ।

१८२२. तेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गला ० पुच्छ । गोयमा ! घाणिंदिय-
 जिब्भंदिय-फासिंदियवेमायत्ताए ते तेसिं भुज्जो २ परिणमंति ।

२० १८२३. चउरिंदियाणं चविंखदिय-घाणिंदिय-जिब्भंदिय-फासिंदियवेमा-
 यत्ताए ते तेसिं भुज्जो भुज्जो परिणमंति, सेसं जहा तेइंदियाणं ।

[सुत्ताइं १८२४-२८. पंचिंदियतिरिक्खाईसु २-८ आहारट्टिआइदारसत्तगं]

१८२४. पंचेदियतिरिक्खजोणिया जहा तेइंदिया । णवरं तत्थ णं जे
 से आभोगणिव्वत्तिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तस्स, उक्कोसेणं छट्ठमत्तस्स आहारट्टे
 २५ समुप्पज्जति ।

१८२५. पंचेदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए ०

१. °ए गेण्हंति ते णं तेसिं ध० ॥ २. °ए तेसिं जे० ध० विना ॥ ३. °ए तेसिं पुरसं० सु० ।
 °ए एसिं पु१ पु३ ॥

पुच्छ । गोयमा ! सोइंदिय-चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिन्भिंदिय-फासेंदियवेमायत्ताए
भुज्जो २ परिणमंति ।

१८२६. मणूसा एवं चेव । णवरं आभोगणिव्वत्तिए जहण्णेणं अंतो-
मुहुत्तस्स, उक्कोसेणं अट्टमभत्तस्स आहारद्वे समुप्पज्जति ।

१८२७. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १८०६ [२]) । ५

१८२८. एवं जोइसिया वि । णवरं आभोगणिव्वत्तिए जहण्णेणं दिवस-
पुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि दिवसपुहुत्तस्स आहारद्वे समुप्पज्जति ।

[सुत्ताइं १८२९-५२. वेमाणिएसु २-८ आहारद्विआइदारसत्तगं]

१८२९. एवं वेमाणियां वि । णवरं आभोगणिव्वत्तिए जहण्णेणं दिवस-
पुहुत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए वाससहस्साणं आहारद्वे समुप्पज्जति । सेसं जहा १०
असुरकुमाराणं (सु. १८०६ [१]) जाव ते तेसिं भुज्जो २ परिणमंति ।

१८३०. सोहम्मे आभोगणिव्वत्तिए जहण्णेणं दिवसपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं
दोण्हं वाससहस्साणं आहारद्वे समुप्पज्जइ ।

१८३१. ईसणैणाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दिवसपुहुत्तस्स साति-
रेगस्स, उक्कोसेणं सातिरेगाणं दोण्हं वाससहस्साणं । १५

१८३२. सणंकुमाराणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेण दोण्हं वाससहस्साणं,
उक्कोसेणं सत्तण्हं वाससहस्साणं ।

१८३३. माहिंदे पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दोण्हं वाससहस्साणं
सातिरेगाणं, उक्कोसेणं सत्तण्हं वाससहस्साणं सातिरेगाणं ।

१८३४. बंभलोएँ णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं वाससहस्साणं, २०
उक्कोसेणं दसण्हं वाससहस्साणं ।

१८३५. लंतए णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दसण्हं वाससहस्साणं,
उक्कोसेणं चोदसण्हं वाससहस्साणं आहारद्वे समुप्पज्जइ ।

१८३६. महासुक्के णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चोदसण्हं
वाससहस्साणं, उक्कोसेणं सत्तरसण्हं वाससहस्साणं । २५

१. °याण वि जे० ध० म० ॥ २. °राणं एतेसिं पु१ पु२ पु३ । °राणं जाव एतेसिं म० प्र० सु० ॥
३. ईसाणे णं जे० ध० विना ॥ ४. °ए पु° पु१ पु२ पु३ प्र० सु० ॥

१८३७. सहस्सारे णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरसण्हं वाससहस्साणं, उक्कोसेणं अट्ठारसण्हं वाससहस्साणं ।

१८३८. आणए णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठारसण्हं वाससहस्साणं, उक्कोसेणं एगूणवीसाए वाससहस्साणं ।

५ १८३९. पाणए णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं वीसाए वाससहस्साणं ।

१८४०. आरणे णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं एकवीसाए वाससहस्साणं ।

१० १८४१. अन्नुए णं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एकवीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं वावीसाए वाससहस्साणं ।

१८४२. हेट्ठिमहेट्ठिमगेवेज्जगाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं वावीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं तेवीसाए वाससहस्साणं । एवं सव्वत्थ सहस्साणि भाणियव्वाणि जाव सव्वट्ठं ।

१५ १८४३. हेट्ठिममज्झिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसाए, उक्कोसेणं चउवीसाए ।

१८४४. हेट्ठिमउवरिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं चउवीसाए, उक्कोसेणं पणुवीसाए ।

१८४५. मज्झिमहेट्ठिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं पणुवीसाए, उक्कोसेणं छव्वीसाए ।

२० १८४६. मज्झिममज्झिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीसाए, उक्कोसेणं सत्तावीसाए ।

१८४७. मज्झिमउवरिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसाए, उक्कोसेणं अट्ठावीसाए ।

२५ १८४८. उवरिमहेट्ठिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठावीसाए, उक्कोसेणं एगूणतीसाए ।

१८४९. उवरिममज्झिमाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं एककूणतीसाए, उक्कोसेणं तीसाए ।

१८५०. उवरिमउवरिमगेवेज्जगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं तीसाए, उक्कोसेणं एकतीसाए ।

१८५१. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं एकतीसाए, उक्कोसेणं तेत्तीसाए ।

१८५२. सँव्वट्ठगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए ५
वाससहस्साणं आहारट्ठे समुप्पज्जति ।

[सुत्ताइं १८५३-५८. चउवीसदंडएसु ९ एर्गिंदियसरीरादिदारं]

१८५३. णेरइया णं भंते ! किं एर्गिंदियसरीराइं आहारेंति जाव पंचेंदिय-सरीराइं आहारेंति ? गोयमा ! पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एर्गिंदियसरीराइं पि आहारेंति जाव पंचेंदियसरीराइं पि, पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा पंचेंदिय-सरीराइं आहारेंति । १०

१८५४. एवं जाव थणियकुमारा ।

१८५५. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं चैव, पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा एर्गिंदियसरीराइं आहारेंति ।

१८५६. वेइंदिया पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं चैव, पडुप्पण्णभावपण्ण-वणं पडुच्च णियमा वेइंदियसरीराइं आहारेंति । १५

१८५७. एवं जाव चउरिंदिया ताव पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं, पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा जस्स जति इंदियाइं तैइंदियसरीराइं ते आहारेंति ।

१८५८. सेसा जहा णेरइया जाव वेमाणिया । २०

[सुत्ताइं १८५९-६१. चउवीसदंडएसु १० लोमाहारदारं]

१८५९. णेरइया णं भंते ! किं लोमाहारा पक्खेवाहारा ? गोयमा ! लोमाहारा, णो पक्खेवाहारा ।

१८६०. एवं एर्गिंदिया सव्वे देवा य भाणियव्वा जाव वेमाणिया ।

१८६१. वेइंदिया जाव मणूसा लोमाहारा वि पक्खेवाहारा वि । २५

[सुत्ताइं १८६२-६४. चउवीसदंडएसु ११ मणभक्खिदरं]

१८६२. णेरइया णं भंते ! किं ओयाहारा मणभक्खी ? गोयमा !
ओयाहारा, णो मणभक्खी ।

१८६३. एवं सव्वे ओरालियसरीरा वि ।

५ १८६४. देवा सव्वे जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभक्खी वि ।
तत्थ णं जे ते मणभक्खी देवां तेसि णं इच्छामणे ससुप्पज्जइ 'इच्छामो णं
मणभक्खणं करित्तए' तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकते समाणे खिप्पामेव जे
पोग्गला इट्ठा कंता जाव मणामा ते तेसिं मणभक्खत्ताए परिणमंति, से जहाणामए
सीता पोग्गला सीयं पप्पा सीयं चेव अइवइत्ताणं चिडंति उसिणा वा पोग्गला उसिणं
१० पप्पा उसिणं चेव अतिवइत्ताणं चिडंति एवामेव तेहिं देवेहिं मणभक्खणे कते
समाणे गोयमा ! से इच्छामणे खिप्पामेव अवेति ।

॥ पणवणाए भग्वतीए आहारपदे पढमो उद्देसओ समत्तो ॥

*

वीओ उद्देसओ

१५ [सुत्तं १८६५. वीउद्देसस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

१८६५. आहार १ भविय २ सण्णी ३
लेस्सा ४ दिट्ठी य ५ संजय ६ कसाए ७ ।
णाणे ८ जोगुवओगे ९-१०
वेदे य ११ सरीर १२ पज्जती १३ ॥ २१९ ॥

२० [सुत्ताइं १८६६-७०. जीवाईसु १ आहारदारं]

१८६६. [१] जीवे णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा !
सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं नेरइए जाव असुरकुमारे जाव वेमाणिए ।

१८६७. सिद्धे णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो

२५ आहारए, अणाहारए ।

१८६८. जीवा णं भंते ! किं आहारया अणाहारया ? गोयमा !
आहारगा वि अणाहारगा वि ।

१८६९. [१] णेरइयाणं पुच्छ । गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा आहारगा ?
अहवा आहारगा य अणाहारगे य २ अहवा आहारगा य अणाहारगा य ३ ।

[२] एवं जाव वेमाणिया । णवरं एगिंदिया जहा जीवा ।

५

१८७०. सिद्धाणं पुच्छ । गोयमा ! णो आहारगा, अणाहारगा । दारं १ ॥

[सुत्ताइं १८७१-७५. २ भवियदारे आहारयाइपरूवणं]

१८७१. [१] भवसिद्धिए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ?
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

१०

१८७२. भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ?
गोयमा ! जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८७३. अभवसिद्धिए वि एवं चेव ।

१८७४. [१] णोभवसिद्धिए-णोअभवसिद्धिए णं भंते ! जीवे किं
आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो आहारए, अणाहारए ।

१५

[२] एवं सिद्धे वि ।

१८७५. [१] णोभवसिद्धिया-णोअभवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं
आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! णो आहारगा, अणाहारगा ।

[२] एवं सिद्धा वि । दारं २ ॥

[सुत्ताइं १८७६-८२. ३ सण्णिदारे आहारयाइपरूवणं]

२०

१८७६. [१] सण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारगे अणाहारगे ? गोयमा !
सिय आहारगे सिय अणाहारगे ।

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिया ण पुच्छिजंति ।

१८७७. सण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारया अणाहारगा ? गोयमा !
जीवाइओ तियभंगो जाव वेमाणिया ।

२५

१८७८. [१] असण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ?
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं णेरइए जाव वाणमंतरे ।

[३]^१ जोइसियं-वेमाणिया ण पुच्छिजंति ।

१८७९. असण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा !
आहारगा वि अणाहारगा वि, एगो भंगो ।

५ १८८०. [१] असण्णी णं भंते ! णेरइया किं आहारगा अणाहारगा ?
गोयमा ! आहारगा वा १ अणाहारगा वा २ अहवा आहारए य अणाहारए य ३
अहवा आहारए य अणाहारगा य ४ अहवा आहारगा य अणाहारगे य ५
अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एते छब्भंगा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

१० [३] एगिंदिएसु अभंगयं ।

[४] वेइंदिय जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु तियभंगो ।

[५] मणूस-वाणमंतरेसु छब्भंगा ।

१८८१. [१] णोसण्णी-णोअसण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए
अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

१५ [२] एवं मणूसे वि ।

[३] सिद्धे अणाहारए ।

१८८२. [१] पुहत्तेणं णोसण्णी-णोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणा-
हारगा वि ।

[२] मणूसेसु तियभंगो ।

२० [३] सिद्धा अणाहारगा । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं १८८३-८६. ४ लेस्सादारे आहारयाइपरूवणं]

१८८३. [१] सलेसे णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा !
सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

२५ १८८४. सलेसा णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा !
जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८५. [१] एवं कणहलेसाए वि णीललेसाए वि काउलेसाए वि जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] तेउलेस्साए पुढवि-आउ-वणप्फइकाइयाणं छब्भंगा ।

[३] सेसाणं जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि तेउलेस्सा ।

[४] पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए य जीवादीओ तियभंगो । ५

१८८६. अलेस्सा जीवा मणूसा सिद्धा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णो आहारगा, अणाहारगा । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं १८८७-८९. ५ दिट्टिदारे आहारयाइपरूवणं]

१८८७. [१] सम्महिट्ठी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । १०

[२] वेइंदियं-तेइंदिय-चउरिंदिया छब्भंगा ।

[३] सिद्धा अणाहारगा ।

[४] अवसेसाणं तियभंगो ।

१८८८. मिच्छहिट्ठीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८९. [१] सम्मामिच्छहिट्ठी णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! आहारए, णो अणाहारए । १५

[२] एवं एगिंदिय-विगलिंदियवज्जं जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १८९०-९३. जीवाइसु ६ संजयदारे आहारयाइपरूवणं]

१८९०. [१] संजए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । २०

[२] एवं मणूसे वि ।

[३] पुहत्तेण तियभंगो ।

१८९१. [१] अस्संजए पुच्छा । गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । २५

[२] एवं णेरइए जाव वाणमंतरे ।

[३]^१ जोइसियं-वेमाणिया ण पुच्छिजंति ।

१८७९. असण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा !
आहारगा वि अणाहारगा वि, एगो भंगो ।

५ १८८०. [१] असण्णी णं भंते ! णेरइया किं आहारगा अणाहारगा ?
गोयमा ! आहारगा वा १ अणाहारगा वा २ अहवा आहारए य अणाहारए य ३
अहवा आहारए य अणाहारगा य ४ अहवा आहारगा य अणाहारगे य ५
अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एते छब्भंगा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

१० [३] एगिंदिएसु अभंगयं ।

[४] वेइंदिय जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु तियभंगो ।

[५] मणूस-त्राणमंतरेसु छब्भंगा ।

१८८१. [१] णोसण्णी-णोअसण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए
अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

१५ [२] एवं मणूसे वि ।

[३] सिद्धे अणाहारए ।

१८८२. [१] पुहत्तेणं णोसण्णी-णोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणा-
हारगा वि ।

[२] मणूसेसु तियभंगो ।

२० [३] सिद्धा अणाहारगा । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं १८८३-८६. ४ लेस्सादारे आहारयाइपरूवणं]

१८८३. [१] सलेसे णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा !
सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

२५ १८८४. सलेसा णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा !
जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८५. [१] एवं कण्हलेसाए वि णीललेसाए वि काउलेसाए वि जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] तेउलेस्साए पुढवि-आउ-वणप्फइकाइयाणं छब्भंगा ।

[३] सेसाणं जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि तेउलेस्सा ।

[४] पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए य जीवादीओ तियभंगो ।

५

१८८६. अलेस्सा जीवा मणूसा सिद्धा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णो आहारगा, अणाहारगा । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं १८८७-८९. ५ दिट्टिदारे आहारयाइपरूवणं]

१८८७. [१] सम्मदिट्टी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

१०

[२] वेइंदियं-तेइंदिय-चउरिंदिया छब्भंगा ।

[३] सिद्धा अणाहारगा ।

[४] अवसेसाणं तियभंगो ।

१८८८. मिच्छदिट्टीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८९. [१] सम्मामिच्छदिट्टी णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! आहारए, णो अणाहारए ।

१५

[२] एवं एगिंदिय-विगलिंदियवज्जं जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १८९०-९३. जीवाईसु ६ संजयदारे आहारयाइपरूवणं]

१८९०. [१] संजए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

२०

[२] एवं मणूसे वि ।

[३] पुहत्तेण तियभंगो ।

१८९१. [१] अस्संजए पुच्छ । गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

२५

१. कण्हलेसा वि णीललेसा वि काउलेसा वि जीवे^० म० प्र० पु१ पु३ ॥ २. वेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया म० प्र० पु१ पु३ सु० ॥

[२] एवं णेरइए जाव वाणमंतरे ।

[३]' जोइसिये-वेमाणिया ण पुच्छिजंति ।

१८७९. असण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा !
आहारगा वि अणाहारगा वि, एगो भंगो ।

५ १८८०. [१] असण्णी णं भंते ! णेरइया किं आहारगा अणाहारगा ?
गोयमा ! आहारगा वा १ अणाहारगा वा २ अहवा आहारए य अणाहारए य ३
अहवा आहारए य अणाहारगा य ४ अहवा आहारगा य अणाहारगे य ५
अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एते छब्भंगा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

१० [३] एगिंदिएसु अभंगयं ।

[४] वेइंदिय जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु तियभंगो ।

[५] मणूस-त्राणमंतरेसु छब्भंगा ।

१८८१. [१] णोसण्णी-णोअसण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए
अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

१५ [२] एवं मणूसे वि ।

[३] सिद्धे अणाहारए ।

१८८२. [१] पुहत्तेणं णोसण्णी-णोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणा-
हारगा वि ।

[२] मणूसेसु तियभंगो ।

२० [३] सिद्धा अणाहारगा । दारं ३ ॥

[सुत्ताइं १८८३-८६. ४ लेस्सादारे आहारयाइपरूवणं]

१८८३. [१] सलेसे णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा !
सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

२५ १८८४. सलेसा णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा !
जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८५. [१] एवं कण्हलेसाए वि णीललेसाए वि काउलेसाए वि जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] तेउलेस्साए पुढवि-आउ-वणप्फइकाइयाणं छब्भंगा ।

[३] सेसाणं जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि तेउलेस्सा ।

[४] पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए य जीवादीओ तियभंगो ।

५

१८८६. अलेस्सा जीवा मणूसा सिद्धा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णो आहारगा, अणाहारगा । दारं ४ ॥

[सुत्ताइं १८८७-८९. ५ दिट्टिदारे आहारयाइपरूवणं]

१८८७. [१] सम्मदिट्टी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

१०

[२] वेइंदियं-तेइंदिय-चउरिंदिया छब्भंगा ।

[३] सिद्धा अणाहारगा ।

[४] अवसेसाणं तियभंगो ।

१८८८. मिच्छदिट्टीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८८९. [१] सम्मामिच्छदिट्टी णं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! आहारए, णो अणाहारए ।

१५

[२] एवं एगिंदिय-विगळिंदियवज्जं जाव वेमाणिए ।

[३] एवं पुहत्तेण वि । दारं ५ ॥

[सुत्ताइं १८९०-९३. जीवाईसु ६ संजयदारे आहारयाइपरूवणं]

१८९०. [१] संजए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

२०

[२] एवं मणूसे वि ।

[३] पुहत्तेण तियभंगो ।

१८९१. [१] अस्संजए पुच्छ । गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

२५

१. कण्हलेसा वि णीललेसा वि काउलेसा वि जीवे° म० प्र० पु१ पु३ ॥ २. वेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया म० प्र० पु१ पु३ मु० ॥

[२] पुहत्तेणं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१८९२. संजयासंजए जीवे पंचेदियतिरिक्खजोणिए मणूसे य एते एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा, णो अणाहारगा ।

१८९३. णोसंजए-णोअसंजए-णोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एते एगत्तेण ५ वि पुहत्तेण वि णो आहारगा, अणाहारगा । दारं ६ ॥

[सुत्ताइं १८९४-९६. ७ कसायदारे आहारयाइपरूवणं]

१८९४. [१] सकसाई णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[२] एवं जाव वेमाणिए ।

१० १८९५. [१] पुहत्तेणं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] कोहकसाईसु जीवाडिएसु एवं चैव । णवरं देवेषु छब्भंगा ।

[३] माणकसाईसु मायाकसाईसु य देव-णेरइएसु छब्भंगा । अवसेसाणं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[४] लोभकसाईसु णेरइएसु छब्भंगा । अवसेसेसु जीवेगिंदियवज्जो १५ तियभंगो ।

१८९६. अकसाई जहा णोसण्णी-णोअसण्णी (सु. १८८१-८२) । दारं ७ ॥

[सुत्ताइं १८९७-९९. ८ णाणदारे आहारयाइपरूवणं]

१८९७. णाणी जहा सम्मद्धिं (सु. १८८७) ।

२० १८९८. [१] आभिणिचोहियणाणि-सुतणाणिसु वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिएसु छब्भंगा । अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि ।

[२] ओहिणाणी पंचेदियतिरिक्खजोणिया आहारगा, णो अणाहारगा । अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो जेसिं अत्थि ओहिणाणं ।

[३] मणपजवणाणी जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा, २५ णो अणाहारगा ।

[४] केवलणाणी जहा णोसण्णी-णोअसण्णी (सु. १८८१-८२) ।

१८९९. [१] अण्णाणी मइअण्णाणी सुयअण्णाणी जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] विभंगणाणी पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य आहारगा, णो अणाहारगा । अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो । दारं ८ ॥

[सुत्तं १९००. ९ जोगदारं आहारयाइपरूवणं]

५

१९००. [१] सजोगीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] मणजोगी वइजोगी य जहा सम्माभिच्छदिद्धी (सु. १८८९) । णवरं वइजोगो विगलिंदियाण वि ।

[३] कायजोगीसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[४] अजोगी जीव-मणूस-सिद्धा अणाहारगा । दारं ९ ॥

१०

[सुत्तं १९०१. १० उवओगदारं आहारयाइपरूवणं]

१९०१. [१] सागाराणारोवउत्तेसु जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[२] सिद्धा अणाहारगा । दारं १० ॥

[सुत्तं १९०२. ११ वेददारं आहारयाइपरूवणं]

१९०२. [१] सवेदे जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१५

[२] इत्थिवेद-पुरिसवेदेसु जीवादीओ तियभंगो ।

[३] णपुंसगवेदए जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

[४] अवेदए जहा केवलणाणी (सु. १८९८ [४]) । दारं ११ ॥

[सुत्तं १९०३. १२ सरीरदारं आहारयाइपरूवणं]

१९०३. [१] ससरीरी जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

२०

[२] ओरालियसरीरीसु जीव-मणूसेसु तियभंगो ।

[३] अवसेसा आहारगा, णो अणाहारगा, जेसिं अत्थि ओरालियसरीरं ।

[४] वेउब्बियसरीरी आहारगसरीरी य आहारगा, णो अणाहारगा, जेसिं अत्थि ।

[५] तेय-कम्मगसरीरी जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

२५

[६] असरीरी जीवा सिद्धा य णो आहारगा, अणाहारगा । दारं १२ ॥

[सुत्ताइं १९०४-७. १३ पज्जत्तिदारं आहारयाइपरूवणं]

१९०४. [१] आहारपँज्जत्तीपज्जत्तए सरीरपँज्जत्तीपज्जत्तए इंदियपँज्जत्ती-
पज्जत्तए आणापाणुपँज्जत्तीपज्जत्तए भासा-मणपँज्जत्तीपज्जत्तए एयासु पंचसु वि पज्जत्तीसु
५ जीवेसु मणूसेसु य तियभंगो ।

[२] अवसेसा आहारगा, णो अणाहारगा ।

[३] भासा-मणपज्जत्ती पंचेंदियाणं, अवसेसाणं णत्थि ।

१९०५. [१] आहारपज्जत्तीअपज्जत्तए णो आहारए, अणाहारए, एगत्तेण
वि पुहत्तेण वि ।

१० [२] सरीरपज्जत्तीअपज्जत्तए सिय आहारए सिय अणाहारए ।

[३] उँवरिहियासु चउसु अपज्जत्तीसु णेरइय-देव-मणूसेसु छब्भंगा,
अवसेसाणं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ।

१९०६. भासा-मणअपज्जत्तीए(°ज्जत्तएसु) जीवेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु
य तियभंगो, णेरइय-देव-मणुएसु छब्भंगा ।

१५ १९०७. सव्वपदेसु एगत्त-पुहत्तेणं जीवादीया दंडगा पुच्छाए भाणियव्वा ।
जस्स जं अत्थि तस्स तं पुच्छिज्जति, जं णत्थि तं ण पुच्छिज्जति जाव भासा-
मणपज्जत्तीए अपज्जत्तएसु णेरइय-देव-मणुएसु य छब्भंगा । सेसेसु तियभंगो ।
दारं १३ ॥

॥ वीओ उहेसओ समत्तो ॥

२९. एगूणतीसइमं उवओगपयं

[सुत्ताइं १९०८-२७, जीवईसु उवओगभेय-पभेयपरूवणं]

१९०८. कतिविहे णं भंते ! उवओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नत्ते । तं जहा-सागारोवओगे य अणागारोवओगे य ।

१९०९. सागारोवओगे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! अडुविहे पण्णत्ते । तं जहा-आभिणिबोहियणाणसागारोवओगे १ सुयणाणसागारोवओगे २ ओहिणाणसागारोवओगे ३ मणपज्जवणाणसागारोवओगे ४ केवलणाणसागारोवओगे ५ मतिअण्णाणसागारोवओगे ६ सुयअण्णाणसागारोवओगे ७ विभंगणाणसागारोवओगे ८ ।

१९१०. अणागारोवओगे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते । तं जहा-चक्खुदंसणअणागारोवओगे १ अचक्खुदंसणअणागारोवओगे २ ओहिदंसणअणागारोवओगे ३ केवलदंसणअणागारोवओगे ४ ।

१९११. एवं जीवाणं पि ।

१९१२. णेरइयाणं भंते ! कतिविहे उवओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते । तं जहा-सागारोवओगे य अणागारोवओगे य ।

१९१३. णेरइयाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! छविहे पण्णत्ते । तं जहा-मतिणाणसागारोवओगे १ सुयणाणसागारोवओगे २ ओहिणाणसागारोवओगे ३ मतिअण्णाणसागारोवओगे ४ सुयअण्णाणसागारोवओगे ५ विभंगणाणसागारोवओगे ६ ।

१९१४. णेरइयाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते । तं जहा-चक्खुदंसणअणागारोवओगे १ अचक्खुदंसणअणागारोवओगे २ ओहिदंसणअणागारोवओगे ३ य ।

१९१५. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

१९१६. पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते । तं जहा-सागारोवओगे य अणागारोवओगे य ।

१९१७. पुढविकाइयाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ?
गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा—मतिअण्णाणे सुतअण्णाणे ।

१९१८. पुढविकाइयाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ?
गोयमा ! एगे अचक्खुदंसणाणागारोवओगे पणत्ते ।

५ १९१९. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

१९२०. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! दुविहे उवओगे पणत्ते । तं
जहा—सौंगारे अणागारे य ।

१९२१. वेइंदियाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा !
चउच्चिहे पणत्ते । तं जहा—आभिणिवोहियणाणसागारोवओगे १ सुयणाण-
१० सागारोवओगे २ मतिअण्णाणसागारोवओगे ३ सुतअण्णाणसागारोवओगे ४ ।

१९२२. वेइंदियाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा !
एगे अचक्खुदंसणअणागारोवओगे ।

१९२३. एवं तेइंदियाणं वि ।

१९२४. चउरिंदियाणं वि एवं चेव । णवरं अणागारोवओगे दुविहे
१५ पणत्ते । तं जहा—चक्खुदंसणअणागारोवओगे य अचक्खुदंसणअणागारोवओगे य ।

१९२५. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १९१२-१४) ।

१९२६. मणुस्साणं जहा ओहिए उवओगे भणियं (सु. १९०८-१०)
तेहेव भाणियच्चं ।

१९२७. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १९१२-
२० १४) ।

[सुत्ताइं १९२८-३५. जीवाईसु सागाराणागारोवओगपरूवणं]

१९२८. जीवा णं भंते ! किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा !
सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणट्ठेणं भंते ! एव वुच्चति जीवा
सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ? गोयमा ! जे णं जीवा आभिणिवोहिय-
२५ णाण-सुतणाण-ओहिणाण-मण-केवल-मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-विभंगणाणोवउत्ता ते
णं जीवा सागारोवउत्ता, जे णं जीवा चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसण-

केवलदंसणोवउत्ता ते णं जीवा अणागारोवउत्ता, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जीवा सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।

१९२९. णेरइया णं भंते ! किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! णेरइया सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जे णं णेरइया आभिणिचोहियणाण-सुत-ओहिणाण-मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-विभंगणाणोवउत्ता ते णं णेरइया सागारोवउत्ता, जे णं णेरइया चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसणोवउत्ता ते णं णेरइया अणागारोवउत्ता, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जाव सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।

१९३०. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९३१. पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! तहेव जाव जे णं पुढ-विकाइया मतिअण्णाण-सुतअण्णाणोवउत्ता ते णं पुढविकाइया सागारोवउत्ता, जे णं पुढविकाइया अचक्खुदंसणोवउत्ता ते णं पुढविकाइया अणागारोवउत्ता, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जाव वणप्फइकाइया ।

१९३२. [१] वेइंदियाणं अट्टसहिया तहेव पुच्छ गोयमा ! जाव जे णं वेइंदिया आभिणिचोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुयअण्णाणोवउत्ता ते णं वेइंदिया सागारोवउत्ता, जे णं वेइंदिया अचक्खुदंसणोवउत्ता ते णं वेइंदिया अणागारोवउत्ता, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति० ।

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं चक्खुदंसणं अब्भइयं चउरिंदियाणं ।

१९३३. पंचेदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. १९२९) ।

१९३४. मणूसा जहा जीवा (सु. १९२८) ।

१९३५. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु. १९२९) ।

॥ पणवणाए भगवतीए एगूणतीसइमं उचओगपयं समत्तं ॥

१९१७. पुढविकाइयाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणत्ते । तं जहा-मतिअण्णाणे सुतअण्णाणे ।

१९१८. पुढविकाइयाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! एगे अचक्खुदंसणाणागारोवओगे पणत्ते ।

५ १९१९. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

१९२०. वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उवओगे पणत्ते । तं जहा-सांगारे अणागारे य ।

१९२१. वेइंदियाणं भंते ! सागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पणत्ते । तं जहा-आभिणिवोहियाणसागारोवओगे १ सुयणाण-
१० सागारोवओगे २ मतिअण्णाणसागारोवओगे ३ सुतअण्णाणसागारोवओगे ४ ।

१९२२. वेइंदियाणं भंते ! अणागारोवओगे कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! एगे अचक्खुदंसणअणागारोवओगे ।

१९२३. एवं तेइंदियाणं वि ।

१९२४. चउरिंदियाणं वि एवं चेव । णवरं अणागारोवओगे दुविहे
१५ पणत्ते । तं जहा-चक्खुदंसणअणागारोवओगे य अचक्खुदंसणअणागारोवओगे य ।

१९२५. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १९१२-१४) ।

१९२६. मणुस्साणं जहा ओहिए उवओगे भणियं (सु. १९०८-१०) तहेव भाणियव्वं ।

१९२७. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १९१२-
२० १४) ।

[सुत्ताइं १९२८-३५. जीवाइंसु सागाराणागारोवओगपरूवणं]

१९२८. जीवा णं भंते ! किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणट्ठेणं भंते ! एव बुच्चति जीवा सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ? गोयमा ! जे णं जीवा आभिणिवोहिय-
२५ णाण-सुतणाण-ओहिणाण-मण-केवल-मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-विभंगणाणोवउत्ता ते णं जीवा सागारोवउत्ता, जे णं जीवा चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसण-

केवलदंसणोवउत्ता ते णं जीवा अणागारोवउत्ता, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जीवा सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।

१९२९. णेरइया णं भंते ! किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! णेरइया सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जे णं णेरइया आभिणिबोहियणाण-सुत-ओहिणाण-मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-विभंगणाणोवउत्ता ते णं णेरइया सागारोवउत्ता, जे णं णेरइया चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसणोवउत्ता ते णं णेरइया अणागारोवउत्ता, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जाव सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।

१९३०. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९३१. पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! तहेव जाव जे णं पुढ-विकाइया मतिअण्णाण-सुतअण्णाणोवउत्ता ते णं पुढविकाइया सागारोवउत्ता, जे णं पुढविकाइया अचक्खुदंसणोवउत्ता ते णं पुढविकाइया अणागारोवउत्ता, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चति जाव वणप्फइकाइया ।

१९३२. [१] वेइंदियाणं अट्टसहिया तहेव पुच्छ गोयमा ! जाव जे णं वेइंदिया आभिणिबोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुयअण्णाणोवउत्ता ते णं वेइंदिया सागारोवउत्ता, जे णं वेइंदिया अचक्खुदंसणोवउत्ता ते णं वेइंदिया अणागारोवउत्ता, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चति० ।

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं चक्खुदंसणं अब्भइयं चउरिंदियाणं ।

१९३३. पंचेदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. १९२९) ।

१९३४. मणूसा जहा जीवा (सु. १९२८) ।

१९३५. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु. १९२९) ।

॥ पणवणाप भगवतीए एगूणतीसइमं उचओगपयं समत्तं ॥

३०. तीसड़मं पासणयापयं

[सुत्ताइं १९३६-५३. जीवाईसु पासणयाभेय-पभेयपरूवणं]

१९३६. कतिविहा णं भंते! पासणया पण्णत्ता? गोयमा! दुविहा पासणया पण्णत्ता। तं जहा—सागारपासणया अणागारपासणया य।

५ १९३७. सागारपासणया णं भंते! कइविहा पण्णत्ता? गोयमा! छुविहा पण्णत्ता। तं जहा—सुयणाणसागारपासणया १ ओहिणाणसागारपासणया २ मणपज्जवणाणसागारपासणया ३ केवलणाणसागारपासणया ४ सुयअन्नाणसागारपासणया ५ विभंगनाणसागारपासणया ६।

१० १९३८. अणागारपासणया णं भंते! कतिविहा पण्णत्ता? गोयमा! तिविहा पण्णत्ता। तं जहा—चक्खुदंसणअणागारपासणया १ ओहिदंसणअणागारपासणया २ केवलदंसणअणागारपासणया ३।

१९३९. एवं जीवाणं पि।

१९४०. णेरइयाणं भंते! कतिविहा पासणया पण्णत्ता? गोयमा! दुविहा पण्णत्ता। तं जहा—सागारपासणया अणागारपासणया य।

१५ १९४१. णेरइयाणं भंते! सागारपासणया कतिविहा पण्णत्ता? गोयमा! चउविहा पण्णत्ता। तं जहा—सुतणाणसागारपासणया १ ओहिणाणसागारपासणया २ सुयअण्णाणसागारपासणया ३ विभंगणाणसागारपासणया ४।

२० १९४२. णेरइयाणं भंते! अणागारपासणया कतिविहा पण्णत्ता? गोयमा! दुविहा पण्णत्ता। तं जहा—चक्खुदंसणअणागारपासणया य ओहिदंसणअणागारपासणया य।

१९४३. एवं जाव थणियकुमारा।

१९४४. पुढविक्काइयाणं भंते! कतिविहा पासणया पण्णत्ता? गोयमा! एगा सागारपासणया।

२५ १९४५. पुढविक्काइयाणं भंते! सागारपासणता कतिविहा पण्णत्ता? गोयमा! एगा सुयअण्णाणसागारपासणता पण्णत्ता।

१९४६. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं।

१९४७. वेइंदियाणं भंते! कतिविहा पासणया पण्णत्ता? गोयमा! एगा सागारपासणता पण्णत्ता।

१९४८. वेइंदियाणं भंते ! सागारपासणता कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा !
दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सुतणाणसागारपासणता य सुयअण्णाणसागारपासणता य ।

१९४९. एवं तेइंदियाण वि ।

१९५०. चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—
सागारपासणता य अणागारपासणता य । सागारपासणया जहा वेइंदियाणं ५
(सु. १९४७-४८) ।

१९५१. चउरिंदियाणं भंते ! अणागारपासणता कतिविहा पण्णत्ता ?
गोयमा ! एगा चक्खुदंसणअणागारपासणया पण्णत्ता ।

१९५२. मणूसणं जहा जीवाणं (सु. १९३९) ।

१९५३. सेसा जहा णेरइया (सु. १९४०-४२) जाव वेमाणिया । १०

[सुत्ताइं १९५४-६२. जीवाईसु पस्सिभेयपरूवणं]

१९५४. जीवा णं भंते ! किं सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा !
जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवा
सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि ? गोयमा ! जे णं जीवा सुयणाणी ओहिणाणी
मणपज्जवणाणी केवलणाणी सुयअण्णाणी विभंगणाणी ते णं जीवा सागारपस्सी, जे १५
णं जीवा चक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी ते णं जीवा अणागारपस्सी, से-
तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि ।

१९५५. णेरइया णं भंते ! किं सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा !
एवं चेव । णवरं सागारपासणताए मणपज्जवणाणी केवलणाणी ण बुच्चति, अणा-
गारपासणताए केवलदंसणं णत्थि । २०

१९५६. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९५७. [१] पुढविक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! पुढविक्काइया सागारपस्सी,
णो अणागारपस्सी । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! पुढविक्काइयाणं
एगा सुयअण्णाणसागारपासणया पण्णत्ता, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

[२] एवं जाव वणस्सत्तिकाइया । २५

१९५८. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी ।
से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! वेइंदियाणं दुविहा सागारपासणया
पण्णत्ता । तं जहा—सुयणाणसागारपासणया य सुयअण्णाणसागारपासणया य,
सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

३०. तीसइमं पासण्यापयं

[सुत्ताइं १९३६-५३. जीवईसु पासण्याभेय-पभेयपरूवणं]

१९३६. कतिविहा णं भंते ! पासण्या पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पासण्या पण्णत्ता । तं जहा—सागारपासण्या अणागारपासण्या य ।

५ १९३७. सागारपासण्या णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! छविहा पण्णत्ता । तं जहा—सुयणाणसागारपासण्या १ ओहिणाणसागारपासण्या २ मणपज्जवणाणसागारपासण्या ३ केवलणाणसागारपासण्या ४ सुयअन्नाणसागारपासण्या ५ विभंगणाणसागारपासण्या ६ ।

१० १९३८. अणागारपासण्या णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता । तं जहा—चक्खुदंसणअणागारपासण्या १ ओहिदंसणअणागारपासण्या २ केवलदंसणअणागारपासण्या ३ ।

१९३९. एवं जीवाणं पि ।

१९४०. णेरइयाणं भंते ! कतिविहा पासण्या पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सागारपासण्या अणागारपासण्या य ।

१५ १९४१. णेरइयाणं भंते ! सागारपासण्या कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउविहा पण्णत्ता । तं जहा—सुतणाणसागारपासण्या १ ओहिणाणसागारपासण्या २ सुयअण्णाणसागारपासण्या ३ विभंगणाणसागारपासण्या ४ ।

२० १९४२. णेरइयाणं भंते ! अणागारपासण्या कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—चक्खुदंसणअणागारपासण्या य ओहिदंसणअणागारपासण्या य ।

१९४३. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९४४. पुढविक्खाइयाणं भंते ! कतिविहा पासण्या पण्णत्ता ? गोयमा ! एगा सागारपासण्या ।

२५ १९४५. पुढविक्खाइयाणं भंते ! सागारपासण्या कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एगा सुयअण्णाणसागारपासण्या पण्णत्ता ।

१९४६. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं ।

१९४७. वेइंदियाणं भंते ! कतिविहा पासण्या पण्णत्ता ? गोयमा ! एगा सागारपासण्या पण्णत्ता ।

१९४८. वेइंदियाणं भंते ! सागारपासणता कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सुतणाणसागारपासणता य सुयअण्णाणसागारपासणता य ।

१९४९. एवं तेइंदियाण वि ।

१९५०. चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा—सागारपासणता य अणागारपासणता य । सागारपासण्या जहा वेइंदियाणं ५
(सु. १९४७-४८) ।

१९५१. चउरिंदियाणं भंते ! अणागारपासणता कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एगा चक्खुदंसणअणागारपासण्या पण्णत्ता ।

१९५२. मण्साणं जहा जीवाणं (सु. १९३९) ।

१९५३. सेसा जहा णेरइया (सु. १९४०-४२) जाव वेमाणिया । १०

[सुत्ताइ १९५४-६२. जीवाईसु पस्सिभेयपरूवणं]

१९५४. जीवा णं भंते ! किं सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा ! जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि ? गोयमा ! जे णं जीवा सुयणाणी ओहिणाणी मणपज्जवणाणी केवलणाणी सुयअण्णाणी विभंगणाणी ते णं जीवा सागारपस्सी, जे १५
णं जीवा चक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी ते णं जीवा अणागारपस्सी, से-
तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि ।

१९५५. णेरइया णं भंते ! किं सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा ! एवं चेव । णवरं सागारपासणताए मणपज्जवणाणी केवलणाणी ण बुच्चंति, अणा-
गारपासणताए केवलदंसणं णत्थि । २०

१९५६. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९५७. [१] पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! पुढविकाइया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! पुढविकाइयाणं एगा सुयअण्णाणसागारपासण्या पण्णत्ता, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

[२] एवं जाव वणस्सत्तिकाइया ।

१९५८. वेइंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! वेइंदियाणं दुविहा सागारपासण्या पण्णत्ता । तं जहा—सुयणाणसागारपासण्या य सुयअण्णाणसागारपासण्या य, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० । २५

१९५९. एवं तेइंदियाण वि ।

१९६०. चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! चउरिंदिया सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि । से केणट्टेणं० ? गोयमा ! जे णं चउरिंदिया सुयणाणी सुतअण्णाणी ते णं चउरिंदिया सागारपस्सी, जे णं चउरिंदिया चक्खुदंसणी ते ५ णं चउरिंदिया अणागारपस्सी, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

१९६१. मणूसा जहा जीवा (सु. १९५४) ।

१९६२. अवसेसा जहा णेरइया (सु. १९५५) जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं १९६३-६४. केवलिउवओगपरूवणं]

१९६३. केवली णं भंते ! इमं रयणप्पमं पुढविं आगारेहिं हेतूहिं १० उवमाहिं दिट्ठंतेहिं वण्णेहिं संठाणेहिं पमाणेहिं पडोयारेहिं जं समयं जाणति तं समयं पासति जं समयं पासति तं समयं जाणति ? गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति केवली णं इमं रयणप्पमं पुढविं आगारेहिं जाव जं समयं जाणति णो तं समयं पासति जं समयं पासति णो त समयं जाणति ? गोयमा ! सागारे से णाणे भवति अणागारे से दंसणे भवति, सेतेणट्टेणं जाव णो १५ तं समयं जाणति । एवं जाव अहेसत्तमं । एवं सोहम्मं कप्पं जाव अच्चुयं गेवेज्ज-गविमंणा अणुत्तरविमंणा ईसीपब्भारं पुढविं परमाणुपोग्गलं दुपएसियं खंधं जाव अणंतपदेसियं खंधं ।

१९६४. केवली णं भंते ! इमं रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं अहेतूहिं अणुवमाहिं अदिट्ठंतेहिं अवण्णेहिं असंठाणेहिं अपमाणेहिं अपडोयारेहिं पासति, ण २० जाणति ? हंता गोयमा ! केवली णं इमं रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं जाव पासति, ण जाणइ । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति केवली णं इमं रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं जाव पासति, ण जाणइ ? गोयमा ! अणागारे से दंसणे भवति सागारे से णाणे भवति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति केवली णं इमं रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं जाव पासति, ण जाणति । एवं जाव ईसीपब्भारं पुढविं २५ परमाणुपोग्गलं अणंतपदेसियं खंधं पासइ, ण जाणइ ।

॥ पणवणाए भगवतीए तीसइमं पासणयापयं समत्तं ॥

३१. एगतीसइमं सण्णपयं

[सुत्ताइं १९६५-७३. जीवाइंसु सण्णिआइभेयपरूवणं]

१९६५. जीवा णं भंते ! किं सण्णी असण्णी णोसण्णी-णोअसण्णी ?
गोयमा ! जीवा सण्णी वि असण्णी वि णोसण्णी-णोअसण्णी वि ।

१९६६. णेरइया णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! णेरइया सण्णी वि ५
असण्णी वि, णो णोसण्णी-णोअसण्णी ।

१९६७. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा ।

१९६८. पुढविक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! णो सण्णी, असण्णी, णो
णोसण्णी-णोअसण्णी ।

१९६९. एवं वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया वि ।

१०

१९७०. मणूसा जहा जीवा (सु. १९६५) ।

१९७१. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया वाणमंतरा य जहा णेरइया
(सु. १९६६) ।

१९७२. जोइसिय-वेमाणिया सण्णी, णो असण्णी णो णोसण्णी-
णोअसण्णी ।

१५

१९७३. सिद्धाणं पुच्छ । गोयमा ! णो सण्णी णो असण्णी, णोसण्णि-
णोअसण्णी ।

णेरइय-तिरिय-मणुया य वणयरसुरा य सण्णऽसण्णी य ।

विगलिंदिया असण्णी, जोतिस-वेमाणिया सण्णी ॥ २२० ॥

॥ पणवणाए भगवतीए एगतीसइमं सण्णपयं समत्तं ॥

२०

३२. वत्तीसइमं संजमपयं

[सुत्ताइं १९७४-८०. जीवाइसु संजयाइभेयपरूवणं]

१९७४. जीवा णं भंते ! किं संजया असंजया संजतासंजता णोसंजत-
णोअसंजतणोसंजयासंजया ? गोयमा ! जीवा णं संजया वि असंजया वि
५ संजयासंजया वि णोसंजयणोअसंजयणोसंजतासंजया वि ।

१९७५. णेरइयां णं भंते ! किं संजया असंजया संजयासंजया णोसंजत-
णोअसंजतणोसंजयासंजया ? गोयमा ! णेरइया णो संजया, असंजया, णो संजया-
संजया णो णोसंजयणोअसंजयणोसंजतासंजया ।

१९७६. एवं जाव चउरिंदिया ।

१९७७. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्ख-
जोणिया णो संजया, असंजया वि संजतासंजता वि, णो णोसंजयणोअसंजयणोसंजया-
संजया ।

१९७८. मणूसा णं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! मणूसा संजया वि असंजय
वि संजतासंजया वि, णो णोसंजतणोअसंजयणोसंजतासंजया ।

१९७९. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु. १९७५) ।

१९८०. सिद्धाणं पुच्छ । गोयमा ! सिद्धा नो संजया नो असंजया नो
संजयासंजया, णोसंजयणोअसंजयणोसंजयासंजया ।

संजय अस्संजय मीसगा य जीवा तहेव मणुया य ।

संजतरहिया तिरिया, सेसा अस्संजता होंति ॥ २२१ ॥

२०

॥ पणवणाए भगवतीए वत्तीसइमं संजमपयं समत्तं ॥

३३. तेत्तीसइमं ओहिपयं

[सुत्तं १९८१. तेत्तीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

१९८१. भेद १ विसय २ संठाणे ३ अन्मितर-चाहिरे ४ य देसोही ५ ।
ओहिस्स य खय-वड्डी ६ पडिवाई चैवडपडिवाई ७ ॥ २२२ ॥

[सुत्तं १९८२. १ ओहिभेयदारं]

५

१९८२. कतिविहा णं भंते ! ओही पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा ओही पणत्ता । तं जहा—भवपच्चइया य खओवसमिया य । दोण्हं भवपच्चइया, तं जहा—देवाण य णेरइयाण य । दोण्हं खओवसमिया, तं जहा—मणूसाणं पंचेदिय-तिरिक्खजोणियाण य ।

[सुत्ताइं १९८३-२००७. २ ओहिविसयदारं]

१०

१९८३. णेरइया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अद्धगाउयं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८४. रयणप्पभापुढविणेरइया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अद्धुद्धाइं गाउआइं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउआइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१५

१९८५. सक्करप्पभापुढविणेरइया जहण्णेणं तिण्णि गाउआइं, उक्कोसेणं अद्धुद्धाइं गाउआइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८६. वालुयप्पभापुढविणेरइया जहण्णेणं अड्डाज्जाइं गाउयाइं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउआइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२०

१९८७. पंकरप्पभापुढविणेरइया जहण्णेणं दोण्णि गाउयाइं, उक्कोसेणं अड्डाज्जाइं गाउआइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८८. धूमप्पभापुढविणेरइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं दिवड्डं गाउअं, उक्कोसेणं दो गाउआइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९८९. तमापुढवि ० ? गोयमा ! जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेणं दिवडुं गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९०. अहेसत्तमाए पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अद्धगाउयं, उक्कोसेणं गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति ।

५ १९९१. असुरकुमारा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्तं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं पणुवीसं जोयणाइं, उक्कोसेणं असंखेज्जे दीव-समुद्दे ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९२. णागकुमारा णं जहण्णेणं पणुवीसं जोयणाइं, उक्कोसेणं संखेज्जे दीव-समुद्दे ओहिणा जाणंति पासंति ।

१० १९९३. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९९४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं असंखेज्जे दीव-समुद्दे ।

१५ १९९५. मणूसा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्तं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं असंखेजाइं अलोए लोयपमाणमेत्ताइं खंडाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९६. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १९९२) ।

२० १९९७. जोइसिया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं संखेज्जे दीव-समुद्दे, उक्कोसेणं वि संखिज्जे दीव-समुद्दे ।

१९९८. सोहम्मगदेवा णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए हेड्डिल्ले चरिभंते तिरियं जाव असंखेज्जे दीव-समुद्दे उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२५ १९९९. एवं ईसाणगदेवा वि ।

२०००. सणंकुमारदेवा वि एवं चेव । णवरं अहे जाव दोच्चाए सक्कर-प्पभाए पुढवीए हेड्डिल्ले चरिभंते ।

२००१. एवं माहिंदगदेवा वि ।

२००२. वंभलोग-लंतगदेवा तच्चाए पुढवीएँ हेड्डिले चरिमंते ।

२००३. महासुक्क-सहस्सारगदेवा चउत्थीए पंक्कप्पभाए पुढवीएँ हेड्डिले चरिमंते ।

२००४. आणय-पाणय-आरण-अच्चुयदेवा अहे जाव पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीएँ हेड्डिले चरिमंते ।

२००५. हेड्डिम-मज्झिमगेवेज्जगदेवा अहे जाव छट्टाए तमाए पुढवीएँ हेड्डिले चरिमंते ।

२००६. उवरिमगेवेज्जगदेवा णं भंते ! केवतियं खेतं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं अहेसत्तमाए पुढवीएँ हेड्डिले चरिमंते तिरियं जाव असंखेजे दीव-समुद्दे उडुं जाव सँगाइं विमाणाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२००७. अणुत्तरोववाइयदेवा णं भंते ! केवतियं खेतं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! संभिन्नं लोणणालिं ओहिणा जाणंति पासंति ।

[सुत्ताइं २००८-१६. ३ ओहिसंठाणदारं]

२००८. णेरइयाणं भंते ! ओही किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! तप्पागारसंठिए पण्णत्ते ।

२००९. [१] असुरकुमाराणं भंते ! ० पुच्छ । गोयमा ! पल्लगसंठिए ।

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०१०. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! णाणासंठाण-संठिए पण्णत्ते ।

२०११. एवं मणूस्राण वि ।

२०१२. वाणमंतराणं पुच्छ । गोयमा ! पडहसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

२०१३. जोतिसियाणं पुच्छ । गोयमा ! झल्लरिसंठाणसंठिए पण्णत्ते ।

२०१४. [१] सोहम्मगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! उडुसुइंगागारसंठिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव अच्चुयदेवाणं पुच्छ ।

२०१५. गेवेज्जगदेवाणं पुच्छ । गोयमा ! पुप्फचंगेरिसंठिए पण्णत्ते ।

१९८९. तमापुढवि ० ? गोयमा ! जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेणं दिवडुं गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९०. अहेसत्तमाए पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अद्धगाउयं, उक्कोसेणं गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति ।

५ १९९१. असुरकुमारा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्तं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं पणुवीसं जोयणाइं, उक्कोसेणं असंखेजे दीव-समुदे ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९२. णागकुमारा णं जहण्णेणं पणुवीसं जोयणाइं, उक्कोसेणं संखेजे दीव-समुदे ओहिणा जाणंति पासंति ।

१० १९९३. एवं जाव थणियकुमारा ।

१९९४. पंचेदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं असंखेजे दीव-समुदे ।

१५ १९९५. मणूसा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्तं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं असंखेजाइं अलोए लोयपमाणमेत्ताइं खंडाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

१९९६. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १९९२) ।

२० १९९७. जोइसिया णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं संखेजे दीव-समुदे, उक्कोसेणं वि संखिजे दीव-समुदे ।

१९९८. सोहम्मगदेवा णं भंते ! केवतियं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए हेड्डिल्ले चरिंते तिरियं जाव असंखेजे दीव-समुदे उडुं जाव सगाइं विमाणाइं ओहिणा जाणंति पासंति ।

२५ १९९९. एवं ईसाणगदेवा वि ।

२०००. सणंकुमारदेवा वि एवं चेव । णवरं अहे जाव दोच्चाए सक्कर-प्पमाए पुढवीए हेड्डिल्ले चरिंते ।

२००१. एवं माहिंदगदेवा वि ।

३४. चउतीसइमं पवियारणापयं

[सुत्तं २०३२. चउतीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

२०३२. अणंतरायआहारे १ आहाराभोगणाइ य २ ।

पोग्गला नेव जाणंति ३ अज्झवसाणा य आहिया ४ ॥ २२३ ॥

सम्मत्तस्स अभिगमे ५ तत्तो परियारणा य चोद्धव्वा ६ । ५

काए फासे रूवे सद्दे य मणे य अप्पवहुं ॥ २२४ ॥

[सुत्ताइं २०३३-३७. चउवीसदंडएसु १ अणंतराहारदारं]

२०३३. णेरइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया ततो परियाँइयणया ततो परिणामणया ततो परियारणया ततो पच्छा विउव्वणया ? हंता गोयमा ! णेरइया णं अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया ततो परियाँदियणता तओ परिणामणया तओ परियारणया तओ पच्छा विउव्वणया । १०

२०३४. [१] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया तओ परियाँइयणया तओ परिणामणया तओ विउव्वणया तओ पच्छा परियारणया ? हंता गोयमा ! असुरकुमारा अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया जाव तओ पच्छा परियारणया ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा । १५

२०३५. पुढविक्काइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया तओ परियाँइयणया तओ परिणामणया य तओ परियारणया ततो विउव्वणया ? हंता गोयमा ! तं चेव जाव परियारणया, णो चेव णं विउव्वणया ।

२०३६. एवं जाव चउरिंदिया । णवरं वाउक्काइया पंचेंदियतिरिक्ख-जोणिया मणुस्सा य जहा णेरइया (सु. २०३३) । २०

२०३७. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु. २०३४) ।

[सुत्ताइं २०३८-३९. चउवीसदंडएसु २ आहाराभोगणादारं]

२०३८. णेरइयाणं भंते ! आहारे किं आभोगणिव्वत्तिए अणाभोगणिव्वत्तिए ? गोयमा ! आभोगणिव्वत्तिए वि अणाभोगणिव्वत्तिए वि ।

१. ०तरगयाहारे जे० विना ॥ २-४. परियायणया पु२ । परियाइणया सु० ॥ ५. परियाइणया पु२ सु० ॥

२०१६. अणुत्तरोववाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जवणाळियासंठिए ओही पणत्ते ।

[सुत्ताइं २०१७-२१. ४ ओहिअब्भितर-वाहिरदारं]

२०१७. णेरइया णं भंते ! ओहिस्स किं अंतो वाहिं ? गोयमा ! अंतो,
५ नो वाहिं ।

२०१८. एवं जाव थणियकुमारा ।

२०१९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! णो अंतो, वाहिं ।

२०२०. मणूसाणं पुच्छ । गोयमा ! अंतो वि वाहिं पि ।

२०२१. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. २०१७) ।

१० [सुत्ताइं २०२२-२६. ५ देसोहिदारं]

२०२२. णेरइया णं भंते ! किं देसोही सच्चोही ? गोयमा ! देसोही,
१० णो सच्चोही ।

२०२३. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०२४. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! देसोही, णो सच्चोही ।

१५ २०२५. मणूसाणं पुच्छ । गोयमा ! देसोही वि सच्चोही वि ।

२०२६. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. २०२२) ।

[सुत्ताइं २०२७-३१. ६-७ ओहिस्स खयवड्ढिआइदाराइं]

२०२७. णेरइयाणं भंते ! ओही किं आणुगामिए अणाणुगामिए
वड्डमाणए हायमाणए पडिवाई अपडिवाई अवड्डिए अणवड्डिए ? गोयमा !
२० आणुगामिए, नो अणाणुगामिए नो वड्डमाणए णो हायमाणए णो पडिवाई,
अपडिवादी अवड्डिए, णो अणवड्डिए ।

२०२८. एवं जाव थणियकुमाराणं ।

२०२९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! आणुगामिए
वि जाव अणवड्डिए वि ।

२५ २०३०. एवं मणूसाण वि ।

२०३१. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. २०२७) ।

३४. चउतीसइमं पवियारणापयं

[सुत्तं २०३२. चउतीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

२०३२. अणंतरायआहारे १ आहाराभोगणाइ य २ ।

पोगगला नेव जाणंति ३ अज्झवसाणा य आहिया ४ ॥ २२३ ॥

सम्मत्तस्स अभिगमे ५ तत्तो परियारणा य चोद्धव्वा ६ । ५

काए फासे रूवे सद्धे य मणे य अप्पवहुं ॥ २२४ ॥

[सुत्ताइं २०३३-३७. चउवीसदंडएसु १ अणंतराहारदारं]

२०३३. णेरइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया ततो परिया-
इयणया ततो परिणामणया ततो परियारणया ततो पच्छा विउव्वणया ? हंता
गोयमा ! णेरइया णं अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया ततो परियादियणता तओ १०
परिणामणया तओ परियारणया तओ पच्छा विउव्वणया ।

२०३४. [१] असुरकुमारा णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया तओ
परियाइयणया तओ परिणामणया तओ विउव्वणया तओ पच्छा परियारणया ? हंता
गोयमा ! असुरकुमारा अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया जाव तओ पच्छा परियारणया ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा । १५

२०३५. पुढविक्काइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया तओ
परियाइयणया तओ परिणामणया य तओ परियारणया ततो विउव्वणया ? हंता
गोयमा ! तं चेव जाव परियारणया, णो चेव णं विउव्वणया ।

२०३६. एवं जाव चउरिंदिया । णवरं वाउक्काइया पंचेदियतिरिक्ख-
जोणिया मणुस्सा य जहा णेरइया (सु. २०३३) । २०

२०३७. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु. २०३४) ।

[सुत्ताइं २०३८-३९. चउवीसदंडएसु २ आहाराभोगणादारं]

२०३८. णेरइयाणं भंते ! आहारे किं आभोगणिव्वत्तिए अणाभोगणि-
व्वत्तिए ? गोयमा ! आभोगणिव्वत्तिए वि अणाभोगणिव्वत्तिए वि ।

१. ँतरगाहारे जे० विना ॥ २-४. परियायणया पु२ । परियाइणया मु० ॥ ५. परिया-
इणया पु२ मु० ॥

२०३९. एवं असुरकुमाराणं जाव वेमाणियाणं । णवरं एगिंदियाणं णो
आभोगणिव्वत्तिए, अणाभोगणिव्वत्तिए ।

[सुत्ताइं २०४०-४६. चउवीसदंडएसु ३ पोग्गलजाणणादारं]

२०४०. णेरइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते किं
५ जाणंति पासंति आहारेंति ? उयाहु ण जाणंति ण पासंति आहारेंति ? गोयमा !
ण जाणंति ण पासंति, आहारेंति ।

२०४१. एवं जाव तेइंदिया ।

२०४२. चउरिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! अत्थेगइया ण जाणंति
पासंति आहारेंति, अत्थेगइया ण जाणंति ण पासंति आहारेंति ।

१० २०४३. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति
पासंति आहारेंति ? अत्थेगइया जाणंति न पासंति आहारेंति २ अत्थेगइया ण
याणंति पासंति आहारेंति ३ अत्थेगइया ण याणंति ण पासंति आहारेंति ४ ।

२०४४. एवं मणूसाण वि ।

२०४५. वाणमंतर-जोतिसिया जहा णेरइया (सु. २०४०) ।

१५ २०४६. वेमाणियाणं पुच्छ । गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति
आहारेंति ? अत्थेगइया ण याणंति ण पासंति आहारेंति २ । से केणट्टेणं भंते !
एवं बुच्चति अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति अत्थेगइया ण जाणंति ण
पासंति आहारेंति ? गोयमा ! वेमाणिया दुविहा पणत्ता, तं जहा-मैइमिच्छदिड्डिउ-
ववण्णगा य अमाइसम्मदिड्डिउववण्णगा य, एवं जहा इंदियउद्देसए पढमे भणियं
२० (सु. ९९८) तहा भाणियव्वं जाव सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० ।

[सुत्ताइं २०४७-४८. चउवीसदंडएसु ४ अज्जवसाणदारं]

२०४७. णेरइयाणं भंते ! केवतिया अज्जवसाणा पणत्ता ? गोयमा !
असंखेज्जा अज्जवसाणा पणत्ता । ते णं भंते ! किं पसत्था अप्पसत्था ? गोयमा !
पसत्था वि अप्पसत्था वि ।

२५ २०४८. एवं जाव वेमाणियाणं ।

[सुत्ताइं २०४९-५०. चउवीसदंडएसु ५ सम्मत्ताभिगमदारं]

२०४९. णेरइया णं भंते ! किं सम्मत्ताभिगमी मिच्छताभिगमी सम्मामिच्छताभिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छताभिगमी वि सम्मामिच्छताभिगमी वि ।

२०५० एवं जाव वेमाणिया । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिया णो सम्मत्ताभिगमी, मिच्छताभिगमी, णो सम्मामिच्छताभिगमी । ५

[सुत्ताइं २०५१-५३. ६ परियारणादारं]

२०५१. देवा णं भंते ! किं सदेवीया सपरियारा सदेवीया अपरियारा अदेवीया सपरियारा अदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा ? अत्थेगइया देवा अदेवीया सपरियारा २ अत्थेगइया देवा अदेवीया अपरियारा ३ णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा तं चेव जाव णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! भवणवति-वाणमंतर-जोतिस-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवा सदेवीया सपरियारा, सणकुमार-माहिंद-बंमलोग-लंतग-महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-अञ्जुएसु कप्पेसु देवा अदेवीया सपरियारा, गेवेज्जअणुत्तरोववाइयदेवा अदेवीया अपरियारा, णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा तं चेव जाव णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा । १० १५

२०५२. [१] कतिविहा णं भंते ! परियारणा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता । तं जहा-कायपरियारणा १ फासपरियारणा २ रूवपरियारणा ३ सहपरियारणा ४ मणपरियारणा ५ । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति पंचविहा परियारणा पण्णत्ता तं जहा कायपरियारणा जाव मणपरियारणा ? गोयमा ! भवणवति-वाणमंतर-जोइस-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवा कायपरियारणा, सणकुमार-माहिंदेसु कप्पेसु देवा फासपरियारणा, बंमलोय-लंतगेसु कप्पेसु देवा रूवपरियारणा, महासुक्क-सहस्सारेसु देवा सहपरियारणा, आणय-पाणय-आरण-अञ्जुएसु कप्पेसु देवा मणपरियारणा, गेवेज्जअणुत्तरोववाइया देवा अपरियारणा, सेतेणट्ठेणं गोयमा ! तं चेव जाव मणपरियारणा । २० २५

१. अत आरभ्यास्मिन् सूत्रे यत्र यत्र परियारणापाठो वर्तते तत्र तत्र जे० ध० म० प्रतिष्ठ परियारणया इति पाठ उपलभ्यते ॥

[२] तत्थ णं जे ते कायपरियारगा देवां तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ-इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणं करेत्तए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ अच्छराओ ओरालाइं सिंगाराइं मणुण्णाइं मणोहराइं मणोरमाइं उत्तरवेउव्वियाइं रूवाइं विउव्वंति, विउव्वित्ता तेसिं देवाणं अंतियं पादुब्भवंति, तए णं ते देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणं करेति, से जैहाणामए सीया पोग्गला सीयं पप्पा सीयं चए अतिवत्तित्ता णं चिद्धंति, उसिणा वा पोग्गला उसिणं पप्पा उसिणं चए अइवइत्ता णं चिद्धंति एवामेव तेहिं देवेहिं ताहिं अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणे कते समाणे से इच्छामणे खिप्पामेवावेति । अत्थि णं भंते ! तेसिं देवाणं सुक्कपोग्गला ? हंता अत्थि । ते णं भंते ! तासिं अच्छराणं कीसत्ताए भुज्जो २ परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए चविंखदियत्ताए घाणिंदियत्ताए रसिंदियत्ताए फासिंदियत्ताए इद्धत्ताए कंतत्ताए मणुण्णत्ताए मणामत्ताए सुभगत्ताए सोहग्ग-रूव-जोव्वण-गुणलायण्णत्ताए ते तासिं भुज्जो २ परिणमंति ।

[३] तत्थ णं जे ते फासपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ, एवं जहेव कायपरियारगा तहेव निरवसेसं भाणियव्वं ।

१५ [४] तत्थ णं जे ते रूवपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जइ-इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं रूवपरियारणं करेत्तए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाइं रूवाइं विउव्वंति, विउव्वित्ता जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छंति, तेणामेव उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अदूरसामंते ठिच्चा ताइं ओरालाइं जाव मणोरमाइं उत्तरवेउव्वियाइं रूवाइं उवदंसेमाणीओ २ चिद्धंति, तए णं ते देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं रूवपरियारणं करेति, सेसं तं चए जाव भुज्जो २ परिणमंति ।

२५ [५] तत्थ णं जे ते सहपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्जति-इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं सहपरियारणं करेत्तए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाइं रूवाइं विउव्वंति, विउव्वित्ता जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छंति, तेणामेव उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अदूरसामंते ठिच्चा अणुत्तराइं उच्चावयाइं सदाइं समुदीरेमाणीओ २ चिद्धंति, तए णं ते देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं सहपरियारणं करेति, सेसं तं चए जाव भुज्जो २ परिणमंति ।

[६] तत्थणं जे ते मणपरियारगा देवा तेसिं इच्छामणे समुप्पज्जइ—इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं मणपरियारणं करेत्तए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ अच्छराओ तत्थगताओ चेव समाणीओ अणुत्तराइं उच्चावयाइं मणाइं पहरिमाणीओ २ चिट्ठंति, तए णं ते देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं मणपरियारणं करेति, सेसं णिरवसेसं तं चेव जाव भुज्जो २ परिणमंति । ५

२०५३. एतेसि णं भंते ! देवाणं कायपरियारगाणं जाव मणपरियारगाणं अपरियारगाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्थोवा देवा अपरियारगा, मणपरियारगा संखेज्जगुणा, सहपरियारगा असंखेज्जगुणा, रूवपरियारगा असंखेज्जगुणा, फाँसपरियारगा असंखेज्जगुणा, कायपरियारगा असंखेज्जगुणा ।

॥ पण्णवणाए भगवतीए चउतीसइमं पैवियारणापयं समत्तं ॥

१०

३५. पंचतीसद्वयं वेयणापयं

[सुत्ताई २०५४. पणतीसद्वयमपयस्स अत्थाहिगारपरूवणं]

२०५४. सीतां १ यं दच्च २ सारीर ३ सात ४ तह वेदणा

हवति दुक्खा ५ ।

५ अब्भुवगंमोवक्कमिया ६ णिदा य अणिदा य ७ णायच्चा ॥२२५॥
सातमसातं सच्चे सुहं च दुक्खं अदुक्खमसुहं च ।
माणसरहियं विगल्लिंदिया उ सेसा दुविहमेव ॥२२६॥

[सुत्ताई २०५५-५९. चउवीसदंडएसु १ सीताइवेदणादारं]

२०५५. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेदणा

१० पण्णत्ता । तं जहा—सीता १ उसिणा २ सीतोसिणा ३ ।

२०५६. णेरइया णं भंते ! किं सीतं वेदणं वेदेंति उसिणं वेदणं वेदेंति
सीतोसिणं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! सीयं पि वेदणं वेदेंति उसिणं पि वेदणं
वेदेंति, णो सीतोसिणं वेदणं वेदेंति ।

२०५७. [१] केई एक्केक्कीए पुढवीए वेदणाओ भणंति—

१५ [२] रयणप्पभापुढविणेरइया णं भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! णो सीयं
वेदणं वेदेंति, उसिणं वेदणं वेदेंति, णो सीतोसिणं वेदणं वेदेंति । एवं जाव
वालुयप्पभापुढविणेरइया ।

[३] पंकप्पभापुढविणेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! सीयं पि वेदणं वेदेंति,
उसिणं पि वेदणं वेदेंति, णो सीओसिणं वेदणं वेदेंति । ते चहुयतरागा जे उसिणं
२० वेदणं वेदेंति, ते थोवतरागा जे सीयं वेदणं वेदेंति ।

[४] धूमप्पभाए एवं चेव दुविहा । नवरं ते चहुयतरागा जे सीयं वेदणं
वेदेंति, ते थोवतरागा जे उसिणं वेयणं वेदेंति ।

[५] तमाए तमतमाए य सीयं वेदणं वेदेंति, णो उसिणं वेदणं वेदेंति,
णो सीओसिणं वेदणं वेदेंति ।

२५ २०५८. असुरकुमारणं पुच्छा । गोयमा ! सीयं पि वेदणं वेदेंति,
उसिणं पि वेदणं वेदेंति, सीतोसिणं पि वेदणं वेदेंति ।

२०५९. एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं २०६०-६२. चउवीसदंडएसु २ दव्वाइवेदणादारं]

२०६०. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउव्विहा वेदणा पण्णत्ता । तं जहा-दव्वओ खेतओ कालओ भावतो ।

२०६१. णेरइया णं भंते ! किं दव्वओ वेदणं वेदेंति जाव किं भावओ वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! दव्वओ वि वेदणं वेदेंति जाव भावओ वि वेदणं वेदेंति । ५

२०६२. एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं २०६३-६५. चउवीसदंडएसु ३ सारीराइवेदणादारं]

२०६३. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेदणा पण्णत्ता । तं जहा-सारीरा १ माणसा २ सारीरमाणसा ३ ।

२०६४. णेरइया णं भंते ! किं सारीरं वेदणं वेदेंति माणसं वेदणं वेदेंति सारीरमाणसं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! सारीरं पि वेयणं वेदेंति, माणसं पि वेदणं वेदेंति, सारीरमाणसं पि वेदणं वेदेंति । १०

२०६५. एवं जाव वेमाणिया । णवरं एगिंदिय-विगळिंदिया सारीरं वेदणं वेदेंति, णो माणसं वेदणं वेदेंति णो सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति ।

[सुत्ताइं २०६६-६८. चउवीसदंडएसु ४ साताइवेदणादारं]

१५

२०६६. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णत्ता । तं जहा-साता १ असाया २ सायासाया ३ ।

२०६७. णेरइया णं भंते ! किं सायं वेदणं वेदेंति असायं वेदणं वेदेंति सातासायं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! तिविहं पि वेयणं वेदेंति ।

२०६८. एवं सब्वजीवा जाव वेमाणिया ।

२०

[सुत्ताइं २०६९-७१. चउवीसदंडएसु ५ दुक्खाइवेदणादारं]

२०६९. कतिविहा णं भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णत्ता । तं जहा-दुक्खा सुहा अदुक्खमसुहा ।

२०७०. णेरइया णं भंते ! किं दुक्खं वेदणं वेदेंति० पुच्छा । गोयमा ! दुक्खं पि वेदणं वेदेंति, सुहं पि वेदणं वेदेंति, अदुक्खमसुहं पि वेदणं वेदेंति । २५

२०७१. एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं २०७२-७६. चउवीसदंडएसु ६ अब्भोवगामियाइवेयणादारं]

२०७२. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा वेदणा पण्णत्ता । तं जहा-अब्भोवगामिया य ओवक्कमिया य ।

५ २०७३. णेरइया णं भंते ! किं अब्भोवगामियं वेदणं वेदेंति ओवक्कमियं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णो अब्भोवगामियं वेदणं वेदेंति, ओवक्कमियं वेदणं वेदेंति ।

२०७४. एवं जाव चउरिंदिया ।

२०७५. पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य दुव्विहं पि वेदणं वेदेंति ।

१० २०७६. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु. २०७३) ।

[सुत्ताइं २०७७-८४. चउवीसदंडएसु ७ णिदाइवेदणादारं]

२०७७. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा वेयणा पण्णत्ता । तं जहा-णिदा य अणिदा य ।

१५ २०७८. णेरइया णं भंते ! किं णिदायं वेदणं वेदेंति अणिदायं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति णेरइया णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सण्णिभूया य असण्णिभूया य । तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते णं निदायं वेदणं वेदेंति, तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं अणिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णेरइया निदायं

२० पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति ।

२०७९. एवं जाव थणियकुमारा ।

२५ २०८०. पुढविक्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! णो निदायं वेदणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं वेदेंति । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चति पुढविक्काइया णो णिदायं वेदणं वेदेंति अणिदायं वेयणं वेदेंति ? गोयमा ! पुढविक्काइया सव्वे असण्णी असण्णिभूतं अणिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चति पुढविक्काइया णो णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं वेदेंति ।

२०८१. एवं जाव चउरिंदिया ।

२०८२. पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणूसा वाणमंतरा जहा णेरइया (सु.
२०७८) ।

२०८३. जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! णिदायं पि वेदणं वेदेति
अणिदायं पि वेदणं वेदेति । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति जोइसिया णिदायं
पि वेदणं वेदेति अणिदायं पि वेदणं वेदेति ? गोयमा ! जोतिसिया दुविहा ५
पण्णत्ता, तं जहा—माइमिच्छद्दिट्ठिउववण्णगा य अमाइसम्मद्दिट्ठिउववण्णगा य, तत्थ
णं जे ते माइमिच्छद्दिट्ठिउववण्णगा ते णं अणिदायं वेदणं वेदेति, तत्थ णं जे ते
अमाइसम्मद्दिट्ठिउववण्णगा ते णं णिदायं वेदणं वेदेति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं
बुच्चति जोतिसिया दुविहं पि वेदणं वेदेति ।

२०८४. एवं वेमाणिया वि ।

१०

॥ पण्णवणाए भगवतीए पंचतीसइमं वेयणापयं समत्तं ॥

२०७१. एवं जाव वेमाणिया ।

[सुत्ताइं २०७२-७६, चउवीसदंडएसु ६ अब्भोवगामियाइवेयणादारं]

२०७२. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा वेदणा पणत्ता । तं जहा-अब्भोवगामिया य ओवक्कमिया य ।

५ २०७३. णेरइया णं भंते ! किं अब्भोवगामियं वेदणं वेदेंति ओवक्कमियं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णो अब्भोवगामियं वेदणं वेदेंति, ओवक्कमियं वेदणं वेदेंति ।

२०७४. एवं जाव चउरिंदिया ।

२०७५. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य दुविहं पि वेदणं वेदेंति ।

१० २०७६. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु. २०७३) ।

[सुत्ताइं २०७७-८४, चउवीसदंडएसु ७ णिदाइवेदणादारं]

२०७७. कतिविहा णं भंते ! वेदणा पणत्ता ? गोयमा ! दुविहा वेयणा पणत्ता । तं जहा-णिदा य अणिदा य ।

१५ २०७८. णेरइया णं भंते ! किं णिदायं वेदणं वेदेंति अणिदायं वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति णेरइया णिदायं पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति ? गोयमा ! णेरइया दुविहा पणत्ता, तं जहा-सण्णिभूया य असण्णिभूया य । तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते णं निदायं वेदणं वेदेंति, तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं अणिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति णेरइया निदायं २० पि वेदणं वेदेंति अणिदायं पि वेदणं वेदेंति ।

२०७९. एवं जाव थणियकुमारा ।

२०८०. पुढविकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! णो निदायं वेदणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं वेदेंति । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति पुढविकाइया णो णिदायं वेदणं वेदेंति अणिदायं वेयणं वेदेंति ? गोयमा ! पुढविकाइया सव्वे असण्णी असण्णिभूतं अणिदायं वेदणं वेदेंति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चति पुढविकाइया णो णिदायं वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं वेदेंति ।

२०८१. एवं जाव चउरिंदिया ।

२०८२. पंचेदियतिरिक्खजोणिया मणूसा वाणसंतरा जहा णेरइया (सु.
२०७८) ।

२०८३. जोइसियाणं पुच्छ । गोयमा ! णिदायं पि वेदणं वेदेति
अणिदायं पि वेदणं वेदेति । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति जोइसिया णिदायं
पि वेदणं वेदेति अणिदायं पि वेदणं वेदेति ? गोयमा ! जोतिसिया दुविहा ५
पण्णत्ता, तं जहा—माइमिच्छदिट्ठिउववण्णगा य अमाइसम्मदिट्ठिउववण्णगा य, तत्थ
णं जे ते माइमिच्छदिट्ठिउववण्णगा ते णं अणिदायं वेदणं वेदेति, तत्थ णं जे ते
अमाइसम्मदिट्ठिउववण्णगा ते णं णिदायं वेदणं वेदेति, सेतेणट्टेणं गोयमा ! एवं
बुच्चति जोतिसिया दुविहं पि वेदणं वेदेति ।

२०८४. एवं वेमाणिया वि ।

१०

॥ पण्णवणाए भगवतीए पंचतीसइमं वेयणापयं समत्तं ॥

३६. छत्तीसइमं समुग्घायपयं

[सुत्ताइं २०८५-८६. समुग्घायभेयपरूवणं]

२०८५. वेण १ कसाय २ मरणे ३ वेउच्चिय ४ तेयएय ५ आहारे ६ ।
केवलिए चैव भवे ७ जीव-मणुस्साण सत्तेव ॥ २२७ ॥

५ २०८६. कति णं भंते ! समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्त
समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणं-
तियसमुग्घाए ३ वेउच्चियसमुग्घाए ४ तेयासमुग्घाए ५ आहारगसमुग्घाए ६
केवलिसमुग्घाए ७ ।

[सुत्ताइं २०८७-८८. समुग्घायकालपरूवणं]

१० २०८७. [१] वेदणासमुग्घाए णं भंते ! कतिसमइए पण्णत्ते ? गोयमा !
असंखेज्जसमइए अंतोमुहुत्तिए पण्णत्ते ।

[२] एवं जाव आहारगसमुग्घाए ।

२०८८. केवलिसमुग्घाए णं भंते ! कतिसमइए पण्णत्ते ? गोयमा !
अट्टसमइए पण्णत्ते ।

१५ [सुत्ताइं २०८९-९२. चउवीसदंडएसु समुग्घायपरूवणं]

२०८९. णेरइयाणं भंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि
समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणं-
तियसमुग्घाए ३ वेउच्चियसमुग्घाए ४ ।

२०९०. [१] असुरकुमारारणं भंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा !

२० पंच समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणं-
तियसमुग्घाए ३ वेउच्चियसमुग्घाए ४ तेयासमुग्घाए ५ ।

[२] एवं जाव थणियकुमारारणं ।

२०९१. [१] पुढविक्काइयाणं भंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा !
त्तिण्णि समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २
मारणं-तियसमुग्घाए ३ ।

२५

[२] एवं जाव चउरिंदियाणं । णवरं वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्घाया

पण्णत्ता, तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ ।

२०९२. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं जाव वेसाणियाणं भंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ तेयासमुग्घाए ५ । ५
णवरं मणूसानं सत्तविहे समुग्घाए पण्णत्ते, तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसाय-समुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ तेयासमुग्घाए ५ आहारगसमुग्घाए ६ केवलिसमुग्घाए ७ ।

[सुत्ताइं २०९३-९६. चउवीसदंडएसु एगत्तेणं अतीताइसमुग्घायपरूवणं]

२०९३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया वेदणासमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा । १०

[२] एवं असुरकुमारस्स वि, णिरंतरं जाव वेमाणियस्स ।

२०९४. [१] एवं जाव तेयगसमुग्घाए । १५

[२] एवं एते पंच चउवीसा दंडगा ।

२०९५. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया आहारग-समुग्घाया अतीता ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा, उक्कोसेणं तिण्णि । केवतिया पुरेक्खडा ? कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि । २०

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणियस्स । नवरं मणूसस्स अतीता वि पुरेक्खडा वि जहा णेरइयस्स पुरेक्खडा ।

२०९६. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि एक्को । २५

[२] एवं जाव वेमाणियस्स । णवरं मणूसस्स अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि एक्को । एवं पुरेक्खडा वि ।

[सुत्ताइं २०९७-२१००. चउवीसदंडएसु पुहत्तेणं अतीताइसमुग्घायपरूवणं]

२०९७. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया वेदणासमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोतमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

५ २०९८. [१] एवं जाव तेयगसमुग्घाए ।

[२] एवं एते वि पंच चउवीसा दंडगा ।

२०९९. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! असंखेज्जा । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! असंखेज्जा ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणप्फइकाइयाणं मणूसान य इमं
१० णाणत्तं-वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतिया आहारगसमुग्घाया अतीता ? गोयमा !
अणंता । मणूसानं भंते ! केवतिया आहारगसमुग्घाया अतीता ?
गोयमा ! सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा । एवं पुरेक्खडा वि ।

२१००. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! असंखेज्जा ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणप्फइकाइय-मणूसेसु इमं णाणत्तं-
१५ वणप्फइकाइयाणं भंते ! केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीता ? [अन्थाग्रम् ७६००]
गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता । मणूसानं
भंते ! केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! सिय अत्थि सिय णत्थि ।
जदि अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सतपुहत्तं । केवतिया
२० पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा ।

[सुत्ताइं २१०१-२०. चउवीसदंडयाणं २४ दंडएसु एगत्तेणं

अतीताइसमुग्घायपरूवणं]

२१०१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया वेदणासमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा !

२५ कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एवं असुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते ।

२१०२. एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स णेरइयत्ते केवतिया वयणासमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि तस्स सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स असुरकुमारत्ते केवतिया वेदणासमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखिज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एवं णागकुमारत्ते वि जाव वेमाणियत्ते ।

२१०४. [१] एवं जहा वेदणासमुग्घाएणं असुरकुमारे णेरइयादि-वेमाणियपज्जवसाणेसु भणिए तहा णागकुमारादीया अवसेसेसु सट्ठाण-परट्ठाणेसु भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।

[२] एवमेते चउवीसं चउवीसा दंडगा भवंति ।

२१०५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया कसाय-समुग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि एगुत्तरियाए जाव अणंता ।

२१०६. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स असुरकुमारत्ते केवतिया कसायसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०७. एवं जाव णेरइयस्स थणियकुमारत्ते । पुढविकाइयत्ते एगुत्तरियाए णेयव्वं, एवं जाव मणूसत्ते । वाणमंतरत्ते जहा असुरकुमारत्ते (सु. २१०६) । जोतिसियत्ते अतीया अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि सिय असंखेज्जा सिय अणंता । एवं वेमाणियत्ते वि सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०८. असुरकुमारस्स णेरइयत्ते अतीता अणंता । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

२१०९. असुरकुमारस्स असुरकुमारत्ते अतीया अणंता । पुरेक्खडा एगुत्तरिया ।

२११०. एवं नागकुमारत्ते निरंतरं जाव वेमाणियत्ते जहा णेरइयस्स भणियं (सु. २१०७) तहेव भाणियव्वं ।

२१११. एवं जाव थणियकुमारस्स वि [जाव] वेमाणियत्ते । णवरं सव्वेसिं सट्ठाणे एगुत्तरिए परट्ठाणे जहेव असुरकुमारस्स (सु. २१०८-१०) ।

२११२. पुढविक्काइयस्स णेरइयत्ते जाव थणियकुमारत्ते अतीता अणंता । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा ५ सिय अणंता ।

२११३. पुढविक्काइयस्स पुढविक्काइयत्ते जाव मणूसत्ते अतीता अणंता । पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि एगुत्तरिया । वाणमंतरत्ते जहा णेरइयत्ते (सु. २११२) । जोतिसिय-वेमाणियत्ते अतीया अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सइत्थि सिय असंखेज्जा सिय अणंता ।

१० २११४. एवं जाव मणूसे वि णेयव्वं ।

२११५. [१] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारे (सु. २१०८-१०) । णवरं सट्ठाणे एगुत्तरियाए भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।

[२] एवं एते चउवीसं चउवीसा दंडगा ।

२११६. [१] मारणंतियसमुग्घाओ सट्ठाणे वि परट्ठाणे वि एगुत्तरियाए १५ नेयव्वो जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।

[२] एवमेते चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा ।

२११७. [१] वेउव्वियसमुग्घाओ जहा कसायसमुग्घाओ (सु. २१०५-१५) तहा णिरवसेसो भाणियव्वो । णवरं जस्स णत्थि तस्स ण बुच्चति ।

[२] एत्थ वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा ।

२० २११८. [१] तेयगसमुग्घाओ जहा मारणंतियसमुग्घाओ (सु. २११६) । णवरं जस्स अत्थि ।

[२] एवं एते वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा ।

२११९. [१] एगभेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया आहार-गसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

२५ [२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा, उक्कोसेणं तिण्णि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि ।

[३] एवं सव्वजीवाणं मणूसोसु भाणियव्वं ।

[४] मणूसस्स मणूसत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्सऽत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि । एवं पुरेक्खडा वि ।

[५] एवमेते वि चउवीसं चउवीसा दंडगा जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।

२१२०. [१] एगमेगस्स णं भंते! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया ५
केवल्लिसमुग्घाया अतीया? गोयमा! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा? गोयमा!
णत्थि ।

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीया णत्थि, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सऽत्थि एक्को ।

[३] मणूसस्स मणूसत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सऽत्थि १०
एक्को । एवं पुरेक्खडा वि ।

[४] एवमेते चउवीसं चउवीसा दंडगा ।

[सुचाई २१२१-२४. चउवीसदंडयाणं चउवीसदंडएसु पुहत्तेणं
अतीताइसमुग्घायपरूवणं]

२१२१. [१] णेरइयाणं भंते! णेरइयत्ते केवतिया वेदणासमुग्घाया १५
अतीया? गोयमा! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा? गोयमा! अणंता । एवं जाव
वेमाणियत्ते ।

[२] एवं सव्वजीवाणं भाणियव्वं जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते ।

२१२२. एवं जाव तेयगसमुग्घाओ । णवरं उवउज्जिऊण णेयव्वं
जस्सऽत्थि वेउव्विय-तेयगा । २०

२१२३. [१] णेरइयाणं भंते! णेरइयत्ते केवतिया आहारगसमुग्घाता
अतीया? गोयमा! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा? गोयमा! नत्थि ।

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीया असंखेज्जा, पुरेक्खडा
असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसत्ते अतीया २५
अणंता, पुरेक्खडा अणंता । मणूसानं मणूसत्ते अतीया सिय संखेज्जा सिय
असंखेज्जा, एवं पुरेक्खडा वि । सेसा सव्वे जहा णेरइया ।

[४] एवं एते चउव्वीसं चउव्वीसा दंडगा ।

२१२४. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि ।

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीता णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्जा ।

[३] एवं जाव वेमाणिया । णवरं वणप्फइकाइयाणं मणूसत्ते अतीया णत्थि, पुरेक्खडा अणंता । मणूसणं मणूसत्ते अतीया सिय अत्थि सिय णत्थि । जदि अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सतपुहत्तं । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा ।

१० [४] एवं एते चउव्वीसं चउव्वीसा दंडगा सव्वे पुच्छाए भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते ।

[सुत्ताइं २१२५-३२. समुग्घायसमोहयासमोहयाणं जीवाइणमप्पावहुयं]

२१२५. एतेसि णं भंते ! जीवाणं वेयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्घाएणं तेयगसमुग्घाएणं आहारगसमुग्घाएणं १५ केवलिसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आहारगसमुग्घाएणं समोहया, केवलिसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, तेयगसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, मारणंतियसमुग्घाएणं समोहया अणंतगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, वेदणासमुग्घाएणं २० समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेज्जगुणा ।

२१२६. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं वेदणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कतरे कतरे- २५ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा णेरइया मारणंतियसमुग्घाएणं समोहया, वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, असमोहया संखेज्जगुणा ।

२१२७. [१] एतेसि णं भंते ! असुरकुमाराणं वेदणासमुग्घाएणं कसाय-समुग्घाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्घाएणं तेयगसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया

वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा असुरकुमारा तेयगसमुग्घाएणं समोहया, मारणंति-
यसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, वेयणासमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा,
कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा,
असमोहया असंखेज्जगुणा ।

[२] एवं जाव थणियकुमारा ।

२१२८. [१] एतेसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं वेदणासमुग्घाएणं
कसायसमुग्घाएणं मारणंति यसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कयरे० ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविकाइया मारणंति यसमुग्घाएणं समोहया, कसाय-
समुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया,
असमोहया असंखेज्जगुणा ।

[२] एवं जाव वणप्फइकाइया । णवरं सव्वत्थोवा वाउक्काइया वेउव्विय-
समुग्घाएणं समोहया, मारणंति यसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, कसायसमुग्घाएणं
समोहया असंखेज्जगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया
असंखेज्जगुणा ।

२१२९. [१] बेइंदियाणं भंते ! वेयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं
मारणंति यसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा
वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा बेइंदिया मारणंति यसमुग्घाएणं समोहया,
वेदणासमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया

१. अत्र सर्वेष्वपि प्राचीनान्वाचीनेषु सूत्रादर्शेषु 'कसायसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा'
इत्येव सूत्रपाठ उपलभ्यते, केवलं श्रीसागरानन्दसूरिचरणमुद्रिते सूत्रपाठे असंखेज्जगुणास्थाने
संखेज्जगुणा इति सूत्रपाठो वर्तते । अपि चात्र यद्यपि श्रीसागरानन्दसूरिसम्पादितमलयगिरिपादवृत्तौ
“तेभ्योऽपि कषायसमुद्घातेन समुद्घताः संख्येयगुणाः, तेभ्योऽपि वेदनासमुद्घातेन समुद्घता विशेषा-
धिकाः, तेभ्योऽसमवहता असंख्येयगुणाः, सकलसमुद्घातगतवातकायिक०” इत्यादिरूपे मुद्रितो
वृत्तिपाठो दृश्यते, तथाप्यस्मत्पार्श्वस्थप्राचीनान्वाचीनास्तु सर्वास्वपि श्रीमलयगिरिपादविरचितटीका-
प्रतियु मुद्रितवृत्तिगतपाठवृत्तित एवोपलभ्यते, तथाहि—“तेभ्योऽपि कषायसमुद्घातेन समुद्घता
असंख्येयगुणाः, सकलसमुद्घातगतवातकायिक०” इत्यादिरूपः
खण्डित एव वृत्तिपाठः प्राप्यते, अतः सम्भाव्यते यत् श्रीमद्भिः सागरानन्दसूरिपादैरेवायं
वृत्तिपाठः स्वप्रतिभया एव पूरितोऽस्ति इत्यतोऽत्रैतद् विचारास्पदमेव वर्तते यत् कषायसमुद्घा-
तसमुद्घता वातकायिकाः किं संख्येयगुणाः ? उत असंख्येयगुणाः ? इति । अत्र निर्णये टीकाप्रत्ययः
खण्डिता एवेति सूत्रप्रत्यय एवात्र प्रमाणभूता इत्यतोऽस्माभिः प्राचीनान्वाचीनास्तु निखिलास्वपि
प्रतिपूलभ्यमान एव सूत्रपाठोऽत्राहतोऽस्ति । तदत्र वस्तुतत्त्वनिर्णये तज्ज्ञा बहुश्रुता एव
प्रमाणमिति ॥

संखेज्जगुणा, असमोहयां संखेज्जगुणा ।

[२] एवं जाव चउरिंदिया ।

२१३०. पंचेंदियतिरिक्खज्जोणियाणं भंते ! वेदणासमुग्घाएणं कसायस-
मुग्घाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्घाएणं तेयासमुग्घाएणं समोहयाणं
५ असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेंदिय-
तिरिक्खज्जोणिया तेयासमुग्घाएणं समोहया, वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्ज-
गुणा, मारणंतियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया
असंखेज्जगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, असमोहया संखेज्जगुणा ।

२१३१. मणुस्साणं भंते ! वेदणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंति-
१० यसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्घाएणं तेयगसमुग्घाएणं आहारगसमुग्घाएणं
केवलिसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ?
गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुसा आहारगसमुग्घाएणं समोहया, केवलिसमुग्घाएणं
समोहया संखेज्जगुणा, तेयगसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, वेउव्वियसमुग्घाएणं
समोहया संखेज्जगुणा, मारणंतियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, वेयणासमुग्घा-
१५ एणं समोहया असंखेज्जगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, असमोहयां
असंखेज्जगुणा ।

२१३२. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियां जहा असुरकुमारा ।

[सुत्ताइं २१३३-४६. कसायसमुग्घायवत्तच्चया]

२१३३. कति णं भंते ! कसायसमुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि
२० कसायसमुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-कौहसमुग्घाए १ माणसमुग्घाए २ माया-
समुग्घाए ३ लोभसमुग्घाए ४ ।

१. अत्र “कसायसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा” इति सूत्रपाठः श्रीसागरानन्दसुरिसम्पादिते
सूत्रपाठे दृश्यते, एतत्सूत्रवृत्तिरपि तैः “तेभ्यः कपायसमुद्घातेन समुद्घता असंख्येयगुणाः, अति-
प्रभूततराणां लोभादिकपायसमुद्घातभावात्” इत्येवं स्वमुद्रितसूत्रपाठानुकूलैव मुद्रिताऽस्ति । किञ्चा-
स्मत्पार्श्ववर्तिनीषु सर्वास्वपि सूत्रप्रतिषु “० समोहया संखेज्जगुणा” इति सूत्रपाठः, वृत्तिप्रतिषु च
“० समुद्घताः संख्येयगुणाः” इत्येव च वृत्तिपाठो वरीश्रुत्यते । अपि च वृत्तिकृता निष्ठङ्कितः
“अतिप्रभूततराणां लोभादिकपायसमुद्घातभावात्” इत्यत्र हेतौ तत्रप्रत्ययप्रयोगोऽपि संख्येयगुणत्व-
मेवाविष्करोति, नासंख्येयगुणत्वमिति ॥ २. °या अस्संखे° जे० ध० ॥ ३. °या संखेज्ज° पुर मु०
विना ॥ ४. °याणं जहा असुरकुमाराणं । मु० ॥

२१३४. [१] णेरइयाणं भंते ! कति कसायसमुग्घाया पण्णत्ता ?
गोयमा ! चत्तारि कसायसमुग्घाया पण्णत्ता ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

२१३५. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवइया कोहसमुग्घाया
अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि ५
कस्सइ णत्थि । जस्सइत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा
वा असंखेज्जा वा अणंता वा ।

[२] एवं जाव वेमाणियस्स ।

२१३६. एवं जाव लोभसमुग्घाए । एते चत्तारि दंडगा ।

२१३७. [१] णेरइयाणं भंते ! केवतिया कोहसमुग्घाया अतीया ? १०
गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव वेमाणियाणं ।

२१३८. एवं जाव लोभसमुग्घाए । एए वि चत्तारि दंडगा ।

२१३९. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया कोहसमु-
ग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता, एवं जहा वेदणासमुग्घाओ भणियो (सु. १५
२१०१-४) तहा कोहसमुग्घाओ वि भाणियव्वो णिरवसेसं जाव वेमाणियत्ते ।
माणसमुग्घाओ मायासमुग्घातो यं णिरवसेसं जहा मारणंतियसमुग्घाओ (सु.
२११६) । लोभसमुग्घाओ जहा कसायसमुग्घाओ (सु. २१०५-१५) । णवरं
सव्वजीवा असुरादी णेरइएसु लोभकसाएणं एगुत्तरियां णेयव्वा ।

२१४०. [१] णेरइयाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया कोहसमुग्घाया २०
अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता ।

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते ।

२१४१. एवं सट्ठाण-परट्ठाणेसु सव्वत्थं वि भाणियव्वा सव्वजीवाणं
चत्तारि समुग्घाया जाव लोभसमुग्घातो जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते ।

२१४२. एतेसि णं भंते ! जीवाणं कोहसमुग्घाएणं माणसमुग्घाएणं २५
मायासमुग्घाएणं लोभसमुग्घाएणं य समोहयाणं अकसायसमुग्घाएणं समोहयाणं
असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा

अकसायसमुग्घाएणं समोहया, माणसमुग्घाएणं समोहया अणंतगुणा, कोहसमुग्घा-
एणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, लोभसमुग्घा-
एणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया संखेज्जगुणा ।

५ २१४३. एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कोहसमुग्घाएणं माणसमुग्घाएणं
मायासमुग्घाएणं लोभसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाणं य कतरे कतरेहिंतो
अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा णेरइया लोभसमुग्घाएणं समोहया,
मायासमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, माणसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा,
कोहसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, असमोहया संखेज्जगुणा ।

१० २१४४. [१] असुरकुमारणं पुच्छ । गोयमा ! सव्वत्थोवा असुरकुमारा
कोहसमुग्घाएणं समोहया, माणसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, मायासमुग्घाएणं
समोहया संखेज्जगुणा, लोभसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, असमोहया संखेज्जगुणा ।

[२] एवं सव्वदेवा जाव वेभाणिया ।

१५ २१४५. [१] पुढविक्काइयाणं पुच्छ । गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविक्काइया
माणसमुग्घाएणं समोहया, कोहसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्घाएणं
समोहया विसेसाहिया, लोभसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया
संखेज्जगुणा ।

[२] एवं जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिया ।

२१४६. मणुस्सा जहा जीवा (सु. २१४२) । णवरं माणसमुग्घाएणं
समोहया असंखेज्जगुणा ।

२० [सुत्ताइं २१४७-५२. चउवीसदंडएसु छाउमत्थियसमुग्घायपरूवणं]

२१४७. कति णं भंते ! छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा !
छाउमत्थिया छ समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसाय-
समुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ तेयगसमुग्घाए ५
आहारगसमुग्घाए ६ ।

२५ २१४८. णेरइयाणं भंते ! कति छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता ?
गोयमा ! चत्तारि छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १
कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ ।

२१४९. असुरकुमाराणं पुच्छ । गोयमा ! पंच छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ तेयगसमुग्घाए ५ ।

२१५०. एगिंदिय-विगलिंदियाणं पुच्छ । गोयमा ! तिण्णि छाउम-
त्थिया समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ ५
मारणंतियसमुग्घाए ३ । णवरं वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा-
वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ ।

२१५१. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छ । गोयमा ! पंच समुग्घाया
पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३
वेउव्वियसमुग्घाए ४ तेयगसमुग्घाए ५ ।

१०

२१५२. मणूसाणं भंते ! कति छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता ?
गोयमा ! छ छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता । तं जहा-वेदणासमुग्घाए १
कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउव्वियसमुग्घाए ४ तेयगसमुग्घाए ५
आहारगसमुग्घाए ६ ।

[सुत्ताइं २१५३-५४. वेयणासमुग्घायसमोहयजीवाइणं ओगाहफासाइपरूवणं] १५

२१५३. [१] जीवे णं भंते ! वेदणासमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता
जे पोग्गले णिच्छुभति तेहि णं भंते ! पोग्गलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे ? केवतिए
खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ-वाहल्लेणं णियमा छदिसिं एवइए
खेत्ते अफुण्णे एवइए खेत्ते फुडे ।

[२] से णं भंते ! खेत्ते केवइकालस्स अफुण्णे केवइकालस्स फुडे ? २०
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण वा एवइकालस्स
अफुण्णे एवइकालस्स फुडे ।

[३] ते णं भंते ! पोग्गला केवइकालस्स णिच्छुभति ? गोयमा ! जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तस्स ।

[४] ते णं भंते ! पोग्गला णिच्छूढा समाणा जाइं तत्थ पाणाइं भूयाइं २५
जीवाइं सत्ताइं अभिहणंति वत्तेति लेसेंति संघाएंति संघेइंति परियावेंति किलेवेंति

उद्वेति तेहितो णं भंते ! से जीवे कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए ।

[५] ते णं भंते ! जीवा ताओ जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया सिय चउकिरिया सिय पंचकिरिया ।

५ [६] से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

२१५४. [१] णेरइए णं भंते ! वेदणासमुग्घाएणं समोहए० एवं जहेव जीवे (सु. २१५३) । णवरं णेरइयाभिलावो ।

[२] एवं णिरवसेसं जाव वेमाणिए ।

१० [सुत्तं २१५५. कसायसमुग्घायसमोहयजीवाइणं ओगाहफासाइपरूवणं]

२१५५. एवं कसायसमुग्घातो वि भाणियव्वो ।

[सुत्ताइं २१५६-५८. मारणंतियसमुग्घायसमोहयजीवाइणं

ओगाहफासाइपरूवणं]

१५ २१५६. [१] जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए समोह-
णित्ता जे पोग्गले णिच्छुमति तेहि णं भंते ! पोग्गलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे
केवतिए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरिरपमाणमेत्ते विक्खंभ-वाहल्लेणं, आयामेणं जह-
ण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं, उक्कोसेणं असंखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं एवइए
खेत्ते अफुण्णे एवतिए खेत्ते फुडे ।

२० [२] से णं भंते ! खेत्ते केवतिकालस्स अफुण्णे केवतिकालस्स फुडे ?
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं
एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे । सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया ।

२५ २१५७. एवं णेरइए वि । णवरं आयामेणं जहण्णेणं सातिरेगं जोयण-
सहस्सं उक्कोसेणं असंखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं एवतिए खेत्ते अफुण्णे एवतिए
खेत्ते फुडे; विग्गहेणं एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा, णवरं चउ-
समइएण ण भण्णति । सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया वि ।

२१५८. [१] असुरकुमारस्स जहा जीवपए (सु. २१५६) । णवरं
विग्गहो तिसमइओ जहा णेरइयस्स (सु. २१५७) । सेसं तं चेव ।

[२] जहा असुरकुमारे एवं जाव वेमाणिए । णवरं एगिंदिए जहा जीवे णिरवसेसं ।

[सुत्ताइं २१५९-६४. वेउच्चियसमुग्घायसमोहयजीवाईणं

ओगाहफासाइपरूवणं]

२१५९. [१] जीवे णं भंते ! वेउच्चियसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोगगले णिच्छुभति तेहि णं भंते ! पोगगलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे केवतिए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सररीरप्पमाणमेत्ते विक्खंभ-चाहल्लेणं, आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जतिभागं उक्कोसेणं संखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं विदिसिं वा एवतिए खेत्ते अफुण्णे एवतिए खेत्ते फुडे ।

[२] से णं भंते ! खेत्ते केवतिकालस्स अफुण्णे केवतिकालस्स फुडे ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे । सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया वि ।

२१६०. एवं णेरइए वि । णवरं आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्सं संखेज्जि-भागं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं एवतिए खेत्ते० । केवतिकालस्स ० तं चेव जहा जीवपए (सु. २१५९) ।

२१६१. एवं जहा णेरइयस्स (सु. २१६०) तहा असुरकुमारस्स । णवरं एगदिसिं विदिसिं वा । एवं जाव थणियकुमारस्स ।

२१६२. वाउक्काइयस्स जहा जीवपदे (सु. २१५९) । णवरं एगदिसिं ।

२१६३. पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स णिरवसेसं जहा णेरइयस्स (सु. २१६०) ।

२१६४. मणूस-त्राणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स णिरवसेसं जहा असुर-कुमारस्स (सु. २१६१) ।

[सुत्तं २१६५. तेयगसमुग्घायसमोहयजीवाईणं ओगाहफासाइपरूवणं]

२१६५. जीवे णं भंते ! तेयगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोगगले णिच्छुभइ तेहि णं भंते ! पोगगलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे० ? एवं जहेव वेउच्चियसमुग्घाए (सु. २१५९-६४) तहेव । णवरं आयामेणं

जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जतिभागं, सेसं तं चेव । एवं जाव वेमाणियस्स,
णवरं पंचेदियतिरिक्खंजोणियस्स एगदिसिं एवतिए खेत्ते अफुण्णे० ।

[सुत्ताइं २१६६-६७. आहारगसमुग्घायसमोहयजीवाइणं

ओगाहफासाइपरूवणं]

५ २१६६. [१] जीवे णं भंते ! आहारगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता
जे पोग्गले णिच्छुभइ तेहि णं भंते ! पोग्गलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे
केवतिए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ-चाहल्लेणं, आयाभेणं
जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जतिभागं उक्कोसेणं संखेजाइं जोयणाइं एगदिसिं
एवइए खेत्ते० । एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं
१० एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे ।

[२] ते णं भंते ! पोग्गला केवतिकालस्स णिच्छुभति ? गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तस्स ।

[३] ते णं भंते ! पोग्गला णिच्छूढा समाणा जाइं तत्थ पाणाइं भूयाइं
जीवाइं सत्ताइं अभिहणंति जाव उइवेति तओ णं भंते ! जीवे कतिकिरिए ?
१५ गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिए सिय पंचकिए । ते णं भंते ! जीवा
तातो जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! एवं चेव ।

[४] से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं
कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिए वि पंचकिए वि ।

२१६७. एवं मणूसे वि ।

२० [सुत्ताइं २१६८-७५. केवलिसमुग्घायवत्तव्वया]

२१६८. अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स
जे चरिमा णिज्जरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला पणत्ता समणाउसो !
सव्वलोगं पि य णं ते फुसित्ता णं चिइंति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स
भावियप्पणो केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोग्गला सुहुमा

२१६९. छउमत्थे णं भंते ! मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेण वा फासं जाणति पासति ? गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे । से केण्ढेणं भंते ! एवं वुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि वि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति ? गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे दीवे सब्बदीव-समुद्दाणं सब्बभंताराए सब्बखुड्डाए वट्टे ५
तेल्लापूयसंठाणसंठिए वट्टे रहचक्कवालसंठाणसंठिए वट्टे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिते वट्टे पडिपुण्णचंदसंठाणसंठिए एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विकखंभेणं, तिण्णि य जोयणसयसहस्साइं सोलस य सहस्साइं दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसते तिण्णि य कोसे अट्टावीसे च धणुसतं तेरस य अंगुलाइं अद्धंगुलं च किंचि विसेसाहिए परिकखेवेणं पण्णत्ते । देवे णं महिड्डीए जाव महासोक्खे एगं महं सविलेवणं गंध- १०
समुग्गयं गहाय तं अवदालेति, तं महं एगं सविलेवणं गंधसमुग्गयं अवदालेत्ता इणामेव कट्टु केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं तिहिं अच्छराणिवातेहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्टित्ता णं हव्वमागच्छेज्जा, से णूणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहिं घाणपोग्गलेहिं फुडे ? हंता फुडे । छउमत्थे णं गोतमा ! मणूसे तेसिं घाणपोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति ? भगवं ! णो इण्ढे सम्ढे । १५
सेतेण्ढेणं गोयमा ! एवं वुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति, एंसुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सब्बलोगं पि य णं फुसित्ता णं चिद्धंति ।

२१७०. [१] कम्हा णं भंते ! केवली समुग्घायं गच्छति ? गोयमा ! केवलिसस चत्तारि कम्मसा अक्खीणा अवेदिया अणिज्जिणा भवंति । तं जहा- २०
वेयणिज्जे ? आउए २ णामे ३ गोए ४ । सब्बवहुप्पएसे से वेदणिज्जे कम्मे भवति, सब्बत्येवे से आउए कम्मे भवति ।

विसमं समं करेति बंधणेहिं ठितीहि य ।

विसमसमीकरणयाए बंधणेहिं ठितीहि य ॥ २२८ ॥

एवं खलु केवली समोहंणति, एवं खलु समुग्घायं गच्छति ।

[२] सब्बे वि णं भंते ! केवली समोहंणंति ? सब्बे वि णं भंते ! केवली समुग्घायं गच्छंति ? गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे, २५

१. महासक्खे इति मलयवृत्तिनिर्दिष्टः पाठभेदः ॥ २. एतावत्सुम्मा इत्यर्थः ॥ ३. °हणइ सु० ॥ ४. °हणंति सु० ॥

जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जतिभागं, सेसं तं चेव । एवं जाव वेमाणियस्स,
णवरं पंचेदियतिरिक्खंजोणियस्स एगदिसिं एवतिए खेत्ते अफुण्णे० ।

[सुत्ताइं २१६६-६७. आहारगसमुग्घायसमोहयजीवाइणं

ओगाहफासाइपरूवणं]

५ २१६६. [१] जीवे णं भंते ! आहारगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता
जे पोग्गले णिच्छुभइ तेहि णं भंते ! पोग्गलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे
केवतिए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरिरपमाणमेत्ते विक्खंभ-चाहल्लेणं, आयामेणं
जहण्णेणं अंगुलस्सं असंखेज्जतिभागं उक्कोसेणं संखेज्जाइं जोयणाइं एगदिसिं
एवइए खेत्ते० । एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं
१० एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे ।

[२] ते णं भंते ! पोग्गला केवतिकालस्स णिच्छुभति ? गोयमा !
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तस्स ।

[३] ते णं भंते ! पोग्गला णिच्छूढा समाणा जाइं तत्थ पाणाइं भूयाइं
जीवाइं सत्ताइं अभिहणंति जाव उद्वेति तंओ णं भंते ! जीवे कतिकिरिए ?
१५ गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए । ते णं भंते ! जीवा
तातो जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! एवं चेव ।

[४] से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं
कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ।

२१६७. एवं मणूसे वि ।

२० [सुत्ताइं २१६८-७५. केवलिसमुग्घायवत्तव्वया]

२१६८. अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स
जे चरिमा णिज्जरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो !
सव्वलोगं पि य णं ते फुसित्ता णं चिड्ढंति ? हुंता गोयमा ! अणगारस्स
भावियप्पणो केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोग्गला सुहुमा
२५ णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि य णं ते फुसित्ता णं चिड्ढंति ।

१, ३. °स्स संखेज्ज° घ० म० प्र० ॥ २. °क्खजोणियाणं एग° म० ॥ ४. एवइए खेत्ते इत्यनन्तर-
मयं पाठोऽवगन्तव्यः—“अफुण्णे एवइए खेत्ते फुडे । से णं भंते ! केवतिकालस्स अफुण्णे
केवतिकालस्स फुडे ? गोयमा !” ॥ ५. त्ते णं भंते ! म० पु१ पु३ । ते णं भंते ! पु२ सु० ॥

२१६९. छउमत्थे णं भंते ! मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेण वा फासं जाणति पासति ? गोयमा ! णो इण्ठे समट्ठे । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि वि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति ? गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे दीवे सव्वदीव-समुद्धानं सव्वम्भंतराए सव्वखुद्धाए वट्ठे ५
तेल्लापूयसंठाणसंठिए वट्ठे रहचक्कवालसंठाणसंठिए वट्ठे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिते वट्ठे पाडिपुण्णचंदसंठाणसंठिए एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विकखंभेणं, तिण्णि य जोयणसयसहस्साइं सोलस य सहस्साइं दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसते तिण्णि य कोसे अट्ठावीसं च धणुसतं तेरस य अंगुलाइं अट्ठंगुलं च किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णते । देवे णं महिड्डीए जाव महासोक्खे एगं महं सविलेवणं गंध- १०
समुग्गयं गहाय तं अवदालेति, तं महं एगं सविलेवणं गंधसमुग्गयं अवदालेत्ता इणामेव कट्ठु केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं तिहिं अच्छराणिवातेहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्ठित्ता णं हव्वमागच्छेज्जा, से णूणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहिं घाणपोग्गलेहिं फुडे ? हंता फुडे । छउमत्थे णं गोतमा ! मणूसे तेसिं घाणपोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति ? भगवं ! णो इण्ठे समट्ठे । १५
सेतेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चति छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणति पासति, एसुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि य णं फुसित्ता णं चिट्ठंति ।

२१७०. [१] कम्हा णं भंते ! केवली समुग्घायं गच्छति ? गोयमा ! केवलिसस चत्तारि कम्मसा अक्खीणा अवेदिया अणिज्जिणा भवंति । तं जहा- २०
वेयणिजे १ आउए २ णामे ३ गोए ४ । सव्वचहुप्पएसे से वेदणिजे कम्मे भवति, सव्वत्थोवे से आउए कम्मे भवति ।

विसमं समं करेति बंधणेहिं ठितीहि य ।

विसमसमीकरणयाए बंधणेहिं ठितीहि य ॥ २२८ ॥

एवं खलु केवली समोहण्णति, एवं खलु समुग्घायं गच्छति ।

[२] सव्वे वि णं भंते ! केवली समोहण्णति ? सव्वे वि णं भंते ! केवली समुग्घायं गच्छंति ? गोयमा ! णो इण्ठे समट्ठे, २५

१. महासक्खे इति मलयवृत्तिनिर्दिष्टः पाठभेदः ॥ २. एतावत्सूक्ष्मा इत्यर्थः ॥ ३. °हणइ सु० ॥ ४. °हणंति सु० ॥

जस्साऽऽउएण तुल्लइं बंधणेहिं ठितीहि य ।

भवोवग्गहकम्माइं समुग्घायं से ण गच्छति ॥ २२९ ॥

अंगंतूणं समुग्घायं अणंता केवली जिणा ।

जर-मरणविप्पयुक्का सिद्धिं वरगतिं गता ॥ २३० ॥

५ २१७१. कतिसमइए णं भंते ! आउज्जीकरणे पण्णत्ते ? गोयमा ! असंखेज्जसमइए अंतोमुहुत्तिए आउज्जीकरणे पण्णत्ते ।

१० २१७२. कतिसमइए णं भंते ! केवलिसमुग्घाए पण्णत्ते ? गोयमा ! अट्टसमइए पण्णत्ते । तं जहा-पढमे समए दंडं करेति, विइए समए कवाडं करेति, ततिए समए मंथं करेति, चउत्थे समए लोगं पूरेइ, पंचमे समये लोयं पडिसाहरति, छट्ठे समए मंथं पडिसाहरति, सत्तमे समए कवाडं पडिसाहरति, अट्टमे समए दंडं पडिसाहरति, दंडं पडिसाहरित्ता ततो पच्छ सरीरत्थे भवति ।

२१७३. [१] से णं भंते ! तहासमुग्घायगते किं मणजोगं जुंजति वैइजोगं जुंजति कायजोगं जुंजति ? गोयमा ! णो मणजोगं जुंजइ णो वइजोगं जुंजइ, कायजोगं जुंजति ।


१५ [२] कायजोगणं भंते ! जुंजमाणे किं ओरालियसरीरकायजोगं जुंजति ओरालियमीसासरीरकायजोगं जुंजति ? किं वेउब्बियसरीरकायजोगं जुंजति वेउब्बियमीसासरीरकायजोगं जुंजति ? किं आहारगसरीरकायजोगं जुंजइ आहारगमीसासरीरकायजोगं जुंजति ? किं कम्मगसरीरकायजोगं जुंजइ ? गोयमा ! ओरालियसरीरकायजोगं पि जुंजति ओरालियमीसासरीरकायजोगं पि जुंजति, णो वेउब्बियसरीरकायजोगं जुंजति णो वेउब्बियमीसासरीरकायजोगं जुंजति, णो आहारगसरीरकायजोगं जुंजति णो आहारगमीससरीरकायजोगं जुंजति, कम्मगसरीरकायजोगं पि जुंजति; पढमऽऽट्टमेसु समएसु ओरालियसरीरकायजोगं जुंजति, वित्ति-छट्ठ-सत्तमेसु समएसु ओरालियमीसगसरीरकायजोगं जुंजति, तत्ति-चउत्थ-पंचमेसु समएसु कम्मगसरीरकायजोगं जुंजति ।

२५ २१७४. [१] से णं भंते ! तहासमुग्घायगते सिज्जति बुज्जइ मुच्चइ परिणिव्वाइ सच्चदुक्खाणं अंतं करेति ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, से णं तओ पडिनियत्तति, ततो पडिनियत्तित्ता ततो पच्छ मणजोगं पि जुंजति वइजोगं पि जुंजति कायजोगं पि जुंजति ।

[२] मणजोगणं जुंजमाणे किं सच्चमणजोगं जुंजति मोसमणजोगं जुंजति सच्चामोसमणजोगं जुंजति असच्चामोसमणजोगं जुंजति ? गोयमा ! सच्चमणजोगं जुंजति, णो मोसमणजोगं जुंजति णो सच्चामोसमणजोगं जुंजति, असच्चामोसमणजोगं पि जुंजइ ।

[३] वयजोगं जुंजमाणे किं सच्चवइजोगं जुंजति मोसवइजोगं जुंजति ५
सच्चामोसवइजोगं जुंजति असच्चामोसवइजोगं जुंजति ? गोयमा ! सच्चवइजोगं जुंजति, णो मोसवइजोगं जुंजइ णो सच्चामोसवइजोगं जुंजति, असच्चामोसवइजोगं पि जुंजइ ।

[४] कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेज्ज वा गच्छेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा णिसीएज्ज वा तुयट्ठेज्ज वा उल्लंघेज्ज वा पलंघेज्ज वा पांडिहारियं पीढ-फलम-सेज्जा-संथारगं १०
पच्चप्पिणेज्जा ।

२१७५. से णं भंते ! तहासजोगी सिञ्जति जाव अंतं करोति ? गोयमा ! णो इण्ठे समट्ठे । से णं पुव्वामेव सण्णिस्स पंचेदियस्स पज्जत्तयस्स जहण्णजोगिस्स हेट्ठा असंखेज्जगुणपरिहीणं पढमं मणजोगं णिरुंभइ, तओ अणंतरं च णं वेइंदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णजोगिस्स हेट्ठा असंखेज्जगुणपरिहीणं दोव्वं १५
वइजोगं णिरुंभति, तओ अणंतरं च णं सुहुमस्स पणगजीवस्स अपज्जत्तयस्स जहण्णजोगिस्स हेट्ठा असंखेज्जगुणपरिहीणं तच्चं कायजोगं णिरुंभति । से णं एतेणं उवाएणं पढमं मणजोगं णिरुंभइ, मणजोगं णिरुंभित्ता वइजोगं णिरुंभति, वइजोगं णिरुंभित्ता कायजोगं णिरुंभति, कायजोगं णिरुंभित्ता जोगणिरोहं करोति, जोगणिरोहं करोता अजोगयं पाउणति, अजोगतं पाउणित्ता ईसीहस्सपंचक्ख- २०
रुचारणद्धाए असंखेज्जसमइयं अंतोसुहुत्तियं सेलेसिं पडिवज्जइ, पुव्वरइतगुणसेदीयं च णं कम्मं  तीसे सेलेसिमद्धाए असंखेज्जाहिं गुणसेदीहिं असंखेजे कम्मखेधे खवयति, खवइत्ता वेदणिज्जाऽऽउय-णाम-गोत्ते इच्चेते चत्तारि कम्मसे जुगवं खवेति, जुगवं खवेत्ता ओरालियतेया-कम्मगाइं सव्वाहिं विप्पंजहणाहिं विप्पजहति, विप्पजहित्ता उजुसेदीपडिवण्णे अफुसमाणगतीए २५
एगसमएणं अविग्गहेणं उडुं गंता सागारोवउत्ते सिञ्जति बुज्झति० ।

१. पडिहा° पुर विना ॥ २. अजोगत्तं मु० ॥ ३. अजोगत्तं जे० । अजोगत्तां पुर । अजोगत्तं मु० ॥ ४. °त्ता ईसिं ह° मु० ॥ ५. विप्पहयण्णाहिं विप्पहयति, विप्पहयत्ता जे० ॥ ६. °ज्जति तथ सिद्धो भवति । २१७६. ते णं मु० ॥

[सुत्तं २१७६. सिद्धसरूवपरूवणं]

२१७६. ते णं तत्थ सिद्धा भवंति, असरीरा जीवघणा दंसण-णाणोवउत्ता
 णिड्डियद्दा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागतद्धं कालं चिद्धंति । से
 ५ क्रेणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चति ते णं तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसण-णाणो-
 वउत्ता णिड्डियद्दा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासतमणागतद्धं कालं चिद्धंति ?
 गोयमा ! से जहाणामए वीयाणं अग्गिदड्डाणं पुणरवि अंकुरुप्पत्ती न हवइ एवमेव
 सिद्धाण वि कम्मवीएसु दड्डेसु पुणरवि जम्मुप्पत्ती न हवति, सेतेणट्टेणं गोयमा !
 एवं बुच्चति ते णं तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसण-णाणोवउत्ता
 १० निड्डियद्दा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागतद्धं कालं चिद्धंति ति ।

णिच्छिणसव्वदुक्खा जाति-जरा-मरण-बंधणविमुक्खा ।

सासयमव्वावाहं चिद्धंति सुही सुहं पत्ता ॥ २३१ ॥

॥ पणवणाए भगवतीए छत्तीसइमं समुग्घायपदं समत्तं ॥

॥ पणवणा समत्ता ॥

अनुष्टुप्लंदसा ग्रन्थाग्रम् ७८८७ ॥ छ ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥ छ ॥



सुद्धिपत्रयं

पत्तस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
८	शीर्षके	पणवण्णासुत्ते	पणवण्णासुत्ते
१२	१२	°पणवण	°पणवणा
१३	१	वदिय°	वेंदिय°
१७	१०	पूईकरंज	पूई करंज
१८	९	आडई	अट्टई
,,	२५	अट्टइ जे० ध०॥	आडई जे० ध० विना ॥
१९	२७	°छिराली	°छीराली
२२	१	जारू	जौरू
,,	२५	जीरू	जीर
२४	२६	णिहुया	णिहु या
३६	२७	°वा°	°व°
३७	९	वच्छ	वेंच्छ
४६	४	पुढविस्सु	पुढवीस्सु
४८	२६	°मागे	°भागे
५०	२८	काओय°	काओय°
५५	२७	मज्झिम	मज्झिमे
५७	२	दसदि°	दस दि°
,,	१८	°रक्खिया-	°रक्खिया
५८	२२	°इसी°	°इसी°
५९	४	°भरणा-	°भरणा
६५	१५	दिब्बइं	दिब्बाइं
,,	२५	पुर मु० विना	पुर विना
७७	२८	ईसीपभारा	ईसिपब्भारा
७८	३	तणुयरी	तणुयरी
,,	२१	चाइत्ता	चइत्ता
७९	२८	°दिट्ठीहि	°दिट्ठीहि
९१	१८	कतर	कतरे
९८	५	एकारसमं	एकारसमं
१११	६	°तउकाइया	°तेउकाइया
११५	२१	दसवास°	दस वास°
११६	१४	अपजत्तियाणं	अपजत्तियाणं
१२६	८	जहण्णेण	जहण्णेणं
१३१	१५	महासुक्क	महासुक्के
१३७	१०	छट्ठाण वडिए	छट्ठाणवडिए

पत्तस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
१४०	शीर्षके	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहिं
„	१३	नरइए	नेरइए
१४३	१२	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहिं
१४४	२५	„	„
१४६	१३	„	„
१४८	८	°पज्जवेहि य	°पज्जवेहिं [ओहिदंसणपज्जवेहि] य
„	१६	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहिं
„	२८	°पज्जवेहिं ओहिदंसण- पज्जवेहि य छ° मु०॥	°पज्जवेहि य छ° सर्वासु प्रतिषु ॥
१४९	शीर्षके	९३]	४९३]
१५०	९	चउट्टाणवडिते	चउ(ति)ट्टाणवडिते
„	१३	णवरं सट्टाणे	णवरं [ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए,] सट्टाणे
„	१५	तिट्टाणवडिए	ति(चउ)ट्टाणवडिए
„	२७	१. °ए तिट्टाण° मु०॥ २. णवरं ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए सट्टाणे मु०॥	१. °ए चउट्टाण° सर्वासु प्रतिषु ॥ २. णवरं सट्टाणे सर्वासु प्रतिषु ॥
१५१	१	ओगाहणाइसु	ओगाहणाईहिं
१६३	२४	हा०	ह०
१६९	६	उववज्जंति	उववज्जंति
„	२८	द्वितीया टिप्पणी निष्कासनीया	
१७७	२७	प्र० मु०॥	प्र०।°रा तेहितो भाणियव्वा मु०॥
१८१	८	वुञ्जंति	वुञ्जंति
१९१	९	तेविहा	तिविहा
१९८	७	अचरिम	अचरिमे
१९९	२७	नोत्पद्यन्ते	नोपपद्यन्ते
२०५	२६	पु ३॥	पु ३ ह० ॥
२१०	२६	अहमेसावु यामि	अहमेसा वुयामि
२१२	३	भंते मणुस्से !	भंते ! मणुस्से
२१७	२९	मधुर°	मधुर°
२१९	१७	°यामेद	°यामेदे
२२३	२४	अभेव°	अभव°
२२६	शीर्षके	सररिपए	सरीरपए
२२८	१०	जहा ओहिया	जहा ओहिया
„	२०	१. °या । आहा°	१, °हा ओरालिया । आहा°
२३१	१५	तिरियग°	तिरियग°
२३९	शीर्षके	२३	२३९

पत्तस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीयं
२४०	शीर्षिके	पढसुद्देसे	पढमुद्देसे
२५०	१२	०उवओगप्पा०	०उवओगद्धप्पा०
„	१७	उवओगद्ध	उवओगद्धा
२५४	१०	गोयामा	गोयमा
२५६	१८	०दिया ? गो०	०दिया अतीया ? गो०
२६०	९	असंखज्जा	असंखेज्जा
२६४	१२	अहवगे	अहवेगे
२६७	२१	०प्पओगिणा	०प्पओगिणो
२७१	२६	सीद्ध०	सिद्ध०
२७२	२०	आयरिय	आयरियं
„	२७	समगं पट्टिया ३	विसमं पट्टिया ३
„	२८	विसमं	समगं
२७३	६	उव्वहिया	उव्वहिया
२७६	२६	म० पुर प्रत्योरेवो०	म० पुर मु० प्रतिव्वेवो०
„	२७	०मु ॥	मु०, एतत्पाठानुसारिणी मलयवृत्तिः ॥
२८५	१	तेउल्लेस्साण	तेउल्लेस्साणं
२९०	२८	इत्तरिय	इत्तरिय०
२९४	३	◁	◁
२९५	२०	०तुब्बी०	०तुब्बी०
„	„	घोसाडिए	घोसाडिए
२९७	८	अणोवमाइ	अणोवमा इ
„	२५	उवमाइ	उवमा इ
३०२	२२	मालावगा	आलावगा
„	२५	मणूसे	मणूसे
३०८	११	उसप्पिणि०	उस्सप्पिणि०
३१२	शीर्षिके	अट्टार०	अट्टार०
३२४	२९	उववज्जेज्जा	[उववज्जइ]
३३०	„	०संठाणए	०संठाणपए
३३४	२०	१५०२	१५०७[१]
३३५	१२	धणू०	धैणू०
३३७	१५	अपजत्तग०	अपजत्तग०
३३८	शीर्षिके	०पए ।	०पए
„	४	०वेउव्वियरीरे	०वेउव्वियसरीरे
३५०	२६	देप	पदे
३५४	२९	प्रतिव्वेवो०	प्रतिव्वेवो०
३६०	३	०वंधिए	०वंधए
„	८	अट्टविहंव०	अट्टविहवं०

पत्तस्स	पंतीण	असुद्धं	सोहणीयं
३६३	शीर्षिके	°राध्यन°	°राध्ययन°
३६४	२५	णियम	णियमा
३६५	३	वद्ध-फास-पुट्टस्स	वद्धफासपुट्टस्स
३७१	५	भंते	भंते
३७३	९	आवाहा	अवाहा
३७७	११	गो	एगो
३८१	५	एवं-ति°	एवं ति°
३८४	१३	°सकिलिट्टु°	°संकिलिट्टु°
३८६	१७	‘ताव होज्जा’ इत्येतत्पाठानन्तरं ‘सत्तविह्वंधगा य’ इत्येतत्पाठाच्च पूर्व- मस्मदनवधानतो गलितः सूत्रपाठ एवमनुसन्धातव्यः—“सत्तविह्वंधगा य अट्टविह्वंधगा य एगविह्वंधगा य १ अहवा” ।	
”	१८	१	२
”	”	२	३
३९०	२१	१ अहवा	१ [जाव] अहवा
”	२२	अबंधए य,	अबंधए य [२०],
”	२६	भागियाव्वं	भागियव्वं
४४२	१	असंखेज्जतिभागं	संखेज्जतिभागं
”	८	”	”
”	२६	°स्स संखेज्ज° ध० म० प्र०॥	°स्स असंखेज्ज° ध० म० प्र० चिना ॥
४४३	२८	१. महासक्खे इति मलय- वृत्तिनिर्दिष्टः पाठभेदः	१. महसक्खे महासक्खे इति च मलयवृत्तिनिर्दिष्टौ पाठभेदौ